

$\frac{16}{10} + \frac{7}{10} = 169$



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1275/2010

सं. 53]
No. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2010/माघ 30, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2010/MAGHA 30, 1931

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2010

फा. सं. 10-7/2009-बी.सी.आई.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अतर्विष्ट होंगे जो मान्यता-प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु-चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर 2009 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए. अकबर अली, पुत्र श्री अब्दुल खादिर	टीएनएसवीसी /4099/08	1/10-ए, डेविड कॉलोनी, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	11.2.57
2	ए. अमल राज, पुत्र श्री अदईकलासामी	टीएनएसवीसी /4372/08	ईई- 83, 10वीं मेन रोड, 7वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर, मद्रास	बीवीएससी/ मद्रासविवि/ 66	25.5.42
3	ए. अनिल कुमार, पुत्र श्री ए. वेंकन्ना	एपीएसवीसी/ 4773/08	म.न. 2-2-67, मेन रोड के निकट, संधुभवी बाजार, नालगोंडा जिला, सूर्यापेट, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएचएसवीवीयू /08	16.1.84
4	ए. अरुण राम कुमार, पुत्र श्री जी. अंगामुथु	टीएनएसवीसी /4366/08	पेरूमल कोविल थोट्टम, मूगिलपट्टी, किलवानी वाया, अटानी, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच /टीएएन यूवीएस/08	22.7.85
5	ए. भारत रेड्डी, पुत्र श्री ए. भीक्षम रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4751/08	पंगावनीकुट्टा (ग्राम), हलिया (एम), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवी वीयू/08	15.5.84
6	ए. चिदम्बरम, पुत्र श्री पी.एम. अवुदई	टीएनएसवीसी /4088/08	9/172, सिंगाराथोप्पु, रामनाथपुरम- 623501, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/70	28.5.46
7	ए. दिनेश, पुत्र श्री आर. आरुमुगम	टीएनएसवीसी /4342/08	अम्मानी मल्लपुरम डाक, पलकोडे तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएस/08	16.12.84
8	ए. हरिकृष्ण पिल्लै, पुत्र श्री जी. अयप्पन पिल्लै	केरलएसवीसी /3403/09	लक्ष्मी सदानम, वीआईपी लेन, रेलवे स्टेशन के निकट, अंगामली (डाक), अर्नाकुलम- 683572	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	2.5.84
9	ए. अजय पाल राजा, पुत्र श्री सी. अरुमुगासामी	टीएनएसवीसी /4095/08	80/3, ईस्ट स्ट्रीट, सेरंदामराम डाक, तिरुनेलवेली - 627859, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएस /97	7.5.74
10	ए. झांसी रानी, पुत्री श्री ए. गुरुवा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4731/08	अनजीपुर (ग्राम एवं डाक), गजवेल (एम), मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/ एसवी वीयू/08	29.9.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
11	ए. जॉन रोस, पुत्र श्री अरूथल नयागम	टीएनएसवीसी /4142/08	40, एल.के.एस. नगर, महाराजा नगर, डाक- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/77	19.9.50
12	ए. कन्नन, पुत्र श्री जी. अलगारसामी	टीएनएसवीसी /4100/08	अलामराथुपट्टी, थिरूटंगल ग्राम, विरूधुनगर, जिला- 626130, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस /96	7.6.73
13	ए. कार्थिकेयन, पुत्र श्री एस. अरुचामी	टीएनएसवीसी /4180/08	4/151, इंदिरा नगर, वदासिथूर डाक, पोल्लाची, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच / टीएन यूवीएएस / 08	21.7.84
14	ए. क्रांति किरन, पुत्र श्री राधा कृष्ण मूर्ति	एपीएसवीसी / 4714/08	जे. पंगुलूर (ग्राम एवं डाक), प्रकासम जिला - 523261, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच / एसवी वीयू / 08	7.5.83
15	ए. लक्ष्मीकांथन, पुत्र श्री ए. अन्नामलई	पॉण्डीएसवीसी / 316/08	न. 3, भारती स्ट्रीट, सुबइयाह नगर, अरियानकुप्पम, पुडुचेरी- 9	बीवीएससी एवं एएच / पीयू /07	8.3.86
16	ए. मनो रंजीथम, पुत्र श्री डी. सुरेश	टीएनएसवीसी /4359/08	22/7-सी, अवईय्यर स्ट्रीट, पलानीयप्पा नगर, थिरुवन्नामलई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस /00	15.3.76
17	ए. मेरी निर्मला जोसेफाइन, पुत्र श्री आर. चंद्रसेखरन	टीएनएसवीसी /4405/09	17, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, एस. पी. कैलाश अपार्टमेंट, भारती नगर, रेसव्यू कॉलोनी एक्सटेंशन, गुइंडी, चेन्नई	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस /00	15.3.75
18	ए. मुथमारी, पुत्र श्री हरिकृष्णन	टीएनएसवीसी /4259/08	ईस्ट अलगुनाचियापुरम डाक, कुरुविकुलम वाया, संकरनकोइल तालुक- 627754, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच / टीएन यूवीएएस / 08	13.5.85
19	ए. पार्वती, पुत्र श्री पी. अप्पुसामी	टीएनएसवीसी /4194/08	पनानगट्टू थोट्टम, मुकासीपुडुर, डाक- भवानी, तालुक इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच / टीएन यूवीएएस / 08	7.5.84
20	ए. फणीन्द्र, पुत्र श्री ए. वीरा भद्र राव	एपीएसवीसी / 4795/08	डी.न. 20-25-12, रामाचंद्र राव पेटा, देवी चौक, राजामुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच / एसवीवी यू / 08	23.6.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
21	ए. पोंकलई वानी, पुत्र श्री एम. आरुमुगम	टीएनएसवीसी /4356/08	1/137, वेल्लीकुप्पम पलायम, सिरुमुगई, कोयम्बतूर - 641302, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	22.6.84
22	ए. प्रदीप, पुत्र श्री ए. अंबालगन	टीएनएसवीसी /4307/08	5 (पुराना नं 14), 8वी, स्ट्रीट, पेरियार नगर, इरुम्बुलियूर, तम्बारम, चेन्नई	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	22.8.85
23	ए. प्रकाश, पुत्र श्री अय्या पिल्लै	टीएनएसवीसी /4241/08	कुलामंगलम नार्थ डाक, अलानगुडी तालुक, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	16.7.84
24	ए. प्रकाश, पुत्र श्री सी. आरुमुगम	टीएनएसवीसी /4265/08	2/124, वयरामपलायम, करिचीपलायम डाक, पराथिवेलूर तालुक, नमक्कल - 637209, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	10.4.83
25	ए. प्रकाश, पुत्र श्री एम. अप्पादुरई	टीएनएसवीसी /4269/08	68/बी 4-1, नित्या नगर, दूसरा क्रॉस, कन्नन कुरिची, मेन रोड, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	6.7.84
26	ए. प्रथिपा, पुत्र श्री बी. आनंद राजन	टीएनएसवीसी /4169/08	7/2, रोहिणी स्ट्रीट, राजाजी नगर, विल्लीवक्कम, चेन्नई	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	28.4.86
27	ए. आर. रवि कुमार, पुत्र श्री ए. पी. रंगासामी	टीएनएसवीसी /4107/08	अट्टापमपट्टी, कोलनगुडी- डाक, मल्लासमुथिरम, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /98	28.3.75
28	ए. रहीमा, पुत्र श्री रजाक कपफार खान	टीएनएसवीसी /4138/08	21, सारा मंजिल, वेस्ट वेनूगोपाल पुरम, मंजाकुप्पम, कुडालूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/पीयू/0 8	13.7.86
29	ए. राजेश कुमार, पुत्र श्री टी. असोकन	टीएनएसवीसी /4354/08	4/53, धर्मापुरी मेन रोड, अरसमपट्टी डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	2.3.85
30	ए.एस. विजय लक्ष्मी, पत्नी श्री एस. सुरेश कन्नन	टीएनएसवीसी /4101/08	23, बाम नगर, बालामुरुगन मंदिर के सामने, थपल थांटी नगर, उत्तरी एक्सटेंशन, मदुरई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /97	27.4.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
31	ए. शर्मिला देवी, पुत्र श्री एम. अलगू	टीएनएसवीसी /4266/08	1/351-ए, 10वीं स्ट्रीट, टी. पुदुर सिवांगई- 630562, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	19.3.85
32	ए. सोबना, पुत्र श्री के. अंबाजगान	टीएनएसवीसी /4303/08	बी नदूर, बी थुरुंजीपट्टी, डाक- पप्पीरेडिडयापट्टी तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	18.5.83
33	ए. सुधाकर, पुत्र श्री वी. अनंत सयानम	टीएनएसवीसी /4105/08	विनयगर कोइल स्ट्रीट, पुडुकुप्पम, उपुवेल्तोर, डाक- वनूर तालुक, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/पीयू/ 01	26.4.79
34	ए. सुप्रिया, पुत्री श्री ए. आसीरवादम	एपीएसवीसी/ 4800/08	डी.नं. 3-226, संजय गांधी नगर, काथेरु, राजमुंदरी, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	18.2.81
35	ए. सुरेश नायक, पुत्र श्री ए. टीक्या नायक	एपीएसवीसी/ 4780/08	म.न. 30-126, पेट्रोल बंक के निकट, इडुलागुडा, मिरयलगुडा, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	2.2.82
36	ए.वी. बकिया लक्ष्मी, पुत्र श्री ए. वेंकटचलम	टीएनएसवीसी /4153/08	23, गौंडापलायम, पुलियार, डाक- करूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	10.3.86
37	ए. वीरांडथिरन, पुत्र श्री ई. अरंगनाथन	टीएनएसवीसी /4202/08	कीजा स्ट्रीट, कराडिकुलम, डाक-उदयारपलायम तालुक, जयनकोंडम, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	29.6.84
38	ए. वेनू, पुत्र श्री ए. अगड्य्याह	एपीएसवीसी/ 4770/08	म.न. 25-8-650, डीज़िल कॉलोनी, काजीपेट, वारंगल- 5069003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	30.5.81
39	ए. युवराज, पुत्र श्री पी. अरुमुगम	टीएनएसवीसी /4345/08	14/32, कुनसेट्टिकुलम स्ट्रीट, एस.वी. रोड, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	13.9.83
40	आमोद कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बीवीसी/2928 /08	ग्राम एवं डाक- बड़ी धमियारी, थाणे- धरथरी, सब डिवीजन-हिलसा, जिला- नालंदा- 801307, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/केवीए डएफएस/07	1.3.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
41	अब्दुल अली अंसारी, पुत्र श्री अब्दुल वदूद	यूपीएसवीसी / 4766 / 08	टाकिया निदा शान, डाक- दोस्तपुर, जिला- सुल्तानपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	8.6.82
42	अब्दुल फिरोज पी. ए., पुत्र श्री अब्दुल खादर	केरलएसवीसी / 3478 / 09	पुथियावीट्टिल हाउस, डाक- तालिकुलम, थिसूर, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू / 09	8.4.85
43	अब्दुल मोबिन, पुत्र श्री अब्दुल वहीद	बीवीसी / 2919 / 08	ग्राम एवं डाक- मोर्डवी, थाना- बुधा कॉलोनी, सब- डिवीजन पटना सदर- 800001, बिहार	बीवीएससी एवं एच / केवीएए डएफएस / 07	12.2.84
44	अभय कुमार, पुत्र श्री गोपाल प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2786 / 06	ग्राम- बरैनी, डाक- नेकपुर, थाना- नीमचाक, बठानी, सब-डिवीजन नीमचाक, बठान, जिला- गया, बिहार	बीवीएससी एवं एच / डब्ल्यूबी यूएफएसयू / 06	1.3.78
45	अभय कुमार, पुत्र श्री गनपति मंडल	जेवीसी / 434 / 08	हरानगंज, कॉलेज मोड़, हजारीबाग- 825301, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू / 08	01.02.84
46	अभय प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री भुवनेश्वर प्र. सिंह	जेवीसी / 199 / 08	मेन रोड, लाटेहर- पिन- 829206, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू / 82	16.1.57
47	अभिनव, पुत्र श्री सोमनाथ टोप्पो	जेवीसी / 217 / 08	टाला (डुम्बर टोली), चान्हो, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू / 04	10.11.80
48	अभिषेक आनंद, पुत्र श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2935 / 08	ग्राम एवं डाक- नोहर, थाणे- सूर्यपुरा, सब-डिवीजन-बिक्रम गंज, जिला- रोहतास, बिहार	बीवीएससी एवं एच / एमएएंड एफएसयू / 06	27.1.83
49	अभिषेक गौरव, पुत्र डॉ. अखिलेश कुमार	यूवीसी / 385 / 08	1 / 133, फूल बाग, पंत नगर, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एच / जीबीपी यूएएडटी / 08	1.1.85
50	अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री पी.एम. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 4814 / 08	म.न. 633, बेगम गंज, मकबरा, फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच / एनडीयू एटी / 08	20.8.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
51	अभिषेक कुमार मिश्रा, पुत्र श्री पी. एन. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 4864 / 08	ग्राम एवं डाक— बैठवालिया, जिला— महाराजगंज, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	8.2.82
52	अभिषेक कुमार, पुत्र श्री त्रिलोकी शर्मा	बीवीसी / 2738 / 06	ग्राम— हीरापुर, डाक— गुरथानवा, थाना—कुंडवा चेन, सब—डिवीज़न— सिकराना, जिला— पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 05	3.2.82
53	अभिषेक कुमार, पुत्र श्री देवी दयाल मंडल	जेवीसी / 372 / 08	सहायक प्रोफे. मेडिसिन, आरवीसी, कनक, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 99	15.06.77
54	अभिषेक मिश्रा, पुत्र श्री गणेश मिश्रा	सीजीएसवीसी / 383 / 08	नयागंज, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 06— 07	29.7.83
55	अभिषेक ठाकुर, पुत्र श्री जीत सिंह ठाकुर	एचपीएसवीसी / 847 / 08	ग्राम— हर न्यूगल कैफे टर्निंग चौक डाक, बुंदला टी एस्टेट, थाना— पालमपुर, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.— 176061	बीवीएससी एवं एएच / सीएस केवीवी / 08	12.3.82
56	अच्छे लाल सिंह, पुत्र श्री राम सुंदर सिंह	सीजीएसवीसी / 424 / 08	ग्राम एवं डाक— जनेत, थाना— टोघर, जिला— सीवा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 86.87	3.10.62
57	अच्युतानंद दास मोहपात्रा, पुत्र श्री ए. दास मोहपात्रा	उड़ीसाएसवीसी / 2239 / 08	एटी: धरास्तक नयाबाजार, डाक— जालेश्वर, जिला— बालासौर— 756032, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूए डटी / 08	24.5.83
58	आदर्श डी.बी. पुत्र श्री बासव राजप्पा डी.जे.	कर्नाएसवीसी / 4126 / 08	मेल्लेकट्टे डाक— 577512, दावणगेरे तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीए फएसयू / 08	30.7.85
59	अदगले अशोक अर्जुन	महाएसवीसी / 7832 / 07	ए / पी— पोहनेर, तालुक / जिला— उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	2.6.83
60	आदित्य कुमार, पुत्र श्री अरविंद कुमार सिंह	बीवीसी / 2828 / 07	ग्राम एवं डाक— बेनीपुर, थाना— बेनीपुर, सबडिवीज़न— बेनीपुर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एसकेयू एसएएंडटी / 06	1.3.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
61	आदित्य प्रसाद साहू, पुत्र श्री अंतार्यानी साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2257 / 08	प्लॉट नं.— एन. 6 / 327, जयदेव बिहार, बीबीएसआर— 15, उड़ीसा	बीबीएससी एवं एच / ओयू एंडटी / 05	17.7.81
62	अदसूल अभिषेक पुरुषोत्तम	महाएसवीसी / 7777 / 07	एफ—19—01, सर्वोदय सोसायटी, सेक्टर—48, नेरूल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	बीबीएससी एवं एच / एफए एफएसयू / 05	13.6.81
63	आफताब आदिल, पुत्र स्व. मौह. अलीहुदीन	जेवीसी / 571 / 09	सेमार टोली (आदिनाबाद), कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीबीएससी एवं एच / बीएयू / 01	19.11.74
64	आघव धनंजय विक्रम	महाएसवीसी / 7827 / 07	144, एटी— नंदगांव, डाक— शिंगावे, जिला— अहमद नगर— 414103, महाराष्ट्र	बीबीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 07	30.7.85
65	अग्लोडिया खादिम हुसैन हबीब भाई	गुजएसवीसी / 2944 / 08	एटी—बारोदिया कम्पा, डाक— मथसूर, तालुक— इदार, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीबीएससी एवं एच / एसडीए यू / 08	16.4.85
66	अग्लोडिया राशिद भाई अहमद भाई	गुजएसवीसी / 2945 / 08	एटी— नागेल, डाक— मोरिया, तालुक— दांता, जिला— बी.के., गुजरात	बीबीएससी एवं एच / एसडीए यू / 08	1.6.82
67	अग्रेश सिंह यादव, पुत्र श्री आर.एस. यादव	यूपीएसवीसी / 4773 / 08	ग्राम— धारावान, डाक— जेवाल, जिला— गाजीपुर, उ.प्र.	बीबीएससी एवं एच / एनडीयू एटी / 08	13.9.73
68	आहेर अमोल शरद	महाएसवीसी / 8052 / 08	'शीतल बंगलो', सागर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, पुणे नासिक रोड, संगमनेर, जिला अहमद नगर— 422605	बीबीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	29.11.85
69	आहेर वैभव विश्वास राव	महाएसवीसी / 8071 / 08	हनुमान नगर, मालेगांव रोड, मन्डूड, महाराष्ट्र तालुक नंदगांव, जिला नासिक— 423104	बीबीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	18.09.84
70	अहीरे गिरीश शेषराव	महाएसवीसी / 7826 / 07	ए / पी— पटने, तालुक— मालेगांव, जिला— नासिक— 423203, महाराष्ट्र	बीबीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 07	7.7.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
71	अहमद शामे उददीन, पुत्र श्री शेख खादिम अली	एएसएम/237 1/08	हतसिंगीमारी, डाक- हतसिंगीमारी, जिला- धुबरी- 783135, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 06	1.3.80
72	अहमद महिउददीन, पुत्र श्री रियाजुददीन अहमद	एएसएम/240 2/08	ग्राम एवं डाक- मिर्जा, जिला- कामरूप, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	23.4.81
73	ऐश्वर्या आर. नायर, पुत्री श्री बी. चंद्रशेखरन नायर	केरलएसवीसी /3473/09	"ऐश्वर्या" वेल्लूरकोनम, अटिंगल डाक, थिरुवनंतनुरम -695101, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	7.5.84
74	अजय लॉरेस डी सिल्वा, पुत्र श्री जूडी डी सिल्वा	केरलएसवीसी /3427/09	वलियाकदटथ हाउस, रिपोन डाक, मेपाडी (वाया), केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	5.9.84
75	अजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री मदन मोहन गोलिया	राजएसवीसी/ 3508/08	ग्राम एवं डाक- सीकरी, दौसा- 303508, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /08	16.7.82
76	अजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता	जेवीसी/405 /08	टूरिंग वेटेरिनरी अधिकारी, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/एएनजी आरएयू/04	06.08.77
77	अजय कुमार निरंजन, पुत्र श्री वासुदेव सिंह	यूपीएसवीसी/ 4798/08	ग्राम एवं डाक- बीरपुर, जिला- जालौन, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/यूपीपी डी डीयूपीसी वीवी/08	1.7.82
78	अजय कुमार पटेल, पुत्र श्री फागुनी पटेल	सीजीएसवीसी /359/08	ग्राम एवं डाक- रीडा, वाया- चंद्रपुर, जिला- जहानगीर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/06- 07	1.7.80
79	अजय कुमार पटेल, पुत्र श्री राम सूरत पटेल	यूपीएसवीसी/ 4774/08	ग्राम- सिसवाबाबू, डाक- सावराजी, जिला- महाराजगंज, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एनडीयू एटी/08	5.4.79
80	अजय कुमार, पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद सिंह	जेवीसी/230 /08	टी.वी.ओ. बरकागांव, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 92	01.09.65

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
81	अजय कुमार, पुत्र श्री मेहताब सिंह	यूपीएसवीसी / 4886 / 09	नई बस्ती, मोदी चौराहा, गुरसराय, झांसी, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	5.7.85
82	अजय कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह	बीवीसी / 2795 / 06	ग्राम- बेरबीघी, डाक- हुसैना, थाना- बलिया, सब- डिवीज़न - बलिया, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / डब्ल्यूबी यूएफएसयू / 06	7.1.81
83	अजय कुमार, पुत्र श्री बृज पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 4746 / 08	ग्राम- मोंगार, जिला-बदायूँ, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएंडटी / 08	17.11.81
84	अजय कुमार सिंह, पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह	बीवीसी / 2745 / 06	ग्राम- अनंतपुर, डाक- रूपपुर, थाना व सब-डिवी. मोहोनिया, जिला-कैमूर- 821109, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 06	1.1.79
85	अजय कुमार यादव, पुत्र श्री राम कैलाश प्रसाद यादव	जेवीसी / 367 / 08	ग्राम- मकारी, भावनाथपुर, नागरुतारी गढ़वा, पिन- 822112, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 88	10.09.64
86	अजय प्रताप सिंह, पुत्र श्री जय राम सिंह	यूपीएसवीसी / 4840 / 08	ग्राम- आदर्श नगर, डाक सागरपाली पुलिस स्टेशन, जिला- बलिया, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 07	6.1.81
87	अजय शंकर सिंह, पुत्र स्व. श्री कात्यायनी शंकर सिंह	जेवीसी / 566 / 09	तालुक, ग्राम एवं डाक तातीसिलवई, नामकुम, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 83	02.01.57
88	अजीश मैथ्यू, पुत्र श्री के.एम. मैथ्यू	केरलएसवीसी / 3435 / 09	कलायाथीनल हाउस, इदामरुक्कु डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	2.10.82
89	अजीत कुमार, पुत्र श्री भगवत प्रसाद	जेवीसी / 404 / 08	टूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, बाड़ी- कोडरजना, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससी / टी एएनयूवीएएस / 03	01.03.78
90	अजीत कुमार, पुत्र श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिंह	यूवीसी / 384 / 08	वेटरिनरी अधिकारी, वेटरिनरी अस्पताल, श्रीकोट, उत्तकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएंडटी / 08	3.7.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
91	अजीत कुमार शर्मा, पुत्र श्री नूनूमणि शर्मा	बीवीसी / 2905 / 07	ग्राम एवं डाक— परिया, थाना —सोनबरसा राज, सब— डिवीजन— सिमरी बरियंतपुर, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससी एवं एच/आईजी केवीवी / 06	3.6.80
92	अजीत कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री सदा शिव प्रसाद	जेवीसी / 359 / 08	यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पशु आहार विभाग, आरवीसी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू / 74	17.08.50
93	अजीत कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बीवीसी / 2873 / 07	ग्राम— दोसुथ, डाक— दोसुथ, थाना— बीना, सब—डिवीजन बिहार शरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एच/आरएयू / 07	1.3.80
94	अजीत कुमार, पुत्र श्री सरयुग प्रसाद चौधरी	बीवीसी / 2896 / 07	ग्राम एवं डाक— प्रतापगंज, थाना— प्रतापगंज, जिला— सुपौल— 852125, बिहार	बीवीएससी एवं एच/ओयूएए डटी / 07	26.1.81
95	अजीत शरन, पुत्र श्री किसमोरी रमन शरन	जेवीसी / 547 / 09	तालुक, ग्राम एवं डाक बरमो, तेनुघाट, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 96	20.07.69
96	अजीथ एम., पुत्र श्री एम. कमलुद्दीन	केरलएसवीसी / 3428 / 09	फिरदौस, विकास नगर, पट्टाथनम डाक, पोलायाथोडु, कोल्लम, केरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	24.2.84
97	अजमेर सिंह, पुत्र श्री किताब सिंह	हरिएसवीसी / 2020	# 85 / 9, शास्त्री नगर, लाधोल रोड, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससी एवं एच/सीसीए सएचएयू / 03	16.12.79
98	आकाश महेश्वरी, पुत्र श्री बी.एस. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4734 / 08	8 / 172, भारीगोन बाजार, बेलनगंज, आगरा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/आरएयू / 07	19.4.81
99	अखलेश कुमार, पुत्र श्री खुशी राम सिंह	यूपीएसवीसी / 4892 / 09	ग्राम— मेवाजेट डाक, मेवानावाड़ा जिला, बिजनौर, उ. प्र.	बीवीएससी एवं एच/जीबीपी यूएण्डटी / 08	8.5.79
100	अखिलेश कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री राज किशोर त्रिपाठी	बीवीसी / 2824 / 06	ग्राम— वार्ड न. 12, डाक + थाना— भभुआ, सब—डिवीजन— भभुआ, जिला— कैमूर, बिहार	बीवीएससी एवं एच/जेएनयू / 06	1.3.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
101	अखिलेश कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री राज किशोर त्रिपाठी	यूवीसी / 411 / 08	वेट अधिकारी (ठेका), वेट हॉस्पिटल, चलथी, जिला चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 06	1.3.77
102	अखिलेश कुमार, पुत्र श्रीमुख देव सिंह	जेवीसी / 038 / 08	ब्लॉक पशु पालन अधिकारी, सोनाहाटू, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 96	14.11.72
103	अखिलेश मिश्रा, पुत्र श्री वीरेंद्र मिश्रा	एमपीएसवीसी / 2593 / 09	ग्राम एवं डाक— डकाहारा, वाया— चाक, जिला— रीवा, म. प्र.— 456226	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	1.8.80
104	अखिलेश सागर, पुत्र श्री हरसुख लाल सागर	यूपीएसवीसी / 4757 / 08	सिंह कॉलोनी, बालसापुर, रामपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	15.6.82
105	अखिलेश सिंह खुशवाहा, पुत्र श्री शोभाराम खुशवाहा	एमपीएसवीसी / 2537 / 08	भरोली रोड, सीता नगर (ए—ब्लॉक), बी.टी.आई. तिराहा, जिला— भिंड— 477001, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	7.7.83
106	अखिलेश्वर मुर्मु, पुत्र श्री मदन मुर्मु	जेवीसी / 444 / 08	मुर्गाडीह, पात्रोडीह, नारायणपुर, जमतारा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 08	04.05.82
107	अक्षत एस. अंगाडी, पुत्री श्री सिदम्पा एस. अंगाडी	कर्नाएसवीसी / 4201 / 08	केंजूर— 587201, बदामी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीएफएसयू / 08	4.2.86
108	अक्षय त्यागी, पुत्र श्री सी.डी. त्यागी	यूपीएसवीसी / 4828 / 08	ग्राम— बदरुददीन नगर, सरधाना जिला— मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 08	16.12.84
109	अक्षय प्रकाश, पुत्र श्री केशव प्रसाद	बीवीसी / 2926 / 08	ग्राम बिरनावा, डाक— दोसुत, थाना चंडी, सब—डिवीजन— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / सीएसके एचपीकेवीवी / 07	30.1.78
110	एलेक्सी आर.यू., पुत्र श्री जी. रवींद्रन	केरलएसवीसी / 3378 / 08	प्रसांत कांचीयूरकोनम, कट्टाकडा डाक, थिरुवनंतपुरम — 695013, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	5.5.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
111	एल्फ्रेड मिंज, पुत्र स्व. श्री विक्टर मिंज	जेवीसी / 563 / 09	सामटोली, गोतरा (सिमडेगा), सिमडेगा- 835223, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 93	16.08.66
112	अली टी.ए., पुत्र श्री टी.के. अब्दू	केरलएसवीसी / 3313 / 08	थनाथुपराम्बिल डाक, मदावना इरियाड (वाया), कोडुंगालूर, थिसूर- 680666, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू/ 08	20.6.60
113	अलीशा, पुत्री श्री सुरेश चंदर	हरिएसवीसी / 2050	6 / 4, पुराना कैम्पस, सीसीएस एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससी एवं एच / सीसीए सएचएयू / 08	17.12.84
114	अलका, पत्नी श्री विकास गलव	राजएसवीसी / 3511 / 08	म.न. बी-44, न्यू जवाहर नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 03	26.8.77
115	आलोक भारती, पुत्र डॉ. अवधेश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 446 / 09	परमेश्वर कॉलोनी, मारुति मोटर वर्ल्ड, कापली, मांगो दालभूम, पूर्वी सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 08	05.07.82
116	आलोक कुमार पांडे, पुत्र श्री ब्रज किशोर पांडे	जेवीसी / 458 / 09	2, सी, सरस्वती अपार्टमेंट, मथुरा विहार, कनके रोड, गोंडा, रांची- 834008, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 86	30.01.63
117	आलोक कुमार, पुत्र श्री राम दयाल सिंह	जेवीसी / 492 / 09	निचली टर्न, घनघरी, हंटरगंज, चतरा, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 94	11.09.69
118	आलोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री सच्चिदानंद सिंह	जेवीसी / 473 / 09	जगदीश एन्कलेव, बी-223, देवी मंडप, रातू रोड, हेहल, रांची- 834005, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 96	03.01.70
119	आलोक कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सुरेश चंद्र प्रसाद	जेवीसी / 386 / 08	तालुक, ग्राम एवं डाक महुदा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 89	03.01.66
120	अमनदीप कौर गिल, पुत्री श्री हरजेत सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 2797 / 08	1321 / 603, शेरपुर कलां फोल पॉइंट डाक, लुधियाना, रोहतक	बीवीएससी एवं एच / जीएडी वीएसएयू / 08	25.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
121	अमनदीप, पुत्र श्री ओमवीर सिंह	हरिएसवीसी / 2028	# 743, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	23.2.86
122	अमनदीप सिंह, पुत्र श्री गुरबक्श सिंह	पीबीएसवीसी / 2847 / 08	ग्राम एवं डाक- फतेहगढ़, पंजतूर, जिला- मोगा, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	25.11.81
123	अमनदीप सिंह, पुत्र श्री गुरजंत सिंह	पीबीएसवीसी / 2836 / 08	ग्राम एवं डाक- बछोना, थाना- बुधलादा, जिला मनसा, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएएसयू / 08	16.6.83
124	अमनप्रीत सिंह बसरा, पुत्र श्री जीत सिंह बसरा	पीबीएसवीसी / 2820 / 08	26, बीआरएस नगर, लुधियाना	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएएसयू / 08	19.3.78
125	अमर दीपक इग्गा, पुत्र श्री अम्ब्रोजियस टिग्गा	जेवीसी / 307 / 08	पुत्र श्री अम्ब्रोजियस टिग्गा, मौहल्ला- ब्राम्बे, डाक- मंडेर, जिला- रांची- 835214, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 03	30.12.77
126	अमरदीप सिंह, पुत्र डॉ. भंवर सिंह	यूवीसी / 358 / 08	109, इंदिरा नगर, कॉलोनी न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 92	17.7.66
127	अमरदीप सिंह, पुत्र श्री भगवान प्रसाद सिंह	जेवीसी / 489 / 09	नरही दियारा, गंगा प्रसाद, साहिबगंज- 816109, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 98	05.12.74
128	अमरेंद्र कुमार, पुत्र श्री चंद्र शेखर दत्त	जेवीसी / 271 / 08	द्वारा श्री चंद्रशेखर दत्त, झुमरी तलैया, वार्ड न.1, साई इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, झुमरी तलैया, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 96	03.07.70
129	अमरजीत सिंह, पुत्र श्री मनोहर सिंह	पीबीएसवीसी / 2834 / 08	ग्राम- चोक सोहना संदेर, डाक लामोचेर कलां, थाना- जलालाबाद (वेस्ट), जिला पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएएसयू / 08	15.3.83
130	अम्बटकर शाश्वती कृष्णा	महाएसवीसी / 7757 / 07	राधाकृष्ण अपार्टमेंट, बी-24, चिंतामन नगर, वर्धा रोड, नागपुर- 25, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	6.6.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
131	अम्बिका काओ, पुत्री श्री अशोक कुमार काओ	पीबीएसवीसी / 2839 / 08	कमरा नं. 21, होस्टल नं.-5, जीएडीवीएसयू (पीएयू) कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएसयू / 08	23.1.85
132	अम्बिका वी., पुत्री श्री थम्पूरन के.एस.	केरलएसवीसी / 3392 / 09	भार्गवी नीलायम, कंडलूर नार्थ, पट्टोली मार्केट डाक, अलपुजाह, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	29.12.84
133	अम्बिली के., पुत्री श्री के. प्रभाकरन	केरलएसवीसी / 3353 / 08	कंचारनकंडी हाउस डाक, पप्पीनिसेरी वेस्ट, कन्नूर— 670565, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	18.1.83
134	अम्बोज कुमार महतो, पुत्र श्री भीखू महतो	जेवीसी / 517 / 09	टुंक्कु, पतराहट्टु, सिली, रांची— 835102, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 93	15.01.67
135	अम्बुज कुमार, पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	जेवीसी / 486 / 09	4डी / 5, कलिकानगर, एम.जी. एम. मेडिकल कॉलेज, मंगो, जमशेदपुर— 831018, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 97	31.01.74
136	अमित माथुर, पुत्र श्री जुगल किशोर माथुर	राजएसवीसी / 3471 / 08	1-बी-6, प्रताप नगर, जोधपुर— 342004, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	8.9.82
137	अमित अरोड़ा, पुत्र स्व. श्री गुरुदास मल	यूवीसी / 432 / 08	वेटरिनरी हॉस्पिटल, मंगलौर, जिला— हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 01	15.8.77
138	अमित भारद्वाज, पुत्र श्री यू.सी. दत्त	यूवीसी / 406 / 08	4 / 2, चाऊ मंडी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 08	21.7.84
139	अमित कवाडे, पुत्र श्री दीपक कुमार कवाडा	सीजीएसवीसी / 416 / 08	बी / 2, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ क्वार्टर्स-6, मिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 06.07	13.3.84
140	अमित कुमार दास, पुत्र श्री एस.एम. दास	सीजीएसवीसी / 445 / 09	5-201, अशोका रतन शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 07.08	20.4.82
141	अमित कुमार दास, पुत्र श्री सोभाश कु. दास	उड़ीसाएसवीसी / 2225 / 08	वार्ड नं.-8, देनलासाही, बारीपडा, मयूरभंज— 757001, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूएए डटी / 08	19.4.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
142	अमित कुमार गुप्ता, पुत्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता	जेवीसी / 325 / 08	द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, रामगढ़ ब्लॉक ऑफिस, रामगढ़ कैंट, हजारीबाग- 829122, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएण्डटी / 00	02.06.72
143	अमित कुमार झा, पुत्र श्री राज कुमार झा	जेवीसी / 436 / 08	बासुकी नाथ, जारमुंडी, दुमका, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 08	25.02.79
144	अमित कुमार रस्तोगी, पुत्र श्री एस.के. रस्तोगी	सीजीएसवीसी / 348 / 07	ए-1 / 29, सूर्या विहार, जामुई, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 91.92	18.5.68
145	अमित कुमार, पुत्र श्री अर्जुन सिंह	हरिएसवीसी / 2070	ग्राम एवं डाक- टांकरी, जिला- भिवानी, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	24.12.82
146	अमित कुमार, पुत्र श्री अरुण कुमार झा	बीवीसी / 2885 / 07	ग्राम एवं डाक- मरुकिया, थाना- खजौली, सब- डिवीजन- मधुबनी, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एएयू/ 07	2.1.84
147	अमित कुमार, पुत्र श्री ईश्वर सिंह	हरिएसवीसी / 2033	ग्राम एवं डाक- भानगढ़, जिला- भिवानी, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	11.8.84
148	अमित कुमार, पुत्र श्री आर.सी. चौधरी	यूवीसी / 369 / 08	ग्राम- रामपुरा, थाना- सीतारगंज, जिला- यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएण्डटी / 08	28.8.83
149	अमित कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार सिन्हा	बीवीसी / 2868 / 07	ग्राम- लौगई (हब्बीपुर), डाक- मधुआपुर, थाना- काहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	15.8.81
150	अमित कुमार, पुत्र श्री सुनील कुमार	पीबीएसवीसी / 2812 / 08	म.न. 10 / 49, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएएसयू / 08	1.03.82
151	अमित कुमार, पुत्र श्री हुकम सिंह	यूवीसी / 394 / 08	ग्राम- हज्जरपुर, डाक- लांधोरा, जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएण्डटी / 08	4.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
152	अमित कुमार तिवारी, पुत्र श्री अश्वनी कुमार तिवारी	सीजीएसवीसी /366/08	11-ए स्ट्रीट- 13, सेक्शन 10, मिलई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/06.07	18.4.81
153	अमित मल्होत्रा, पुत्र श्री ए.पी. मल्होत्रा	यूपीएसवीसी/ 4756/08	55, सीतल धाम कॉलोनी, सरलबगढ़ एक्सटेंशन, दयालबाग, आगरा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी/08	11.10.82
154	अमित सरवा, पुत्र श्री मूल चंद सर्वा	राजएसवीसी/ 3585/09	55, चर्च रोड, विवेकानंद कॉलोनी, देवली, टोंक, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच/एसकेए नडीएयू/08	22.10.83
155	अमिताभ कुमार, पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद सिंह	बीवीसी/2833 /07	ग्राम एवं डाक- सिमहारी, थाना- धनारुआ, सब- डिवीजन- मसौरीह, जिला- पटना, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/केएफ एसयू/06	18.12.82
156	अमिताभ सचन्, पुत्र श्री पी.के. सचन्	यूपीएसवीसी/ 4857/08	ग्राम एवं डाक- बमथारा कोरा जहानाबाद, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	7.4.80
157	अमिताभ धर, पुत्र श्री अमल डॉ. धर	जेवीसी/231 /08	बी.ए.एच.ओ. रामगढ़, हजारीबाग- 829122, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /83	21.11.59
158	अम्मू रामाकृष्णन, पुत्री श्री पी.एन. रामाकृष्णन	केरलएसवीसी /3440/09	क्वा.न. 30बी, केएयू कैम्पस, केएयू (डाक), थिसूर- 680656, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	9.6.84
159	अमरेंद्र किशोर, पुत्र श्री नरेंद्र प्रसाद	बीवीसी/2860 /07	ग्राम एवं डाक- दोहर, थाना- रसूलपुर, सब-डिवीजन छपरा, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /07	21.11.82
160	अमरेंद्र कुमार भूषण, पुत्र श्री महावीर प्रसाद	जेवीसी/034 /08	ब्लॉक ए.एच.त्र अधिकारी, गामहरिया, अदियापुर, सेरईकेला, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /94	10.03.71
161	अमरेंद्र कुमार पांडे, पुत्र श्री रेवती रमन पांडे	जेवीसी/594 /09	तालुक, ग्राम एवं डाक मारगोमुंडा, कैरोन, मधुपुर, देओगढ़ - 815353, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /95	05.01.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
162	अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री बिष्णु देव प्रसाद	जेवीसी / 536 / 09	पंकी रोड, रारमा (सी.पी.आई. कार्यालय के निकट), डाल्टनगंज, पलामू- 822101, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 93	12.01.64
163	अमरेश नारायण सिन्हा, पुत्र स्व. श्री गणेश प्रसाद साहा	जेवीसी / 379 / 08	आदर्शपुरी, अरसनडे, कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 95	06.03.71
164	अमरेश्वर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राजेश्वर प्रसाद सिन्हा	जेवीसी / 365 / 08	यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पशु पोषण विभाग, आरवीसी कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/मगध विवि/69	05.02.46
165	अमृता सिंह, पुत्री श्री कांत सिंह	यूवीसी / 409 / 08	वेटरिनरी अधिकारी (ठेके पर), वेट हॉस्पिटल, काल्जीखल, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 06	9.9.79
166	अमृत पाल सिंह सेखों, पुत्र श्री सेवा सिंह सेखों	पीबीएसवीसी / 2835 / 08	सी-20/2, रनजी एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच/जीएडी वीएसयू/08	9.10.83
167	अमृत राज जी.के, पुत्र श्री गडीगइयाह के.वी.	कर्नाएसवीसी / 4119 / 08	नंदीगुडी वसाना डाक, हरिहरा तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीएफ एसयू/08	1.8.85
168	अमृतकर सूरज अशोकराव	महाएसवीसी / 7927 / 08	मातानगर, रालेगांव, तालुक- रालेगांव, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	26.4.84
169	आनंद कुमार आनंद, पुत्र श्री रोहित ठाकुर	बीवीसी / 2792 / 06	ग्राम- गुलाओ नगर, डाक- सनहौली, थाना- खगरिया, सब-डिवीजन- खगरिया, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 06	16.1.77
170	आनंद कुमार आनंदमय, पुत्र श्री राम सिंहासन सिंह	जेवीसी / 244 / 08	बी.ए.एच.ओ., बरकट्टा, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/05	21.07.79
171	आनंद मोहन, पुत्र श्री कृष्ण कुमार प्रसाद	पीबीएसवीसी / 2838 / 08	कमरा न.- 210, होस्टल न. -8, जीएडीवीएसयू- पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच/जीएडी वीएसयू/08	1.3.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
172	आनंद पांडे, पुत्र श्री राम प्रसाद पांडे	सीजीएसवीसी /418/08	कपूर बंगला का पास, डाक- धावारी, जिला- सतना, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/03.04	5.7.84
173	आनंद पातीदार, पुत्र श्री मोहन लाल पातीदार	एमपीएसवीसी /2529/08	शीतला माता गली, कोडरिया म्हऊ, इंदौर- 453441, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	7.1.83
174	अनंत कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री बृहस्पति प्रसाद सिन्हा	जेवीसी/018 /08	परियोजना अधिकारी, भेड़ प्रजनन फार्म, छतरा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /76	18.07.51
175	एण्ड्रयू एम.एस. जुला, पुत्र श्री टी. लियाना	मिज़एसवीसी/ 177/09	दुर्तलांग एम-5, डाक- दुर्तलांग, मिज़ोरम	बीवीएससी एवं एएच/सीएयू /08	25.4.83
176	अनीर हुसैन टी.ए., पुत्र श्री टी.एस. अनवर हुसैन	केरलएसवीसी /3445/09	थेनुंगल, पाइप लाइन रोड, अलुवा- 683101, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	19.10.82
177	एंजेल एल. रेंटलेई, पुत्री श्री आर. लालरेमा	मिज़एसवीसी/ 180/09	चत्तलांग, डावरकॉन, डाक- आइज़वाल, मिज़ोरम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	13.8.84
178	अनिल चौधरी, पुत्र श्री ताराचंद चौधरी	राजएसवीसी/ 3543/08	ग्राम एवं डाक- हेतमपुर, वाया- नऊ, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच/सीसीए सएचएयू/08	7.10.80
179	अनिल कुमार कर्न, पुत्र श्री आर.पी. कर्न	सीजीएसवीसी /411/08	मौह. एवं डाक- सापोश, थाना- धफारा, जिला- जाजगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/06.07	1.7.71
180	अनिल के.वी., पुत्र श्री उमा महेश्वरप्पा के.बी.	कर्नाएसवीसी/ 4102/08	238/ए-ब्लॉक, 1 क्रॉस, 100 फीट रोड, गोपालागौडा एक्स., शिमोगा- 577204, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीए फएसयू/08	28.5.85
181	अनिल करकेटा, पुत्र स्व. श्री मधु ओरांव	जेवीसी/318 /08	द्वारा श्री चमरू केरकेटा, मौह. - चांगनी, टीकराटोली, बेरो, रांची-835202, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 03	15.12.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
182	अनिल कुमार गिरि, पुत्र श्री राम अवतार गिरि	यूपीएसवीसी / 4872 / 08	42-डी / 1-ए, नेताजी नगर, पीएसी रोड, डाक- हरजिंदर नगर, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 02	5.8.76
183	अनिल कुमार केवट, पुत्र श्री के. आर. केवट	एमपीएसवीसी / 2520 / 08	एच-5, संसाधन कॉलोनी, डेबरा, ग्वालियर- 475110, म. प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	13.7.81
184	अनिल कुमार लुगुन, पुत्र श्री आमस लुगुन	जेवीसी / 207 / 08	खरवागढ़ा, जलडेगा, सिमडेगा, 835211, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 01.	08.08.75
185	अनिल कुमार नायक, पुत्र श्री केदार नाथ नायक	जेवीसी / 590 / 09	आबरिया, हटिया, जागरनाथ पुर, नामकुम, रांची - 834003, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 97	19.01.71
186	अनिल कुमार पाटिल, पुत्र श्री बुधराम पटेल	सीजीएसवीसी / 363 / 08	ग्राम- खारखोना, डाक- शाला, जिला- जंजाघीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 06.07	21.2.78
187	अनिल कुमार राबी, पुत्र श्री अमीर चंद राम	बीवीसी / 2776 / 06	ग्राम एवं डाक- कामरीगांव, थाना- तितियाब, सब- डिवीजन- जबदीशपुर, जिला- भोजपुर- 802183, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 06	13.10.82
188	अनिल कुमार, पुत्र श्री भोला मंडल	बीवीसी / 2768 / 06	ग्राम- गनौली, डाक- परवाना, थाना- हठोरी, सब-डिवीजन- रोसेरा, जिला- समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी ए एंडटी / 06	16.5.77
189	अनिल कुमार, पुत्र श्री जे. साह	बीवीसी / 2950 / 08	ग्राम- माधोपुर, डाक एवं थाना - देसरी, सब-डिवीजन - हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 08	27.2.80
190	अनिल कुमार, पुत्र श्री भागवत प्रसाद	जेवीसी / 186 / 08	टी.वी.ओ., बिलासपुर, गढ़वा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / डब्ल्यूबी यूएफएसयू/ 05	08.06.76
191	अनिल कुमार, पुत्र श्री भोला मंडल	यूवीसी / 419 / 08	वेटरिनरी अधिकारी (ठेका), देवल, जिला- चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएंडटी / 06	16.5.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
192	अनिल कुमार, पुत्र श्री रामकेश्वर राम	जेवीसी / 453 / 09	सैनी निवास, अरसनडे, कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 89	13.11.62
193	अनिल कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री शिव लोक सिंह	जेवीसी / 259 / 08	कोकर चूना भट्टा, कोकर, रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 88	20.01.61
194	अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री लाल साहेब सिंह	यूपीएसवीसी / 4739 / 08	ग्राम- बस्ती घाक गुलरा, डाक- पवई, जिला- आज़मगढ़, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच / केएयू/ 08	3.7.80
195	अनिल कुमार सिन्हा, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 348 / 08	बीएचओ, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू/ 91	09.04.68
196	अनिल कुमार, पुत्र श्री रघु नंदन प्रसाद	जेवीसी / 020 / 08	प्रबंधक, क्षेत्रीय मुर्गीपालन फार्म, होतवार, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 87	05.01.65
197	अनिल नामा, पुत्र श्री चतुरभुज नामा	राजएसवीसी / 3499 / 08	ए-16, चित्रगुप्ता कॉलोनी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच / जीएडी वीएयू / 07	21.8.82
198	अनिल पतियाल, पुत्र श्री विजय कुमार पतियाल	एचपीएसवीसी / 833 / 08	ग्राम- सिसवा, डाक- बड़ी मंदिर, थाना एवं जिला- हमीरपुर, हि.प्र.- 177023	बीवीएससी एवं एच / सीएसके केवीवी / 08	12.4.84
199	अनिल शर्मा, पुत्र श्री गंधर्व शर्मा	एमपीएसवीसी / 2582 / 09	ग्राम- भुआ-का-पुरा, डाक- कंड का पुरा, थाना- अम्बाहा, जिला- मोरैना- 476111, म.प्र.	बीवीएससी एवं एच / जेएनके वीवी / 08	15.2.83
200	अनिल सिंह, पुत्र श्री अच्छे लाल	एमपीएसवीसी / 2526 / 08	ग्राम- मादरो, थाना- टिओथर, जिला- रीवा- 486001, म.प्र.	बीवीएससी एवं एच / जेएनके वीवी / 08	25.1.80
201	अनिल कुमार बी. पुत्र श्री सी.सी. बेट्टेगौडा	कर्नाएसवीसी / 4207 / 08	न. 2296, दूसरा क्रॉस, गांधी नगर, माण्ड्या- 571401, तालुक एवं जिला- कर्नाटक	बीवीएससी एवं एच / केवीएए फएसयू / 08	9.4.77
202	अनिल कुमार बी. एन., पुत्र श्री नागेंद्रप्पा	कर्नाएसवीसी / 4113 / 08	अगराबन्नीहट्टी, चेन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एच / केवीएए फएसयू / 08	9.6.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
203	अनिमेश जायसवाल, पुत्र स्व. श्री मदन मोहन जायसवाल	सीजीएसवीसी /399/08	बड़ा बाजार, धीरमिति जिला, कोरैया, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एच/आईजी केवीवी/06.07	22.11.82
204	अनीश राजन, पुत्र श्री सी.के. राजन	केरलएसवीसी /3479/09	चारीवुपुरायिदाथिल, कीजचेरिलमेल, चेंगानूर डाक, अलपुजाह— 689121, केरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	4.11.81
205	अनिता तिवारी, पुत्री श्री दिवाकर प्रसाद तिवारी	यूवीसी/392 /08	टी.न. 913, पावर हाउस, लालकुआ, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एच/जीबीपी यूएंडटी/08	16.2.85
206	अंजनी कुमार सिन्हा, पुत्र श्री नरेश कुमार सिन्हा	बीवीसी/ 2856/07	ग्राम— डेकपुरा, डाक— मोरातलाब, थाना— राहुल, बिहार शरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /07	1.3.78
207	अंजनी कुमार, पुत्र श्री मार्कंडेय राय	बीवीसी/ 2938/08	ग्राम एवं डाक— रानी, थाना — बछवारा, जिला— बेगुसराय, बिहार	बीवीएससी एवं एच/एएयू/ 05	1.1.81
208	अंजनी कुमार, पुत्र श्री देवकी नंदन प्रसाद	यूवीसी/410 /08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), वेटरिनरी हॉस्पिटल, कंडाखल, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एच/सीएसए केईपीवीवी/04	15.2.79
209	अंजनी कुमार सिन्हा, पुत्र श्री नरेश कुमार सिन्हा	यूवीसी/414 /08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), वेटरिनरी हॉस्पिटल, चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /07	1.3.78
210	अंजु अनना जेम्स, पुत्री श्री वी.वाई. जेम्स	केरलएसवीसी /3463/09	वजापल्ली 'अंजलि' अस्पताल जंक्शन, कुंडरा डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	4.12.84
211	अंजु एलिस बेन, पुत्री श्री के.ए. बेंजामिन	केरलएसवीसी /3327/08	कंडनाकुलाथु हाउस, कार्यावोट्टम डाक, तिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 08	2.4.84
212	अंकिता, पुत्री श्री वीरेंद्र सिंह	हरिएसवीसी/ 2074	पुराने सिविल अस्पताल के पीछे, चर्खी दादरी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससी एवं एच/सीसीए सएचएयू/08	27.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
213	अंकिता शर्मा, पुत्री श्री देश राज शर्मा	एचपीएसवीसी /857/08	ग्राम— पट्टा, डाक— नसवाल, थाना— घुमारविन, जिला— बिलासपुर, हि.प्र.— 174021	बीवीएससी एवं एच/सीएसके केवीवी/08	26.4.85
214	अंकुर जेटली, पुत्र श्री सुरेश कुमार जेटली	पीबीएसवीसी/ 2798/08	बी iv — 237, रेलवे रोड, गोराया जिला, जालंधर, पंजाब	बीवीएससी एवं एच/जीएडी वीएसयू/08	24.11.85
215	अंकुर प्रियादर्शन, पुत्र श्री संतोष कुमार	यूपीएसवीसी/ 4800/08	ग्राम एवं डाक— मझावन, जिला— कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/यूपीपीड ीडियूपीसीवीवी /08	4.7.84
216	अंकुर राना, पुत्र श्री बी.एस. राना	हरिएसवीसी/ 2058	# 707, अर्बन एस्टेट— II, हिसार, हरियाणा	बीवीएससी एवं एच/सीसीए एसएचयू/08	13.10.85
217	अन्नेश एस., पुत्री श्री जी. वासवन	केरलएसवीसी /3464/09	श्रीनीलायम, पेरुरकरानमा, डाक चारूमूड, मावेलीकारा, अलपुजाह— 690505, केरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	21.5.85
218	अनूप रूथवाल, पुत्र श्री डी.आर. रूथवाल	एचपीएसवीसी /831/08	साई निवास, काहनवल रोड, राम नगर, मंडी, जिला— मंडी, हि.प्र.— 175001	बीवीएससी एवं एच/सीएसके केवीवी/08	24.7.83
219	अनूप कुमार गुप्ता, पुत्र श्री हीरा लाल गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 4745/08	328/235, महाजनी टोला, फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/जीबीपी यूएंडटी/08	1.7.81
220	अनुप कुमार, पुत्र स्व. श्री महेश पंडित	जेवीसी/029 /08	ब्लॉक पशु पालन अधिकारी, लापुंग, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 88	31.12.63
221	अंसार अहमद, पुत्र मौह. ज़फर आलम	जेवीसी/055 /08	सहायक प्रोफेसर एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक (प्रिवेंटिव मेडिसिन), आरवीसी, कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 99	04.01.71
222	अंशुल अरोड़ा, पुत्र श्री राकेश अरोड़ा	पीबीएसवीसी/ 2827/08	गली बोरे, मौहल्ला सोडियान, फिरोज़पुर सिटी, पंजाब	बीवीएससी एवं एच/जीएडी वीएसयू/08	9.12.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
223	अंशुल लाथेर, पुत्र श्री बी.एस. लाथेर	हरिएसवीसी / 2046	# 1649, अर्बन एस्टेट, जींद, हिसार	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	10.10.84
224	एण्टनी कोंगरी, पुत्र स्व. श्री जोसेफ कोंगरी	जेवीसी / 392 / 08	ग्राम— कदम, डाक— कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 98	01.01.73
225	अनुज कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	बीवीसी / 2787 / 06	ग्राम—अनतपुर, डाक— माधो पुर, थाना— चंडी, सब— डिवीजन— हिलसा, जिला— नालंदा— 803108, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / डब्ल्यूबी यूएफएसयू / 06	20.1.80
226	अनुमोल जोसेफ, पुत्री श्री जोसेफ	केरलएसवीसी / 3468 / 09	कांजीरथाकमकुन्नेल हाउस, कोट्टियूर डाक, कन्नूर— 670651, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	29.11.84
227	अनूप कुमार सिन्हा, पुत्र श्री कमलेश्वर नाथ सिन्हा	जेवीसी / 223 / 08	द्वारा श्री के.एन. सिन्हा, नया बाजार, गोमोह, तोपचांची, कटरस, धनबाद— 828401, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 99	04.09.72
228	अनुपम सहाय, पुत्र श्री रति कांत सहाय	बीवीसी / 2742 / 06	ग्राम— बिष्णुपुरा, डाक एवं थाना— सिधवालिया, सब—डिवीजन गोपालगंज, जिला— गोपालगंज, बिहार	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 05	13.11.80
229	अनुपमा एस.एस., पुत्री श्री ससिधरन बी.	केरलएसवीसी / 3457 / 09	सिमि भवन, वलाक्कडु, इनम्पा डाक, अटिंगल, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	25.5.85
230	अनुपमा शर्मा, पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा	यूवीसी / 433 / 08	36— नेहरू मार्ग, आशुतोष नगर, ऋषिकेश जिला, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 00	12.9.74
231	अनुप्रिया चंद्राकर, पुत्री श्री वी.एन. चंद्राकर	सीजीएसवीसी / 339 / 07	काँग्रेस भवन के निकट, बालोड जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 05.06	19.3.82
232	अनुराधा कुमारी, पुत्री श्री अशोक कुमार	बीवीसी / 2929 / 08	ग्राम नागला, डाक— पटना सिटी, थाना मलसालामी, जिला— पटना— 800008, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / केवीएए डएफएस / 06	20.7.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
233	अनुराग जिंदल, पुत्र श्री विजय कुमार जिंदल	बीबीएसवीसी / 2668 / 09	बिजय कुमार करियाना स्टोर, शमशान घाट के निकट, बारेत, मनसा— 15, पंजाब	बीबीएससी एवं एच/जीएडी वीएसयू/06	28.8.83
234	अनुराज के.एस. पुत्र श्री सुमेधन के. एन.	केरलएसवीसी /3469/09	कैथाकट्टे हाउस, पूमला रोड, पेरिंगावू डाक, थिसूर— 680018, केरल	बीबीएससी एवं एच/केएयू/ 09	27.1.85
235	अपर्णा एम., पुत्री श्री चैक्कुट्टी एम.	केरलएसवीसी /3393/09	अम्बडी हाउस, करुवनपोयिल, मनिपुरम (डाक), काडुवल्ली वाया, कोजीकोड, केरल	बीबीएससी एवं एच/केएयू/ 09	1.6.85
236	अप्रणा हेब्बर, पुत्री श्री सुब्राया हेब्बर एच.	कर्नाएसवीसी / 4194 / 08	शांतिनिकेतन होसामाता वालया, कुस्पाडी— 574221, पुत्तूर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक	बीबीएससी एवं एच/केबीएए फएसयू/08	2.3.86
237	अपर्णा पांडे, पुत्री स्व. डॉ. जे.एम्. पांडे	जेवीसी / 391 / 08	द्वारा आर.एन. शर्मा, 32, श्रद्धानंद रोड, रांची— 834001, झारखंड	बीबीएससी एवं एच/बीएयू/ 86	23.07.63
238	अपर्णा शंकर, पुत्री श्री वी.के. शिवशंकरन	केरलएसवीसी /3354/08	ऐश्वर्या कडा यिकुप्पु डाक, वाया— कोलेनचेरी, अर्नाकुलम— 682811, केरल	बीबीएससी एवं एच/केएयू/ 08	11.1.84
239	अपर्णा वीरमा, पुत्री श्री अरुण प्रसाद वर्मा	बीवीसी / 2870 / 07	ग्राम— घटीकन, डाक— थनुआ, थाना— सिबसागर, सब—डिवीजन— सासाराम, जिला— रोहतास, बिहार	बीबीएससी एवं एच/आरएयू / 07	3.1.83
240	अपसाना आर, पुत्री श्री रिजवान बाशा एम.	कर्नाएसवीसी / 4136 / 08	वटादाहोसाहल्ली— 561228, गौरीबिदनूर तालुक, थिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	बीबीएससी एवं एच/केबीएए फएसयू/08	30.6.85
241	अरविंद एस, पुत्र श्री ससिधरन पिल्लै ए.	केरलएसवीसी /3316/08	चंदानी, अलुमूडू डाक, मामपुजाह, कोल्लम— 691577, केरल	बीबीएससी एवं एच/केएयू/ 08	30.5.84
242	अरविंद कुमार देव, पुत्र श्री बिदेश्वरी प्रसाद यादव	बीवीसी / 2821 / 06	ग्राम— इठारी, डाक— हरदी (दुर्गास्थान), थाना— सुपौल, सब—डिवीजन— सुपौल, बिहार	बीबीएससी एवं एच/एमएएंड एफएसयू/06	1.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
243	अर्चना एम. संगमा, पुत्री श्री जी. मारक	मेघएसवीसी / 2 62 / 08	फॉरेस्ट टिल्ला, तुरा, मेघालय— 764002	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	12.9.80
244	अर्चना एस., पुत्री श्री बी. कृष्णनकुट्टी	केरलएसवीसी / 3394 / 09	सुरभी, टीसी 5 / 1938 (1), कोवाडियार डाक, थिरुवनंतपुरम— 695003, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	4.8.84
245	अर्चना मिंज, पुत्री श्री निकोलस मिंज	जेवीसी / 583 / 09	लॉंगा, बसाई, गुमला— 835229, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 04	20.07.78
246	आरदे रोहिणी राजाराम	महाएसवीसी / 8110 / 08	प्लॉट न. 169, 170, 171, दत्तोबा शिंदे नगर, कालम्बा, तालुक कारवीर, जिला कोल्हापुर— 416007	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	20.2.86
247	आरेवाड गजानन रामाराव	महाएसवीसी / 7974 / 08	राहुल निवास, 4-2-38, मराठा गली, तालुक मुखेद, जिला— नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	18.7.85
248	अरिहंत जैन, पुत्र श्री ज्ञान चंद	पीबीएसवीसी / 2814 / 08	म.न. 83, वा.न. 6, गली न. 5 / 2, रमन मंडी— 151301, जिला— भठिंडा, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / जीएडी वीएएसयू / 08	22.7.84
249	अरोडा मनप्रीत हरपाल सिंह	गुजएसवीसी / 2992 / 09	17, पंचशील सोसायटी, मोतीबाग के निकट, गिरनार सोसायटी के पीछे, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 04	1.8.78
250	अप्रणा प्रियंका मिंज, पुत्री श्री थॉमस जस्टिन मिंज	जेवीसी / 289 / 08	द्वारा माइकल मिंज, कटकयान, माझाटोली, रियाद, गुमला— 835232, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 08	07.04.83
251	अरुण कुमार शुक्ला, पुत्र श्री बाल कृष्ण	यूपीएसवीसी / 4851 / 08	सदर बाजार, कारवी, चित्रकूट, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	17.12.80
252	अरुण कुमार डे, पुत्र श्री देवियल प्रसाद	बीवीसी / 2855 / 07	ग्राम— गौथापर, डाक— बादौना, थाना— चंडी, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	5.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
253	अरुण कुमार मिश्रा, पुत्र स्व. श्री तीर्थराज मिश्रा	बीवीसी/ 2842/07	ग्राम— गनौला, डाक— नारायणपुर, थाना— बीहपुर, सब—डिवीजन— भागलपुर, जिला— भागलपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच /एमयू/ 65	16.12.41
254	अरुण कुमार पांडे, पुत्र श्री भगवान पांडे	जेवीसी/053 /08	ब्लॉक पशुपालन अधिकारी, जमतारा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीसीके वीवी/85	10.11.62
255	अरुण कुमार राय, पुत्र श्री गणेश राय	जेवीसी/300 /08	द्वारा बी. कुमार, प्लॉट न. 119, लोहांचल, बियादा, जिला— बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /93	07.01.65
256	अरुण कुमार राम, पुत्र श्री मिश्री राम	जेवीसी/539 /09	अरसनडे, कनके, रांची— 834007, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 94	06.11.66
257	अरुण कुमार राउत्रे, पुत्र श्री अश्विनी कुमार राउत्रे	उड़ीसाएसवी सी/2253/ 08	एटी— हीरापुर, डाक— रानी बाग, जिला— जाजपुर, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच/ओयूएए डटी/08	21.5.86
258	अरुण कुमार, पुत्र स्व. श्री रामेश्वर राम	जेवीसी/267 /08	सरायडीह, पंकी, डाल्टनगंज, पलामू, पिन— 822122, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 93	07.02.67
259	अरुण कुमार, पुत्र श्री इंद्र जीत	यूपीएसवीसी/ 4758/08	ग्राम एवं डाक— छिबोन, जिला चित्रकूट, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी/08	5.7.79
260	अरुण कुमार, पुत्र श्री गोविंद महतो	जेवीसी/576 /09	आलना, जामटोला, रेलाडीह, बुंदु, पिन— 835204, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 01	22.04.76
261	अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री जगत नारायण सिंह	जेवीसी/556 /09	सिवाला रोड, डाल्टनगंज, पलामू, पिन— 822101, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 94	05.05.62
262	अरुण कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. डॉ. ज्वाला प्रसाद	जेवीसी/360 /08	संकायाध्यक्ष, आरवीसी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/मगध विवि/69	01.10.47

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि:
263	अरुण कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री श्याम नारायण प्रसाद	जेवीसी / 003 / 08	कनिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, मेदनीनगर, पलामू— 822101, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 83	05.01.60
264	अरुण एम.एम., मौहम्मद एम.सी.	केरलएसवीसी / 3342 / 08	मम्मासराविलाथ, चमक्कलायिल हाउस, द्वारा पलाथोलमना, थिरुमुपथ रोड, कोडुंगलूर, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	26.5.83
265	अरुण ओरांव, पुत्र श्रीगंडरू ओरांव	जेवीसी / 327 / 08	पुत्र श्री गंडरू ओरांव, बानपुर दासराटोली, जोरी, किसको, लोहारडागा— 835302, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 99	20.01.73
266	अरुण प्रसाद, पुत्र स्व. श्री परमेश्वरी नारायण	जेवीसी / 276 / 08	यूनि. प्रोफे. एवं प्रमु. वैज्ञानिक, सूक्ष्मजैविकी विभाग, बी 2 / 10, आरवीसी कैम्पस, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 77	01.08.54
267	अरुण प्रताप सिंह, पुत्र श्री भूप नारायण सिंह	जेवीसी / 205 / 08	टीवीओ, निरसा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएंडटी / 91	01.07.68
268	अरविंद शर्मा, पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा	यूपीएसवीसी / 4730 / 08	म.न. 37 ए / 35 / 1, मधु नगर, आगरा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	3.1.79
269	अरविंद कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री जे.एन. त्रिपाठी	यूपीएसवीसी / 4813 / 08	गर्ल्स स्कूल, इंदिरा नगर, डिबियापुर जिला, औरङ्ग, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / सीएसए यूएंडटी / 89	8.6.68
270	अरविंद कुमार सिंह, पुत्र श्री झगडू प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4804 / 08	ग्राम एवं डाक— बेलघाट, जिला— बस्ती, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	16.12.79
271	अरविंद कुमार ढाका, पुत्र श्री बनबारी लाल ढाका	राजएसवीसी / 3549 / 08	ग्राम— खोरू, डाक— घासू, सीकर— 332313, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / केवीएए फएसयू / 08	1.1.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
272	अरविंद कुमार मांझी, पुत्र श्री गौरांग मांझी	जेवीसी / 439 / 08	हरि निवास नगरटोली, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 08	24.12.81
273	अरविंद कुमार, पुत्र श्री जय नारायण	यूपीएसवीसी / 4781 / 08	ग्राम— उमरिया, डाक— उमरिया, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / एनडीयू एटी / 08	5.10.83
274	अरविंद कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम प्रकाश शर्मा	एमपीएसवीसी / 2538 / 08	द्वारा कमलेश शर्मा, गायत्री मार्केट, अतर रोड चौराहा, डाक— पोरसा, जिला— मोरैना— 476115, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	22.7.82
275	अरविंद कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री कामेश्वर सिंह	जेवीसी / 131 / 08	फ्लैट न. 303, आकांक्षा अपार्ट., फेज— II, बिरसा बस स्टैंड के निकट, कांताटोली, रांची, झारखंड— 834001	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 96	15.10.70
276	अरविंद मालवीय, पुत्र श्री गोपाल मालवीय	यूपीएसवीसी / 4879 / 08	742 / 653, मालवीय नगर, इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएण्डटी / 99	1.3.78
277	अरविंद शर्मा, पुत्र श्री रमेश चंद्र शर्मा	राजएसवीसी / 3481 / 08	ग्राम— दुल्हारा, डाक— मंगलोर, थाना— मानिया, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	3.1.79
278	अरविंद त्रिपाठी, पुत्र श्री सरू प्रसाद त्रिपाठी	सीजीएसवीसी / 353 / 07	म.न. 33, चंचल विहार कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 07	27.4.64
279	आर्या एस., पुत्री श्री के.के. रामकृष्णन	केरलएसवीसी / 3377 / 08	पौरनामी, नीलामेल डाक, कोल्लम— 691535, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू/ 08	9.6.83
280	असद हुसैन, पुत्र श्री अबु सैयद अंसारी	जेवीसी / 393 / 08	द्वारा मौह. इब्राहीम अंसारी, थाना रोड, लोहारडगा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 99	20.12.71
281	आशा अशरफ, पुत्री श्री पी.एम. अशरफ	केरलएसवीसी / 3395 / 09	पलामू टा.सी., 1 / 1839, थमारभागोम, कुमारपुरम, मेडिकल कॉलेज, डाक— थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू/ 09	13.6.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
282	आशा पलक्षन, पुत्री श्री पलक्षन के.	कर्नाएसवीसी / 4185 / 08	पीकेसी अस्पताल के पीछे, बिरूर-577116, कडूर तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीएए फएसयू / 08	30.9.84
283	आशा एन. विंसेंट, पुत्री श्री एन. विंसेंट	केरलएसवीसी / 3426 / 09	इडेन, चामा विला, कुरीपुजा डाक, पेरिनाड, कोल्लम, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	6.12.85
284	आशीष कुमार गुप्ता, पुत्र श्री परशु राम गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4743 / 08	मौह.- काशीनाथ, चंदन एकसरे के निकट, जलाऊँ, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएंडटी / 08	8.1.81
285	आशीष सिंह, पुत्र श्री इंदरजीत सिंह	यूपीएसवीसी / 4876 / 08	ग्राम एवं डाक- पुरसिया, जिला- बस्ती, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	15.4.82
286	अशोक कुमार अरुण, पुत्र श्री सीता राम सिंह	जेवीसी / 041 / 08	टूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, पदमा, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 82	26.01.59
287	अशोक कुमार दास, पुत्र श्री नित्य चंद्र दास	जेवीसी / 401 / 08	जामनी पहाड़पुर, गोड्डा- 814133, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 01	23.09.75
288	अशोक कुमार राउत, पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार राउत	उड़ीसाएसवी सी / 2227 / 08	प्लॉट न. ईए- 182, स्टेज- II, लक्ष्मी नगर, भुवनेश्वर- 761006, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूएए डटी / 08	27.6.83
289	अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री सुख राम सिंह	यूपीसी / 48 / 08	453, आवास विकास, रूड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 88	12.7.63
290	अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री दगाडू प्रसाद सिंह	जेवीसी / 346 / 08	टीवीओ, मोहनपुर, देवघर, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 93	02.01.67
291	अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री कमला चरन	जेवीसी / 363 / 08	ससबेरा, आई.ई. गोमिया, बरमो, बोकारो- 829002, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / मगध विवि / 70	10.11.48

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
292	अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री नंद कुमार	बीवीसी / 2917 / 08	ग्राम—दरियापुर, डाक— बड़ोघ, थाना— बिंद, सब— डिवीजन बिहार शरीफ, जिला— नालंदा— 803107, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 07	1.2.76
293	अशोक कुमार, पुत्र श्री बाबू राम	यूपीएसवीसी / 4787 / 08	ग्राम— सेमरी मोतीमदपुर, डाक— बेलामऊ कला, जिला— सितजापुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	7.7.78
294	अशोक कुमार, पुत्र श्री रामहित यादव	बीवीसी / 2805 / 06	ग्राम एवं डाक— उमगांव, थाना— हेरीलक्षी, सब— डिवीजन बेनीपथी, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एमएएंड एफएसयू / 06	7.2.77
295	अशोक कुमार, पुत्र श्री राम लखन प्रसाद	जेवीसी / 204 / 08	पूर्ण बगान, वार्ड न. 3, सरौजे का खरसावन— 833213, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 96	28.03.72
296	अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री राम कृपाल शर्मा	जेवीसी / 338 / 08	टीवीओ सेनादौनी, सेनादौनी, पचम्बा, गिरडीह, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 82	01.11.55
297	अशोक कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री बचन प्रसाद	जेवीसी / 279 / 08	यूनि. प्रोफे. एवं प्रमुख वैज्ञानिक, एलएमपी विभाग, आरवीसी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 75	06.01.53
298	अशोक कुमार ठाकुर, पुत्र श्री जादूबंसी ठाकुर	जेवीसी / 258 / 08	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, आई.ए.एच. एवं पी., कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 76	15.12.53
299	अशोक कुमार, पुत्र श्री राम लखन महतो	जेवीसी / 023 / 08	टूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 04	12.08.67
300	अशोक कुमार लीलाधर बिष्ट, पुत्र श्री लीलाधर बिष्ट	यूपीसी / 123 / 08	ग्राम एवं डाक— मसार, थाना— द्वारहाट, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / केकेवी पी / 95	27.9.72
301	आशुतोष दूबे, पुत्र श्री अशोक कुमार दूबे	सीजीएसवीसी / 449 / 09	सी—2, वसंत कॉर्नर, अवन्ति विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 07.08	20.8.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
302	आशुतोष जोशी, पुत्र स्व. श्री इंदु शेखर जोशी	यूवीसी / 27 / 08	जोशी निवास, मेन बाजार, उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएएंडटी / 92	23.7.69
303	आशुतोष सांगवान, पुत्र श्री शमशेर सिंह	हरिएसवीसी / 2067	1787 / 5, सांगवान निवास, हर्ष सिनेमा के पीछे, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसी एसएचएयू / 08	28.3.85
304	असीम कुमार सिंह, पुत्र श्री जयराम प्रसाद सिंह	जेवीसी / 203 / 08	टी.वी.ओ, केंडुआडीह, एमआईजी / बी-28, हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद - 826001, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 92	18.01.69
305	असित रंजन देव, पुत्र श्री सत्येंद्र रंजन देव	जेवीसी / 273 / 08	बीके एंकलेव, 4-आर, जी स्ट्रीट, राधा गोविंद स्ट्रीट, थरपखना, रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 77	02.08.53
306	अताकरे श्रीपद पंढारीनाथ	महाएसवीसी / 7873 / 07	1 / 156, निम्बोनी बाग, जेड. पी. कॉलोनी, ताम्बरी विभाग, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	4.3.83
307	अतुल कुमार वर्मा, पुत्र श्री अपूर्व नारायण प्रसाद	जेवीसी / 272 / 08	यूनि. प्रोफे. एवं प्रमुख वैज्ञानिक, पोषण विभाग, आर. वी.सी., कनके, रांची- 843006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 71	24.02.47
308	अतुल कुमार वर्मा, पुत्र श्री हंसराज वर्मा	यूपीएसवीसी / 4811 / 08	म.न. 33, सी.एस.ए. नगर डाक, औरावन जिला, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	1.1.80
309	अतुल प्रणय, पुत्र श्री बासुदेव प्रसाद	बीवीसी / 2909 / 07	ग्राम- आभा मोखतारपुर, डाक- खांडपुर मल, थाना- सुल्तानगंज, जिला- भागलपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एसकेयू एसएंडटी / 07	7.3.76
310	औताडे दीपक प्रभाकर	महाएसवीसी / 7989 / 08	एटी- गोरामल, डाक- उलुप, तालुक- भूम, महाराष्ट्र जिला, उस्मानाबाद - 413504	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	1.4.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
311	अवहद चंद्रकांत सुभाष	महाएसवीसी / 7874 / 07	ए/पी- फतेपुर, तालुक- जमनेर, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	7.5.84
312	अविनाश आनंद, पुत्र श्री एस.पी. अस्थाना	यूवीसी / 12 / 08	सी.वी.ओ., उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/जीबीपी यूएएंडटी/87	2.6.63
313	अविनाश भट के., पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण भट के.	कर्नाएसवीसी / 4114 / 08	नं. 4-405, वसुंधरा हाउस, सिराजे, विट्टल डाक- 574243, बंतवाल तालुक, दक्षिण कन्नडा जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीएफ एसयू/08	5.9.85
314	अविनाश कुमार मीरा, पुत्र श्री आर. के. मीरा	सीजीएसवीसी / 439 / 09	मं.न. 120/43, सुभाष नगर, कनियापुरी, दुर्ग- 491001, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/07.08	27.5.82
315	अविनाश कुमार, पुत्र स्व. प्रोफे. आर. बी. प्रसाद	यूवीसी / 417 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), नाकोट, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/सीएसए केईपीवीवी/04	1.10.82
316	अवाचत वैभव भगवान	महाएसवीसी / 8145 / 09	ए/पी- जानेफल, तालुक- मेहकर, महाराष्ट्र जिला, बुलधाना- 443001	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	9.9.84
317	अवधेश मरकम, पुत्र श्रीमोहन सिंह	सीजीएसवीसी / 425 / 08	ग्राम एवं डाक- रंजना, वाया- पाली, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/91.92	14.9.67
318	अवध कुमार झा, पुत्र श्री नरेश प्रसाद झा	जेवीसी / 247 / 08	द्वारा श्री नरेश प्रसाद झा, सरसा, कूरमाहाट, हंसडीह, रामगढ़, दुमका- 814145	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/05	15.12.78
319	अवधेश कुमार, पुत्र श्री साधु ठाकुर	बीवीसी / 2803 / 06	ग्राम- भवानीपुर, डाक- खुरशी बरावन, थाना- शिक्ता, सब-डिवीजन- नरकटियागंज, जिला- प.घम्पारन, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/एमएएंड एफएसयू/06	1.3.79
320	आवाले नितिन व्यास	महाएसवीसी / 7877 / 07	1069, श्री बालाजी पार्क, सांगिरवाडी, यशवंत नगर, वाई जिला- सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	3.4.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
321	अवधेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री बलदेव प्रसाद सिंह	जेवीसी / 415 / 08	दूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू / 92	31.12.65
322	अवधेश कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	बीवीसी / 2747 / 06	ग्राम- तानपुरा, डाक- चौखर, थाना- पाकरी बरावन, सब-डिवीज़न नवादा, जिला- नवादा- 805124, बिहार	बीवीएससी एवं एच/आरएयू / 06	6.6.80
323	अजरूद्दीन एन., पुत्र श्री निज़ामुद्दीन एन.	कर्नाएसवीसी / 4193 / 08	एलआईसी ऑफ इंडिया, शाखा-1, कोट रोड, पी.बी.एन. 35, शिमोगा- 577202, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एच/केवीएफएसयू/08	25.6.85
324	बी. आनदराज, पुत्र श्री एस. बालाकृष्णन	टीएनएसवीसी / 4104 / 08	5/65-वाई3, अरुण नगर, एनेक्सी, अलगापुरम पुडुर, सलेम-16, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएएस / 95	25.7.66
325	बी. अनिथा कुमारी, पुत्री श्री बी. चंद्रू	एपीएसवीसी / 4743 / 08	म.न. 11-8-303, आर.टी.सी. बस डिपो रोड, बुरहानपुरम, खम्मम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवीयू/08	15.4.83
326	बी. अरुन, पुत्र श्री ए. बालाकृष्णन	टीएनएसवीसी / 4176 / 08	म.न. 4/62, वर्धराजपुरम, नेदूंगूर डाक, करूर- 639111, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएनयूवीएएस/08	12.7.84
327	बी. बेबी मनसा, पुत्री श्री बी. जॉन सुभाकर राव	एपीएसवीसी / 4775 / 08	म.न. पी/13, डाक एवं तार कॉलोनी, प्रगति भवन के सामने, दक्षिणी बाईपास रोड, ऑंगोल- 523001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवीयू/08	24.5.84
328	बी. गौरी संकर, पुत्र श्री टी.एन. बालासुब्रमण्यम	टीएनएसवीसी / 4118 / 08	एच-38/एफ 3, सीशोर अपार्टमेंट, तिरुवल्लूर नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई	बीवीएससी / एमयू/60	15.1.37
329	बी. जया सुधा, पुत्र श्री बी. रघुपति रेड्डी	एपीएसवीसी / 4732 / 08	म.न. 12-13-15/1, जनतानगर, मूसापेट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवीयू/08	20.9.84
330	बी. जस्टिन विलियम, पत्नी श्री बेंजामिन	टीएनएसवीसी / 4374 / 08	कोल्लन वेट्टीविल्लै, पलप्पल्लम, डाक- कन्या कुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	11.1.57

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
331	बी.के. सतीश, पुत्र श्री एस. कनप्पन	टीएनएसवीसी /4210/08	3/13, बल्लेपलायम, सिरुमुगई, मेट्टूपलायम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	19.8.86
332	बी. कार्तिकेयन सी. एस., पुत्र श्री बालासुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4170/08	397, बी वार्ड 3, पुडु नगर, पलानी- 624601, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	10.6.84
333	बी. किरन, पुत्र श्री बी. विक्षापति	एपीएसवीसी/ 4742/08	म.न. 3-1, उल्लीगड्डा दामेरा, अट्माकुर (एम), वारगल- 506006, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	26.3.83
334	बी. मनोज कुमार, पुत्र श्री बी. बालासुब्रमण्यम	एपीएसवीसी/ 4777/08	कमरा न. 106, ए.टी. अग्राहरम, चौथी लेन, रावी रेजिडेंशल अपार्टमेंट, गुटूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	17.8.84
335	बी. मृत्युंजय सास्त्री, पुत्र श्री बी. कुटुम्बा राव	एपीएसवीसी/ 4804/08	फ्लैट न. 102, अरामा अपार्ट., प्रेमनगर कॉलोनी, नीडमेट क्रॉस रोड, सिकंदराबाद, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एपीएयू /68	12.4.46
336	बी.पी. मुगुंथन, पुत्र श्री बी. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4261/08	2/40-बी, पल्लीपेट रोड, राजानगरम ईस्ट, पल्लीपेट तालुक, थिरुवल्लूर- 631304, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	16.6.85
337	बी.पी. परशिवा मूर्ति, पुत्र श्री पुट्टास्वामी	कर्नाएसवीसी/ 4097/08	न. 754, 11वां मेन, बी ब्लॉक, तीसरा स्टेज, विजय नगर, मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससी/नें एइशसवतम/8 0	6.8.51
338	बी. पूर्णिमा, पुत्री श्री आर.एस. भीमा राजू	टीएनएसवीसी /4346/08	11 ए/बी (पुराना न. 28), ईस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर, वेल्लोर- 632006	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	17.5.84
339	बी. प्रभुकुमार, पुत्र श्री एन. बाला सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4256/08	83-डी, वेस्ट कॉलोनी, कोमारपलायम, नमक्कल- 638183, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएन यूवीएस/08	28.10.84
340	बी. राजेंदर, पुत्र श्री बी. शंकर	एपीएसवीसी/ 4782/08	म.न.- 5-78/2, भाग्य नगर, इचोडा (पीएंडएम), आदिलाबाद जिला- 504307, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	4.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
341	बी. राजेश, पुत्र श्री आर. बाबू	टीएनएसवीसी /4111/08	36/98, नैनियाप्पन स्ट्रीट, मन्नडी, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/पीयू/ 08	21.3.85
342	बी. रामा राव, पुत्र श्री बी. लक्ष्मण	एपीएसवीसी/ 4711/08	डी.न. 6-57-6, श्रमिक नगर, पुराना गाजुवाका, विशाखापटनम- 530026, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	16.6.83
343	बी. स्मेश, पुत्र श्री बी. बक्शा	एपीएसवीसी/ 4798/08	दोनाबंदा थंडा (वी), पेडावीडु (डाक), मट्टम पल्ली (एम), नालगोंडा जिला- 508225, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	14.1.83
344	बी. रवि कुमार, पुत्र श्री बी. बाल सिंह	एपीएसवीसी/ 4769/08	कोना थंडा (ग्राम), गलीपुर (डाक), बांसवाडा (तालुक), निजामाबाद जिला- 503187, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	10.10.82
345	बी. रवि, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	एपीएसवीसी/ 4748/08	अर्वापल्ली (ग्राम एवं डाक), अरावापल्ली (एम), थुंगाथुरथी (डिव.), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	10.7.83
346	बी.एस. शिवन्ना, पुत्र श्री सिद्दा रमन्ना जी.बी.	कर्नाएसवीसी/ 4218/09	न. 104/13, पाँचवा क्रॉस, विनय मार्ग, सिद्धार्थ नगर, मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससी/यू एएसबंगलौर/ 91	1.6.64
347	बी. संतोष कुमार, पुत्र श्री बी. सूर्या नारायण मूर्ति	एपीएसवीसी/ 4799/08	37-11-71/2, एनआरवी एमएसएम पब्लिक स्कूल, पी. आर. गार्डन्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट (डाक), विशाखा पटनम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	16.9.84
348	बी. सुधाकर रेड्डी, पुत्र श्री बी. सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4728/08	कोप्पुलु (डाक), ऑंगोल (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	25.8.84
349	बी. सुप्रिया, पुत्री श्री बी. हनुमंत राव	एपीएसवीसी/ 4700/08	दूसरी मंजिल, प्लॉट न. 4, एसवी निवास, पावर कार्यालय के पास, गुज्जनागुंडला, गुंटूर, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	26.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
350	बी. स्वाति, पुत्री श्री बी. अप्पा राव	एपीएसवीसी / 4735 / 08	द्वारा बी. अप्पा राव, टीजीटी (एसएस), जेएनवी, वेनेलवालसा, श्रीकाकुलम जिला,	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	10.6.85
351	बी. उषा रानी, पुत्री श्री बी. लिंगा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4701 / 08	पानी की टंकी के निकट, सातेनपल्ली, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	6.5.84
352	बबीता देवगन, पुत्री स्व. श्री दशरथ लाल देवगन	सीजीएसवीसी /364 / 08	शंकर नगर, दुर्गा चौक, वार्ड न. 10, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एच/आईजी केवीवी/06.07	6.5.83
353	बबलू सुंडी, पुत्र स्व. श्री कांडे सुंडी	जेवीसी / 448 / 09	ग्राम- बारेडीह, भागाबंदी, दुमरिया, घाटसिला, पूर्वी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 08	10.01.81
354	बाबू लाल, पुत्र श्री फूसा राम	राजएसवीसी / 3498 / 08	ग्राम एवं डाक रांगला, वाया बगोरा, थाना- बगोरा, जालोर-343032, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /08	20.7.81
355	बेबी प्रभा, पत्नी डॉ. सुनील तिवारी	जेवीसी / 323 / 08	वेटरिनरी अधिकारी, पी.टी.आई. जरसीडीह, देवघर- 814142, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /96	05.07.71
356	बचंती दीपक रामराव	महाएसवीसी / 7892 / 07	उर्जानगर कॉलोनी, क्या.न. ई-5/4, सीएसडीएस, एमएसबी, उर्जानगर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	14.12.84
357	बडगीरे विश्वजीत विठ्ठलराव	महाएसवीसी / 7935 / 08	ए/पी स्वाति, तालुक एवं जिला- लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	1.5.85
358	बढ़े शेखर रमेश राव	महाएसवीसी / 8041 / 08	ए/पी- पालसा (बढ़े), तालुक एवं जिला- अकोला, 444102, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	15.12.83
359	बागडे पर्श पुंडलीक राव	महाएसवीसी / 7763 / 07	द्वारा पुंडलीकराव तुलसीराम बागडे, शनि चौक, वार्ड न. 22, कटोल, जिला- नागपुर - 441302, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	15.3.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
360	बैज नाथ साहू, पुत्र श्री बाबू लाल साहू	यूपीएसवीसी / 4835/08	ग्राम टेरी फारी, डाक— कनकुनवा, जिला— महोबा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/07	31.7.81
361	बैज नाथ साहू, पुत्र श्री बाबू लाल साहू	एमपीएसवीसी /2507/08	वार्ड न. 3, नारायणगंज, हरपालपुर, जिला— छतरपुर — 471111, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/07	31.7.81
362	बैश इशा स्वरूप सिंह	महाएसवीसी / 7756/07	द्वारा श्री स्वस्व सिंह बसिस, बिलानपुरा, अचलपुर सिटी, जिला— अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	9.5.85
363	बैश्य नबजीत, पुत्र श्री तरुण बैश्य	एसएम / 2375/08	ग्राम— मोंगलदोई गांव, डाक— मोंगलदोई, जिला— दारंग, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	7.3.83
364	बालेश्वर चौधरी, पुत्र स्व. श्री राम बियास चौधरी	जेवीसी /062 /08	टूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, सारीकेला, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 81	08.01.59
365	बालेश्वर प्रसाद निराला, पुत्र स्व. श्री नेवालाल सिंह	जेवीसी /218 /08	टी.वी.ओ., झिंकपानी, चाईबासा, पश्चिमी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /96	02.07.73
366	बालेश्वरी कुर्मी, पुत्री श्री जे.एल. कुर्मी	एमपीएसवीसी /2581/09	वायरलैस पुलिस लाइन्स क्वार्टर्स, सागर, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	21.8.84
367	बलमुकुंद कुमार, पुत्र स्व. श्री शिव शरन प्रसाद सिंह	जेवीसी /459 /09	बी.ए.एच.ओ., पेटेरवार बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 96	01.07.73
368	बालमुकुंद प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बासुदेव नारायण	जेवीसी /235 /08	बी.ए.एच.ओ., धनवर, गिरडीह, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /86	03.09.58
369	बालमुकुंद प्रसाद, पुत्र श्री अवध प्रसाद	जेवीसी /388 /08	बी.ए.एच.ओ., किसको, लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /91	05.12.64
370	बलराम गुर्जर, पुत्र श्री छाटो लाल गुर्जर	राजएसवीसी / 3578/08	ग्राम—हरनावडा जागीर, डाक— डोलम, थाना— डिपाबारोद, बारान, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /08	30.7.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
371	बालू जॉन, पुत्र श्री सी.जे. जॉन	केरलएसवीसी / 3336 / 08	चेन्नॉथु हाउस, नेदुमकन्नम डाक, चंगनाचेरी वाया, कोट्टायम 686542, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	11.7.83
372	बनानी मंडल, पुत्री श्री तुषार कांति मंडल	जेवीसी / 445 / 08	कुरियम, नागरी, जमतारा— 815359, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 08	27.05.83
373	बंधानू ओरांव, पुत्र श्री भैरव ओरांव	जेवीसी / 578 / 09	पोकटा, कुमहारी, बसिया, गुमला, पिन— 835229, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 01	04.05.75
374	बनसोड़ स्नेहल मुरलीधर राव	महाएसवीसी / 8017 / 08	ए/पी— मोहपा, तालुक— कलमेश्वर, महाराष्ट्र, जिला— नागपुर— 441502	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	31.05.84
375	बापू पारसनल्ली, पुत्र श्री बासवंतरे पारसनल्ली	हरिएसवीसी / 2027	1158, अर्बन एस्टेट, हिसार, हरियाणा	बीवीएससी / यू एएस बंगलौर / 88	1.6.62
376	बराद मानसिंह राजाभाई	गुजएसवीसी / 2896 / 08	टीओ— वेरावल, टैगोर नगर— 2, बाभोर रोड, वेरावल— 362266, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	14.6.86
377	बरगजे राजीव बालकृष्ण	महाएसवीसी / 7931 / 08	साई धाम अपार्टमेंट, 205, बी— विंग, चिकनघर, तालुक— कल्याण, जिला— थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	31.12.84
378	बसंत कुमार, पुत्र श्री संत कुमार सिंह	जेवीसी / 409 / 08	कनके ब्लॉक अरसनडे, आरवीसी, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / सीएसयू एएंडटी / 04	20.12.77
379	बसंतराव पाटिल, पुत्र श्री राम जीत	यूपीएसवीसी / 4793 / 08	ग्राम— हरदी, डाक— लालपुर, जिला— फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डी-डीयूपीसीवी वी / 08	20.7.81
380	बसंती ज्योत्सना, पुत्री श्री श्रीकांत	बीवीसी / 2834 / 07	ग्राम— दशरथपुर, डाक— पावापुरी, थाना— गिरियक, सब—डिवीजन— राजगीर, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 05	16.4.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
381	बास्कर पट्टना शेट्टी, पुत्र श्री रामाचंद्र	कर्नाएसवीसी / 4202 / 08	इंदिरा नगर, मुद्देबिहाल— 586212, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीएए फएसयू / 08	1.1.82
382	बसुमातरी पनजीत, पुत्र श्री मलिन्द्र नाथ बसुमातरी	एएसएम / 240 4 / 08	ग्राम— टकतारू, डाक— बनारगांव, जिला— कोकराझार—783347, असम	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	13.12.82
383	बेनजीर लोने, पुत्री श्री अब्दुल अजीज लोने	पीबीएसवीसी / 2848 / 08	म.न. 126, बसंत विहार, जावाडी, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / पीएयू / 01	1.11.71
384	बीना बिष्ट, पुत्री श्री शोभन सिंह बिष्ट	यूवीसी / 367 / 08	म.न. 159, जारोरी बाज़ा, रानीखेत, जिला— अलमोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / जीबीपी यूएण्डटी / 08	30.9.81
385	बेगम सफीद सुल्ताना, पुत्री मौ. सिराजुद्दीन	एएसएम / 2397 / 08	क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने, जेईसी रोड, शकरपुर, गोरमुम, जोरहाट, असम	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	11.10.84
386	बेगम यास्मीन, पुत्र श्री राजा अली	एएसएम / 2380 / 08	शहर— तिनकुनिया, पोलोग्राउंड, थाना डिब्रूगढ़, जिला— डिब्रूगढ़, असम	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	22.12.84
387	बेंडाले किरन राजाराम	महाएसवीसी / 8062 / 08	हरिओम बिल्डिंग, कमरा न. 12, रेती बंदर रोड, कलहेर, तालुक भिवंडी, जिला थाणे— 421302	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	10.06.86
388	भभन शंकर बेहेड़ा, पुत्र श्री भ्रमरबर बेहेड़ा	उड़ीसाएसवी सी / 2255 / 08	एटी: कोराटपांगा, डाक— बटानई, कुनांगे, जिला— केंडगवाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूएए डटी / 08	10.1.85
389	भगत सारिका भीमराव,	महाएसवीसी / 8111 / 08	क्वा.न. , ब्लॉक न. 9, जिला परिषद् क्वार्टर, जिला— हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	03.05.86
390	भाग्य बी.के., पुत्री श्री कृष्णामूर्ति बी. एच.	कर्नाएसवीसी / 4151 / 08	श्रीराम रोड, कोटे, होसदुर्ग डाक— 577527, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीएए फएसयू / 08	14.12.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अईताएं	जन्मतिथि
391	भालेराव अश्विन कुमार दाजीबा	महाएसवीसी / 8068 / 08	"अश्विदा", 42-बी, शास्त्री नगर, महाराष्ट्र न्युनिसिपल कॉलोनी के सामने, तालुक व जिला-जलगांव 425002	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	04.06.85
392	भालेराव दीप्ति राजीव	महाएसवीसी / 8089 / 08	13, स्वास्ति श्री सोसायटी, विक्रम बंगलो, गणेश नगर, पुणे- 411052	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	26.06.86
393	भांडेरी अमित कुमार गणेश भाई	गुजएसवीसी / 2897 / 08	"बजरंग" कृपा, धरोल लाटीपुर- हाइवे, एटी एवं डाक- लाटीपुर- 361220, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	10.9.86
394	भंगाले गजेंद्र नामदेव	महाएसवीसी / 7762 / 07	चैतन्य वाडी, मलिकापुर, जिला- बुलदाना- 443101, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	7.5.84
395	भानु गौड़, पुत्र श्री रमेश चंदर शर्मा	राजएसवीसी / 3525 / 08	11-ए, शिव शक्ति इंस्ट्रियल एरिया, बीकानेर - 334001, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 08	19.1.83
396	भानु प्रताप सिंह राज, पुत्र श्री नंद राम राजपूत	यूपीएसवीसी / 4834 / 08	मौहल बुधौलिया, थाना- रथ, जिला- हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	15.2.84
397	भानु प्रताप सिंह ठाकुर, पुत्र श्री मनोहर ठाकुर	एचपीएसवीसी / 855 / 08	ग्राम एवं डाक- जहाल, थाना- चघियोट, जिला- मंडी, हि.प्र.- 178039	बीवीएससी एवं एएच / सीएसके केवीवी / 08	16.4.82
398	भवंर सिंह, पुत्र स्व. श्री राम सिंह	यूवीसी / 357 / 08	109, इंदिरा भगर कॉलोनी, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / आगरा विधि / 63	1.1.41
399	भरत लाल शर्मा, पुत्र श्री जे.पी. शर्मा	एमपीएसवीसी / 2555 / 08	ग्राम- सिकरौडा, जिला- मोरना- 476002, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके बीवी / 08	5.7.83
400	भरत दत्त डॉडियाल, पुत्र श्री भवानी दत्त डॉडियाल	यूवीसी / 366 / 08	26, शक्ति विहार, फेज- II, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 94	24.11.88

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
401	भारत महतो, पुत्र श्री हरे कृष्ण महतो	जेवीसी / 407 / 08	लोवाहातू, सोनाहातू, बुंदू रांची- 835204, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 01	21.12.74
402	भरत साहू, पुत्र श्री हीरालाल साहू	जेवीसी / 330 / 08	बाघीमा, पलकोट, गुमला- 835207, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 88	28.01.61
403	भारत सुमन शर्मा, पुत्र श्री गणेश शंकर शर्मा	एमपीएसवीसी / 2511 / 08	15-बी/2, सेनशाह गार्डन, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससी एवं एच/जेएनके वीवी/85	26.1.64
404	भारतेंदु प्रसाद, पुत्र श्री श्रीराम	जेवीसी / 524 / 09	रोड न. 1 बी, बसंत बिहार, रांची- 834012, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 82	06.11.57
405	भाटलेकर पृथ्वीराज विलास	महाएसवीसी/ 8099 / 08	प्रथमेश अपार्टमेंट, 401, गवंद पथ, नौपदा, जिला- थाणे- 400602	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू/08	25.11.81
406	भट्टाचारज्य रूपम, पुत्र श्री अबनी कुमार भट्टाचारज्या	एसएम/241 2/08	म.न. 205, ग्राम- बरकुरा, जिला- नलबारी, असम	बीवीएससी एवं एच/एसयू/ 08	5.2.83
407	भावना सिंह, पुत्री कर्नल हरेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी/ 4729 / 08	5/17-बी, नागला बरोला, बाई पास रोड, अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/आईजी केवीवी/08	20.5.84
408	भीम प्रसाद, पुत्र श्री लीलो महतो	जेवीसी / 581 / 09	भलुआ, सारंदा, बिरनी, गिरडीह, पिन- 825318, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 01	07.04.75
409	भिसे धीरज वामनराव	महाएसवीसी/ 7987 / 08	स्वास्तिक गैस गोदाम के सामने, नारायण नगर, तालुक एवं जिला- लातूर- 413512	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू/08	4.2.85
410	भिसे वृशाली प्रकाशराव	महाएसवीसी/ 7982 / 08	द्वारा सौ. प्रमिला प्रकाशराव भिसे के सामने, डाक- जठारपेट, जिला- अकोला	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू/08	27.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
411	भोमा राम, पुत्र श्री करमी राम	राजएसवीसी / 3497 / 08	ग्राम— वानु की धानी, डाक— थबाओ, थाना— बिनमाल, जालोर— 343029, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 08	22.7.76
412	भूप कुमार लाकेसर, पुत्र श्री शियोचंद राम लाकेसर	राजएसवीसी / 3514 / 08	द्वारा चेतन राम टाक, वार्ड न. 6, एयरटेल टावर के निकट, श्री विजय नगर— 335704, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 06	10.6.78
413	भूप सिंह, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 2085	# 804, अशोक विहार, आजाद नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	19.12.83
414	भोसले अनिल बालकृष्णा	महाएसवीसी / 7872 / 07	ए / पी अपशिंगे, तालुक कोरेगांव, जिला— सतारा— 415511, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	12.7.84
415	भोसले राजेंद्र अशोक	महाएसवीसी / 7791 / 07	एटी— राजावड, बीजावाडी, तालुक महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	4.3.84
416	भोसले सचिन सम्पत	महाएसवीसी / 7769 / 07	ओम श्री गणेश कोऑप. हाउसिंग सोसायटी, सी-7, 2-10, सेक्टर-23, जुइंग, नवी मुम्बई, थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	9.12.84
417	भूपेंद्र कुमार पचारिया, पुत्र श्री एल.आर. पचारिया	एमपीएसवीसी / 2552 / 08	कोलुआ गली, बेनीपुरा, सबलगढ़, जिला— मोरेना, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 08	1.1.83
418	भूपिंदर सिंह जावंडा, पुत्र श्री जी.एस. जावंडा	पीबीएसवीसी / 1607 / 08	239—जी, बीआरएस नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच / पीएयू / 88	18.1.64
419	भूषण कुमार साहू, पुत्र श्री मेघनाथ साहू	सीजीएसवीसी / 372 / 08	एम-128, दीपिका कॉलोनी, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 06.07	11.8.81
420	भूषण प्रसाद साहू, पुत्र श्री भरत प्रसाद साहू	सीजीएसवीसी / 446 / 09	ग्राम एवं डाक— बरेली, जिला— रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 07.08	9.3.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
421	भूषण प्रसाद, स्व. पुत्र स्व. डॉ. बंशी प्रसाद	जेवीसी / 052 / 08	कनिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल, चुटिया, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 91	01.04.63
422	भूषण सिंह गुरुपंचयान, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह गुरुपंचयान	सीजीएसवीसी / 369 / 08	नयापदा वार्ड, गोकुल नगर, धमतई, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केबीवी / 08.07	24.4.56
423	बिभुश्री जेना, पुत्री श्री बिजय कुमार जेना	उड़ीसाएसवीसी / 2241 / 08	प्लॉट न. 15, मधु सूदन गढ़, यूनिट-4, भबस्सर- 751001, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूएफ डटी / 08	26.6.84
424	बिभूति रंजन, पुत्र डॉ. कैलाश प्रसाद	बीवीसी / 2942 / 08	ग्राम- बाटा कॉलोनी, हतीदा, डाक एवं थाना- हतीदा, सब-डिवीज़न- बड़, पटना- 803301	बीवीएससी एवं एएच / एमएएंड एफएसयू / 07	11.7.81
425	बिद्या सागर सिंह, पुत्र स्व. श्री परमेश्वरप्रसाद सिंह	जेवीसी / 552 / 09	टीवीओ गोमिया, बोकारो, सरकारी कॉलोनी, गोमिया, आई.ई. गोमिया, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 92	05.12.66
426	बिजारगी श्रीहर्ष रामेश्वर	महाएसवीसी / 7738 / 07	489, साखर पेठ, सोलापुर- 413005, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	3.1.85
427	बिर्जोयं कुमार मिश्रा, पुत्र स्व. श्री बालगोविंद मिश्रा	जेवीसी / 122 / 08	सब-डिवीज़न- पशुपालन अधिकारी, चास, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 76	15.09.53
428	बीजू प्रसाद एम., पुत्र श्री वी.के. मनियन	केरलएसवीसी / 3320 / 08	नेल्लीकोडे कालम, नेल्ली कोडे, तट्टामंगलम डाक, पलक्कड- 678102, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू/ 08	27.9.83
429	बिमल कुमार हेमब्राम, पुत्र स्व. श्री सीदम चंद्र हेमब्राम	जेवीसी / 236 / 08	कानिमोहुली, बेंड, चाकुलिया, घाटशिला, पूर्वी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 88	04.10.60

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
430	बिमल कुमार, पुत्र श्री राम विलाश प्रसाद	बीवीसी / 2799 / 06	ग्राम एवं डाक— दियावा, थाना— कराईपेरसुराई, सब—डिवीजन— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससी एवं एच / एमएएंड एफएसयू / 06	5.2.83
431	बिनाका हिरानी जगदीश भाई	गुजएसवीसी / 2905 / 08	अनुकूल चेम्बर, ब्लॉक न. 306, गुंजन, एन.एच. न.-8, जीआईडीसी, वापी, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	19.3.86
432	बिनारी कुमार प्रसाद, पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद	बीवीसी / 2810 / 06	ग्राम एवं डाक— कुचईकोट, थाना— कुचईकोट, सब—डिवीजन— गोपालगंज, जिला— गोपालगंज, बिहार	बीवीएससी एवं एच / ओयूएए डटी / 06	29.11.77
433	बिनय कुमार, पुत्र श्री पान चंद प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2801 / 06	ग्राम एवं डाक— औरलाहा, थाना— बेरहाराकोठी, सब—डिवीजन धमदाहा, जिला— पूर्णिया, बिहार	बीवीएससी एवं एच / एमएएंड एफएसयू / 06	5.11.76
434	बिंध्या ए.जी., पुत्री श्री बालाकृष्णा पिल्लै	केरलएसवीसी / 3343 / 08	आनंद सदन, कुरा—कुरा डाक, वया— चेंगामनाडु, कोल्लम— 691557, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू / 08	8.12.80
435	बिनीश सी. विजय, पुत्र श्री सी.के. विजयन	केरलएसवीसी / 3396 / 09	“चिरायिल”, चंदाकुन्नूर डाक, नीलाम्बूर, मलप्पुरम— 679342, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू / 09	27.5.83
436	बिंगेवर बालाजी शामराव	महाएसवीसी / 7960 / 08	ए / पी— धानोरा, (के.डी.), तालुक धर्माबाद, महाराष्ट्र, जिला— नांदेड	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	11.06.84
437	बिनिता कुमारी, पत्नी श्री अरुण कुमार राय	जेवीसी / 321 / 08	द्वारा बी. कुमार, प्लॉट न. 119, लोहांचल, बियाडा, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 94	08.12.67
438	बिनोद कुमार, पुत्र स्व. श्री राम जीवन सिंह	जेवीसी / 107 / 08	खंड पशुपालन अधिकारी, धुरकी नगर, उटारी, गढ़वा, झारखंड	बीवीएससी एवं एच / बीएयू / 93	09.09.66
439	बिनसिला बी. कृष्णन, पुत्री श्री बी. बालाकृष्णन	केरलएसवीसी / 3439 / 09	श्रीवालसम, “कुलियिल” डाक— अठोली, कालीकट— 673315, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू / 09	26.10.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
440	बिपिन बिहारी महता, पुत्र स्व. श्री गौरी शंकर महता	जेवीसी / 201 / 08	बरमासिया, बेओघर, पिन— 814112, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 92	12.03.67
441	बिपिन खाल्खो, पुत्र श्रीजाफरिन खाल्खो	जेवीसी / 183 / 08	पुराना लोआडीह, नामकुम, रांची— 834010, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 90	28.10.65
442	बिपिन कुमार, पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2863 / 07	ग्राम एवं डाक— पनसाल्वा, थाना— बेलदौर, सब—डिवीजन —गोगरी जमालपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	5.2.78
443	बिपिन कुमार साह, पुत्र श्री जगदीश साह	बीवीसी / 2862 / 07	ग्राम एवं डाक— उदाकिशन गंज, जिला— माधेपुर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 07	30.12.78
444	बिपिन कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री शिव नंदन प्रसाद	जेवीसी / 403 / 08	टीवीओ, चंदन कियारी, चास, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू/ 83	01.07.58
445	बिरादर भास्कर प्रह्लादराव	महाएसवीसी / 7950 / 08	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, अहमदपुर, जिला— लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	23.05.84
446	बिरादर सूर्यकांत मारुतिराव	महाएसवीसी / 7902 / 07	सूर्यकुंज, सोनया मारुति मंदिर के पीछे, विकास नगर, देगलूर रोड, उदगीर, जिला— लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	2.11.84
447	बिराजदार विष्णु नानासाहेब	महाएसवीसी / 7849 / 07	ए / पी— चिंचोडी, (वाया— औराद एसएच), तालुक— नीलौगा, जिला— लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	18.1.84
448	बीरेंद्र किशोर, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद सिंह	जेवीसी / 143 / 08	पतवार टोला, बाडी कोडारजन्ना, साहिब गंज— 816109, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 06	29.10.82
449	बीरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्र श्री तुलसी राम	बीवीसी / 2927 / 08	ग्राम— जतुआ, डाक— नैनी, थाना— मुफ्फसिल, सब— डिवीजन— सदर छपरा— 841301, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / सीएसए यूएएडटी / 07	2.7.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं -	जन्मतिथि
450	बीरेंद्र कुमार राकेश, पुत्र श्रीराम भूलाल राम	बीवीसी / 2756 / 06	ग्राम— शीवान, डाक— धनेज, थाना— करगाहार, सब—डिवीज़न जिला— रोहतास, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू / 06	6.2.82
451	बीरेंद्र कुमार रॉय, पुत्र स्व. श्री रामधनी रॉय	जेवीसी / 358 / 08	प्राफे. एवं अध्यक्ष, डिपा. ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, आरवीसी कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू / 77	17.01.54
452	बीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद	जेवीसी / 211 / 08	टी.वी.ओ., केरेदारी, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 91	01.01.63
453	बीरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री धरम देव सिंह	जेवीसी / 232 / 08	सेक्टर—4, क्वा.न. 2007, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो— 827004, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू / 75	08.08.52
454	बीरेंद्र कुमार तिवारी, पुत्र स्व. श्री अबधूत तिवारी	जेवीसी / 364 / 08	युनि. प्रोफे., डिपार्ट. ऑफ माइक्रोबायलॉजी, आरवीसी कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/मगध विवि/ 66	06.08.47
455	बीरेंद्र पंडा, पुत्र श्री बिजय च. पंडा	उड़ीसाएसवीसी / 2245 / 08	बैकुंठ नगर, पहली लेन, बरहामपुर, जिला— गंजम— 760001, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच/ओयूए एंडटी/ 08	17.6.83
456	बिरजू लिंडा, पुत्र श्री मीना ओरांव (लिंडा)	जेवीसी / 588 / 09	नयासराय, सापारोम (पिसका नगरी), तादू, रांची— 835303, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 88	13.05.63
457	बिष्णुशरन महतो, पुत्र श्री ज्योति लाल महतो	जेवीसी / 469 / 09	पलानी, बलियापुर, धनबाद— 826001, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 94	01.01.69
458	बिष्णु प्रिया प्रधान, पुत्री स्व. श्री दादका प्रधान	उड़ीसाएसवीसी / 2252 / 08	द्वारा त्रिनाथ प्रधान, एटी/ डाक— पी एंड टी कॉलोनी, कल्याणी नगर, जिला— कटक— 753013, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच/ओयूए एंडटी/ 08	14.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
459	बिश्वेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री महेश्वर प्रसाद	जेवीसी / 475 / 09	अनुसंधान अधिकारी (पशु पोषण), सरकारी क्वा.न. ए/2, पक्का दोरनाडा, रांची— 834002, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /72	12.11.48
460	बिस्वास अर्नब, पुत्र श्री अनुतोष बिस्वास	एएसएम/ 2417 / 08	6 एनक्यू—केपी—9/1, जीई, ए/एफ, तेजपुर, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	24.8.85
461	बोकन अभय मोहनराव	महाएसवीसी/ 8028 / 08	एटी लालवाडी (फत्तेपुर), हनुमान मंदिर के सामने, डाक वाजेगांव, शिकारघाट रोड, तालुक नांडेड, जिला नांडेड	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/08	08.02.84
462	बोरा सुब्बालक्ष्मी, पुत्र श्री राजेंद्र नाथ बोरा	एएसएम/ 2396 / 08	ग्राम— पोकामुरा, कल्याणपुर गांव, डाक— चलीहा, जिला — जोरहाट—785007, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	16.4.83
463	बोराह पिकू, पुत्र श्री खिरोड च. बोराह	एएसएम/ 2410 / 08	स्टेशन रोड के निकट, बीएक्स—15, दुलियाजान, जिला— डिब्रूगढ़, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	2.11.83
464	बोरघारे अंजलि तुकाराम	महाएसवीसी/ 7980 / 08	टाकिया वार्ड, शांति नगर, महाराष्ट्र, जिला भंडारा	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/08	30.07.86
465	बोरगोहेन बाबुल, पुत्र स्व. श्री तिथेश्वर बोरगोहेन	एएसएम/ 2372 / 08	ग्राम— बोंगलमारी, डाक— हाटीखुला, जिला— धीमाजी, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	13.2.84
466	बोरुआ तपश्री, पुत्र श्री जोगेन कुमार बोरुआ	एएसएम/ 2408 / 08	सिंडरेला होस्टल, बाई लेन न. —3, तरुण नगर, गुवाहाटी, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	26.11.84
467	ब्रह्म पाल सिंह, पुत्र श्री अतर सिंह	यूवीसी / 445 / 09	न्यू कॉलोनी, कालागढ़, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/सीएसए केईपीवीवी / 97	3.6.68
468	ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद यादव	जेवीसी / 118 / 08	पुलिस लाइन, हीरापुर, धनबाद, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 83	06.01.57

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
469	ब्रज किशोर, पुत्र श्री नंद लाल	यूपीएसवीसी/ 4810/08	ग्राम— नागला ब्राह्मिन, डाक— डाबली, जिला— आगरा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/सीएसए यूएण्डटी/08	10.7.82
470	ब्रजेश कुमार टिकारा, पुत्र श्री एम. पी. टिकरिया	यूपीएसवीसी/ 4873/08	356, फिटवारी गंज, जिला— झांसी, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/07	30.3.81
471	ब्रजेश कुमार झा, पुत्र श्री नरेश चंद्र झा	बीवीसी/2893 /07	ग्राम— नानपुर ब्राह्मण टोला, डाक— नानपुर, सब— डिवीजन —पुपरी, जिला— सीतामढ़ी— 843333, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 06	10.1.80
472	ब्रजेश कुमार, पुत्र श्री सूर्य कुमार यादव	जेवीसी/417 /08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, मधुपुर, देवघर, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 01	26.12.74
473	ब्रजेश कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहा	जेवीसी/043 /08	ब्लॉक पशु मालन अधिकारी, मांडु, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /92	15.07.68
474	ब्रजेश सिंह, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा	जेवीसी/494 /09	अम्बेडकर नगर, हरहरगुट्टू, बागबेरा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंधभूम— 831002	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 91	02.01.65
475	ब्रज नंदन सिंह, पुत्र स्व. श्री यमुना प्र. सिंह	जेवीसी/179 /08	बी.ए.एच.ओ., तमार, बुंदु, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /93	02.05.61
476	बृज मोहन यादव, पुत्र श्री बी.एस. यादव	हरिएसवीसी/ 2047	ग्राम एवं डाक— मोलाहेरे, जिला— गुड़गांव, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच/सीसीए सएचएयू/08	7.12.83
477	बृजेश कुमार ओझा, पुत्र श्री जे.एन. ओझा	यूपीएसवीसी/ 4728/08	ग्राम— ओझावाली, थाना— गोले, जिला— गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/07	23.3.91
478	बृजेश कुमार, पुत्र श्री राज नारायण यादव	यूपीएसवीसी/ 4747/08	ग्राम— छतरिया (विष्णुपुरा), थाना— सैदपुर, गाजीपुर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 08	10.9.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
479	बुधदेव नाग, पुत्र श्री बाबूलाल बैठा	जेवीसी / 248 / 08	लारी रामगढ, हजारीबाग— 829150, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 05	02.10.78
480	बुट्टे श्रीकांत वसंत राव	महाएसवीसी / 7937 / 08	जयवंत नगर, अम्बेजोगई, जिला— बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएयू / 82	23.1.61
481	बैजू के., पुत्र श्री ए. खालिद	केरलएसवीसी / 3476 / 09	खालिद निवास, पीएचसी के निकट, विलापिलसाला डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	18.2.85
482	सी.लालरेम रुआता, पुत्र श्री सी. रोडिंगा	मिजएसवीसी / 175 / 09	रामहलुन, वेंगलई, म.न.— 19, मिजोरम	बीवीएससी एवं एएच / सीएयू / 08	20.9.83
483	सी. एलेक्स जीवा दास, पुत्र श्री आर. क्रिस्टूदास	टीएनएसवीसी / 4140 / 08	12, देवसहायम स्ट्रीट, नगरकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	15.1.64
484	सी. अरिवुसेलम, पुत्र श्री टी. चंद्रशेखर	टीएनएसवीसी / 4152 / 08	1—285, रसालमपट्टी, मोरापुर, हरूर तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस / 06	14.3.83
485	सी. डाफने प्रेमा, पुत्र श्री ए. मुथुसामी	टीएनएसवीसी / 4126 / 08	34, ग्रे टाउन, कोयम्बतूर— 641018, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस / 91	20.4.68
486	सी. इलांगोवन, पुत्र श्री सी. चेलइयाह	टीएनएसवीसी / 4092 / 08	8, मिडल स्ट्रीट, गोरीपलायम, मदुरै—2, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 75	20.10.46
487	सी.के. पांडे, पुत्र श्री राम सुंदर पांडे	सीजीएसवीसी / 426 / 08	नए चर्च के निकट, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 78.79	3.6.56
488	सी. कलईसेल्वी, पुत्र श्री एस. चिन्नुसामी	टीएनएसवीसी / 4334 / 08	6 / 1077, ई.बी. कॉलोनी, परमथी रोड, नमक्कल— 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच / टीएन यूवीएएस / 08	17.6.85
489	सी. कुमारेसन, पुत्र श्री बी. चिन्नप्पायन	टीएनएसवीसी / 4141 / 08	275, टी.वी.के. नगर, रूर, धर्मापुरी— 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 70	2.2.44

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
490	सी. मुरली नाथन, पुत्र श्री सी. चिन्ना राजू	टीएनएसवीसी /4339/08	40, विवेकानंदेर स्ट्रीट, अरुमबावूर, प्रियम्बलूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	26.6.85
491	सी.एन. अन्ना दुरई, पुत्र श्री आर.सी. नादीमुथु	टीएनएसवीसी /4228/08	66 (पुराना न. 101-बी), ब्लॉक-1, सेरुवाविदुथी उत्तर, डाक- पट्टूकोट्टई तालुक, थंजावुर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	19.5.85
492	सी. नागराजन, पुत्र श्री के. चिन्नापोथी	टीएनएसवीसी /4230/08	कॉलोनी स्ट्रीट, गोडालूर डाक, शिवागिरि तालुक, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	10.5.85
493	सी. प्रकाश, पुत्र श्री पी. चिदाम्बरम	टीएनएसवीसी /4182/08	अधियप्पा गौंडेर वालासू मुन्नूर डाक, के. परमथी, वाया- करूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	5.6.85
494	सी. प्रवीन कुमार, पुत्र श्री सी. सुब्बाराजू	एपीएसवीसी/ 4688/08	डी.न. 2/274-ए, कृष्णा नगर, टी. सुंडुपल्ली (ग्राम, डाक एवं मौ.), कडपा जिला- 516130, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	20.6.77
495	सी. प्रवीन कुमार, पुत्र श्री एस. चिदाम्बरम	टीएनएसवीसी /4183/08	65-1, अरसामारा स्ट्रीट, सेदुवलई ग्राम व डाक, वेल्लूर तालुक जिला तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	25.12.85
496	सी.आर. पांडु रंगन, पुत्र श्री सी.के. रामासामी चेटियार	टीएनएसवीसी /4408/09	आर ब्लॉक न. 63-ए, कोवईपुडुर, कोयम्बतूर- 641042, तमिलनाडु	बीवीएससी/के एयू/67	20.4.40
497	सी. रामा कृष्णन, पुत्र श्री के. चंद्रसेखर	टीएनएसवीसी /4262/08	3/95 (पुराना न. 3/83), वरुलमपट्टी, पनियादिपट्टी, डाक- सिवाकासी तालुक, विरुधुनगर - 626127, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	19.4.85
498	सी. रामा राव, पुत्र श्री सी.वी. सुबइयाह	एपीएसवीसी/ 4764/08	डी.न. 6/80, ब्राह्मण स्ट्रीट, पोरुमामिला, कडपा जिला- 516193, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	31.8.85
499	सी.एस. रमेश, पुत्र श्री सन्नाकमन्ना	कर्नाएसवीसी/ 4220/09	चिक्कनायकानाहल्ली- 572151, सिरा तालुक, तुमकूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यू एसबंगलौर/ 92	5.9.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
500	सी. सुरेश, पुत्र श्री पी. चिन्नाथम्बी	टीएनएसवीसी / 4175/08	कारूक्काकुरिची डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/टीएएन यूवीएएस/08	13.1.84
501	सी. स्वाति रेड्डी, पुत्री श्री सी.एम. पापी रेड्डी	एपीएसवीसी / 4778/08	म.न. 1/1, नागीरेड्डीपल्ली (डाक), बुग्गलापल्लै (ग्राम), चिंताकोम्मा, दिन्ने (एम), कडपा जिला, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	30.9.83
502	सी. विनय श्री, पुत्री श्री सी. यादगिरि राव	एपीएसवीसी / 4745/08	म.न. 6-3-931, सोमाजीगुडा, राजभवन रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	31.5.85
503	सी. यामिनी, पुत्री श्री सी. सिवा रामा प्रसाद	एपीएसवीसी / 4794/08	प्लॉट न. 625, एचएमटी हिल्स, जेएनटीयू के सामने, कुकाटपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	3.6.85
504	च. रामेश्वर राव, पुत्र श्री च. कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4723/08	नेल्लोर कोट्टई (ग्राम), सिवापुरम (डाक), मैदुकुर (एम), कडपा जिला- 516172, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	3.7.82
505	च. अजय वीर रेड्डी, पुत्र श्री च. वेंकट रेड्डी	एपीएसवीसी / 4754/08	म.न. ईई/28, पाइलोन कॉलोनी, नागार्जुन सागर, नालगोंडा, जिला आं.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	25.7.82
506	च. बाबू, पुत्र श्री च. सथइयाह	एपीएसवीसी / 4759/08	दिरसिन चेरला (ग्राम एवं डाक), नेरदूचेरला (एम), नालगोंडा जिला, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	4.3.79
507	च. रजीथा, पुत्री श्री च. रामुलु	एपीएसवीसी / 4736/08	म.न. 1-1-188/बी, गवर्न. जूनियर कॉलेज के सामने, सूर्यापेट, जे.जे. नगर, नालगोंडा जिला	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	28.11.83
508	च. वी. भानु पूर्णिमा, पुत्री श्री च. सीथन्ना	एपीएसवीसी / 4774/08	राज स्ट्रीट, टगारापुवालसा, विशाखापट्टणम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एएच/एसवीवी यू/08	12.8.85
509	चहर जय प्रकाश निरंजन सिंह	गुजएसवीसी / 2898/08	पुराना-ए/3, स्टाफ क्वा., कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, आनंद, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/08	10.3.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
510	चक्रबोर्ती अरिदम, पुत्र श्री ए.के. चक्रबोर्ती	एएसएम/ 2389/08	सांतिपारा, डाक— लुमडिंग, जिला— नागांव, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	3.12.84
511	चमनवाली बी., पुत्र श्री बाशासाब बी.	कर्नाएसवीसी/ 4172/08	बांगेर स्ट्रीट, 8वां वार्ड, हरप्पनहल्ली— 583131, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीएए फएसयू/08	1.7.85
512	चंचल सिंह, पुत्र श्री मान सिंह	पीबीएसवीसी/ 2846/08	32, सतगुरु नगर, वरका मिल्क प्लांट के सामने, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच/डब्ल्यूबी यूएंडएफएसयू /01	5.8.77
513	चंदन गोबिंद देब, पुत्र श्री कमल गोबिंद देब	जेवीसी/525 /09	श्री कमल गोबिंद देब, 5, परमार्थ नगर, मेन रोड, टाटा नगर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंधभूम — 831002, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 93	17.01.68
514	चंदन कुमार, पुत्र श्री महेंद्र मंडल	जेवीसी/297 /08	घाघरी, रौंधिया, सरियाहाट, दुमका— 814151, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 08	01.03.79
515	चंदन सिंह बाथम, पुत्र श्री सीता राम बाथम	एमपीएसवीसी /2527/08	भल्ला गारमेंट्स, नरेंद्र नगर, शिवपुरी, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	23.5.70
516	चंदना टी., पुत्री श्री थिम्मइयाह एम.	कर्नाएसवीसी/ 4142/08	द्वारा बलइयाह, बासवेश्वर रोड, मगदी— 562120, रामनगरम जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीए एफएसयू/08	18.1.86
517	चंदने पदमाकर आगताराव	महाएसवीसी/ 7928/08	द्वारा चंदने ए.एम., संत गरोबा काका नगर, संजा रोड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	14.5.84
518	चंदर शेखर, पुत्र श्री एम.सी. शर्मा	एचपीएसवीसी /839/08	सरस्वती निवास डाक, नया शिमला, डीएवी स्कूल के निकट, शिमला, हि.प्र.— 171009	बीवीएससी एवं एएच/सीएसके केवीवी/08	18.3.81
519	चंद्र भूषण सिंह, पुत्र स्व. श्री यदुनंदन सिंह	जेवीसी/387 /08	टी.वी.ओ., सतगावन, कोडर्मा, पिन— 805132, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरएयू /81	11.05.58

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
520	चंद्र देव प्रसाद, पुत्र श्री राम किश्वर सिंह	जेवीसी/083 /08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, दोमाचांच, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 82	14.03.57
521	चंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री बंशी सिंह	जेवीसी/389 /08	दीपाटोली न्यू नगर, बंधगारी, आर.एम.सी.एच., बरियातु-9, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच /एमयू/64	08.08.41
522	चंद्र मनि प्रसाद, पुत्र स्व. श्री लाला प्रसाद	जेवीसी/362 /08	प्रोफे. एवं विभागाध्यक्ष, एलपीएम, आरवीसी कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आरयू/ 70	01.12.46
523	चंद्र मोहन शर्मा, पुत्र श्री नारद मुनि शर्मा	जेवीसी/219 /08	बी.ए.एच.ओ., गिरिडीह, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 89	01.03.61
524	चंद्र शेखर ओझा, पुत्र श्री ओ.पी. शर्मा	राजएसवीसी/ 3548/08	सी- 693, बलदेव नगर, मकड़वाली रोड, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच/एमएल एसयू/85	4.1.62
525	चंद्रभान सिंह चौहान, पुत्र स्व. श्री बनवारी सिंह चौहान	बीवीसी/2743 /06	ग्राम एवं डाक- जलहारा, थाना- रायपुर, सब- डिवीजन- बक्सर, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/सीएसए केईवीवी/01	22.8.75
526	चंद्र प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री सियाराम मिश्रा	सीजीएसवीसी /343/07	आर.ई.एस. कॉलोनी, भानु प्रताप पुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/केकेवी पी/08	10.6.75
527	चंद्र शेखर दूबे, पुत्र श्री सुरेश चंद दूबे	सीजीएसवीसी /422/08	मौह. एवं थाना- बालोद, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/04.05	1.7.79
528	चंद्रसेखरन के., पुत्र श्री एम.पी. कुन्हीकृष्णा वेरियर	केरलएसवीसी /3397/09	"ज्योतिष", विष्णुमंगलम डाक, कल्लव, कोजीकोड, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	26.1.71
529	चंद्र शेखर एच.एच., पुत्र श्री हीरनिथ्या एच.डी.	कर्नाएसवीसी/ 4103/08	हेट्टू- 573123, सकलेशपुरा तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीएए फएसयू/08	7.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
530	चंद्र शेखर आजाद, पुत्र श्री मोहन दास	बीवीसी / 2739 / 06	ग्राम—गोविंदपुर, डाक पुरैनी, थाना—जगदीशपुर, सब— डिवीजन— सदर भागलपुर, जिला— भागल पुर, बिहार	बीवीएससी एवं एच / एमएएंड एफएसयू / 05	10.2.81
531	चंद्र शेखर कुमार, पुत्र श्री हरि नारायण महतो	बीवीसी / 2782 / 06	ग्राम— किनवरचाक, डाक— महथी, थाना— बिभूतिपुर, सब— डिवीजन— रोसेरा, जिला— समस्तीपुर— 848211, बिहार	बीवीएससी एवं एच / डब्ल्यूबी यूएफएसयू / 06	11.9.78
532	चंद्र शेखर पटेल, पुत्र श्री खगेश्वर पटेल	सीजीएसवीसी / 410 / 08	मौह. एवं डाक— मुरा, वाया— भौपदेवपुर, जिला— रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एच / आईजी केवीवी / 06.07	29.9.77
533	चंद्र शेखर, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मंडल	बीवीसी / 2858 / 07	ग्राम— दहारा बिशनपुर, डाक— बिशनपुर, थाना— बरारी, सब—डिवीजन— कटिहर, बिहार	बीवीएससी एवं एच / आरएयू / 07	30.4.81
534	चपला अंकित चिममलाल	गुजएसवीसी / 2900 / 08	नारायण नगर, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, ब्लॉक— 302, केशोड, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	1.6.83
535	चरनजीत सिंह, पुत्र श्री सुखविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 2829 / 08	ग्राम एवं डाक— बीरो की कलां, जिला— मनसा, पंजाब	बीवीएससी एवं एच / जीएडी वीएएसयू / 08	26.10.80
536	चराते सोमनाथ सुरेश	महाएसवीसी / 7821 / 07	शंकर सदन, तेलगांव रोड, डोनागांव, तालुक / जिला— सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 07	5.3.84
537	चाटे अमर गंगाधर	महाएसवीसी / 8080 / 08	चाटे कॉलोनी, सेंट जनाबाई स्कूल के निकट, गंगाखेड, तालुक— गंगाखेड, जिला— परभनी— 431514	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	18.11.84
538	चतुर योगेश अगस्तिजी	महाएसवीसी / 7807 / 07	प्लॉट न. 438, नया सूबेदार लेआउट, नागपुर— 440024, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 07	22.10.82
539	चौधरी संजीवनी भीमराव	महाएसवीसी / 8002 / 08	प्लॉट न. 89, संजय नगर, नंदनवन, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	11.05.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
540	चौधरी प्रकाश रमेशभाई	गुजएसवीसी / 2899 / 08	प्लॉट न. 369 / 2, सेक्टर— 5—ए, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	7.12.85
541	चौधरी शैलेश मेघाजीभाई	गुजएसवीसी / 2901 / 08	एटी— सगथाला, तालुक— खेरालु, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	27.9.85
542	चौधरी वरुण कुमार नाथूभाई	गुजएसवीसी / 2902 / 08	133 / बी, मातृ स्मृति सोसायटी, उत्कर्ष स्कूल के पीछे, रेसकोर्स, बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	18.5.86
543	चौधरी यशवंत कुमार रमाभाई	गुजएसवीसी / 2949 / 08	डाक— बापूपुरा, तालुक— मनसा, जिला— गांधीनगर— 382545, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एसडीए यू / 08	11.12.85
544	चौधरी जिगर नानजीभाई	गुजएसवीसी / 2950 / 08	डाक— रुदा, तालुक— हरजी, जिला— पाटन— 384265, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एसडीए यू / 08	13.12.83
545	चौधरी प्रहलाद शंकर	गुजएसवीसी / 2890 / 08	नदिनी वेटरिनरी अस्पताल, सूरत, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / पीकेवी वी / 97	22.3.73
546	चौहान जयदीप सिंह जेमलजी	गुजएसवीसी / 2951 / 08	डाक— घोडियाल, तालुक— वडगाम, जिला— बी.के.— 385421, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एसडीए यू / 08	15.12.85
547	चवन अविनाश भानुदास	महाएसवीसी / 8044 / 08	जुलेवाडी रोड (वरची गली), येलावी, तालुक तासगांव, जिला— सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 08	23.03.86
548	चवन सम्भाजी गुलाब	महाएसवीसी / 7795 / 07	एटी— कुरुड, डाक— रालेगांव थेरपल, तालुक— पारनेर, जिला— अहमद नगर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच / एमएएफ एसयू / 07	24.1.83
549	चावडा जिग्नेश अरविंदभाई	गुजएसवीसी / 2903 / 08	14— द्वारका पुरी सहयोग सोसायटी, शशिकुंज के निकट, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससी एवं एच / एएयू / 08	15.9.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
550	चव्हाण पवन कुमार हीरामन	महाएसवीसी/ 7743/07	द्वारा एच.जी. चव्हाण, एटी— अमदारी, डाक— पलोडी, तालुक— मनोरा, जिला— वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/06	15.1.81.
551	चावरे विजय कुमार श्रीपति	महाएसवीसी/ 8006/08	एटी/डाक— ताले पिम्पलगांव, तालुक— पटोडा, महाराष्ट्र जिला बीड— 400058, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	23.05.83
552	चेतन, पुत्र श्री सत नारायण	पीबीएसवीसी/ 2670/09	222, स्ट्रीट न. 4, न्यू एसबीएस कॉलोनी, रामपुरा पुल, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससी एवं एएच/जीएडी वीएसयू/06	27.6.82
553	चेतन कुमार एच.बी. पुत्र श्री बासवराजप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4206/08	सांथेबेन्नूर रोड, तयांवनई— 577544, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच/केवीएए फएसयू/08	1.5.86
554	चेतना धपोला, पुत्री डॉ. त्रिलोक सिंह धपोला	यूवीसी/443 /09	वी.ओ.—वेटरिनरी हॉस्पिटल, रानीपोखरी, जिला— देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/जीबीपी यूएण्डटी/01	27.11.77
555	चेत्री अमित, पुत्र श्री दिल बहादुर चेत्री	एसएम/ 2388/08	चपाखोवा, सादिया, जिला— तिनसुखिया, असम	बीवीएससी एवं एएच/एसयू/ 08	10.6.83
556	चेत्री चत्रा बहादुर, पुत्र श्री दान बहादुर चेत्री	एसएम/ 2401/08	ग्राम एवं डाक— हवाईपुर, जिला— कारबी, अंगलॉग, असम	बीवीएससी एवं एएच/एसयू/ 07	21.11.83
557	छवि गुप्ता, पुत्री श्री अशोक कुमार गुप्ता	यूवीसी/380 /08	कुमाऊँ कन्फेक्शनरी स्टोर, कालाडुंगी रोड, चौराहा हलद्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/जीबीपी यूएण्डटी/08	14.2.85
558	चिखाले मीरा वेंकटराव	महाएसवीसी/ 7862/07	गोपाल निवास, विजय नगर, बिदर नाका, उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	1.6.83
559	चिंचु जोस, पुत्री श्री जोस जोसेफ	केरलएसवीसी /3359/08	अनीकुजिकटिटल हाउस, चेम्पेरी डाक, कन्नूर— 670632, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएसयू/ 08	30.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
560	चिन्नु एम.वी., पुत्री श्री विजयन एम.के.	केरलएसवीसी /3462/09	मुण्डक्कल हाउस, वरक्कारा (डाक), थिसूर— 680325, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	13.4.84
561	चित्तरंजन कुमार, पुत्र श्री राम लाल प्रसाद	बीवीसी/2907 /07	ग्राम— गणेश बीघा, डाक— इरकी/भलुआ, थाना— बेलागंज, जिला— गया— 804404, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 06	1.3.79
562	चित्तरंजन धनगडा माझी, पुत्र श्री ए. के. धनगडा माझी	उड़ीसाएसवीसी /2258/09	प्रदेसीपाड़ा (बालाजी मंदिर के निकट), डाक— भवानीपात्रा— 766001, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच/ओयूएए डटी/03	5.7.78
563	चोपाडे सोपान रवीन्द्र	महाएसवीसी/ 7761/07	द्वारा रवीन्द्र भगवान चोपाडे, लाहाने लेआउट, समर्थ नगर, वार्ड न. 24, बुलदाना — 443101, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	6.6.83
564	चोथे सोनाली विलास	महाएसवीसी/ 7932/08	साधना हाई स्कूल के निकट, गांधीगलाज, जिला— कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	7.10.84
565	चौधरी प्रीति मंगल विश्वनाथ राव	महाएसवीसी/ 8087/08	'मौली कृपा', सिविल अस्पताल के सामने, सुभाष रोड, परभनी, जिला— परभनी— 431401	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/08	11.9.84
566	चौबे दितियामिता, पुत्र श्री प्रदीप कुमार चौबे	एसएम/ 2413/08	द्वारा पी.के. चौबे, डाक— खरगुली, अपर लुइतपुर, म.न. 129, गुवाहाटी— 781004, असम	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	12.4.83
567	चुम्मु टिरके, पुत्र स्व. श्री मिथिलेश टिरके	जेवीसी/311 /08	मौह.— देसुइड, बानहोरा, हेहल, सुखदेव नगर, रांची— 834005, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 99	01.01.73
568	सिथिया जोसे, पुत्री श्री जोसेफ एम.के.	केरलएसवीसी /3352/08	मदाथिल पजविला, अम्बिका मार्केट डाक, वायकोम, कोट्टायम— 686144, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 08	17.4.84
569	डी. इलया भारती, पुत्र श्री जी. दुरईकन्नू	टीएनएसवीसी /4114/08	1/176, बैंक स्ट्रीट, कूनीमेडु डाक, थिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम— 604303, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एएच/पीयू/ 08	13.12.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
570	डी. अरुण कुमार, पुत्र श्री सी. देवासिगामनि	टीएनएसवीसी /4267/08	3/14, सरवमपाथीइंगूर डाक, पेरुनदुरई तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	15.1.84
571	डी. गांधीमति, पुत्र श्री टी. दुराई राज	टीएनएसवीसी /4294/08	663/1, मुथु नगर, कोविलपट्टी, ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	16.1.85
572	डी. गणेशकाले, पुत्र श्री धर्मराजन	टीएनएसवीसी /4079/08	बी एस 2, विलेसपाना, 158, वेलाचेरी मेन रोड, वेलचेरी, चेन्नई	बीवीएससी/ एमयू/59	23.3.37
573	डी. जगदीसन, पुत्र श्री पी. दुरईसामी	टीएनएसवीसी /4363/08	42 (पुराना न. 62), सेरुक्कलेई, सेरुक्कली डाक, परमाथीवेलूर, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	6.1.78
574	डी. जगदीश्वरन, पुत्र श्री एस. देवेनथिरन	टीएनएसवीसी /4373/08	4, उथुकुली रोड, चेन्नीमेलई, इरोडे- 638051, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	19.8.86
575	डी.के. सेहर, पुत्र स्व. श्री धनुवा राम सेहर	सीजीएसवीसी /431/08	ग्राम- चेरचारी, डाक- सोरार गुरुर, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एच/जेएनके वीवी/997.98	22.8.70
576	डी. मनिकंदन, पुत्र श्री डी. दुरईसामी	टीएनएसवीसी /4214/08	1/438, नॉर्थ स्ट्रीट, पुडुवेट्टाकुडी डाक, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	1.12.82
577	डी. निथ्या, पुत्र श्री एम. दुरईसामी	टीएनएसवीसी /4251/08	1/37-ए, नादूपलायम, वैयप्पामलई डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	25.5.84
578	डी. राम्या, पुत्र श्री टी. दुरईराज	टीएनएसवीसी /4293/08	93, कारुथरासनलूर, थोट्टियम तालुक, त्रिची- 621215, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	22.3.84
579	डी. सिवा कुमार, पुत्र श्री डी. नरसिम्हा स्वामी	एपीएसवीसी/ 4709/08	वासमसेट्टीवारी पलेम, काडली डाक, राजोल (एम), पू गोदावरी-533248, आ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	12.11.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
580	डी. श्रीकला, पुत्री श्री डी. नरसिम्हलु	एपीएसवीसी / 4726 / 08	6-8-1155, एनजीओ कॉलोनी, के.टी. रोड, रामाचंद्र मिशन के सामने, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	17.8.83
581	डी. श्रीविद्या, पुत्री श्री डी.वी.वी. सत्य नारायण	एपीएसवीसी / 4802 / 08	3-33, संकरपलेम, कापुलापलम (डाक), तल्लारेवु (एम), वाया यन्म, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी एवं एच/पीयू/ 08	18.8.84
582	डी. सुरेश, पुत्र श्री सी. दुरईसामी	टीएनएसवीसी /4252 / 08	नॉर्थ स्ट्रीट, नाथाकरई, थलईवासल डाक, अट्टूर तालुक, सलेम- 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	4.8.85
583	डी. उषा नंदिनी, पुत्र श्री ए.एम. दुरईसामी	टीएनएसवीसी /4327 / 08	64, मुथु कुमारसामी कोइल स्ट्रीट, भवानी तालुक, अंथियूर, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच/टीएन यूवीएस/08	14.2.84
584	दाहाले गजानन सूर्यकांत	महाएसवीसी / 8030 / 08	दाहाले निवास, विद्यानगर, भगवान बाबा चौक, परली ग्राम, तालुक परली, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	27.05.84
585	दहीकर परीक्षित राजेंद्र	महाएसवीसी / 8013 / 08	द्वारा राजेंद्र दहीकर, महाराष्ट्र, लालगंज बारीपुरा इतवारी, नागपुर- 440002	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	18.06.83
586	दाल सिंह मीना, पुत्र श्री राम प्रसाद मीना	राजएसवीसी / 3482 / 08	ग्राम- बिबगिया, डाक- इरनिया, थाना- हिंडन सिटी, करौली, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच/आईजी केवीवी/08	15.8.77
587	दलवी केतन गोविंद	महाएसवीसी / 8126 / 09	ए/पी- सासाने, तालुक- मुरबद, जिला- थाणे- 421401, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	04.03.85
588	दालू सोरेन, पुत्र स्व. श्री लखन सोरेन	जेवीसी / 426 / 08	छोटा कुरमा सिरिपुर, मिर्जा चौकी, मानद्रो, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /95	10.12.67
589	डाली सी. सेविस, पुत्री श्री सी.ए. डेविस	केरलएसवीसी /3367 / 08	चिरामल हाउस, डाक- आर्मपुर, थिसूर- 680020, केरल	बीवीएससी एवं एच/केयू/ 08	11.7.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
590	दामने प्रमोद तुकाराम	महाएसवीसी / 7842 / 07	ए/पी- अस्सरजान कैम्प (सिंचाई), तालुक/जिला- नांडेड- 431606, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	15.4.84
591	डांडगे शशिकांत दामोदर	महाएसवीसी / 7824 / 07	धाड़ नाका, ढांडे ले आउट, बुलदाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	29.9.82
592	दंगट नीता ढोंढू	महाएसवीसी / 8074 / 08	श्रद्धा निवास, लोनांड, तालुक खंडाला, महाराष्ट्र, जिला सतारा- 415521	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	12.09.84
593	दारा शिकोह, पुत्र स्व. श्री एस. शुजाउद्दीन अहमद	जेवीसी / 228 / 08	द्वारा: डॉ. दारा शिकोह, चिश्ती नगर, खिरगांव, हजारीबाग- 825301, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/88	10.12.63
594	दास देबरंजन, पुत्र स्व. श्री गणेश च. दास	एसएम / 2421 / 09	ग्राम- कापाहुवा गांव, डाक- जापी साजिया, जिला- लखीमपुर, असम	बीवीएससी एवं एच/एसयू/08	1.01.80
595	दास पल्लवी, पुत्र श्री मुकुट च. दास	एसएम / 2406 / 08	सिण्ड्रेला होस्टल (आशियाना) बाई लेन न. 3, तरुण नगर, गुवाहाटी, असम	बीवीएससी एवं एच/एसयू/08	30.11.85
596	दासारे संजय किसनराव	महाएसवीसी / 8014 / 08	मानिक चौक, सिंदखेड राजा, तालुक सिंदखेड राजा, जिला बुलधाना- 446203	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	19.01.80
597	दाते अनिता कौंडीभाऊ	महाएसवीसी / 7940 / 08	एटी- देवीभोयरे, तालुक- पारनेर, जिला- अहमद नगर- 414307, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/07	19.8.84
598	दातिर धीरज केशो	महाएसवीसी / 7954 / 08	सरोज कॉलोनी, सूट गिरनी रोड, अमरावती- 444606, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएफ एसयू/08	24.11.84
599	दावा दीपेन, मुकेश कुमार	गुजएसवीसी / 2953 / 08	कॉलेज कम्पाउंड बहुदा, कृपम, पालमपुर, जिला- बी.के. गुजरात	बीवीएससी एवं एच/एसडीए यू/08	4.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
600	दविन्दर सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह	हरिएसवीसी / 2043	जनरल अस्पताल, नारनौल जिला— महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	16.5.85
601	दावांडे संदीप नामदेवराव	महाएसवीसी / 7978 / 08	अम्बेडकर वार्ड, शेंडुरजाना घाट, तालुक वारुद, जिला —अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	30.06.80
602	दयानंद प्रसाद, पुत्र श्री लाला प्रसाद	जेवीसी / 117 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 83	03.04.61
603	दयानंद तुरी, पुत्र स्व. श्री काली चरन तुरी	जेवीसी / 493 / 09	मोती पहाड़ी, बोरियो, साहेबगंज— 816120, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 99	31.12.69
604	देभी बलवंत सिंह भूपतजी	गुजएसवीसी / 2952 / 08	घूमासाम, तालुक— कडी, जिला— मेहसाना, अम्बका चौक के निकट, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / एसडीए यू / 08	16.6.85
605	देवी प्रसन्ना दास, पुत्र श्री एस. निरंजने पात्रा	उडीसाएसवीसी / 2222 / 08	एटी: तुम्बा, डाक— आश्रमपत, वाया / जिला— जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच / ओयूएए डटी / 08	9.7.84
606	दीप चंद, पुत्र श्री धुली चंद	हरिएसवीसी / 2071	ग्राम— उझा, डाक— रिशालू थाना— बापोली, जिला— पानीपत, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	3.2.81
607	दीपा सी.एन., पुत्री श्री सी.आर. नारायण	केरलएसवीसी / 3398 / 09	चिराक्कल हाउस, पेरुबिल्लीसेरी, चेरपू डाक, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 09	25.3.85
608	दीपा राम, पुत्र श्री पूना राम	राजएसवीसी / 3493 / 08	ग्राम एवं डाक— हपनसर, थाना— शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 08	5.11.80
609	दीपक चंद्र खुल्बे, पुत्र कैप्टन एम. डी. खुल्बे	यूवीसी / 34 / 08	28—गंगोत्री विहार, लेन न. 1, अपर नाथनपुर, रिंग रोड, देहरादून	बीवीएससी एवं एएच / जेएल एनकेवीवी / 84	23.6.59

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
610	दीपक कुमार बंसल, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बंसल	एमपीएसवीसी /2536/08	पहाड़गढ़ रोड, डाक—केलारस, जिला— मोरैना—476284, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	20.10.79
611	दीपक कुमार चौरसिया, पुत्र श्री किशोरी प्रसाद	यूवीसी/424/08	वेटरिनरी अधिकारी (टेका), वेटरिनरी अस्पताल, वीनकखल, जिला— टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/डब्ल्यूबी यूएण्डएफएसयू/05	15.11.78
612	दीपक कुमार महतो, पुत्र श्री महादेव महतो	जेवीसी/449/09	रूपापोष, सोनुआ, पोराहाट, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/09	26.12.82
613	दीपक कुमार नाग, पुत्र श्री के.पी. नाग	एमपीएसवीसी /2508/08	एम-854, दप्रण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर— 474011, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/08	26.3.79
614	दीपक कुमार, पुत्र श्री दयानंद यादव	बीवीसी/2946/08	ग्राम एवं डाक— अबगिल, थाना— कोरमा, जिला— शेखपुरा— 811105, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/07	15.7.79
615	दीपक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री बसुकी प्र. सिंह	जेवीसी/287/08	टीवीओ, चंद्रपुरा, क्वा.न. एफ/7-2, चंद्रपुरा, बरमो, बोकारो— 825303, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/91	03.03.64
616	दीपमाला देवगण, पुत्र श्री ए.एल. देवगण	सीजीएसवीसी /361/08	बी-7, सीएसआई, आशीष नगर, रेड्साली, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/06.07	19.10.84
617	दीप्ती एस.एस. रोज, पुत्री श्री स्टेनली रोज	केरलएसवीसी /3429/09	वालिया विला वीडू (एच), कक्कामूला, कलियूर डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/09	23.5.86
618	दीप्ती गुप्ता, पुत्री श्री रामेंद्र गुप्ता	एमपीएसवीसी /2534/08	गल्ला मंडी रोड, लहर, भिंड— 477445, म.प्र.	बीवीएससी एवं एएच/जेएनके वीवी/08	4.3.83
619	दीप्ती जोशी, पुत्री श्री के.बी. जोशी	यूवीसी/379/08	सी.टी.ओ. कलसी, जिला— देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/जीबीपी यूएण्डटी/08	30.8.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
620	दीप्ती मिंज, पुत्र श्री मसीह दास मिंज	जेवीसी / 182 / 08	कोब्जा चिरोदन, सुरसंग, रायडीह, गुमला- 835232, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 04	09.02.78
621	धीरज पाल, पुत्र श्री बिहारी लाल	यूपीएसवीसी / 4792 / 08	ग्राम- पीपरा खास, डाक- बारखेरे कला, जिला- पीलीभीत, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	20.8.81
622	धीरेंद्र निरंजन, पुत्र श्री ओ.पी. निरंजन	यूपीएसवीसी / 4726 / 08	नवजीवन फार्मसी प्रा.लि., नया कैलाश नगर, गाज़ियाबाद	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 07	19.2.82
623	डेका नीपू, पुत्र श्री चंद्र कांत डेका	एएसएम / 237 4 / 08	ग्राम- अगडाला, डाक- बैहाटा चरियाली, जिला- कामरूप, पिन- 781381, असम	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	1.3.84
624	देवनंदन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री चाटू महाटन	जेवीसी / 120 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, बागोडर, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 83	01.04.58
625	देवरे संदीप नानाभाऊ	महाएसवीसी / 7864 / 07	यमुना निवास, गौतम नगर, मुकती, जिला- धुले, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	22.6.85
626	देवरी गीतांजलि, पुत्र श्री हिरण्य के. देवरी	एएसएम / 2378 / 08	द्वारा एच.के. देवरी, सोना पुर, देवरीगांव, थाना- दूमा, जिला- तिनसुखिया, असम	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	12.8.84
627	देसाई नूपुर चंद्रशेखर	महाएसवीसी / 8050 / 08	अद्वैत बंगलो, ए-69, पुरु को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, एयर पोर्ट, लोह गांव, जिला पुणे- 411032	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	19.10.84
628	देसाई भरत देवीदास	गुजएसवीसी / 2934 / 08	बी / 5, वेटरिनरी स्टाफ क्वा., विद्या डेयरी रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 08	21.6.85
629	देसाई नीलेखा सुरेश	महाएसवीसी / 8130 / 09	मुक्ति धाम, 315 / 44, सेक्टर-3, साईबाबा लेन, चारकोप, कांदीवलि (प.), जिला मुम्बई- 400067	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	07.06.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
630	देसाई वीराभाई रेमल भाई	गुजएसवीसी / 2954 / 08	एटी एवं डाक- वडा, तालुक- कंकरेज, राबरीवास, वडा, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / एसडीए यू / 08	1.6.82
631	देशपांडे रेशमी प्रसाद	महाएसवीसी / 7813 / 07	721 / 2-बी / 23, सान्निध्य, विकास नगर, शास्त्री रोड, नवी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	12.3.83
632	देशमुख भूषण संजीव	महाएसवीसी / 7802 / 07	ए / पी- डोंगरगांव, तालुक एवं जिला- अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	9.3.83
633	देशमुख संदीप यशवंत राव	महाएसवीसी / 7858 / 07	पेट्रोल पम्प के निकट, विठ्ठल नगर, अटपदी, जिला- सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	15.5.84
634	देशमुख शुभा विनोदराव	महाएसवीसी / 8091 / 08	ए / पी- वटफाली, तालुक- नेर, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	23.03.85
635	देशमुख स्वप्निल पदमाकर राव	महाएसवीसी / 7753 / 07	मातोश्री, जवाहर कॉलोनी, पुलगांव, तालुक- देवली, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	16.4.85
636	देशमुख यशवंत दिलीप राव	महाएसवीसी / 7841 / 07	एटी- डोंगरगांव (पोल), तालुक- काटमनूरी, जिला- हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	7.3.85
637	देशमुख प्रशांत प्रभाकर	महाएसवीसी / 7944 / 08	द्वारा पी.ए. देशमुख, एटी- पिम्पल गांव, डाक- घारी, तालुक- बाशी, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	28.3.85
638	देशमुख विपिन विनायक राव	गुजएसवीसी / 2895 / 08	क्वा.न. 001, नंदिनी वेटरिनरी अस्पताल, चिल्ड्रेन ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क, सूरत, गुजरात	बीवीएससी एवं एएच / कत. चतकाअच / 97	21.4.74
639	देशपांडे आशीष अरुण राव	महाएसवीसी / 8101 / 08	द्वारा श्रीमती मीरा अरुणराव देशपांडे, बैंक कॉलोनी, बासमथ रोड, रामकृष्णनगर, जिला परभनी- 431401	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	3.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
640	देशपांडे प्राची विजय	महाएसवीसी / 7865 / 07	124, वरद गणपति एसएचजी सोसायटी, शंकर नगर, न.-1, पद्मारति रोड, पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	19.8.85
641	देवन अरोड़ा, पुत्र श्री एस.के. अरोड़ा	हरिएसवीसी / 2068	486, सेक्टर 15-ए, हिसार, हरियाणा	बीवीएससी एवं एएच / सीसीए सएचएयू / 08	9.7.85
642	देवराजा बी., पुत्र श्री भद्र नायक	कर्नाएसवीसी / 4196 / 08	द्वारा डोड्डामनी सत्यप्पा, रेनुका एक्स., कोट्टूर- 583134, कुडिगी तालुक, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एएच / केवीए फएसयू / 08	25.6.85
643	देवाशीष बोस, पुत्र स्व. श्री प्रणब कुमार बोस	जेवीसी / 414 / 08	टी.वी.ओ. सुरंगा, पठना, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 82	13.04.59
644	देवडे दीपक पुरभजी	महाएसवीसी / 7895 / 07	मकान न. लाहन, अर्धपुर, जिला- नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	5.5.83
645	देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा	राजएसवीसी / 3480 / 08	ग्राम-श्यामपुर मुंडारी, डाक - घोंसला, थाना- हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 08	4.7.80
646	देवेंद्र यादव, पुत्र श्री परम देव यादव	यूपीएसवीसी / 4822 / 08	ग्राम- खरगीपुर डाक, गंगरूपुर, जिला- मऊ, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एएच / यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी / 08	11.7.78
647	देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, पुत्र स्व. श्री गुप्त नाथ द्विवेदी	जेवीसी / 543 / 09	गली न.- 13, कृष्णापुरी (मातवीरी), हजारीबाग- 825301, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / बीएयू / 83	19.02.59
648	देवप्रभा सम्राट, पुत्र श्री नंदलाल सम्राट	सीजीएसवीसी / 407 / 08	धरशीली, थाना- नगरी, जिला- धमतारी, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / आईजी केवीवी / 06.07	6.12.82
649	ढाल सिंह ध्रुव, पुत्र श्री परशुराम ध्रुव	सीजीएसवीसी / 344 / 07	ग्राम- पाटन दादरा, डाक- तुरंगा, महासुमुंदर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच / जेएनके वीवी / 90.91	23.8.62

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
650	ढलकारी सचिन विष्णु	महाएसवीसी / 7930 / 08	3, शिवम पैलेस, महाबल अस्पताल के निकट, इंदिरा नगर, नाशिक, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	13.4.82
651	धमन्ना पाटिल प्रकाश सिदगोंडा	महाएसवीसी / 7965 / 08	ए / पी— सुलकुड, तालुक कागल, जिला— कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 08	03.06.86
652	धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2847 / 07	ग्राम— उत्तरी पटेल नगर, डाक— केसरिंग, थाना— पाटलीपुत्र, जिला— पटना, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एएयू / 07	1.3.81
653	धनंजय कुमार, पुत्र श्री बृजनंदन प्रसाद	बीवीसी / 2914 / 08	ग्राम एवं डाक— मोफो, थाना— मेबुश, जिला— शेखुपुरा— 811102, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / एमएएंड एफएसयू / 07	8.9.80
654	धनंजय कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2957 / 08	ग्राम एवं डाक— औरियाना, थाना— मुफसिल, नवादा, जिला— नवादा— 805123, बिहार	बीवीएससी एवं एएच / डब्ल्यूबी यूएएंडएफएसयू / 07	8.8.81
655	धनंजय कुमार, पुत्र श्री राम बिलास प्रसाद	जेवीसी / 424 / 08	गरिमा अपार्टमेंट, सेंट्रल अशोका नगर के एक्सटेंशन भाग के सामने, आरगगोरा, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच / आरएयू / 89	25.05.64
656	ढांढे मनोज श्रीधर	महाएसवीसी / 7888 / 07	विट्ठल मंदिर के निकट, ढांडेवाडे, सांगवी, तालुक— यवत, जिला— जलगाव, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच / एमएएफ एसयू / 07	6.12.82
657	धनेश कृष्णन, पुत्र श्री कृष्णन कुट्टी नायर	केरलएसवीसी / 3321 / 08	वेल्लापल्ली पेरुर डाक, कोट्टायम— 686637, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	15.5.84
658	धान्या एस. राजन, पुत्री श्री एस. राजन	केरलएसवीसी / 3348 / 08	श्याम निवास, चुनाकारा ईस्ट, चुनाकारा डाक, मावेलीक्कारा, अलपुजाह— 690534, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	25.5.84
659	धान्या के., पुत्री श्री वी. कुन्हीमोन	केरलएसवीसी / 3369 / 08	दिव्य धनुष, मुलागुन्नाथुकाव, थिसूर— 680551, केरल	बीवीएससी एवं एएच / केएयू / 08	15.1.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि,
660	धरम गोपाल गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता	राजएसवीसी / 3554 / 08	बी-8, जवाहर नगर, 80 फीट रोड, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच/एसवीवी यू/08	20.7.84
661	धरम सिंह जगरिया, पुत्र श्री बद्री लाल	एमपीएसवीसी / 2513 / 08	498, शीलनाथ कैम्प, कुलकर्णी का भट्टा, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससी एवं एच/जेएनके वीवी/08	1.10.74
662	धर्माधिकारी दीपक देसाई	महाएसवीसी / 7966 / 08	"मांगल्य", म.न. 217-बी, शेष नगर, वासमत रोड, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू/08	10.06.85
663	धर्मप्पा राठोड़, पुत्र श्री भीमप्पा राठोड़	कर्नाएसवीसी / 4154 / 08	लिंगदाहल्ली- 586116, मुद्देबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एच/केवीए फएसयू/08	1.6.80
664	धर्मेन्द्र छारंग, पुत्र श्री सुशील कुमार	राजएसवीसी / 3531 / 08	2, सिविल लाइन, मेरता सिटी, नागौर, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /02	2.10.76
665	धर्मेन्द्र कथेरिया, पुत्र श्री लाल कथेरिया	यूपीएसवीसी / 4808 / 08	मौह- राम नगर, न्यू कॉलोनी, प्रधान डाकघर कार्यालय, इटावा, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/यूपीपीड डीडीयूपीसीवीवी /08	10.8.81
666	धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री जय राम सिंह	यूपीएसवीसी / 4772 / 08	ग्राम- रतनपुरा डाक, मंडवार, जिला- बिजनौर, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/यूपीपी डीडीयूपीसीवी वी/08	28.11.85
667	धर्मरक्षित विद्यार्थी, पुत्र श्री प्रभु नारायण विद्यार्थी	जेवीसी / 124 / 08	एई-61, अशोक आश्रम, डिबडीह, दोरांडा, रांची, झारखंड- 834002	बीवीएससी एवं एच/जीबीपी यूएण्डटी/95	13.07.69
668	धयागुडे रोहिणी सुभाष	महाएसवीसी / 7908 / 07	ए/पी अहीरे, तालुक- झंडाला, जिला- सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू/06	5.1.83
669	धीरज कुमार, पुत्र श्री राम चंद्र	यूपीएसवीसी / 4782 / 08	ग्राम- ठकुरीहा, डाक- त्रिलोकपुरी, जिला- बाराबंकी, उ.प्र.	बीवीएससी एवं एच/एनडीयू एटी/08	8.12.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
670	धीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री बालुकी प्रसाद	उड़ीसाएसवीसी /2145/09	कनिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, बलाकटी, जिला- खुद्र, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एएच/यूएस बंगलौर/02	1.1.77
671	धूप वरुण विश्वनाथ	महाएसवीसी/ 8096/08	544-2, नेहरु चौक, गाधीगलाज, महाराष्ट्र, जिला -कोल्हापुर-416502	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/08	27.10.85
672	धुर्वेश जायसवाल, पुत्र श्री विजेंद्र जायसवाल	सीजीएसवीसी /375/08	ग्राम- मफोली, डाक- परशा, जिला- सरगूजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एएच/आईजी केवीवी/06.07	8.3.82
673	दिया एस., पुत्री श्री टी.के. दामोदरन	केरलएसवीसी /3399/09	"श्रेयस", मदक्काटनक डाक, अर्नाकुलम- 686670, केरल	बीवीएससी एवं एएच/केएयू/ 09	23.5.85
674	डायना पाटोन, पुत्र श्री एण्ड्रयू पाटोन	एनएसवीसी/ 241/08	माउट व्यू कॉलोनी, पुराना बाजार, दीमापुर, नागालैंड	बीवीएससी एवं एएच/एएयू/ 08	9.2.84
675	दिघे महेश शिवानंद	महाएसवीसी/ 7899/07	1-11-611, दीप नगर, पुराना रोड, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससी एवं एएच/एमएएफ एसयू/07	21.5.85
676	दिलीप कुमार झा, पुत्र श्री योगेंद्र झा	बीवीसी/2830 /07	ग्राम- मधुबनी, डाक- बेदौल, थाना- पुपरी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/केएएफ एसयू/06	3.10.78
677	दिलीपु कुमार रजक, पुत्र स्व. श्री शंकर लाल रजक	जेवीसी/565 /09	अपर बाजार (गोवाला टोली), रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससी एवं एएच/बीएयू/ 94	26.01.66
678	दिलीप कुमार, पुत्र श्री जयमंगल प्रसाद गुप्ता	बीवीसी/2766 /06	ग्राम- मदिया, सलेमपुर, डाक- अंजनी, थाना- परसा, सब-डिवीजन- सारन, बिहार	बीवीएससी एवं एएच/एमएएंड एफएसयू/06	27.2.77
679	दिलीप कुमार, पुत्र श्री जयमंगल प्रसाद गुप्ता	यूवीसी/421 /08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, नैतवर, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससी एवं एएच/एमएएंड एफएसयू/06	27.2.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
680	दिलीप कुमार, पुत्र श्री मथुरा नाथ सिंह	जेवीसी / 511 / 09	नरही दियारा, गंगा प्रसाद, साहिबगंज— 816109, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /94	06.03.69
681	दिलीप कुमार सिंह, पुत्र श्री भगवान दास	सीजीएसवीसी / 436 / 09	ग्राम एवं डाक— सिंदर, बलरामपुर, जिला— सरगुजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससी एवं एच/जेएनके वीवी / 06.07	12.83
682	दीनबंधु गुप्ता, पुत्र श्री गंगा प्रसाद गुप्ता	जेवीसी / 089 / 08	ब्लॉक पशुपालन अधिकारी, विश्रामपुर, पलामू, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/जेएल एनकेवी / 90	01.03.66
683	दिनेश दिनकर, पुत्र श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2931 / 08	ग्राम— मीरपुर जुयारा, डाक मीरपुर जियारा, थाना— अवतार नगर, सब—डिवीजन —सदर छपरा 841316, बिहार	बीवीएससी एवं एच/एमएएंड एफएसयू / 07	26.1.80
684	दिनेश के.एन., पुत्र श्री नारायण बी.के.	कर्नाएसवीसी / 4135 / 08	श्री अंजानेयसामी हायर सेकेंडरी स्कूल, कुम्बलूर— 577219, होन्नाली तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससी एवं एच/केवीएए फएसयू / 08	13.3.85
685	दिनेश कुमार जांगीर, पुत्र श्री छोटू राम जांगीर	राजएसवीसी / 3544 / 08	बिहानी सिलई स्कूल के सामने, थाना— नोहर, हनुमान गढ़— 3355523, राजस्थान	बीवीएससी एवं एच/एमएएफ एसयू / 08	10.5.82
686	दिनेश कुमार प्रदीप, पुत्र श्री नवलकिशोर प्रदीप	जेवीसी / 074 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी, बिरसा, बोटैनिकल गार्डन, ललित निवास, बूटी, नेवरी, रांची, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 96	01.07.65
687	दिनेश कुमार, पुत्र श्री प्रदीप कुमार	एचपीएसवीसी / 834 / 08	वार्ड न. 4, शिव नगर, म.न. 60, गुरुद्वारा गली, हमीरपुर, हि.प्र.— 177001	बीवीएससी एवं एच/सीएसके केवीवी / 08	17.11.83
688	दिनेश कुमार सिंह, पुत्र श्री कामेश्वर राय	बीवीसी / 2798 / 06	ग्राम एवं डाक— चतरा, थाना— खजौली, सब— डिवीजन व जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससी एवं एच/दहआर एयू / 05	2.6.79
689	दिनेश महतो, पुत्र श्री देवलाल महतो	जेवीसी / 328 / 08	द्वारा श्री दुलाल महतो, गोडातू, गंडके, रामगढ़, हजारीबाग— 829122, झारखंड	बीवीएससी एवं एच/बीएयू/ 01	25.08.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
690	दिनेश शर्मा, पुत्र श्री मुनेश्वर शर्मा	बीवीसी/2811 /06	ग्राम— चितरकोली, डाक— हरदिया, थाना— राजौली, सब—डिवीज़न— राजौली, जिला— नवादा, बिहार	बीवीएससी एवं एच/एएयू/ 05	1.1.77
691	दिनेश वर्मा, पुत्र श्री चंदन सिंह वर्मा	एमपीएसवीसी /2523/08	ग्राम एवं डाक— सेगांव, थाना— सेगांव, जिला— खरगांव, म.प्र.	बीवीएससी एवं एच/जेएनके वीवी/08	5.3.78
692	दीपक कुमार, पुत्र डॉ. बिमल कुमार	बीवीसी/2748 /06	ग्राम— काली मंदिर रोड, डाक व थाना—हवेली, खड़गपुर, सब —डिवीज़न— हवेली खरगपुर, जिला— मुंगेर— 811213, बिहार	बीवीएससी एवं एच/आरएयू /06	30.6.79
693	दिपुनु कुमार साहू, पुत्र श्री एकदास साहू	उड़ीसाएसवीसी /2213/08	एटी— गोडीपटना, डाक— मदनपुर, वाया— सैंकुल, जिला — केओन्झर— 758043, उड़ीसा	बीवीएससी एवं एच/ओयूए डटी/08	9.7.83
694	दिवेश सूद, पुत्र श्री सत पाल सूद	एचपीएसवीसी /841/08	ग्राम एवं डाक— पथियार, थाना एवं जिला— कांगड़ा, हि.प्र.— 176047	बीवीएससी एवं एच/सीएसके केवीवी/08	12.7.84
695	दिव्या टी.आर., पुत्री श्री टी.के. रामचंद्रन	कॅरलएसवीसी /3331/08	थुरुथियिल हाउस, अलेकरकोना, कक्कोडु डाक, पुनलार, कोल्लम— 691331, कॅरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 08	10.2.85
696	दिव्या जोस, पुत्री श्री जोसेफ जोस	कॅरलएसवीसी /3363/08	ज्योतिष, वलियावीटिल, पुथानगडी, परक्कल रोड, नरक्कल डाक, अर्नाकुलम— 682505, कॅरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 08	28.6.83
697	दिव्या जॉय पी, पुत्री श्री पी.के. जॉय	कॅरलएसवीसी /3456/09	XX/173, शीतल, सुरभी नगर, वलमपुर (डाक), पेरिन्थीलमना, मलप्पुरम, कॅरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	25.9.84
698	दिव्या पी.सी., पुत्र श्री के. चंद्रन नायर	कॅरलएसवीसी /3434/09	दिव्यालायम, पेरिंगम्मला डाक, पलोडे, थिरुवनंतपुरम — 695563, कॅरल	बीवीएससी एवं एच/केएयू/ 09	17.6.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
699	दिव्या आर. नायर, पुत्री श्री वी. राधा कृष्णन	केरलएसवीसी /3386/08	स्नेहदीपम, एकस-सर्विसमैन कॉलोनी, डाक- पलोडे, वाया- चल्लमुक्के, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	5.5.84
700	दिव्या रानी थॉमस, पुत्री श्री थॉमस जोसेफ	केरलएसवीसी /3323/08	पलट्टू हाउस, कांजीरमट्टम डाक, चेंगलम वाया, कोट्टायम- 686585, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	28.12.81
701	दिव्या एस. पिल्लै, पुत्री श्री सिवदास पिल्लै पी.पी.	केरलएसवीसी /3400/09	सिवसदानम, नेदुमकुन्नम डाक, कोट्टायम- 686542, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	30.3.85
702	दिव्या वी.एस., पुत्री श्री वी.आई. श्रीधरन	केरलएसवीसी /3365/08	वदारियट्टिल हाउस डाक, थलाकट्टुक्कारा, केचेरी वाया, थिसूर- 680501, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	18.3.83
703	दक्षता खरे, पुत्री श्री विजय खरे	एमपीएसवीसी /2553/08	इरीगेशन कॉलोनी के पीछे, छतरपुर- 471001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	8.5.83
704	डोले बाबुल, पुत्र श्री रमेश डोले	एसएम/ 2373/08	ग्राम- दीलापाखर, डाक- कमदेवाल, थाना- गोहपुर, जिला- सोनितपुर, असम	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	26.2.81
705	डोले प्रणव, पुत्र श्री रोबिन डोले	एसएम/241 6/08	सी. डी. रोड, वार्ड न. 7, लखीमपुर, असम	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	17.7.81
706	डोपे संतोष विठ्ठलराव	महाएसवीसी/ 7943/08	द्वारा ए.एन. पेनशंकर, बापू मार्केट, पम्प हाउस रोड, देगलूर, तालुका: देगलूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	02.03.82
707	दुबाल प्रकाश रामचंद्र	महाएसवीसी/ 7968/08	द्वारा रामचंद्र नामदेव दुबल, एटी: आजनसॉड, डाक- देवगांव, महाराष्ट्र, तालुक- पंचरपुर, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमए एफएसयू/08	12.09.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
708	दूधे शशांक देवराव	महाएसवीसी / 8004 / 08	शिवाजी व्यायाम शाला के निकट, बाड़ी पुरा, दरौहा, तालुक दरौहा, महाराष्ट्र, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	11.05.82
709	दुल्लु बुरियुली स्व. कैरा बुरियुली	जेवीसी / 382 / 08	सोना पोसी असुरा झिनकपानी चाईबासा, पिन- 835301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 96	18.01.68
710	दुर्गा शंकर, पुत्र श्री बाबू लाल	राजएसवीसी / 3494 / 08	ग्राम एवं डाक- भगवानपुरा, थाना- कानपुर, झालावार- 326038, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	7.4.80
711	दुष्यंत कुमार, पुत्र श्री गुनुराम	सीजीएसवीसी / 406 / 08	बालोहाड थाना, डोंडी दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 04-05	26.11.78
712	दत्ता कुसुमबर, पुत्र श्री नीलामोनी दत्ता	एसएम / 239 4 / 08	ग्राम- कलिता गांव, डाक- बोरदोलोनी, जिला- धीमाजी, पिन- 787021, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 07	14.1.83
713	दत्ता मधुस्मिता, पुत्र श्री आदित्य कुमार दत्ता	एसएम / 2418 / 09	पी.डब्ल्यू.डी. कैम्पस, सोनापुर, न्यू मार्केट, डाक- सोनितपुर, जिला- कामरूप, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	28.12.85
714	ई. भास्कर, पुत्र श्री ई. यकइयाह	पीएसवीसी / 4765 / 08	चिंतलापल्ली (ग्राम), थोरूर (एम), वारंगल जिला- 506163, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	10.9.83
715	ई. हरिकुमार, पुत्र श्री ए.वी. इलुमलई	टीएनएसवीसी / 4186 / 08	1/91-ए, कम्मालर स्ट्रीट, अप्पेडु, उलगमपेट डाक, पोल्लुर तालुक, थिरुवन्नमलई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	23.8.85
716	ई. कुमार, पुत्र श्री ई. लिंगइयाह	पीएसवीसी / 4771 / 08	म.न. 14-4-146, विटठल नगर, गोदावरीखानी, करीम नगर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	10.6.83
717	ई. कुमाराकुराबरान, पुत्र श्री के. इलय्या पेरुमल	टीएनएसवीसी / 4378 / 08	एच-26, एच.बी. कॉलोनी, तिरुनगर, पेरामलपुम डाक, तिरुनेलवेली- 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 78	13.5.54

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
718	ई. पान्नेरसेलवम, पुत्र श्री एस. इसाका पिल्लै	टीएनएसवीसी /4409/09	1/1, साउथ माउंट रोड, अरुणागिरि थिएटर के सामने, तिरुनेलवेली शहर— 627006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/ 76	9.2.51
719	ई. सुनील आनंद कुमार, पुत्र श्री ई. ललिता कुमारी	पीएसवीसी/ 4672/08	प्लॉट न. 83, म.न. 5-4-18/ 1/2/3, पहली मंजिल, कमल नगर, वनस्थली पुरम, हैदराबाद— 500070, आं.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एएन जीआरएयू/ 05	30.4.80
720	ई. स्वप्ना, पुत्री श्री ई. मोहन रेड्डी	पीएसवीसी/4 744/08	क्वा.न. ए-501, बीडीएल भनूर, मेडक जिला— 502305, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	1.05.85
721	ई. थमिलारासन, पुत्र श्री एम. इलांगो	टीएनएसवीसी /4287/08	10-ए, गणेश लेआउट, 7वीं स्ट्रीट, गणपति नेहरू नगर, कोयम्बतूर—641006, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	6.4.85
722	ई. तिरूपति रेड्डी, पुत्र श्री ई. ब्रह्मा रेड्डी	पीएसवीसी/4 680/08	म.न. 4-5-4, एसबीआई के पीछे, गोपीरेड्डी नगर, सत्तेनापल्ली (एमएंडपी), गुंटूर जिला— 522403, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	1.6.83
723	ई. वेंकट राव, पुत्र श्री ई. गुरवइयाह	पीएसवीसी/ 4784/08	कोडीगुडियापडु (ग्राम), चीना इरलापुडु (डाक), कानीगिरि (एम), प्रकासम जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	1.6.80
724	एलिजाबेथ अब्राहम, पुत्री श्री पी.ए. अब्राहम	पॉण्डीएसवीसी /308/08	लेडीज़ होस्टल, रागाकोवास, कुरुम्बापेट, पुडुचेरी— 605009	बीवीएससीएवं एच/पीयू/07	9.10.83
725	इंगटी धीरज, पुत्र श्री सदर इंगटी	एएसएम/241 1/08	ग्राम एवं डाक— सतगांव, थाना— बैठलांगो, जिला— करबी, अंगलांग	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	1.08.82
726	फासके सतीशला देवीदास	महाएसवीसी/ 7867/07	म.न. 417, एसआर 70/1/ 36, न्यू सांगवी, गणेश नगर, हवेली जिला— पुणे— 411027, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	1.1.83
727	फातिमा फायिजू, पुत्री श्री यू. उन्नियन	केरलएसवीसी /3401/09	टी. मौहम्मद अली मंजिल, थरुवाकोनम डाक, ओट्टापलम, पलक्कड, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	10.12.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मदिधि
728	फेबी थॉमस	महाएसवीसी / 8108 / 08	जी-3, बी-2, जी.जी. कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-06, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 02	09.03.80
729	जी.ए. नागराजन, पुत्र श्री जी.के. अप्पुसामी	टीएनएसवीसी / 4385 / 09	70, नारायणसामी नगर लेआउट, अमरजोथी गार्डन, कंगेयम रोड, तिरुपुर, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 70	1.6.46
730	जी. अरुण शंकर, पुत्र श्री के. गंगाधरन	टीएनएसवीसी / 4206 / 08	17 / 7, लक्ष्मीपुरम, चौथी स्ट्रीट, ईस्ट वेली स्ट्रीट, मदुरै- 625001, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	18.3.86
731	जी. भारती, पुत्री श्री जी. नागेश्वर राव	पीएसवीसी / 4707 / 08	जंडरापेट (डाक), लिल्लावरी (स्ट्रीट), चिराला (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	1.4.84
732	जी. दीपिका कुमारी, पुत्री श्री जी. गनपति राव	पीएसवीसी / 4690 / 08	डी.न. 11-8, कासीनाधपुरम, जगन्नकपुर (डाक), काकीनाडा -2, पूर्वी गोदावरी जिला- 533002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	13.7.82
733	जी. दीपिका, पुत्री श्री जी. कृष्णा रेड्डी	पीएसवीसी / 4738 / 08	गुडाडुपल्ली (ग्राम), कोमपल्ली (डाक), बूपलपल्ली (एम), वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	26.7.83
734	जी. इलामारन, पुत्र श्री गोविंदराज	टीएनएसवीसी / 4192 / 08	2 / 124, चिन्नायन स्ट्रीट, करुवाकुरिची डाक, मन्नारगुडी तालुक, तिरुवटूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	27.6.84
735	जी. गणेश, पुत्र श्री जी. रामा मूर्ति	पीएसवीसी / 4718 / 08	गोंगडावालसा (ग्राम), गांधीलावालसा (डाक), बोब्बिली (एम), विजियानगरम जिला	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	1.8.84
736	जी. ज्ञानसेलवा जॉनसन, पुत्र श्री एम. गुना रत्नामनि	टीएनएसवीसी / 4110 / 08	8 / 65, मेन रोड, कावनकिनारु, डाक- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 92	25.8.68
737	जी. गुरुप्रिया, पुत्र श्री वी.पी. गोविंदासामी	टीएनएसवीसी / 4357 / 08	15, कोथुक्कारा चेट्टियार स्ट्रीट, चिथोडे, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	9.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
738	जी.के. सिवरमन, पुत्र श्री जी. कृष्णन	टीएनएसवीसी /4087/08	रामासामपुरम, वंडारी डाक— सतपुर, वाया— पेरियूर, तालुक —मदुआरी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /97	6.4.74
739	जी. करुणा मूर्ति, पुत्र श्री वी. गोपाल	टीएनएसवीसी /4137/08	15/21, जी.वी.जी. नगर, एस. वी. मिल्स, डाक— उदुमलपेट, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयू/ 79	10.3.55
740	जी. मथु सुथानन, पुत्र श्री आर. गोपालकृष्णन	टीएनएसवीसी /4097/08	11/19, मरियम्मा कोविल मिडल स्ट्रीट, शोलावंदन, मदुरै, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /93	30.3.70
741	जी. रघुनाथ, पुत्र श्री आर. गनेसन	टीएनएसवीसी /4340/08	795/205—ए, एनजीओ कॉलोनी, कन्नाकुरिची सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	3.5.85
742	जी. रामाकृष्णा, पुत्र श्री जी. वेंकट राव	पीएसवीसी/ 4724/08	विष्णुकुंडी नगर, वीनूकोंडा, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	22.6.85
743	जी. सिवा रामकृष्ण, पुत्र श्री जी. नरसा राव	पीएसवीसी/ 4785/08	कनिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कपिलेश्वरपुरम, पामिडीमुकल्ला (एम), कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	1.01.85
744	जी. सिवनंदन, पुत्र श्री एम. गनेसन	टीएनएसवीसी /4167/08	13/15, राजा गौंडनपुडूर, मनापल्ली डाक, पी. वेलूर, नमक्कल— 637017, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	20.2.86
745	जी. श्रीनिवास, पुत्र श्री जी. येल्लइयाह	पीएसवीसी/ 4790/08	म.न. 6/64, थाटीपल्ली (ग्राम), मल्लियल (एम), करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	18.6.84
746	जी. श्रीनिवास राव, पुत्र श्री.जी.वी. सुब्बा राव	पीएसवीसी/ 4706/08	राजूपलेम (डाक एवं एम), सत्तेनापल्ली (तालुक), गुंटूर जिला— 522412, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	15.7.84
747	जी. श्रीनिवास रेड्डी, पुत्र श्री वी. चऊडा रेड्डी	पीएसवीसी/4 687/08	म.न. 10, पुलिस क्वार्टर्स, पोडिली, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	17.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
748	जी. सुगंधी, पुत्र श्री एम. गोविंदासामी	टीएनएसवीसी /4245/08	82, वेंकटप्पन रोड, शेवपेट, सलेम— 636002, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	30.3.84
749	जी. सुलोचना, पुत्री श्री आर.पी. गोविंदन	टीएनएसवीसी /4193/08	6/111—बी, बस स्टॉप, ऋषिवंदियम, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	12.6.85
750	जी. सुरेश, पुत्र श्री सी. गुरुसामी	टीएनएसवीसी /4253/08	3/149, विनय नगर कोइल स्ट्रीट, मीनाक्षीपुरम डाक, राजापलायम, विरूधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	8.7.85
751	जी. तमिलसेलवन, पुत्र श्री एन. गुनासेखरन	टीएनएसवीसी /4226/08	4/384, जे.जे. सेकंड स्ट्रीट, एमजीआर नगर, कोट्टीवक्कम, चेन्नई	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	17.5.86
752	जी. थिलक, पुत्र श्री जी. गुनासेखरन	टीएनएसवीसी /4201/08	2, विनोबा स्ट्रीट, पी. मेट्टुपलायम, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	27.6.84
753	जी.वी.एस. नूकेश्वर राव, पुत्र श्री जी. कृष्णा	पीएसवीसी/ 4788/08	मेडीवडा, रविकांतम (एम), विजाग जिला— 531025, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवी वीयू/08	14.6.83
754	जी. वीमा सुलोचना, पुत्री श्री जी. वेमइयाह	पीएसवीसी/ 4717/08	डी.न. 4/407, स्पाई रेड्डी मॉडल कॉलोनी, बोम्मलासास्त्रम, नंदयाल, कर्नूल जिला, आंध्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	10.6.84
755	जी. विनोथ, पुत्र श्री ए. गनेसन	टीएनएसवीसी /4347/08	ओडियाथूर डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	18.7.85
756	जी. युवराज, पुत्र श्री एन. गोविंदन	टीएनएसवीसी /4369/08	न. 218, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, थिरुमंगलम, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/पीयू/00	5.8.76
757	गडवे कौस्तुभ सुभाष	महाएसवीसी/ 8116/08	न्यू डी-7/1, इकलाहरे कॉलोनी, एमएसईबी, एनटी पीएस, महाराष्ट्र, एकलाहरे, नाशिक रोड, नाशिक 422105	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	11.07.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
758	गडे नितिन एकनाथ	महाएसवीसी/ 7896/07	गुलडागड प्लॉट्स, गोकुल कॉलोनी, राहुरी, जिला— अहमद नगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	8.10.84
759	गडवे प्रशांत दत्तात्रेय	महाएसवीसी/ 8128/09	तीर्थ प्रसाद, गुरुकुल सोसायटी, शिरूर, जिला— पुणे— 4122210, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	3.6.85
760	गगनप्रीत सिंह, पुत्र श्री गुरदयाल सिंह	पीबीएसवीसी /2837/08	सरोन इंडस्ट्री, पटियाला रोड, सुनम, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	10.10.84
761	गायकवाड अविनाश विठ्ठल राव	महाएसवीसी/ 8142/09	बसेरा, एसएच 21, बोटा रोड, महाराष्ट्र, ए/पी ब्राह्मनवाडा, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर— 422610	बीवीएससीएवंए एच/एमए एफएसयू/08	25.4.86
762	गायकवाड प्राची चंद्रशेक	महाएसवीसी/ 7785/07	टाइप— II; बी—1, आर—5, ईएसआईएस अस्पताल, एलबी एस रोड, मुलुंद (प.), मुम्बई	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	4.1.84
763	गजभिये आभा हरिदास	महाएसवीसी/ 7998/08	29, मिलिंद नगर, खामला, नागपुर— 440025, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	6.3.86
764	गमेती विश्राम भाई डोलजीभाई	गुजएसवीसी/ 2943/08	वीटी— वेंकटिम्बा, डाक— नवगाम, वाया— लुसाडिया, तालुक— भिलोडा, जिला— साबरकांठा, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसयू/ 08	1.6.77
765	गामी योगेश कुमार मंजीभाई	गुजएसवीसी/ 2955/08	24, विद्या नगर सोसायटी, मोदीनगर के निकट, जैनदादा वाडी के पीछे, पालनपुर— 385001, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसडीएस / 08	23.11.84
766	गनपुरे महेश कुमार प्रतापराव	महाएसवीसी/ 7760/07	ए/पी कमलावाडी, तालुक— देओनी, जिला— लातूर— 413519, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	3.2.82
767	गणेश चंद्र मंडोलिया, पुत्र श्री जी.एन. मंडोलिया	यूवीसी/398 /08	ग्राम— काफलगीर, डाक — जोगेमढी, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/जीबी पीयूएंडटी/ 08	5.8.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
768	गणेश राम महाली, पुत्र श्री मंगरू राम	जेवीसी / 281 / 08	चांची, गामर्या, घाघरा, गुमला— 835208, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 01	19.07.75
769	गणेश शंकर विद्यार्थी, पुत्र श्री चंद्रेश्वरी प्रसाद यादव	बीवीसी / 2820 / 06	ग्राम— जोगबानी, डाक— भवानीपुर, थाना— गुमहरिया, सब—डिवीजन— माधेपुरा, जिला —माधेपुरा, जिला— बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एमए एफएसयू / 06	1.3.78
770	गंगाधर कापसे, पुत्र श्री गुरुसिदप्पा	कर्नाएसवीसी / 4178 / 08	टी.एम.सी. शिवानगर, इंडी— 586209, तालुक— बीजापुर, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	22.3.84
771	गंगाधर कौशल, पुत्र श्री विजय कौशल	सीजीएसवीसी / 443 / 09	ग्राम— मलहारी, डाक— खमरिया, थाना नागरी, जिला— दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 07—08	11.9.81
772	गंगुर्दे स्वप्निल प्रमोद राव	महाएसवीसी / 7860 / 07	एन—53—वी / एच—41—7, पाटिल नगर, पेठ हाई स्कूल के निकट, सिडको, नासिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	4.2.84
773	गंगुरदे भूषण गंभीर राव	महाएसवीसी / 8060 / 08	4516, आत्माराम ब्रौस चौल, एल्फिंस्टन रोड, मुम्बई— 400013, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	15.03.85
774	गनवीर पूनम भइयाजी	महाएसवीसी / 7999 / 08	शक्तिनगर, बुर्दी रोड, आरमोरी, तालुक— आरमोरी, महाराष्ट्र, जिला— गडचिरोली— 441208	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	14.10.86
775	गापत संजय मधुकर	महाएसवीसी / 7830 / 07	16, समाधान निवास, रामहरि नगर, भूम, जिला— उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	17.5.84
776	गरिमा बिष्ट, पुत्री श्री एच.एस. बिष्ट	यूवीसी / 391 / 08	गंगा विहार, डीओ— नहरिया मल्ली बामोरी, डाक— भोटिया पारो, हलद्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबी पीयूएएंडटी / 08	1.6.84
777	गरूड कौस्तुभ विद्याधर	महाएसवीसी / 8148 / 09	104 / ए, टाइप बी, मल्हार संकुल, आगरा रोड, कल्याण (प.), जिला— थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	09.02.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
778	गौरव गुप्ता, पुत्र श्री वेद प्रकाश	हरिएसवीसी / 2049	96 / 12, करन गेट, मंजी साहिब गुरुद्वारा के निकट, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	27.8.84
779	गौरव कुमार, पुत्र श्री बलूकी प्रसाद	बीवीसी / 2854 / 07	ग्राम- गजेन्द्र बीघा, डाक- भोकिलापेर, थाना- हिलसा, जिला- नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 06	1.3.80
780	गौरव, पुत्र श्री दर्शन लाल	हरिएसवीसी / 2069	119, ब्लॉक- 16, डॉ. इंद्रजीत स्ट्रीट, जेल ग्राउंड, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	5.12.84
781	गौरव सिंह, पुत्र श्री बृज नंदन सिंह	यूपीएसवीसी / 4783 / 08	ग्राम एवं डाक- गोहंद, थाना- सरीला, जिला- हमीदपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	11.12.81
782	गौरी शंकर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बाखोरी साह	जेवीसी / 514 / 09	वी.एस. गढ़वा, वेटरिनरी अस्पताल, गढ़वा- 822114, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एमयू / 70	10.11.48
783	गौतम गुहा कुसुम, पुत्र श्री कामेश कुमार कुसुम	जेवीसी / 132 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, असिया, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	06.04.73
784	गौतम कुमार पंकज, पुत्र श्री राधा कृष्ण शर्मा	बीवीसी / 2789 / 06	ग्राम- मोहिमडीह, डाक- मंजौरा, थाना- बिहारीगंज, सब-डिवीजन- उदाकिशन गंज, जिला- माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / सीएसए यू / 06	15.4.78
785	गौतम कुमार पंकज, पुत्र श्री राधा कृष्ण शर्मा	यूवीसी / 426 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, खाती, जिला - बागेश्वर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / सीएसएके ईपीवीवी / 06	15.4.78
786	गावाडे विशाल बालभीम	महाएसवीसी / 8125 / 09	ए / पी- भोसे, तालुक- पंढरपुर, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	21.06.84
787	गावाडे ललिता बाबसाहेब	महाएसवीसी / 7977 / 08	एटी- हनुमंत गांव, डाक- पठारे ब्लॉक, तालुक- रहाटा, जिला- अहमद नगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	22.6.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
788	गावाली विठ्ठल मंगो	महाएसवीसी / 7748 / 07	महात्मा फुले नगर, बुलधाना— 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	13.7.84
789	गायत्री राज, पुत्री श्री तुलाराम राज	एमपीएसवीसी / 2560 / 08	म.न. 1490, शास्त्री नगर, मेडिकल कॉलेज के निकट, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	28.11.82
790	गजुला रविकांत जॉर्ज	महाएसवीसी / 8095 / 08	बेंटेल, सुयोग नगर, न. 2, गोलेश्वर रोड, डाक— कपिल, तालुक करड, महाराष्ट्र, जिला— सतारा— 415110	बीवीएससीएवं एच / पीआरके वीवी / 72	08.07.49
791	घांगले गनेश रामदास	महाएसवीसी / 7870 / 07	द्वारा श्री मोहन भीमाजी हडवले राजुरी, तालुक— जुन्नर, जिला— पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	13.10.84
792	घनश्याम कुमार, पुत्र श्री वशिष्ठ नारायण सिन्हा	बीवीसी / 2812 / 06	ग्राम— नयाओला, स्पीकर चौक, इस्लामपुर, डाक— मुजफ्फरपुर, थाना— काजी मोहम्मदपुर, सब—डिवीजन— मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 06	24.10.78
793	घावाटे अमोल मोहन	महाएसवीसी / 7845 / 07	1 / 91—3, अशोक कॉलोनी, ताम्बरी विभाग, उस्मानाबाद— 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	10.6.84
794	घोडके प्रफुल्ल सुरेश	महाएसवीसी / 7817 / 07	म.न. 72—ए, ए / पी खामगांव, तालुक व जिला— उस्मानाबाद — 413508, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 07	17.5.85
795	घोगारे रश्मि भास्कर	महाएसवीसी / 7938 / 08	बोम्बले हनुमान स्ववेयर, डी. फार्मा कॉलेज के निकट, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 07	20.07.84
796	घुले अविनाश कासीनाथ	महाएसवीसी / 8143 / 09	आविष्कार सिद्धांत हाउसिंग कॉलोनी (नवाशिचा माला), घुलेवाडी रोड, तालुक— संगमनेर, जिला— अहमदनगर — 422605	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 08	15.06.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
797	घुले प्रकाश महादेव	महाएसवीसी / 8084 / 08	मधुवन अपार्ट., 9, वाडा रोड, राजगुरु नगर, तालुक खेड, जिला पुणे- 410505	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	11.12.83
798	घुले शिवानंद सुदाम	महाएसवीसी / 7809 / 07	ए / पी देवाडा, तालुक- राजौरा, जिला- चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	16.11.83
799	गिबिन जॉर्ज टी., पुत्र श्री टी. जॉर्ज	केरलएसवीसी / 3446 / 09	थेंगुविलायिल हाउस, पुनप्पला डाक, वंडूर, मलप्पुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	21.12.84
800	गिल्बर्ट राज कुमार, पुत्र श्री एन.ए. ज्ञानमनि	टीएनएसवीसी / 4083 / 08	एम- 89, हाउसिंग यूनिट, मनिक्कम पलायम, इरोडे- 11, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 62	18.12.38
801	गिरीश कृष्णन, पुत्र श्री गोपाल कृष्णन नायर	केरलएसवीसी / 3344 / 08	कोट्टाराथुंकल हाउस, कोल्लोरकोनम डाक, इडामुला, कोट्टायम- 686503, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	2.11.83
802	गिरहेपुंज भोजराज शिवराम	महाएसवीसी / 7818 / 07	जनता मिल्क डेरी, लखानी (मुरमडी), जिला- भंडारा- 441804, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	17.9.83
803	गिरीश कुमार बैरवा, पुत्र श्री भीका राम बैरवा	राजएसवीसी / 3519 / 08	15, राम नगर, आगरा रोड, दौसा- 303303, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	15.7.82
804	गिरीश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री आर. एल. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 4833 / 08	ग्राम- इटारा, डाक- इटारा हेह, बालापुर, जिला- जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	25.9.84
805	गिरराज मित्तल, पुत्र श्री विमल मित्तल	राजएसवीसी / 3553 / 08	क्लॉथ मर्चेट, सदर मार्केट, बोनली, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	15.11.81
806	गीता मेरी पीटर्स, पुत्री श्री के. पाथरोज	केरलएसवीसी / 3376 / 08	किजाकुमपराम्बिल हाउस, पेरुम्बवूर, अर्नाकुलम- 683356, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	24.5.84
807	गीते इंद्रजीत बाजीराव	महाएसवीसी / 7778 / 07	भैरो अपार्टमेंट, प्लॉट न. 43, स्टेशन रोड, अम्बरनाथ (पू.), थाणे- 421501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
808	ग्लोरिया टिग्गा, पुत्री श्री जूलियस टिग्गा	जेवीसी / 298 / 08	द्वारा श्री बुधनाथ ओरांव, नयासराय, सापारोम (पिस्का नगरी), जगनाथपुर, रांची— 835303, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 91	18.02.65
809	गोबाडे राकेश रमेशजी	महाएसवीसी / 7853 / 07	एटी— जाम्भोरा, डाक— पालोरा, तालुक— मोहादी, जिला— भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	23.10.83
810	गोगोई मोनिशी, पुत्र श्री धनबर गोगोई	एसएम / 2405 / 08	म.न. 77, जू जापारीगोग रोड, (बोडो नामघर के निकट), गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएवंए एच / एयू/ 08	30.1.84
811	गोगोई राजकिशोर, पुत्र श्री फणीन्द्र नाथ	एसएम / 240 7 / 08	म.न. 7, एम.जी. पेट, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी— 781005, असम	बीवीएससीएवंए एच / एयू/ 08	10.10.84
812	गोगोई स्वप्निल, पुत्र श्री गोगोन गोगोई	एसएम / 2422 / 09	बालीजान सैदी नगर, डाक— चबुआ, जिला— डिब्रूगढ़— 786184, असम	बीवीएससीएवंए एच / एयू/ 08	31.12.81
813	गोकुल चंद, पुत्र श्री भंवर लाल	हरिएसवीसी / 2032	ग्राम— कर्मगढ़, डाक— साहूवाला -1, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	2.4.81
814	गोले वैभव चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7786 / 07	समीक्षा, प्लॉट न. 5, ज्ञानदीप कॉलोनी, केरूल रोड, कडा, तालुक— अष्टी, जिला— बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	12.12.84
815	गोंगले माधवी आनंद	महाएसवीसी / 7797 / 07	महाराना प्रताप वार्ड, पाली बुधा के निकट, बल्लारपुर, जिला— चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमए एफएसयू / 07	26.10.82
816	गोपाल कृष्ण दंडापत	उड़ीसाएसवी सी / 2244 / 08	एटी— क्वा.न. सी / 88, सेक्टर—6, राउरकेला, जिला— सुंदरगढ़— 769002, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएंड टी / 08	1.3.83
817	गोपाल कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री नागरमल अग्रवाल	जेवीसी / 472 / 09	खरंगझार, टेल्को वर्क्स, जमशेदपुर, पूर्वी सिंधभूम— 831004, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 95	15.12.68

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
818	गोपाल प्रसाद, पुत्र श्री रामसे	सीजीएसवीसी /419/08	ग्राम एवं डाक— पिसोड, थाना— जाजगीर, जिला— चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/95-96	6.1.71
819	गोपाल सिंह, पुत्र श्री नर सिंह	यूवीसी/360 /08	ग्राम एवं डाक— कौली (जौलजीबी), जिला— पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/जीबी पीयूएएंडटी/ 88	25.6.62
820	गोपाल लूनावत, पुत्र श्री रामसेत	पीएसवीसी/ 4767/08	वासुराम थंडा (ग्राम), पेड़डा नगरम (डाक), नरसिंहुलापेट (एम), दांतलपल्ली तालुक, वारंगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवी वीयू/08	15.4.83
821	गोपाल सिंह यादव, पुत्र श्री विद्या राम यादव	सीजीएसवीसी /355/08	सिविल लाइन, मंडेरगढ़ जिला, कोरिया, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/04-05	1.7.80
822	गोटे साई राम बालाजी	महाएसवीसी/ 8029/08	द्वारा बालाजी तुकाराम गोटे, ए/पी— टोंडगांव, महाराष्ट्र तालुक एव जिला— वाशिम— 444505, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	15.12.84
823	गोवंडे प्रेमानंद लक्ष्मण राव	महाएसवीसी/ 8102/08	प्रकाश नगर, टरोडा बी.के., नांडेड— 431605	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	10.04.84
824	गोवंद प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बूधन स्वर्णकार	जेवीसी/478 /09	सुकरीगढ़ लारी, रामगढ़ कैंट, रामगढ़, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 82	31.12.58
825	गोविंद सिंह खाती, पुत्र श्री लाल सिंह	यूवीसी/388 /08	त्रिलोक नगर, मल्ली बामोरी, हलद्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/जीबी पीयूएएंडटी/ 08	21.6.83
826	प्रेसिया लालचम जुली, पुत्री श्री एल. छुआनलियाना	मिजएसवीसी/ 173/09	म.न. डी/जेड, दिनथार, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएवंए एच/सीएयू/ 08	18.6.84
827	गुलाब चंद भगत, पुत्र स्व. श्री सुख लाल भगत	जेवीसी/503 /09	हरिजनपारा, बडारवा, राजमहल, साहिब गंज— 816101, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 82	06.05.57

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
828	गुल्हाने अमोल बाल कृष्णा	महाएसवीसी / 8001 / 08	दरवाहा गेट के निकट, करंजा (लाड), जिला— वाशिम	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 08	12.10.84
829	गुलशन चंद, पुत्र श्री गुरदास राम	पीबीएसवीसी / 2809 / 08	धाना— पठानकोट, ग्राम— चंजेली, डाक— सुजानपुर, जिला— गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	27.06.85
830	गुरजीत सिंह बाली, पुत्र श्री त्रिलोक सिंह बाली	पीबीएसवीसी / 2802 / 08	म.न. 167, कमला नेहरू कॉलोनी, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	19.3.83
831	गुरलीन कौर, पुत्री श्री भजन सिंह	पीबीएसवीसी / 2821 / 08	म.न. 260 / 18, पुलिस लाइंस के पीछे, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	14.3.85
832	गुरप्रीत पासी, पुत्र श्री बरिन्दर कुमार पासी	पीबीएसवीसी / 2810 / 08	म.न. 51—52, श्रद्धा नगर एक्सटेंशन, फेज—III, पाखोवल रोड, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	12.11.85
833	गुरु देव राज, पुत्र श्री आत्मा राम	हरिएसवीसी / 2045	ग्राम— पसताना, डाक— रईसन, ब्लॉक नीलोखेड़ी, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएवंएच / सीसीएस एसयू / 08	10.1.84
834	गुरदेव सिन्हा, पुत्र स्व. श्री बंशु सिन्हा	जेवीसी / 377 / 08	रातू (ब्लॉक रोड), काली मंदिर के निकट, रातू, रांची— 835222, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएसयू / 71	01.03.49
835	गुरुदत्त जोशी, पुत्र श्री उदय नारायण जोशी	राजएसवीसी / 3522 / 08	2—सीएच—21, जवाहर नगर, जयपुर— 302004, राजस्थान	बीवीएससीएवंएच / सीसीएस एसयू / 05	17.7.81
836	गुरुलिंगप्पा पाटन, पुत्र श्री शिव शरणप्पा	कर्नाएसवीसी / 4163 / 08	न. 72, सिद्धेश्वर बदावने, इब्राहीमपुर कॉलोनी, बीजापुर— 586101, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच / केवीएएफ एसयू / 08	2.3.86
837	गुरुविन्दर सिंह जामत, पुत्र श्री घुपिन्दर सिंह जामत	पीबीएसवीसी / 2817 / 08	म.न. 10357, रनजेर पार्क, कलां, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	8.12.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
838	ज्ञानचंद कुमार आर्या, पुत्र श्री राम स्वार्थ यादव	जेवीसी / 224 / 08	टीवीओ: नावा, पलामू— 803214, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 04	14.05.76
839	एच. विजय कुमार, पुत्र श्री ए. हरिदौस	टीएनएसवीसी / 4115 / 08	3 / 3, मरियमन कोइल स्ट्रीट, मट्टाथूर डाक, विल्लुपुरम— 605203, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच / पीयू / 08	15.9.85
840	हाडोले कुलदीप अनिल	महाएसवीसी / 7810 / 07	लक्ष्मी नगर, मारुति मंदिर के निकट, अमरावती— 444605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	2.6.85
841	हेमेंद्र कुमार, पुत्र श्री श्रीराम	यूपीएसवीसी / 4817 / 09	ग्राम— इस्सापुर, डाक— हलदौर, जिला— बिजनौर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबी पीयूएंडटी / 08	24.10.79
842	हमपन्ना, पुत्र श्री संगन्ना	कर्नाएसवीसी / 4168 / 08	कोल्लूर— 585218, चित्तापुर तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.6.84
843	हनुमंत राव देवामने, पुत्र श्री शंकर	कर्नाएसवीसी / 4186 / 08	न. 1383, शाहूनगर, बेलगाम— 590010, बेलगाम तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	15.6.84
844	हरदास राहुल प्रभाकर	महाएसवीसी / 8020 / 08	कोचर वार्ड, शिव मंदिर के निकट, हिंमन घाट, तालुक हिंमनघाट, महाराष्ट्र, जिला वर्धा— 442301	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	26.07.4
845	हरेलाल महतो, पुत्र श्री दुर्लभ महतो	जेवीसी / 284 / 08	द्वारा श्री दुर्लभ महतो, पेरईडीह, जामुनपिरी, तमार, रांची— 835225, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 01	07.01.74
846	हरेंद्र कुमार, पुत्र श्री चमन सिंह	यूपीएसवीसी / 4829 / 08	ग्राम— इस्लामपुर साहू, डाक— छितवर, जिला— बिजनौर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबी पीयूएंडटी / 08	1.7.82
847	हरेंद्र पाल भगत, पुत्र श्री मंगला ओरांव	जेवीसी / 283 / 08	द्वारामंगजा ओरांव, रबीन्द्र नगर, नोवाडीह, दुमरी, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 94,	02.03.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
848	हरि आर, पुत्र श्री पी.टी. रवि कुमार	केरलएसवीसी /3471/09	ओटिलायिल हाउस, कोट्टारम रोड, डाक- इरान्ही पलेम, कोजीकोड- 673006, केरल	बीवीएससीएवंएच/केएयू/09	19.6.84
849	हरि अब्दुल समद, पुत्र श्री ए.पी. अब्दुल समद	केरलएसवीसी /3467/09	अराकल हाउस, फ्रैंड नगर, कूडापुजाह, चकडी, थिसूर- 680307, केरल	बीवीएससीएवंएच/केएयू/09	16.3.85
850	हरि कुमार, पुत्र श्री एन.एस. कार्था	केरलएसवीसी /3402/09	"कोमला सदानम", वेलाप्पयल (डाक), मेडिकल कॉलेज रोड (वाया), थिसूर-680596, केरल	बीवीएससीएवंएच/केएयू/09	22.11.82
851	हरि शंकर झा, पुत्र स्व. श्री मुकुंद प्रसाद झा	जेवीसी/505/09	दुमरिया, चापरी, ठाकुर घंटी, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएवंएच/आरएयू/91	21.01.65
852	हरिहर प्रसाद, पुत्र श्री राम सागर साह	जेवीसी/522/09	टीवीओ तिसरी, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवंएच/बीएयू/93	10.11.66
853	हरिकेश मीना, पुत्र श्री राम स्वरूप मीना	राजएसवीसी/3474/08	ग्राम-गश्तीपुरा डाक वजीरपुर, थाना- गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर- 322219, राजस्थान	बीवीएससीएवंएच/आरएयू/07	13.7.78
854	हरीश शर्मा, पुत्र श्री नरेश शर्मा	एमपीएसवीसी /2571/08	शर्मा ट्रेडर्स, अतेर रोड, डाक- पोरसा, जिला- मुरैना, म.प्र.	बीवीएससीएवंएच/जेएनकेवीवी/08	24.9.82
855	हरीश डी.आर., पुत्र श्री रामचंद्र के.	कर्नाएसवीसी/4144/08	दरसागुप्पे- 571435, श्रीरंगपटना तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच/केवीएएफएसयू/08	10.6.86
856	हरीश कृष्णन एम., पुत्र श्री मोहनदास टी. मेनन	केरलएसवीसी /3404/09	नंदनम, इडक्कड रोड, ईस्ट हिल, कालीकट- 673005, केरल	बीवीएससीएवंएच/केएयू/09	11.1.85
857	हरीश एन.एस., पुत्र श्री नागराजू	कर्नाएसवीसी/4106/08	विजयपुरा ग्राम, बिलागुम्बा डाक- 571511, कस्बा होबली, रामनगर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच/केवीएएफएसयू/08	19.2.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
858	हरि शंकर चंद्राकर, पुत्र श्री भरत लाल चंद्राकर	सीजीएसवीसी /368/08	इंडिया हार्डवेयर एंड ऑटोपार्ट्स, इंदिरा चौक, अरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	2.9.74
859	हरप्रीत कटारिया, पुत्र श्री साधु राम कटारिया	पीबीएसवीसी/ 2822/08	म.न. बी-111/45, गली -2, क्लॉक टावर के निकट, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	18.4.84
860	हर्ष श्वेता, पुत्री श्री अशोक कुमार	पीबीएसवीसी/ 2807/08	म.न. 339, मीरा साहिब स्ट्रीट, सलीम शाह बाजार, फाजिल्का, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	18.04.86
861	हरविंदर कौर, पुत्री श्री हाकम सिंह	पीबीएसवीसी/ 2790/08	ए-13, गुरु नानक कॉलोनी, नया बस स्टैंड, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	22.9.85
862	हरविन्दर सिंह, पुत्र श्री हरदेव सिंह	पीबीएसवीसी/ 2808/08	म.न. 4, स्टाफ कॉलोनी, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉटेज, जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	23.07.84
863	हीरेश कुमार भालवी, पुत्र श्री बी. पी. भालवी	एमपीएसवीसी /2548/08	क्वा.न. 31, इसारजी कैम्पस II, ऋषिपुरम के निकट, पिपलानी, भोपाल- 462023, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	5.6.81
864	हीमोन्नी नियांग, पुत्र श्री बी. सामती	मेघएसवीसी/2 60/08	मूकिरडूप, लाडथलाबोह, जोवाई- 793150, मेघालय	बीवीएससीएवंए एच/एसयू/ 08	17.2.85
865	हेमा सिन्हा, पुत्री श्री सत्येंद्र नाथ सिन्हा	जेवीसी/067 /08	पत्नी श्री ए.के. बहादूरी, सूर्या क्लिनिक लेन-2, कुम्हारटोली, पुरुलिया रोड, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएसयू/ 91	22.05.66
866	हेमंत कुमार नेतम, पुत्र श्री सूर्य भान सिंह नीलम	सीजीएसवीसी /385/08	ग्राम- जोगीपुर, डाक- बांधा टकतपुर, विलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	8.2.82
867	हेमंत कुमार, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद सिंह	बीवीसी/2835 /07	ग्राम- नौगई, डाक- तेलिया नौगई, थाना- फेलीदुमन्नार, जिला- बंका, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/केएएंड एफएसयू/06	2.12.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
868	हेंपत विक्टर शॉ, पुत्र स्व. श्री गोडविल शॉ	जेवीसी / 195 / 08	टी.वी.ओ., महेश मुण्डा, बेगाबाद, गिरिडीह— 815301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 89	22.7.62
869	हिमांशु धर्मा शक्तू, पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह	यूवीसी / 382 / 08	दत्त वाईपास रोड, सुयाल चूना भट्टा के निकट, बिठोरिया न. 1, हलद्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबी पीयूएंडटी / 0 8	4.6.85
870	हिमांशु कुमार हिमकर, पुत्र श्री भुबनेश्वर प्रसाद महतो	बीवीसी / 2943 / 08	ग्राम एवं डाक— पहाड़पुर, थाना— मेदनी चौकी, सब— डिवीजन— सूर्यगढ़, जिला— मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 06	5.6.75
871	हिमांशु पांडे, पुत्र स्व. श्री के.डी. पांडे	यूवीसी / 365 / 08	लक्ष्मी केदार कुंज, विकास भवन मार्ग, छतर डाक एवं जिला— चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबी पीयूएंडटी / 95	9.10.74
872	हीरा, पुत्र श्री नानेराम जोशी	सीजीएसवीसी / 386 / 08	ग्राम— अमोधा, डाक— हसोड वाया, बाड़ा, जाजगीर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	10.7.80
873	दिशे ओंगमो, पुत्री श्री एम.जी. छोपेल	सिक्किम / 88 / 09	पुत्री श्री एम.जी. छोपेल, अपर सामडोंग, पूर्वी सिक्किम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू/ 09	
874	हितेंद्र कुमार सोनी, पुत्र श्री दीन बंधु सोनी	सीजीएसवीसी / 382 / 08	ग्राम देवरी, जाजगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	19.2.82
875	हितेश कुमार सुखेजा, पुत्र श्री राज किशोर	एमपीएसवीसी / 2535 / 08	राज स्टोर, कृष्ण नगर, सतना— 485001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	23.10.80
876	होले आशीष शरद	महाएसवीसी / 7983 / 08	द्वारा एस.आर. होले, वार्ड न. 6, ए/पी / तालुक नरखेड, जिला— नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	18.01.85
877	हुसैन मौह. मोख्तार, पुत्र मौह. अस्ताब अली	एसएम / 2381 / 08	ग्राम एवं डाक— भोलाबारी, जिला— उदलगुरी (बीटीएडी)— 784525, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू/ 08	31.12.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
878	आई.ए.एल. मोनी, पुत्र श्री मसीलामनी	टीएनएसवीसी /4392/09	184/26, मादुरी मेन रोड, क्रॉ फोर्ड, त्रिची- 620012, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/66	14.8.42
879	आई. कन्नन, पुत्र श्री एस. इरुलप्पन	टीएनएसवीसी /4084/08	चेल्लयाम्मन कोइल स्ट्रीट, सत्तूर डाक, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीए एस/97	25.5.73
880	आई. मरियप्पन, पुत्र श्री एस. इयप्पन	टीएनएसवीसी /4197/08	45, नॉर्थ स्ट्रीट, अलवर काकुलम, ट्यूटीकोरिन, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.6.86
881	इरवार उमेश वसत	महाएसवीसी/ 7833/07	पवन नगर, अमरावती- 44, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	22.9.84
882	इमित्याज अली, पुत्र श्री जजातुद्दीन	राजएसवीसी/ 3515/08	राहिल कोसर ब्राइट शू स्टोर, नयापुरा, कोटा- 324001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	7.7.81
883	इदीपरम्बन जेनेट राजी	महाएसवीसी/ 7773/07	बी-1/1669, विनय कोऑप हाउसिंग सोसायटी, एमएचबी कॉलोनी, खेरमनगर, बांद्रा (पू.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	30.3.81
884	इंदर जीत सिंह, पुत्र श्री हूनी चंद	एचपीएसवीसी /826/08	ग्राम- कोटला खास, डाक- कोटला बेहर, थाना- जसवान, जिला- कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/08	1.12.82
885	इंदरजीत सिंह, पुत्र श्री कुलदीप सिंह	पीबीएसवीसी/ 2803/08	म.न. 167, कमला नेहरू कॉलोनी, भठिंडा, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसयू/08	22.1.85
886	इंदरजीत यादव, पुत्र श्री वीरेंदर कुमार	हरिएसवीसी/ 2052	ग्राम एवं डाक- नीरपुर, थाना- नारनौल, जिला- महेंद्र गढ़, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	9.6.85
887	इंदु नारायणा एन., पुत्री श्री एन. नारायणन इम्ब्रान्दरी	केरलएसवीसी /3387/08	नीलमाना माधम, वराडियम, अवानुर डाक, थिसूर- 680547, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	25.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
888	इंगले धम्मपाल देवीदास	महाएसवीसी / 8146 / 09	एटी- वाघेला, डाक- अम्बा साखर, तालुक- अम्बाजोगई, जिला-बीड 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	30.5.85
889	इंगले स्मिता हरीशचंद्र	महाएसवीसी / 7798 / 07	काइनेटिक शो रूम के सामने, गिरि नगर, आरटीओ रोड, अकोला- 444104, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	3.5.84
890	इंगले सोनल अरुण	महाएसवीसी / 7823 / 07	65, बैंक कॉलोनी, भगवान नगर, नागपुर- 27, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	27.12.84
891	इरीन ग्रेस कुरियन, पुत्र श्री के.सी. कुरियन	केरलएसवीसी / 3391 / 08	कुजीकौथाजी डाक, नारीयानानी, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / टीएनएयू / 08	17.2.85
892	ईश्वर सिंह, पुत्र श्री वीर सिंह	यूवीसी / 361 / 08	1 / 124, फूल बाग, पंतनगर, जिला- यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / एचएयू / 86	1.4.62
893	ईश्वरी प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री मेहरचंद महतो	जेवीसी / 498 / 09	वी.एस. देवघर, वेटेरिनरी अस्पताल, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एमयू / 70	17.07.47
894	इसीडोर टिग्गा, पुत्र स्व. श्री जोहन टिग्गा	जेवीसी / 456 / 09	परसा तेतार टोली, लोवाबर, दुमरी, गुमला- 835230, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 91	15.08.60
895	जे. अमिरथा लिंगम, पुत्र श्री एम. जीवानंदम	टीएनएसवीसी / 4161 / 08	169, उम्बिलीक्कमपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएएस / 08	26.9.83
896	जे. आरमुगम, पुत्र श्री टी. जयकृष्णन	टीएनएसवीसी / 4213 / 08	सेंकट्टुशोर्टम, कजिलवानी डाक, अथानी, वाया- भवानी, तालुक- इरोडे- 638502, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएएस / 08	13.11.83
897	जे. सीलिया, पुत्र मेज. सी.वी. कार्टर अरुलराज	टीएनएसवीसी / 4358 / 08	प्लॉट न. 76, प्रथम स्ट्रीट, रामाकृष्ण नगर, करुमंडमपम, त्रिची- 620001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएएस / 00	12.6.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
898	जे. देवारत्नम, पुत्र श्री जे. सत्या नंदम	पीएसवीसी / 4801/08	16/880, निर्मला अस्पताल के सामने, मस्रापेट, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	2.4.81
899	जे. जोहान विविलियन, पुत्र श्री टी. जॉन पीटर कृष्णन	टीएनएसवीसी /4273/08	10/180-2, टी.वी.के. नगर, हरूर, धर्मापुरी- 636903, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	11.6.85
900	जे. लक्ष्मणन, पुत्र श्री एम. जयरमन	टीएनएसवीसी /4336/08	नव.कुरिची डाक, अट्टूर तालुक, सलेम- 636112, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	3.9.82
901	जे. मेरी विनी एंजेल, पुत्री श्री ए. जेसूदास	केरलएसवीसी /3379/08	एंजिल्स एवरग्रीन लेन, कोंडुंगनूर डाक, टीवीएम- 695013, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	5.12.84
902	जे.एन. कुलकर्णी, पुत्र श्री नारायण राव कुलकर्णी	कर्नाएसवीसी / 4096/08	प्लॉट न. 109, चंद्राला, अप्पन गौडा, पाटिल मार्ग, कुलकर्णी लेआउट, रामतीर्थ नगर, वेलगाम- 590015, कर्नाटक	बीवीएससी/यू एसबंगलौर/ 74	1.6.50
903	जे.आर. सिद्धार्थन, पुत्र श्री आर.वी. रामचंद्रन	टीएनएसवीसी /4149/08	80, श्रीवस्ता हिल व्यू, कोवईपुडुर, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/ 76	29.5.53
904	जे. राजा मुरगन, पुत्र श्री आर. जयचंद्रन	टीएनएसवीसी /4080/08	थोट्टीमेड्डू स्ट्रीट, बी. मुथुर डाक, चिदाम्बरम तालुक, कुडालोर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /01	11.6.77
905	जे.आर.एस.एस. किरन, पुत्र श्री जे. वेंकटेश्वर राव	पीएसवीसी / 4772/08	डी.न. 4-426, कालीकृष्णा नगर, दौलाईश्वरन, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	17.12.84
906	जे. शैलजा, पुत्री श्री जे. ब्रह्मचारी	पीएसवीसी / 4740/08	ई.डब्ल्यू.एस.-12, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सूर्यपेट, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	18.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
907	जे. विद्या मनाहोरी, पुत्र श्री एस. जगदीसन	टीएनएसवीसी /4304/08	56, अलाथुकोम्बई, सादुमुगई, डाक— सेम्बदमपलायम, साथ्या मंगलम तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	8.8.83
908	जाधव शिवशंकर अशोकराव	महाएसवीसी/ 7765/07	एटी— पिम्पलगांव कुडे, डाक— ताडशिवानी, तालुक सिंदखेद राजा, जिला— बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	28.12.83
909	जाधव अमोल रमेश	महाएसवीसी/ 8048/08	जाधव बिल्डिंग, तापनेश्वर रोड, जामखेड, जिला अहमदनगर— 413201	बीवीएससीएवंए एच/एमए एफएसयू/08	08.11.85
910	जाधव मिलन भोपीदास	महाएसवीसी/ 7834/07	38, आई.यू.डी.पी. कॉलोनी, दूसरा फेज, वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	15.6.84
911	जाधव प्राजक्ता विवेकानंद	महाएसवीसी/ 8077/08	राहुरी पब्लिक स्कूल, क्वा.न. 2, राहुरी फौवट्री, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर— 413706	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	06.08.85
912	जाधव प्रवीन औदुम्बर	महाएसवीसी/ 7984/08	जलशुद्धिकरण केंद्र, मनीषा नगर, तालुक पंढरपुर, जिला सोलापुर	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	14.03.85
913	जाधव रमेश धीरसिंग	महाएसवीसी/ 8136/09	एस.आर.टी. कॉलोनी, तारबारी विभाग, महाराष्ट्र, उस्मानाबाद, जिला— उस्मानाबाद	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	10.05.83
914	जाधव रविशंकर सूर्यकांत	महाएसवीसी/ 7741/07	एटी— नेले, डाक— किडगांव, तालुक एवं जिला— सतारा— 415015, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/06	11.11.83
915	जाधव वर्षारानी दादासाहेब	महाएसवीसी/ 8112/08	ए/पी देवलाळी, कलम्ब, जिला— उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	30.01.84
916	जाधव कपिल रामचंद्र	महाएसवीसी/ 8122/08	विद्या नगर कॉलोनी, पालुस, जिला— सांगली— 416310, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	03.07.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
917	जाधव योगेश भगवान	महाएसवीसी / 7900 / 07	पाटिल चॉल, डेंग मिल कॉम्पलेक्स, परली नाका, तालुक - वाडा, जिला- थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.2.81
918	जफर अहमद, पुत्र श्री जहीर अहमद	राजएसवीसी / 3518 / 08	करनीसर हाउस के पीछे, नया गजनेर रोड, बीकानेर- 334001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	1.01.83
919	जगदीश्वरी, पत्नी श्री एस. रविकुमार	कर्नाएसवीसी / 4211 / 08	न. 24, मारुति नीलायम, तीसरा क्रॉस, सीआईएल लेआउट, चोलानायकनहल्ली, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 01	6.11.78
920	जगदीश एम., पुत्र श्री चन्ना केशवा मूर्ति	कर्नाएसवीसी / 4100 / 08	आईडीके-4 / बी, न्यू कॉलोनी, भद्रावती- 577302, शिमोगा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	9.6.85
921	जगदीश सी.एस., पुत्र श्री चंद्रप्पा टी. एस.	कर्नाएसवीसी / 4162 / 08	टेम्पल रोड, टोगारसी- 577433, शिकारीपुरा तालुक, शिमोगा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	13.7.85
922	जगमोहन मलिक, पुत्र श्री नरहरि मलिक	उडीसाएसवी सी / 2228 / 08	क्वा.न. बी / 138, सेक्टर-14, राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएएंड टी / 08	2.5.83
923	जगन्नाथ ओरांव, पुत्र स्व. श्री शुक्र ओरांव	जेवीसी / 463 / 09	पातरा टोली, कनके, रांची - 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 86	19.05.60
924	जगत नारायण चौधरी, पुत्र स्व. श्री घनानंद चौधरी	जेवीसी / 181 / 08	साहो, साहेब गंज, बंगाली टोला, किंडरगार्टन स्कूल के निकट, साहेबगंज- 816109, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 77	02.02.54
925	जगत पाल, पुत्र श्री अजमेर सिंह	हरिएसवीसी / 2066	मोगा वाला अस्पताल, भट्टू मंडी, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	11.1.81
926	जगबीर सिंह नरवारिया, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	एमपीएसवीसी / 2578 / 09	द्वारा श्री राज कुमार, "सोनी भवन", 208-बी, अशोका गार्डन, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	1.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
927	जगदीश प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री सूर्य नारायण सिंह	जेवीसी / 262 / 08	डी.ए.एच.ओ., साहिबगंज— 816109, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 81	15.02.55
928	जगदीश शरन सिन्हा, पुत्र स्व. श्री दामोदर प्रसाद सिन्हा	जेवीसी / 483 / 09	कॉलेज रोड, कोरा, हजारीबाग, पिन— 825301, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरयू / 71	07.02.48
929	जगेंद्र वर्मा, पुत्र श्री एच.सी. वर्मा	यूपीएसवीसी / 4894 / 09	ग्राम एवं डाक— तालगांव, थाना— फतेहपुर, जिला— बाराबंकी, उ.प्र.	बीवीएससीएवंएच / जेएलके वीवी / 06	7.11.79
930	जगजीवन लाल साकेत, पुत्र श्री जमुना प्रसाद साकेत	एमपीएसवीसी / 2517 / 08	एटी डाक डेरा, थाना मौगंज, जिला— रीवा— 48633, म.प्र.	बीवीएससीएवंएच / जेएनकेवी वी / 08	27.2.74
931	जगताप विद्याधर सदाशिव	महाएसवीसी / 7812 / 07	ए/पी— रंदुलाबाद, तालुक— कारेगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 07	5.7.85
932	जगताप रमेश भानुदास	महाएसवीसी / 7745 / 07	एटी— माशेरवाडी, डाक / तालुक— ढौंड, जिला— पुणे— 413801, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 05	4.6.83
933	जगताप स्वप्निल पांडुरंग	महाएसवीसी / 7782 / 07	125, कृपतार्थ, शाहू नगर, चेतनावाडी— 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 07	1.3.83
934	जहरिसा दिव्य जोती, पुत्र स्व. श्री बिहुलाल जहरिसा	एसएसएम / 2386 / 08	ग्राम— पश्चिमी गोजालीपर, डाक एवं थाना— हौराघाट, जिला कारबी अंगलॉग, असम	बीवीएससीएवंएच / एएयू / 07	31.1.84
935	जय कुमार तिवारी, पुत्र श्री दीना नाथ तिवारी	जेवीसी / 308 / 08	द्वारा श्री दीना नाथ तिवारी, मोह.— बहियारी (नगर—उंटारी), गढ़वा— 822121, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 03	10.02.78
936	जय पाल, पुत्र श्री रोशन लाल	एचपीएसवीसी / 825 / 08	ग्राम एवं डाक— करासा (बाहली), थाना— रोहरू, जिला— शिमला, हि.प्र.— 171207	बीवीएससीएवंएच / सीएसके केवीवी / 08	14.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
937	जयप्रकाश महतो, पुत्र स्व. श्री भीम महतो	जेवीसी / 185 / 08	द्वारा डॉ. महानंद पंजियार, पकारिया, कोरकाघाट, पारिगाम, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 89	21.02.59
938	जयप्रकाश नारायण, पुत्र स्व. श्री बिहारी शरन सिंह	जेवीसी / 529 / 09	डॉ. जय प्रकाश नारायण, बी.ए.एच.ओ., नाला पांड्रा, हेहल, रांची- 834005, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 87	08.09.60
939	जयप्रकाश नारायण, पुत्र स्व. श्री रमेश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 341 / 08	डीएचओ, सरायकेला, सरायकेला- खरसावन- 833219, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 73	13.01.53
940	जयबीर प्रसाद सलहैता, पुत्र स्व. श्री कामेश्वर प्रसाद सलहैता	बीवीसी / 2771 / 06	ग्राम- बरियारवा, डाक- भगता, थाना- भेजा, सब- डिवीजन- झांझरपुर, जिला- मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 06	11.11.74
941	जय प्रकाश सिंह, पुत्र श्री सुभाष सिंह	यूपीएसवीसी / 4780 / 08	ग्राम- कंगीबाग, डाक- सर्राकला, जिला- बहराइच, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/एनडीयूए टी / 08	10.10.83
942	जमालुद्दीन, पुत्र मौह. अब्दुल शकूर	जेवीसी / 467 / 09	दर्जी मौहल्ला, खिरगांव, हजारीबाग- 825301, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 92	01.03.66
943	जम्बेश्वर प्रधान, पुत्र श्री पिताबसे प्रधान	उड़ीसाएसवी सी / 2240 / 08	एटी- गीताग्राम (एलपी स्कूल के निकट), डाक- पीटीसी अंगुल, जिला- अंगुल, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी / 08	16.7.84
944	जनार्दन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री यदुनंदन प्रसाद	जेवीसी / 398 / 08	देवी मंडप रोड, सुखदेव रोड, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 72	02.10.48
945	जनत भगत, पुत्र श्री एम.सी. भगत	जेवीसी / 317 / 08	द्वारा श्री एम.सी. भगत, मौह. खाकमटोली, एयरपोर्ट रोड, हीनू, दोरांडा, रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 03	25.10.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
946	जसावल आशीष कुमार राधे श्याम	महाएसवीसी / 8042 / 08	द्वारा मिनी जनरल स्टोर, स्टेशन रोड, तिरोदा, जिला— गोंडिया, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 08	02.07.83
947	जसमी जमाल, पुत्र श्री ए. जमालुद्दीन	केरलएसवीसी / 3384 / 08	नेदुमपोलिल हाउस, नादूविलक्कारा, थेवलक्कारा डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	25.5.84
948	जैस्मिन के.एफ., पुत्री श्री के.के. फ्रांसिस	केरलएसवीसी / 3458 / 09	कन्नमपुजाह हाउस, डाक— कून्नामूची, चूडल, थिरसूर, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	28.12.83
949	जसपिंदर पाल कौर, पुत्री श्री शमशेर सिंह ढाडा	हरिएसवीसी / 2081	851, सेक्टर—11, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / पीएयू / 02	7.2.78
950	जसुत्कर रवीन्द्र कृष्ण राव	महाएसवीसी / 8036 / 08	पुरानी मार्केट स्क्वेयर के निकट, वार्ड न. 5, करंजा (घडगे), जिला वर्धा— 442203	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 07	25.11.79
951	जसवंत सिंह, पुत्र स्व. श्री श्रीलाल चंद्र	यूपीएसवीसी / 4815 / 08	ग्राम— बावन, डाक— कोइयान, जिला— कानपुर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू ए टी / 08	21.12.81
952	जतिन्दर कुमार सूद	गुजएसवीसी / 2893 / 08	सीबी—1, एनडीडीबी, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / पीएयू / 83	2.3.61
953	जतिन्दर बीर सिंह, पुत्र श्री हरपाल सिंह	पीबीएसवीसी / 2851 / 08	ग्राम एवं डाक— गग्गोबुआ, जिला— ऐड्न, पालन— 143302, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / ओयूएएंड टी / 08	9.5.84
954	जतिन्दरसिंह, पुत्र श्री सतपाल अरोड़ा	पीबीएसवीसी / 2804 / 08	सारम इंडस्ट्रीज, पटियाला रोड, सुनाम, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	22.8.83
955	जौलकर अश्विनी दीपक	महाएसवीसी / 7754 / 07	वार्ड न. 10, मेन रोड, नरखेड, जिला— नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	23.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
956	जावले चेतन विलास	महाएसवीसी / 7886 / 07	ए/पी कोलवाड, तालुक यवल, जिला- जलगाव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	7.7.85
957	जयचंद्र केम्पाशी, पुत्र श्री हेम चंद्रप्पा	कर्नाएसवीसी / 4173 / 08	वाई.एस. हडगली- 582209, रोन तालुक, गडग जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	19.7.85
958	जयश्री पट्टार, पुत्री श्री कृष्णाजी	कर्नाएसवीसी / 4195 / 08	न. 2451, लक्ष्मी नगर, हनुमान मंदिर के निकट, मुदल्गी- 519312, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	27.8.85
959	जयकृष्ण एम.जे., पुत्र श्री जनार्दनन एम.आर.	कर्नाएसवीसी / 3382 / 08	मधुविला हाउस, कुलनाडा डाक, पथानमथिट्टा- 689503, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 08	29.3.83
960	जयकर्धन तिवारी, पुत्र श्री महेंद्र कुमार तिवारी	राजएसवीसी / 3528 / 08	पाबू बारी के भीतर, पारीक चौक, बीकानेर- 3340005, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 08	23.5.81
961	जेविन नशरीन, पुत्र स्व. श्री फरीद अली	एसएम/ 2385 / 08	द्वारा श्रीमती नेकजन नेसा, मेग्नस अपार्टमेंट, फ्लैट न. 204(डी), बेलटोला, तिनियाली, गुवाहाटी- 781028, असम	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 08	7.12.85
962	जीवन ओ.वी., पुत्र श्री विजयन ओ. आई.	केरलएसवीसी / 3459 / 09	ओरायमपुरथ हाउस, रेलवे क्वार्टर्स न. 11ए, गुरुवयूर- 680101, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 09	14.4.84
963	जेनेविवा लकारा, पत्नी डॉ. अरुण कुमार राम	जेवीसी / 538 / 09	एल्बर्ट कम्पाउंड, पटाल कुडवा, रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 94	17.12.70
964	जेसना एस. पुत्री श्री पी. ससिधरन पिल्लै	केरलएसवीसी / 3333 / 08	चिट्टेनजाट्टू हाउस, एम.सी. वार्ड न. 4, वायकोम डाक, कोट्टायम- 686141, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 08	17.1.84
965	जिनु के. रॉय, पुत्र श्री के. डी. रॉय	केरलएसवीसी / 3443 / 09	कुन्नाथोलिल हाउस, मट्टूर, कलाडी डाक, अर्नाकुलम- 683574, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 09	28.5.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
966	जीतेंद्र कुमार, पुत्र श्री नानक चंद गिजवानी	हरिएसवीसी / 2064	ग्राम एवं डाक-- तलवारा खुद्र, थाना - एलेनाबाद, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	9.2.85
967	जीतेंद्र चौधरी, पुत्र श्री सुरेश कुमार चौधरी	एमपीएसवीसी /2535/08	सेंटर पॉइण्ट कॉम्प्लेक्स, त्रिमूर्ति भवन, फूलबाग चौराहा, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	24.5.81
968	जीतेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री राम जनम सिंह	जेवीसी / 009 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, जयंतगढ़, चाईबासा, पश्चिमी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 93	18.03.69
969	जीतेंद्र कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार यादव	पीबीएसवीसी / 2854 / 09	द्वारा डॉ. अजीत कुमार, म.न. 10 / 49, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसस्यू / 09	25.8.83
970	जीतेंद्र मोहन शर्मा, पुत्र श्री जगदीश्वर प्रसाद शर्मा	बीवीसी / 2734 / 06	ग्राम-- पनहाटोली, डाक-- रामना, थाना-- काजी मौहम्मद पुर, जिला-- मुजफ्फरपुर-- 842002, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 73	15.2.49
971	जीतेंद्र तिवारी, पुत्र श्री आर. डी. तिवारी	यूपीएसवीसी / 4891 / 09	ग्राम-- नैहा नागला डाक, गभाना जिला, अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 03	19.12.78
972	जीवन कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2880 / 07	ग्राम-- रंगिनीयान, डाक-- सिमरी बख्तियारपुर, थाना-- सिमरी बख्तियारपुर, जिला-- सहरसा-- 852127, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आईजीए यू / 07	21.5.74
973	जोगदंद हर्षा अशोक राव	महाएसवीसी / 7775 / 07	म.न. 16, स्नेह नगर, मेंढीखाना रोड, अम्बाजोगई, जिला-- बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 07	29.3.85
974	जोगलेकर गौतम अरुण	महाएसवीसी / 8147 / 09	7, तक्षशिला, बी. डब्ल्यू. पठारे मार्ग, दादर, मुम्बई-- 400028, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 08	15.4.85
975	जॉनसन भेंगरा, पुत्र स्व श्री कुमार भेंगरा	जेवीसी / 242 / 08	द्वारा श्रीमती सलोमी भेंगरा, चुरमी, मनहाटू अम्बाटोली, कुंती, रांची-- 835227, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 02	05.01.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
976	जॉइस पी. जोसेफ, पुत्री श्री पी.वी. जोसेफ	केरलएसवीसी /3430/09	पुथेनपुरक्कल, अजोभवन, कोक्काथामंगलम डाक, चेरथला, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	13.5.85
977	जोंडाले विजय मनोहर राव	महाएसवीसी/ 7805/07	वैशाली नगर, तरोडा (ब्लॉक), जिला- नांदेड- 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	1.6.83
978	जोसेफ मुथियान, पुत्र श्री एम. मुथियाहसामी	टीएनएसवीसी /4119/08	1, संकरपुरम, चौथी स्ट्रीट, चूलाईमेलदू, चेन्नई- 600094, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/ 78	16.9.56
979	जोश कुमार, पुत्र श्री जसकरन लाल	यूपीएसवीसी/ 4869/08	ग्राम-बेलाडांडी, डाक- पनिया राम किसवां, थाना-बिलासपुर, जिला- पीलीभीत, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	4.7.82
980	जोशी देवाश्री महादेव	महाएसवीसी/ 8093/08	सिद्धकला सोसायटी, 39/ 204, मनीषा नगर, काल्वा, जिला- थाणे (प.)-400605	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	21.05.85
981	जोशी विनय गणेशराव	महाएसवीसी/ 7767/07	सुयोग, समता कॉलोनी, माजलगांव, जिला- बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमए एफएसयू/07	14.10.84
982	जोशी अरविंद कुमार तेजाराम भाई	गुजएसवीसी/ 2956/08	एटी एवं डाक- जालमोर, तालुक- कंकरेज, जिला- बी.के., गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	22.8.83
983	ज्योति कुमार, पुत्र श्री बंशीधर सिंह	बीवीसी/2910 /07	ग्राम- घंघाई, डाक- थाणे, बिक्रमगंज, जिला- रोहतास- 802212, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 05	6.10.81
984	ज्योति कुरली, पुत्री डॉ. भागीरथ प्रसाद कुरली	एमपीएसवीसी /2551/08	एच-271, पीडब्ल्यूडी क्वा., शंकर शाह नगर, जबलपुर- 482002, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	19.6.83
985	ज्योतीन्द्र नारायण, पुत्र श्री परमानंद सिंह	जेवीसी/313 /08	टीवीओ वाराणसी, जिला- दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 03	02.01.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
986	ज्योतीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव	जेवीसी / 357 / 08	1 ए. प्रोवात टावर, 71, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / इन / 60	03.06.39
987	के. अजय कुमार, पुत्र श्री के. भिक्षापति	पीएसवीसी / 4755 / 08	11-25-553, कोठावाड़ा स्ट्रीट, ऑटोनगर रोड, वारंगल— 506012, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	25.1.81
988	के. अरुल प्रसाद, पुत्र श्री एन. कृष्णनागमोनी	टीएनएसवीसी / 4164 / 08	68, राजी तेल मिल के सामने, कोट्टार डाक, नगरकोइल-2, के.के. जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएएनयू वीएस / 08	6.5.84
989	के. इलावरासन, पुत्र श्री कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी / 4320 / 08	8 / 119—डी, भारती नगर, पश्चिमी कलिंगरापलायम, भवानी, इरोडे— 63301, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएएनयू वीएस / 08	28.11.85
990	के. गोबी, पुत्र श्री आर. कंडासामी	टीएनएसवीसी / 4313 / 08	65 / 20, दासा स्ट्रीट, रासीपुरम, नमक्कल— 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एएनयूवीएस / 00	15.7.76
991	के. हेमलता, पुत्री श्री के. नांजुडप्पा	पीएसवीसी / 4715 / 08	गरावनाहल्ली, एस.आर. पल्ली (ग्राम), पारिगी (एम), हिंदुपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	15.3.85
992	के. जयकांत, पुत्र श्री के. सम्बासिव राव	पीएसवीसी / 4693 / 08	पल्लपडु (डाक), ईटुकुरु वाया, गुंटूर जिला— 522017, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	7.7.84
993	के. जयति, पुत्र श्री जे. कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी / 4158 / 08	1 / 10, रेड्डीपट्टी, रेत्तीपट्टी डाक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएएनयू वीएस / 08	22.4.85
994	के. कल्पना, पुत्र श्री ए.आर. मानेवन्ना	टीएनएसवीसी / 4131 / 08	32—एच, इल्लाम्मा कोइल स्ट्रीट, बसंत नगर, चेन्नई— 600020	बीवीएससी / टी एएनयूवीएस / 94	20.5.71
995	के. कल्पथ, पुत्र श्री ए. कासिम	टीएनएसवीसी / 4136 / 08	6, जिन्ना स्ट्रीट, कयाथार, ट्यूटीकोरिन— 628952, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एएनयूवीएस / 95	10.5.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
996	के. कार्थिक, पुत्र श्री एम. कुमारासामी	टीएनएसवीसी /4268/08	दिव्या टेक्सटाइल्स, थन्नीरपंडाल, एन.एन. पट्टी, डाक- वेल्लाकोविल, इरोडे- 638000, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	24.7.85
997	के. कार्तिकेयन, पुत्र श्री वी. अंगुराज	टीएनएसवीसी /4299/08	पी.न. 24, मुल्लई नगर एक्सटेंशन, सलेम जंक्शन, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	30.6.86
998	ए. करुणाकरन, पुत्र श्री आर. केसवन	टीएनएसवीसी /4085/08	कमला गनपति इल्लम, 6/ 409, मारुति नगर, त्रिची रोड, नमक्कल- 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएन/ 88	1.1.62
999	के. कस्तूरी देवी, पुत्री श्री के. नारायण स्वामी	पीएसवीसी/ 4702/08	द्वारा:के. जयालक्ष्मी, डी.न. 13- 7-946/ई 6, पहली मंजिल, विवेकानंद स्ट्रीट, कोरलागुंटा, तिरुपति, चित्तूर जिला, आं.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	27.5.85
1000	के. कविथा, पुत्र श्री एम. कुमारसामी	टीएनएसवीसी /4203/08	नंजामदाइकुटिट्टई, मिचलीपलायम डाक, अंधियूर वाया, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.2.85
1001	के. क्रांति कुमार, पुत्र श्री के. लक्ष्मी नारायण	पीएसवीसी/ 4749/08	म.न. 11-6-169/9, अम्बेडकर नगर, मेक्लाबंदा पार्ट, खम्मम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	11.7.84
1002	के. कुमारस्वामी, पुत्र श्री के. सैलू	पीएसवीसी/ 4766/08	म.न. 0-2-281, वीरलापल्ली डाक, बुरगुर रोड, अंधियूर, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	15.8.85
1003	के. मलईस्वामी, पुत्र श्री के. एम. कलियन्ना गौंडेर	टीएनएसवीसी /4360/08	19/1, पेरियार नगर, बुरगूर रोड, अंधियूर, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/70	11.1.45
1004	के. मोहम्मद अब्दुल अजीज, पुत्र श्री एम.यू.एस. कादर मोहिद्दीन	टीएनएसवीसी /4384/09	26, संगम स्ट्रीट, कुम्बम,डाक- थेनी, जिला- 625516, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/72	1.1.46

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1005	के. मुरली, पुत्र श्री आर. कन्नन	टीएनएसवीसी /4278/08	117, वेस्ट स्ट्रीट, कोजुथाम पट्टी, वाया एवं डाक थानमपट्टू तालुक, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	6.7.85
1006	के. मुरुगन, पुत्र श्री कृष्णप्पा रेड्डी एम.	टीएनएसवीसी /4352/08	147, बाजनईकोइल स्ट्रीट, इडयानथंगई ग्राम, चिअर, डाक—वलजापेट तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	1.6.83
1007	के. मुरुगारासू, पुत्र श्री एम. कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी /4174/08	डॉ. अम्बेडकर नगर, अरसाकुरम डाक, अरान्थंगी तालुक, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	19.6.84
1008	के.एन.वी. दुर्गा, पुत्र श्री के. सत्य नारायण	पीएसवीसी/4 776/08	द्वारा के.सत्य नारायण, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी स्टैंड, विनायक मंदिर के सामने, येलेश्वरम, पू. गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	29.3.85
1009	के. नाचीमुथु, पुत्र श्री कंडप्पा गौडेर	टीएनएसवीसी /4401/09	न. 4, दामोदर स्ट्रीट, पंचावडी, चेटपेट, चेन्नई	बीवीएससी /एमयू/68	15.7.45
1010	के. नल्लासामी, पुत्र श्री एस. करुप्पुसामी	टीएनएसवीसी /4212/08	51, मरियप्पा नगर, एंगूर रोड, चेन्नीमलई, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	1.9.84
1011	के. नारायणसामी, पुत्र श्री के. कलियप्पन	टीएनएसवीसी /4188/08	108, कूथाडियूर, ए—सेम्बुलीचम पलायम, डाक—अंथियूर, वाया भवानी, तालुक इरोडे— 638501, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	30.5.84
1012	के.पी. सेन्नीगीर, पुत्र श्री के.एस. पोन्नूसामी	टीएनएसवीसी /4236/08	कोथूकरार, थोट्टम, करुवल्वाडी पुडुर, अथानिक, डाक— भवानी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	12.4.85
1013	के.पी. श्रीजी, पुत्री श्री परमेश्वरन	केरलएसवीसी /3355/08	कैलास भवन, कुलाथुम्मई, थुंगमपारा, कट्टक्कडा डाक, टीवीएम— 695572, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/08	25.5.84
1014	के. परमेश्वर राव, पुत्र श्री के. अंजनेयुलु	पीएसवीसी/ 4676/08	जनपडु (डाक), पिडुगुरला (एम), गुंटूर (जिला)— 522413, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवी वीयू/08	19.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1015	के. प्लावन मजुंडेर, पुत्र श्री के. सरइयाह	पीएसवीसी / 4783/08	म.न. 9-67, न्यू हरिजन स्ट्रीट, हुजुराबाद, करीम नगर- 505468, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवी वीयू/08	27.12.84
1016	के. राजबाबू पुत्र श्री कंडासामी	टीएनएसवीसी /4185/08	सामीथेवनपट्टी, इलायिरम पन्नई डाक, सत्तूर तालुक, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	25.5.82
1017	के. राजेश कुमार, पुत्र श्री पी. कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी /4355/08	नट्टनकुट्टई थोट्टम, नमपलायम डाक, मुटूर वाया, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	28.2.86
1018	के. रमेश बाबू पुत्र श्री के.वी. सुब्बा राव	पीएसवीसी / 4712/08	पेंडिलापल्ली डाक, विटापलेम (एम), प्रकासम जिला- 523184, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	10.6.84
1019	के. साई गुनारंजन, पुत्र श्री के. गुरु मूर्ति	पीएसवीसी / 4811/08	डी.न. 21-223, यवादा स्ट्रीट, धर्मावरम, अनंतपुरम- 505671, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	1.09.84
1020	के. संदीप सुकुमार, पुत्र श्री के. धान्या राज	पीएसवीसी / 4809/08	डी.न. 11-2-4, मनसा रॉयल मेंशन (एफएफआई), रामराव पेट, काकीनाडा, पू. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	3.03.84
1021	के. संगीथा, पुत्र श्री पी. श्रवनराम	टीएनएसवीसी /4413/09	न. 14 (पुराना न. 26), कमराजार सेलई, इल्डम्स रोड, तेनमपेट, चेन्नई	बीवीएससीएवंए एच/पीयू/02	3.2.80
1022	के. श्रवन कुमार, पुत्र श्री के.पी. कलियन्नन	टीएनएसवीसी /4204/08	46, हॉस्पिटल रोड, काविंडापडी, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	8.12.84
1023	के. सेखर, पुत्र श्री के. नारायण	पीएसवीसी / 4716/08	पेसारवई (ग्राम), नंदयाल तालुक, कुर्नूल जिला- 518513, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवी वीयू/08	1.7.83
1024	के. सिरीशा, पुत्री श्री के. अजय कुमार	पीएसवीसी / 4699/08	द्वारा श्री के. अनिल कुमार, रेंतापल्ला, सातेनापल्ली, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवी वीयू/08	14.3.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1025	के. सिवसागर रेड्डी, पुत्र श्री के. थिरुमला रेड्डी	पीएसवीसी / 4730 / 08	कुंडनाकोटा (ग्राम), चितलायापल्ली (डाक), याडिकी (एम), अनंतपुर जिला - 515408, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	24.8.84
1026	के. श्रीकांत रेड्डी, पुत्र श्री के. ब्रह्मा रेड्डी	पीएसवीसी / 4 683 / 08	मचावरम ग्राम, कानिगिरी (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	1.6.83
1027	के. श्रीदेवी, पुत्र श्री एस. कोथांडनम	टीएनएसवीसी / 4292 / 08	नायडू स्ट्रीट, आर.के.पेट डाक, ग्राम पुडुर, थिरुवल्लोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	7.3.84
1028	के. सुधाकर रेड्डी, पुत्र श्री के. चिन्ना कोंडा रेड्डी	पीएसवीसी / 4678 / 08	डी.न. 19 / 96, टेक्कईचेनू स्ट्रीट, जम्मालमगुडु (ग्राम एवं एम), कडपा- 516434, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	15.6.84
1029	के. सुमालथा, पुत्री श्री के. सुधाकर राव	पीएसवीसी / 4720 / 08	म.न. 3-4-19, भूदीवारी स्ट्रीट, कोव्वूर, नेल्लोर जिला- 524137, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	20.6.83
1030	के. थिरु मुरुगन, पुत्र श्री एस. कन्नन	टीएनएसवीसी / 4116 / 08	2 / 49, मयिम्मम कोइल स्ट्रीट, कोट्टाकरई अम्बेडकर नगर, इरुम्बई डाक, वनूर तालुक, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 08	16.9.81
1031	के. थिरुमोजिराजा, पुत्र श्री एन. कोंडुसामी	टीएनएसवीसी / 4414 / 09	सोलईपट्टी डाक, मदुरै जिला- 625708, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 91	15.6.88
1032	के.वी. मुरली, पुत्र श्री वी. चप्पन	केरलएसवीसी / 3314 / 08	कम्मडल वीटिल, न्यू स्ट्रीट, चेट्टरपडी डाक, मलप्पुरम- 676319, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएस / 08	31.5.70
1033	के.वी. संध्या रानी, पुत्री श्री के. वेंकटेश्वर रेड्डी	पीएसवीसी / 4779 / 08	सब-कोर्ट के निकट, पाडिली रोड, दरसी, प्रकासम जिला- 523247, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	1.4.84
1034	के. वीरा रेड्डी, पुत्र श्री के. राम नरसी रेड्डी	पीएसवीसी / 4762 / 08	चौटापल्ली डाक, मट्टमपल्ली एम, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवी वीयू / 08	13.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1035	के. विजय, पुत्र श्री के. बालास्वामी	पीएसवीसी/ 4803/08	म.न. 14-83, श्रीनगर कॉलोनी, हुजूर नगर- 508204, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एनजी आरएयू/05	18.3.81
1036	के. विश्वनाथन, पुत्र श्री आर. कृष्णन	टीएनएसवीसी /4240/08	मंगलम डाक, येलागिरि हिल्स, वेल्लोर- 635853, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	25.5.85
1037	के. विजयकरन, पुत्र श्री के. करुणाकरन	टीएनएसवीसी /4249/08	मिडल स्ट्रीट, विट्टूकाटी डाक, थिरुथिरईपूंडी तालुक, थिरुवरुर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	9.6.86
1038	कदम क्रांति दिलीप	महाएसवीसी/ 7866/07	डी- 24, रुक्मिणी विहार, मंगलवार पेठ, करड, जिला- सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	1.6.84
1039	कदम वसुधा बालासाहेब	महाएसवीसी/ 7994/08	यशोदीप बिल्डिंग, जे.के. क्लासिज के निकट, महादेव नगर, इस्लामपुर, तालुक वालवा, जिला सांगली- 415409	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	15.08.85
1040	काडू रानु रत्नाकर	महाएसवीसी/ 8011/08	आशुतोष- 13, व्यंकटेश नगर, खामला रोड, नागपुर- 440025	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	22.08.86
1041	कडुकर रीना हरि किशनजी	महाएसवीसी/ 8008/08	महात्मा गांधी नगर, टी.वी. सेंटर, सेमिनरी हिल्स, नागपुर- 440006	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	07.07.84
1042	काग भगवान भाई गमनजी	गुजएसवीसी/ 2957/08	एटी- देडुडी, डाक- मोरलि, तालुक- थंरड, जिला- बी.के. गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	1.6.82
1043	ककाती जीनू, पुत्र श्री. कुमुद ककाती	एसएम/240 3/08	ग्राम- कल्याणपुर, डाक- पदमपुर, जिला- लखीमपुर- 784167, असम	बीवीएससीएवं एच/एसयू/ 08	1.02.84
1044	काले आसाराम केरनाथ	महाएसवीसी/ 8000/08	द्वारा रसाल, पी.बी. स्वराज्य नगर, बालभीम कॉलोनी, तालुक/जिला-बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	02.08.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1045	काले मीना मधुकर	महाएसवीसी / 7985/08	एटी—तामशी, डाक— बाटावाडी, तालुक— बालापुर, महाराष्ट्र, जिला— अकोला— 444302	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	30.7.84
1046	काले स्नेहा अविनाश	महाएसवीसी / 8073/08	स्वप्निल अपार्टमेंट, फ्लैट न. 6, एस.टी. स्टैंड के निकट, ए/ पी/तालुक/ जिला— सांगली	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	27.01.86
1047	काले जयसिंग सावलेराम	महाएसवीसी / 7828/07	एटी— पडाली (गोरेगांव), डाक हिवारे कोरडे, तालुक— पारनेर, जिला— अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	15.5.84
1048	काले विष्णु रामकृष्ण	महाएसवीसी / 7946/08	एटी— चाटे पिम्पलगांव, डाक— बभूलगांव, तालुक— पठारी, जिला— परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	05.11.84
1049	कलिता चंदना, पुत्र श्री लंकेश्वर कलिता	एसएम / 2384/08	ग्राम— नागांव, डाक बैहाटा चरियाली (कॉलेज रोड), जिला —कामरूप— 781381, असम	बीवीएससीएवं एच/एसयू/ 08	15.5.85
1050	कल्पना दूबे, पुत्र श्री सत्य किरन दूबे	सीजीएसवीसी / 388/08	न्यू सरकंडा, बंगाली गली न. 4, विलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	28.6.81
1051	कमल कांत बंसल, पुत्र श्री ओम प्रकाश बंसल	एमपीएसवीसी / 2558/08	बजरंग मार्ग, केलारस, जिला— मोरैना— 476224, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	8.10.85
1052	कमल कांत यादव, पुत्र श्री कोमल सिंह यादव	यूवीसी/378 /08	4/2, चारु मंडी, रुड़की, जिला— हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एण्डटी/08	6.12.84
1053	कमल किशोर, पुत्र श्री राम चंद्र सिंधी	हरिएसवीसी / 2006	जी.वी.एच., कलोड जिला, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 05	26.10.79
1054	कमलप्रीत कौर गिल, पुत्री श्री कुलवंत	पीबीएसवीसी / 2819/08	ग्राम एवं डाक— धामोट, थाना— पयाल, जिला— लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसयू/08	27.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1055	कामराजा, पुत्र श्री अबू अहमद खान	सीजीएसवीसी / 428 / 08	मिशन गेट के निकट, तुमगांव रोड, महासमुंदर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 84-85	26.6.60
1056	काम्बले अजय बालू	महाएसवीसी / 7788 / 07	उमाशंकर अपार्टमेंट, कमरा न. 3, पहली मंजिल, प्रभौली, आर. जी. गडकरी रोड, पनवेल, जिला- राजगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 07	13.3.85
1057	काम्बले नूतन कुमार भागवत	महाएसवीसी / 7755 / 07	एटी- वारुड, डाक- उलूप, तालुक- भूम, उस्मानाबाद जिला- 416504, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 07	3.1.82
1058	काम्बले सोनाली हरिदास	महाएसवीसी / 8007 / 08	प्लॉट न. 105, चंद्रामणि नगर, (नावेकर), डाक- पारवती नगर, नागपुर- 440027	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 08	24.02.84
1059	काम्बले नितिन मधोन्द्र	महाएसवीसी / 8117 / 08	न्यू इंग्लिश स्कूल के निकट, गुरुवारपेठ, महाराष्ट्र, अम्बाजोगई, जिला- बीड- 431517	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 08	16.06.85
1060	काम्बले नूतनकुमार भागवत	महाएसवीसी / 8119 / 08	एटी- वारुड, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 07	03.01.82
1061	कामेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री रामदेव सिंह	जेवीसी / 216 / 08	एस.ए.एच.ओ., कोडर्मा, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 76	31.03.52
1062	कामेश्वर शर्मा, पुत्र स्व. श्री राम नरेश सिंह	जेवीसी / 553 / 09	टीवीओ पचम्बा, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 84	15.12.60
1063	कमल कान्त सिंह, पुत्र स्व. श्री हरिहर प्रसाद सिंह	जेवीसी / 350 / 08	वेटरिनरी सर्जन, साहिब गंज- 816109, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 76	09.08.52
1064	कमलेश कुमार, पुत्र श्री जय प्रकाश यादव	श्रीवीसी / 2002 / 06	ग्राम- गोडियारी, डाक ब्रह्मा पुर, थाना फूलपराश, सब- डिवीजन- फूलपराश, जिला- मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 06	1.2.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1065	कमलेश कुमार, पुत्र श्री नवल किशोर प्रसाद	जेवीसी/502 /09	बूटी (नेवारी विकाश), रांची— 835217, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 96	02.06.74
1066	कमलेश प्रसाद, पुत्र श्री हरिहर प्रसाद	जेवीसी/233 /08	टी.वी.ओ. करमा, झुमरी तलइय्या, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 89	26.04.63
1067	कमलेश सिंह, पुत्र श्री विजय नारायण सिंह	जेवीसी/106 /08	ब्लॉक पशु पालन अधिकारी, बेंगाबाद, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/91	01.01.64
1068	कन्हैया लाल मेहुरा, पुत्र श्री रामकेश्वर राम	जेवीसी/452 /09	डी.ए.एच.ओ., धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 77	15.06.53
1069	कनोज नितिन पांडुरंग	महाएसवीसी/ 8115/08	ए/पी दलवत, तालुक— कलवान, जिला— नाशिक— 423502, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	06.08.84
1070	कंवर साहू सिंह, पुत्र श्री कुलवंत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2849/08	बी-1152, न्यू प्रताप नगर, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/ओयूएएंड टी/08	29.6.84
1071	कापडिया फाल्गुन महेशकुमार	गुजएसवीसी/ 2958/08	14— तुलसीपार्क सोसायटी, न्यू मार्केट यार्ड के पीछे, चन्समा रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	12.4.85
1072	कपिल देव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री गोविंद प्रसाद	जेवीसी/361 /08	अरसनडे, आदर्श पुरी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरयू/ 70	03.03.46
1073	कपिल नेहरा, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह	राजएसवीसी/ 3586/09	ग्राम एवं डाक— किठाना, थाना — चिरावा, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	7.1.84
1074	कपिल प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह	जेवीसी/326 /08	बी.ए.एच.ओ., मोहनपुर, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 89	03.03.64

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1075	कापरा मांडी, पुत्र श्री बृहत चंद मांडी	जेधीसी / 222 / 08	लरकाबासा, बालीजूरी, गुरबंदा, बहरागोरा, घाटशिला, पूर्वी सिंगभूम— 832302, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 05	13.01.81
1076	कराडकर बाबासाहेब तुलसीराम	महाएसवीसी / 7846 / 07	एटी— आगेवाडी, डाक— वाघेबाभलगांव, तालुक— कैज, जिला—बीड—431123, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	15.10.83
1077	करंडीकर ऋषिकेश रणजीत	महाएसवीसी / 7793 / 07	16, प्रांजलि बिल्डिंग, गौशाला रोड, मुलंद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	3.7.84
1078	करहले सोनिया अंकुश	महाएसवीसी / 8027 / 08	“मौली कृपा”, सिविल अस्पताल के पीछे, सुभाष रोड, परभनी, महाराष्ट्र तालुक परभनी, जिला परभनी	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	04.10.84
1079	करिवकाथिल स्मिता सिवदासन, पुत्री श्री सिवदासन	केरलएसवीसी / 3389 / 08	“सुष्मिता”, माइलोड डाक, पूयापल्ली कोल्लम— 691537, केरल	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 05	27.10.82
1080	करकुटे अरविंद शिवाजी	महाएसवीसी / 7915 / 07	सादतपुर रोड के निकट, लोनी, तालुक— रहाटा, जिला— अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	14.7.84
1081	कारले अंशुमन सीताराम	महाएसवीसी / 7981 / 08	प्लॉट न. 72, जनता पार्क, नवापुर, तालुक— नवापुर, महाराष्ट्र, जिला— नंदूरबार — 425418	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	31.12.84
1082	कारले श्रीनिवास दत्ताराव	महाएसवीसी / 7951 / 08	एटी— दस्तापुर, डाक— पिंगली, तालुक पूर्णा, जिला— परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	12.7.84
1083	कर्णम शिवशंकर, पुत्र श्री के.एन. स्वामी	सीजीएसवीसी / 401 / 08	ग्राम एवं डाक— मधदेहाद, थाना— भोपालपटनम, दैतवाडा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	14.6.80
1084	कार्तिक कुमार पूर्वे, पुत्र श्री गोपाल पूर्वे	बीवीसी / 2925 / 08	ग्राम डाक रजनी भाभंगमा, थाना— बिहारीगंज, सब— डिवीजन — उदाकिशनगंज, जिला माधेपुरा—852101, बिहार	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 07	15.1.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1085	करुण कनिया मट्टम, पुत्र श्री के. ए. आंगस्टाइन	केरलएसवीसी /3442/09	टीसी 25/741, कनियामट्टम हाउस, उल्लासनगर, अंचेरी डाक, थिसूर- 680006, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	9.8.85
1086	करुणा कुमारी, पुत्री श्री राजेंद्र तिवारी	बीवीसी/ 2762/06	ग्राम- एतिम्हा गनेश, डाक- लेहेरी तिवारी डीह, थाना- पिरो, सब-डिवीजन जिला- भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	22.11.76
1087	काशी नाथ, पुत्र श्री कपिल मुनि राय	बीवीसी/ 2741/06	ग्राम-रिवान, डाक- अख्तियार पुर, थाना- करगाहार, सब-डिवीजन- सासाराम, जिला- रोहतास, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06	11.2.77
1088	कश्यप बिज्येता; पुत्र डॉ सत्येंद्र कुमार पुजारी	एसएम/236 9/08	बरोदा फुकन रोड, मैलो अली, स्टैटिस्टिकल कार्यालय के निकट, जोरहाट, असम	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 07	11.6.84
1089	कसरलीकर धम्मरक्षित लक्ष्मण राव	महाएसवीसी/ 7934/08	ए/पी कसरती, तालुक- बिलोली, जिला- नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	20.11.81
1090	कटकर शिल्पा माधव	महाएसवीसी/ 8058/08	165, मंगलवारपेठ, भोरे, महाराष्ट्र जिला- पुणे- 412206	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	18.05.86
1091	कटवटे शरद रामचंद्र	महाएसवीसी/ 7879/07	चिंतामनि निवास, मुंधे रोड, मुंधे, तालुक करड, जिला- सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	30.10.84
1092	कौशल कुमार, पुत्र श्री राजेश कुमार	बीवीसी/2940 /08	ग्राम-दौलतपुर, डाक- खानपुर माल, थाना सुल्तान गंज, जिला- भागलपुर- 813213	बीवीएससीएवं एच/एसकेयूए एसएंडटी/07	3.2.82
1093	कौशल प्रसाद पटेल, पुत्र श्री कितीरत्त राम रात्रा	सीजीएसवीसी /347/07	28/1, ब्लॉक कॉलोनी, सारगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/82.83	1.5.58
1094	कौशलेश रंजन, पुत्र श्री नंद किशोर प्रसाद	बीवीसी/2964 /08	ग्राम- कुरहरि, डाक- शकूरा बाद, थाना- रत्नी फरीदपुर, जिला- जहानाबाद- 804425, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /07	20.10.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1095	कवीन्द्र नाथ सिंह, पुत्र श्री श्याम नारायण सिंह	जेवीसी/286 /08	कवीन्द्र नाथ सिंह, बीएचओ, चौपारन बरही, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/सीएसएए एंडटी/90	17.12.66
1096	कविता चौहान, पुत्री श्री रमेश चंद चौहान	राजएसवीसी/ 3487/08	म.न. 178/33, आनंद पुरा, तोपदारा, अजमेर— 305001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	5.6.82
1097	कविता रानी, पुत्री श्री आर.पी. आर्या	यूवीसी/399 /08	नवावी रोड, हल्द्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	27.5.83
1098	कविता रावत, पुत्री श्री राम सिंह	एमपीएसवीसी /2540/08	बी-140, एच.बी. जवाहर नगर, म्हऊ, इंदौर— 453441, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	14.6.82
1099	कविता के., पुत्री श्री कृष्णप्पा टी. आर.	कर्नाएसवीसी/ 4176/08	मंजुश्री कॉन्वेंट के निकट, विद्यानगर, सिरा— 572137, सिरा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	18.2.86
1100	कायन्दे परमेश्वर बद्रीनाथ	महाएसवीसी/ 8032/08	“जगदम्ब निवास”, राम नगर, साईकृपा किराना, वार्ड न. 15, तालुक, जिला बुलधाना 443001	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	17.7.84
1101	कायन्दे परमेश्वर बद्रीनाथ, पुत्र श्री बद्रीनाथ कायन्दे	राजएसवीसी/ 3556/08	3-शुभम कॉम्प्लेक्स, हिरन मगरी, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	17.7.84
1102	केदार प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री रमेश प्रसाद सिंह	जेवीसी/022 /08	उप-निदेशक (सुअर प्रभाग), पशुपालन विभाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/एमयू/ 69	03.02.48
1103	केंद्रे जयश्री पंढारीनाथ	महाएसवीसी/ 8039/08	3, 'श्रीनिवास', मेन रोड, नांडेड— 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	7.7.84
1104	केशवदास वी.पी., पुत्र श्री वी.पी. सुरेश	केरलएसवीसी /3405/09	'वीना' एनएसस हाई स्कूल के निकट, कलपेट्टा, वायनाड— 673121, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	27.9.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1105	खडे अस्मिता सत्यानंद	महाएसवीसी / 7881/07	73, खडे हाउस, कल्याण, भिवंडी रोड, रायरोली, तह.— भिवंडी, जिला— थाणे— 421302, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	23.5.81
1106	खडे कृष्णदेव अंकुश	महाएसवीसी / 7918/07	एटी— पेहे, डाक— शेवाटे, तालुक— पंढरपुर, जिला— सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	1.6.82
1107	खडे नितिन बबन	महाएसवीसी / 7969/08	द्वारा खडे बबन रामचंद्र, एटी— पलाशी, महाराष्ट्र तालुक— मान (दहीवाडी), जिला— सतारा— 415508	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	28.2.85
1108	खडे प्रसाद सदाशिव	महाएसवीसी / 8010/08	'श्यामदत्त निवास', एटी सावरवाडी, महाराष्ट्र, डाक— कसाबा बीड, तालुक— करवीर, जिला— कोल्हापुर— 416001	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	16.04.85
1109	खडीवले मायादेवी शिवाजीराव	महाएसवीसी / 7861/07	सुगंधदीप, भाग्य नगर, शेथल रोड, उदगीर, जिला— लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	31.12.83
1110	खडके अमित अरुणराव	महाएसवीसी / 7961/08	'वेदांत', द्वारा बी.एस. परदेसी, बरसी ठाकुर हाउस के निकट, तालुक व जिला— परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	22.05.85
1111	खाजा मोहते शौददीन, पुत्र श्री खाजा मोइनुद्दीन	कर्नाएसवीसी / 4153/08	371-52/1, तम्शकरी लेन, पौसलतालीम, बिदर— 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	2.1.86
1112	शालिद अहमद, पुत्र मौह. अब्दुल खुदुश	कर्नाएसवीसी / 4197/08	न. 3, 100 फीट, रिंग रोड, बीटीएम प्रथम स्टेज, । फेज, बंगलौर— 560068, कर्नाटक	बीवीएससी/यू एसबंगलौर/ 71	4.5.46
1113	खान गौस मुहम्मद जान मुहम्मद	महाएसवीसी / 7945/08	द्वारा जे.डी. पाठन, पेंशनपुरा, अम्बाजोगई, जिला— बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	23.05.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1114	खंडागले प्रवीन कुमार मधुकर	महाएसवीसी / 7835 / 07	पंचरतन निवास, सांगेवाडी, तालुक- संगोला, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.5.84
1115	खंडागले राहुल महादेव	महाएसवीसी / 7914 / 07	जी-80, शरद कॉलोनी, एम.पी. के.वी., राहुरी, जिला- अहमद नगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	5.6.85
1116	खंडागले वैभव मधुकर	महाएसवीसी / 8149 / 09	ए / पी सामर्थ नगर, पुलिस स्टेशन के पीछे, भूम, तालुक भूम, जिला- उस्मानाबाद- 413504, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	29.9.85
1117	खंगल प्रकाश शामराव	महाएसवीसी / 7759 / 07	खगन बिल्डिंग, 1501 (बी), दत्ता मंदिर रोड, मनमड, तालुक- नंदगांव, जिला- नासी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	21.9.84
1118	खेगेमबाम बीजूबाला देवी, पुत्र स्व. श्री खेगेमबाम गोपाल सिंह	जेवीसी / 234 / 08	जे.आर.ओ., आई.ए.एच.पी., कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 97	01.02.71
1119	खरे किरन सोमलाल	महाएसवीसी / 8139 / 09	बी / 43, शांतिदूत, निर्मल बाग के निकट, सभागृह, पारवती, पुणे- 411009	बीवीएससीएवं एच / केकेपीवी / 81	30.10.54
1120	खरगे महादेव अम्बादास	महाएसवीसी / 8083 / 08	भक्ति हाउस, फ्लैट न. 7-ए, दल्ही नगर, चिंचवाड, तालुक- हवेली, जिला- पुणे- 411033	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	15.05.86
1121	खोसे आशीष कुमार सुदामाराव	महाएसवीसी / 7844 / 07	1724, निखिल कुंज, महात्मा फुले रोड, भूम, जिला- उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	24.1.83
1122	खोसे कविता अशोक	महाएसवीसी / 8072 / 08	पडाली-दरया, पारनेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	13.05.86
1123	खुमन एल. सनाथोई, पुत्र श्री एल.टी.के. सिंह	एसएम / 239 2 / 08	रामनगर बेराखल, डाक- तारापुर खेलमा, सिलचर- 788003, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	11.12.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1124	खुताले संतोष नारायण	महाएसवीसी / 7976 / 08	एटी- जीरेवाडी, जैना रोड, तालुक व जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	6.7.85
1125	किंकर कुमार महतो, पुत्र श्री बादल चंद्र महतो	जेवीसी / 535 / 09	लोटा बांधडीह, सिली, रांची- 835102, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / वीएयू / 93	05.01.66
1126	किसन एम, पुत्र श्री मोहन एम.	कर्नाएसवीसी / 4157 / 08	जीएसएफ चौदासाभद्र, मेलूर- 562102, शिडला घट्टा तालुक, चिक्कबल्लपुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	24.7.85
1127	किराना ससिधरन, पुत्री श्री ससिधरन गोविंदम	केरलएसवीसी / 3406 / 09	"विपंचिका", मुरुक्कुमपुजाह डाक, थिरुवनंतपुरम- 695302, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 09	19.5.83
1128	कीर्ति धुर्वे, पुत्री श्री के.एस. धुर्वे	एमपीएसवीसी / 2562 / 08	कान्हा टाइगर रिजर्व, डाक- मंडला, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	18.10.83
1129	किशोर कुंदन आजाद, पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद	बीवीसी / 2827 / 06	ग्राम-मोजपारा, डाक- बेरडीह, थाना- इश्लामपुर, थाना- इश्लामपुर, सब-डिवीजन- हिलसा, जिला-नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 06	23.2.80
1130	किशोर हंसडक, पुत्र श्री लाल हंसडक	जेवीसी / 579 / 09	बोकरा बंध, दरमुरु हाट, सुंदर पहाडी, गोड्डा, पिन- 814153, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 92	12.01.73
1131	किशोर कुमार भूटानी, पुत्र श्री जी.एस. भूटानी	यूवीसी / 370 / 08	द्वारा मैसर्स घनश्याम जनरल स्टोर, लखनपुर, रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एंडटी / 08	24.1.85
1132	किशोर कुमार कुणाल, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद	बीवीसी / 2941 / 08	ग्राम- साहपुर दियारा, डाक- पालेजा, थाना- सोनेपुर, जिला- सारन, छपरा- 844101, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	1.3.80
1133	कोकारे राजू आनंदराव	महाएसवीसी / 7825 / 07	प्लॉट न. 61, सप्तगिरि कॉलोनी, तारोडा (ब्लॉक), तालुक व जिला- नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	24.9.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1134	कोकाटे लक्ष्मी कां.ा सम्भाजी	महाएसवीसी / 7855 / 07	सुमेध नगर, पूर्णा रोड, तरोडा, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	3.3.84
1135	कोलेकर महेंद्र अप्पाराव	महाएसवीसी / 8023 / 08	हागरे प्लॉट, क्रांति सिंह नगर, बारशी जिला, महाराष्ट्र, सोलापुर— 413413	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	01.07.86
1136	कोठुले वरुण रामलाल	महाएसवीसी / 8129 / 08	सुदर्शन कॉम्प्लेक्स, फ्लैट न.1, भूषण नगर, रानी लक्ष्मीबाई चौक, केडगांव तालुक व जिला अहमदनगर— 414005	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	21.5.85
1137	क्रांति कुमार सुमन, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2958 / 88	ग्राम— महिमा चाक, डाक— खरतुआ, थाना—हरनौत, विहार शरीफ, जिला नालंदा— 803110, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / ए यूसू / 05	1.9.75
1138	कृष्ण कुमार, पुत्र श्री शिव नारायण यादव	बीवीसी / 2844 / 07	ग्राम— तेनुयाही, डाक— कुमारखड, थाना— लादानिया, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एसवीबीयू / 06	15.2.80
1139	कृष्ण चंद्र साहू, पुत्र श्री कार्तिक च. साहू	उड़ीसाएसवी सी / 2237 / 0 8	मंगलावेग, त्रिपाठी लेन, कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	5.1.92
1140	कृष्ण कांत प्रसाद, पुत्र श्री मणिकांत प्रसाद	बीवीसी / 2269 / 07	ग्राम एवं डाक— चंडी, थाना— चंडी, सब—डिवीजन— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 07	1.6.75
1141	कृष्ण कांत सिंह, पुत्र श्री सिंघेश्वर प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2216 / 07	ग्राम— हरवा, डाक— चांदपुर, थाना— जगदीशपुर, जिला— भागलपुर— 813105, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 06	5.9.81
1142	कृष्ण कांत तिवारी, पुत्र श्री श्रीकांत तिवारी	जेवीसी / 1009 / 08	गौह. क्वा.न.—बी / 1627 / 11, सबट 11, साइट—4, डाक— धरवा, जगन्नाथपुर, रांची— 834004, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 03	14.06.74
1143	कृष्ण कुमार भगत, पुत्र स्व. श्री हरि चंदन प्रसाद भगत	जेवीसी / 1007 / 09	जी. कृष्ण कुमार भगत, एस.ए एच.ओ., देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 75	05.08.50

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1144	कृष्ण कुमार, पुत्र श्री आर.एस. अहरेवार	यूपीएसवीसी / 4855 / 08	कटरा मल्लवान, जिला— हरदोई, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएलके वीवी / 08	24.12.82
1145	कृष्णा कुमार, पुत्र श्री आर.एस. अहीरवार	एमपीएसवीसी / 2590 / 09	डी-5, सी.आई.ए.ई. कॉलोनी, नबी बाग, भोपाल— 462038, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	24.12.82
1146	कृष्ण कुमार सिंह, पुत्र श्री रंग बहादुर सिंह	जेवीसी / 423 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, भंडारिया, गढ़वा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 04	21.04.74
1147	कृष्णा प्रसाद वर्मा, पुत्र स्व. श्री रामजीवन महतो	जेवीसी / 036 / 08	सबडिवीजनल पशु पालन अधिकारी, चतरा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 75	01.12.51
1148	कृष्णाराज आर., पुत्र श्री एस. राधा कृष्णन	केरलएसवीसी / 3319 / 08	संकरभवनम, नंगलारकुलांगरा, डाक, हरिपद, अलपुजाह— 690513, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू/ 08	22.6.83
1149	कृष्ण चौधरी, पुत्र स्व. श्री गजो चौधरी	जेवीसी / 343 / 08 जेवीसी / 343	डीएचओ, लोहारडागा, लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 81	13.03.55
1150	क्षमा एल.एम., पुत्र श्री महादेव शास्त्री एल.एम.	कर्नाएसवीसी / 4116 / 08	सचेतना, छठा क्रॉस, अवथनगर, सवालंगा रोड, शिमोगा— 577201, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	18.4.86
1151	क्षीरसागर रोहिणी दशरथ	महाएसवीसी / 7970 / 08	एटी— लोनाड (बेलचा माला), डाक— मरियाछी वाडी, तालुक— खंडाला, जिला सतारा—415521	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	15.8.84
1152	क्षीरसागर दीपाली दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 7783 / 07	3590, रावत गली, बरशी जिला— सोलापुर— 413401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	24.10.84
1153	क्षितिज श्रीवास्तव, पुत्र श्री गजेंद्र कुमार श्रीवास्तव	यूवीसी / 395 / 08	म.न. 1709 / 6, टीए कॉलोनी, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	18.6.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1154	कुमारी श्रुति छाबा, पुत्री श्री विजय कुमार छाबा	पीबीएसवीसी / 2855 /09	ग्राम एवं डाक- संतोखगढ़, जिला- उना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी /09	30.5.83
1155	कुलदीप सिंह गौतम, पुत्र श्री जी. पी. गौतम	यूपीएसवीसी / 4809 /08	म.न.-18, गोलाघाट कैंट, कानपुर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	15.9.81
1156	कुलकर्णी नरेश रविकांत राव	महाएसवीसी / 7868 /07	1525, चिंतामनि बेलूर रोड, धर्माबाद, जिला- नाड्डेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू /07	6.6.84
1157	कुलकर्णी राम चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7898 /07	राम निवास, जेड.पी.एस. एच. के पीछे, कुंटूर, तालुक- नलगांव, जिला- नाड्डेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू /07	8.10.84
1158	कुलकर्णी शीतल दिवेक	महाएसवीसी / 8144 /09	607 / बी-2, चड्ढा क्रिसेंट, सेक्टर-17, वाशी, न्यू मुम्बई- 400703, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू /02	27.2.79
1159	कुमार अनंत सागर, पुत्र श्री अरविंद कुमार	जेवीसी /261 /08	टीवीओ काठीकुंड, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी /03	01.03.78
1160	कुमार कौशल, पुत्र श्री सुभाष चंद जैन	यूपीएसवीसी / 4812 /08	मौह.- भटवारा, सरधाना, जिला- मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एण्डटी /08	17.9.83
1161	कुमार एस.सी., पुत्र श्री चन्नाबासप्पा एस.के.	कर्नाएसवीसी / 4161 /08	बी. दुर्गा- 577518, होलाकरे तालुक, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू /08	26.5.86
1162	कुमार सुबोध रंजन, पुत्र श्री बट्टी प्रसाद आजाद	बीवीसी / 2916 /08	ग्राम- हिरडन बीघा, डाक- तेलमर, थाना- हरनौत, जिला - नालंदा- 803204, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / सीएसयूए एण्डटी /07	15.2.83
1163	कुमार सुबोध रंजन, पुत्र श्री बट्टी प्रसाद आजाद	यूपीसी /415 /08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, कर्मद, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / सीएसएके ईपीवीवी /07	15.2.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1164	कुमार सुधीर सिन्हा, पुत्र श्री कन्हारि प्रसाद	बीवीसी / 2961 / 08	ग्राम—शेखाली, डाक— बेशवाक, थाना— इश्लामपुर, सब— डिवीजन— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 07	3.2.77
1165	कुमार विशाल, पुत्र श्री नरसिंह महतो	बीवीसी / 2797 / 06	ग्राम— चौकी, डाक व थाना साहेबपुर, कमल सब—डिवीजन, बलिया, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू / 05	5.2.83
1166	कुमारी पिक, पुत्री श्री उमेश चंद्र मंडल	बीवीसी / 2757 / 06	ग्राम एवं डाक— बरारी, थाना— गंगा ब्रिज, सब—डिवीजन— भागलपुर, जिला— भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	2.1.79
1167	कुमारी संगीता, पुत्री डॉ. श्याम सुंदर बैठा	जेवीसी / 431 / 08	पूर्ण सुख बाजार, लोहरडागा— 835302, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 08	16.12.80
1168	कुम्भार गणेश भगवान	महाएसवीसी / 7921 / 08	द्वारा श्री भगवान गोविंद कुम्भार, मालोगी राजे शेटी विद्यालय के निकट, फाल्टन, जिला— सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	19.3.84
1169	कुम्भार गुनाजी बालकृष्ण	महाएसवीसी / 8018 / 08	उखलवास, गणेशपुर, ए/पी— परली वैदनाथ, तालुक— परली, जिला— बीड— 431515	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	08.06.85
1170	कुम्पावत अरुण सिंह मदन सिंह	गुजएसवीसी / 2907 / 08	604, आदर्श नगर, सेक्टर— 24, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	16.2.86
1171	कुमुद रंजन, पुत्र श्री कपिलदेव प्रसाद	बीवीसी / 2911 / 07	ग्राम एवं डाक— गोपालबाद, थाना— सेरमेर, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 07	1.3.81
1172	कुणाल क्षत्रिय, पुत्र ले.कर्नल जोगिन्दर सिंह	पीवीएसवीसी / 2787 / 08	म.न. 322, सेक्टर—71, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 07	5.8.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1173	कुंवर पाल सिंह, पुत्र श्री निरंजन सिंह	गुजएसवीसी / 2891 / 08	मेन मार्केट, बचपुरा, पालनपुर— 385001, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीके ईपीवीवी / 83	2.3.59
1174	कुशल पाल, पुत्र श्री भगवान स्वरूप	यूपीएसवीसी / 4888 / 09	विनोबा नगर, सदाबाद जिला, हाथरस, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / केयू / 09	27.6.80
1175	कुशीश्वर चौधरी, पुत्र श्री जिबाछ चौधरी	बीवीसी / 2937 / 08	ग्राम— कनहौली, डाक व थाना—खजूली, सब—डिवीजन— जय नगर, जिला—मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	4.1.80
1176	कुसुम खल्को, पुत्री श्री रामदेव भगत खल्को	जेवीसी / 376 / 08	द्वारा श्रीमती शीला देवी, चालियो सिटी, ताला, चान्हो, रांची— 835214, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 02	13.03.77
1177	एल. कार्तिक, पुत्र श्री एन. लिंगास्वामी	टीएनएसवीसी / 4229 / 08	8 / 1, इलुगमुआलो एवं डाक— धारापुरम तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच / टीएनयू वीएस / 08	29.7.86
1178	एल. मेनका, पुत्र श्री पी. लोगीथासन	टीएनएसवीसी / 4187 / 08	हरिजन स्कूल गली, उसीलमपट्टी, मदुरै— 625532, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच / टीएनयू वीएस / 08	27.5.84
1179	एल. प्रभाकरन, पुत्र श्री एन. लेनिन	टीएनएसवीसी / 4148 / 08	63, सेंट जेवियर स्ट्रीट, पुवालूर, डाक— लालगुडी तालुक, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 93	1.1.70
1180	एल. प्रभाकर, पुत्र श्री एल. गंगाराम	पीएसवीसी / 4671 / 08	म.न. 12—13—483 / 22 / 1, रल्ली न. 4, नार्गाजुन नगर, तरनाका, सिकंदराबाद—17, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच / एनजी आरएयू / 05	14.8.76
1181	एल. राजा, पुत्र श्री पी. लोंगानाथन	टीएनएसवीसी / 4368 / 08	2 / 152, पी. गोलाहल्ली ग्राम, पोडुथमपट्टी डाक, पलकोडे तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच / टीएनयू वीएस / 08	27.9.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1182	एल. तोशीसेनला एल.के.आर., पुत्र स्व. श्री लिमावाबांग एल.के.आर.	एनएसवीसी / 2 39 / 08	5वां माइल, दीमापुर, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	16.9.83
1183	एल. उमा महेश्वरी, पत्नी श्री पी. शानमुगा सिवा	टीएनएसवीसी / 4102 / 08	7 / 509, कुमारन नगर, सुल्तानपेट डाक, पिलाडमम तालुक, कोयम्बतूर— 641669, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 00	30.7.76
1184	एल. वीरशम, पुत्र श्री एल. राजेश्वर राव	पीएसवीसी / 4768 / 08	गोपालापुरम (ग्राम), शनिग्राम (डाक), कमलापुरम (एम), करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	3.8.82
1185	लाड रनजीत घनश्याम	महाएसवीसी / 7947 / 08	814, 'शांति निवास', वार्ड न. 17, इंदिरा गांधी नगर, गडकर पलोर मिल के निकट, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	30.04.84
1186	लाहाने अनिल प्रभाकर	महाएसवीसी / 8061 / 08	द्वारा प्रभाकर लाहाने, प्लॉट न. 49, सुर्वे न. 78 / 4, गजानन नगर, अलंदी रोड, दत्त नगर, डिघी, जिला पुणे— 411015	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	15.01.86
1187	लाहुनशिश आर. डखार, पुत्री डॉ. क्यू.एक्स. रेवार्ड	मेघएसवीसी / 264 / 08	जोवाई लुम्बाटेमोन, शिलौंग— 793002, मेघालय	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	5.12.84
1188	लईश्रम गोसाई सिंह, पुत्र श्री लईश्रम केशो सिंह	जेवीसी / 071 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, उरुगुट्टु, पिठोरिया, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	01.02.65
1189	लाकडे महेश बापूराव	महाएसवीसी / 7952 / 08	सपना होटल के सामने, जालना रोड, लक्ष्मी नगर, बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	27.4.85
1190	लखन लाल त्रिपाठी, पुत्र श्री आर.बी. त्रिपाठी	यूपीएसवीसी / 4725 / 08	ग्राम एवं डाक— कबर्राई, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / सीएसएयू एंडटी / 85	20.4.61

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1191	लखी राम गोंडू पुत्र स्व. श्री हरि नाथ गोंडू	जेवीसी / 508 /09	पटराहतू, सिल्ली, रांची— 835102, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 87	24.06.61
1192	लाल बिहारी प्रसाद, पुत्र स्व. श्री एसा. भगत	जेवीसी / 432 /08	क्वान. ओ.डी.टी. 1469, धुस्वा, रांची— 83404, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 92	07.07.67
1193	सलन कुमार वैद्य, पुत्र श्री बालेश्वर वैद्य	जेवीसी / 255 /08	टीवीओ नगर उंतारी, गढ़वा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 03	15.11.75
1194	सालबियाकसंगी, पुत्री श्री एच. सासुंगमुआना	मिजएसवीसी / 178 / 08	दुर्तलांग एन, डाक— दुर्तलाने, आइजवाल जिला, मिजोरम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू/ 08	1.4.85
1195	सालमिंगमुआना सैलो, पुत्र श्री देमावेया सैलो	मिजएसवीसी / 172 / 09	राहसी वेंग लुंगलेई, मिजोरम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू/ 08	15.9.85
1196	सालमुनलियाना, पुत्र श्री टी. सायनुका	मिजएसवीसी / 175 / 09	न्यू कॉलोनी, सैहा, छिटुइपुई, जिला— मिजोरम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू/ 08	25.4.83
1197	सलित कुमार साहा, पुत्र श्री श्याम साहू	सीजीएसवीसी / 441 / 09	शंकर नगर, महा समुंदर, छत्तीसगढ़— 493445	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 07.08	1.6.81
1198	सलितेश्वर लाल दास, पुत्र श्री तरनी लाल दास	जेवीसी / 468 /09	अरसनडे, बोरेया कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 74	01.09.50
1199	सलिधा जॉन, पुत्री श्री मनि जॉन	टीएनएसवीसी / 4376 / 08	16 (पुराना न. 28—ए), आर्कट मुदाली स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई	बीवीएससी / एमयू / 72	4.9.49
1200	सम्बाडे पांडुरंग सखाराम	महाएसवीसी / 7894 / 07	श्री मोठा मूर्ति, देखमुख गली, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	12.6.84
1201	समकने सत्यजीत हनमंत	महाएसवीसी / 8120 / 08	रेनूका निवास, 89 / ए / 1, दामनी नगर, जिला— सोलापुर— 413001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	29.12.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1202	लतेश कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार	बीवीसी / 2751 / 06	ग्राम— दूधपारा, डाक— मंगल गढ़, थाना— हसनपुर, सब— डिवीजन— रोजेरा, समस्तीपुर— 848208, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 06	25.7.79
1203	लक्ष्मण सिंह, पुत्र श्री भागीरथ राजपूत	यूपीएसवीसी / 4744 / 08	म.नं. 89, सिकंदर पुरा, रथ, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एंडटी / 08	1.7.81
1204	लक्ष्मेश कट्टीमनि, पुत्र श्री भिमन्ना कट्टीमनि	कर्नाएसवीसी / 4170 / 08	बेरप्पा नगर, इंडी— 586209, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	4.8.85
1205	लेख राज, पुत्र श्री किशन शर्मा	हरिएसवीसी / 2078	ग्राम एवं डाक— नानहेरे, जिला— पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	2.8.83
1206	लेंगारे अशाली शंकरराव	महाएसवीसी / 8046 / 08	विद्या नगर, ए/पी पिलिव, तालुक— मलशिरास, जिला— सोलापुर— 413310, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	02.11.85
1207	लेंसले आर. मारक, पुत्र श्री जे.के. मारक	मेघएसवीसी / 2 63 / 08	डी.आई. कॉलोनी, विलियम नगर, पूर्वी गारो हिल्स— 794111, मेघालय	बीवीएससीएवं एच / एएयू/ 08	2.4.81
1208	लिएंद्रा जोशी, पुत्र श्री बची राम जोशी	यूवीसी / 397 / 08	सरस्वती विहार, बिठोरिया नं. 1, हलद्वानी जिला, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एंडटी / 08	12.7.71
1209	लिजिथ के.एम., पुत्र श्री चाथुकुट्टी	केरलएसवीसी / 3461 / 09	अलकंडी हाउस, इरुवाट्टू (डाक), थल्लासेरी, कन्नूर— 670647, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू/ 09	26.5.85
1210	लिजो जॉन, पुत्र श्री जॉन एलेक्जेंडर	केरलएसवीसी / 3385 / 08	अरीकट्टू हाउस, मेप्पाडम, चैलाक्कारा डाक, थिसूर, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू/ 08	19.12.83
1211	लिम्बाचिया सुनील कुमार केशवलाल	गुजएसवीसी / 2960 / 08	एटी एवं डाक— मोतीभला, तालुक— सातलासना, जिला— मेहसाना— 384330, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	25.4.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1212	लिंगे प्रकाश लक्ष्मन	महाएसवीसी / 7814 / 07	ए / पी कोसेगांव, तालुक— पंढरपुर, जिला— सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	20.4.84
1213	लियोनेल जेकब राजेंद्र, पुत्र श्री जे. अजरियाह	टीएनएसवीसी / 4410 / 09	54, येशुदियान स्ट्रीट, नगरकोइल, कन्याकुमारी— 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी / केरलविदि / 63	8.11.37
1214	लिफोनेल जी. संगमा, पुत्र श्री एम. के. मारक	मेघएसवीसी / 2 66 / 08	द्वारा जे.सी. संगमा, मृदा संरक्षण कार्यालय, डाक— तुरा, मेघालय	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	1.1.82
1215	लियाकथ पी.ए., पुत्र श्री पी.के. अशरफ	केरलएसवीसी / 3432 / 09	पोकाक्किला हाउस, डाक— केचेरी, थिसूर— 680501, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 09	31.5.85
1216	लोबो एंजेला बीट्रिक	गुजएसवीसी / 2991 / 09	सी—19, सृष्टि बंगला, वासना रोड, बड़ौदा— 390015, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एटी / 93	12.9.68
1217	लोहाकरे अमित चंदरभान	महाएसवीसी / 7857 / 07	थोराने लेआउट, प्रभाग न.—1, पीडब्ल्यूडी कॉलेज के निकट, कल्मेश्वर, जिला— नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	25.6.84
1218	लोहित जे., पुत्र श्री जयप्पा	कर्नाएसवीसी / 4134 / 08	सांथेबेन्नूर— 577552, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.10.85
1219	लोहित एम.टी., पुत्र श्री थिमप्पा जी.	कर्नाएसवीसी / 4145 / 08	के.वी. कॉलोनी, कडूर— 577548, कडूर तालुक, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	31.7.85
1220	लोकेश के.एम., पुत्र श्री मृत्युंजय के.सी.	कर्नाएसवीसी / 4147 / 08	कारेहल्ली, दंडूर— 577547, तारीकेरे तालुक, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.10.85
1221	लोकनाथ दिमार, पुत्र श्री प्रयाग नाथ दिमार	सीजीएसवीसी / 393 / 08	सनीचरी बाजार, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06—07	10.7.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1222	लोढे मुकुंद सुखदेव	महाएसवीसी / 8134 / 09	आई.एम.सी. चाल न. 2, कमरा न.21, भाग्य रेखा टाकीज के निकट, इच्छल करिजी, तालुक हटकंगले, जिला कोल्हापुर— 416115	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	02.06.85
1223	लोढे शरद पोपट	महाएसवीसी / 7752 / 07	सावता निवास, 618, नगर कल्याण रोड, भत्वानी, ताल पोर्ने, अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	16.11.84
1224	लोपामुद्रा मलिक, पत्नी डॉ. जगदीश मोहंती	उड़ीसाएसवी सी / 2247 / 08	एटी— बागसाही (सीपी), एटी / डाक— जगतसियापुर— 754103, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएएंड टी / 08	13.4.83
1225	लोवित कुमार वर्मा, पुत्र श्री तरसेम कुमार वर्मा	एचपीएसवीसी / 829 / 08	नंद विला, डाक कंडाघाट थाना कंडाघाट, जिला कंडा घाट, सोलन, हि.प्र.— 173215	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	12.10.84
1226	एम. अब्दुल रहीम, पुत्र मौह. महीदीन जिन्ना	टीएनएसवीसी / 4371 / 08	80—बी, चौथी स्ट्रीट, रहमत नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	12.4.84
1227	एम. अनंथि, पुत्र श्री ए. मदुरै	टीएनएसवीसी / 4310 / 08	242 / 87—ए, बाजार स्ट्रीट, चिन्ना सलेम, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	2.5.85
1228	एम. अनीश, पुत्र श्री माइकेल जॉर्ज	टीएनएसवीसी / 4196 / 08	कट्टुविलाल मूलाचल, मेक्कामंडपम, तुकले, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	7.12.84
1229	एम.ए.एस. हन्नन उमेर, पुत्र श्री एम. ए. गफफार	पीएसवीसी / 4 752 / 08	5—508, इकबाल अहमद नगर, मंचेरियाल, आदिलाबाद, जिला— 504208, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	13.5.84
1230	एम. आशा, पुत्री श्री टी. मूर्ति	टीएनएसवीसी / 4257 / 08	52—ए, साउथ थिल्लै नगर, नरसिंगपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	4.4.85
1231	एम.बी.बी.वी.एस.एस. कृष्णाराजना, पुत्र श्री एम. सत्य नारायण	पीएसवीसी / 4786 / 08	चिंतापल्ली डाक, पेडुपडी (एम), पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	10.1.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1232	एम. ब्रह्मानंद रेड्डी, पुत्र श्री एम. पेड्डास्वामी रेड्डी	पीएसवीसी/4 681/08	द्वारा आर. राजशेखर रेड्डी, पूला थोटा (ग्राम), गोंधीपरला डाक, कुर्नूल (एम), जिला— 518004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	10.6.82
1233	एम.डी. लतीफुल कबीर, पुत्र श्री अब्दुर रौफ	जेवीसी/340 /08	जोनका, राजमहल, साहिबगंज— 816116, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 92	01.07.68
1234	एम. दिव्या कुमारी, पुत्र श्री पी. मथइय्यन	टीएनएसवीसी /4156/08	1/147, कन्नाधेशी, डाक— कंगनापुरम, वाया— संकागिरि, तालुक— सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08.	16.5.84
1235	एम. गणेश मूर्ति, पुत्र श्री पी. मुथुस्वामी	टीएनएसवीसी /4086/08	श्री गणेश निवास, 200/113, अंडल स्ट्रीट, थिरूमल नगर, रेड्डीयूर, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/62	15.10.39
1236	एम. जयरमन, पुत्र श्री पी. मदनगोपाल	टीएनएसवीसी /4370/08	5वां वार्ड, ईस्ट स्ट्रीट, पुराना अयाकुडी डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /97	5.3.74
1237	एम. जयकुमार, पुत्र श्री पी. मनि	टीएनएसवीसी /4222/08	9/3, कनक्कमपलायम, बोम्मन पट्टी डाक, गोबी तालुक, नमक्कल— 637212, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	20.7.84
1238	एम.के. पलानीसामी, पुत्र श्री एम. करुप्पासामी	टीएनएसवीसी /4407/09	141/72, कोंगुनगर, दसकांत स्ट्रीट, पेरुंदुरई, इरोडे— 638052, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/63	25.1.40
1239	एम. कमला कन्नन, पुत्र श्री वी. मुरुगइय्यन	टीएनएसवीसी /4318/08	मीला स्ट्रीट, कीराथुर डाक, करम्बाकुडी वाया, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	25.5.86
1240	एम. कार्तिक, पुत्र श्री टी.एम. मनोहरन	टीएनएसवीसी /4272/08	31, भगवतिअम्मन कोइल स्ट्रीट, थाविट्टुपलायम, अंथियूर, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	28.3.85
1241	एम. माणिकंदन, पुत्र श्री एन. मुनियन	टीएनएसवीसी /4227/08	28—ए, न्यू स्ट्रीट, वडाक्कंडल डाक, कल्लाकुरिची, तालुक— विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएएस/08	12.1.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1242	एम. मोहन, पुत्र श्री के. माधेश्वरन	टीएनएसवीसी / 4298 / 08	6 / 42, महालक्ष्मी नगर, कलांगनी डाक, नमक्कल—637014, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	20.5.84
1243	एम. मुरुगन, पुत्र श्री आर. अप्पावु	टीएनएसवीसी / 4255 / 08	मेट्टालई, करकूडलपट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	9.7.83
1244	एम. मुथुसामी, पुत्र श्री जी. मरियप्पन	टीएनएसवीसी / 4215 / 08	मोथाक्कल डाक, थंडरामपट्टु तालुक, थिरुवन्नमलई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	5.4.84
1245	एम.एन.डी. प्रसन्ना कुमार, पुत्र श्री एम. वी.एस. प्रसाद बाबू	पीएसवीसी / 4703 / 08	डी.न. 65—1—6, नरसन्ना नगर, काकीनाडा—3, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	15.8.86
1246	एम. नागालिंगम, पुत्र श्री पी. मारीमुथु	टीएनएसवीसी / 4387 / 09	साउथ इलाधिकुलम, सयालगुडी डाक, कडालडी तालुक, रामनड जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 96	3.6.73
1247	एम. नवीन कुमार, पुत्र श्री एम. वयकुंट राव	पीएसवीसी / 4694 / 08	कोनाकांची डाक, पेनुगनचिपरोलु (एम), कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	1.5.82
1248	एम. निथ्या, पुत्र श्री एम. मुरुगेसन	टीएनएसवीसी / 4381 / 08	136, पूंडावक्कम ग्राम, परांडूर डाक, कांचीपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	17.8.83
1249	एम. पार्था सारथी, पुत्र श्री के. मुथुवेल	टीएनएसवीसी / 4199 / 08	इनाथिकरम्बल डाक, अवानम वाया, पेरावुरानी तालुक, थंजावूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	10.7.83
1250	एम. प्रभाकरन, पुत्र श्री जी.आर. मुरुगन	टीएनएसवीसी / 4163 / 08	278—ए, गांधी नगर (बीडीओ कार्यालय के पीछे), उथानगरई डाक व तालुक, कृष्णागिरि, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	27.6.84
1251	एम. राजामुरली, पुत्र श्री डी. मुरुगेसन	टीएनएसवीसी / 4172 / 08	9, कन्हैया नगर, एस.एन. चावडी, कुडालोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	21.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1252	एम. राजेश, पुत्र श्री वी. मनि	टीएनएसवीसी /4247/08	1/56, एस. उडुप्पम डाक, नमक्कल- 637019, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएस/08	7.5.83
1253	एम. राकेश कुमार, पुत्र श्री एम. वेंकटेश्वर राव	पीएसवीसी/ 4805/08	म.न. 6-3-30, बैंक कॉलोनी, खम्मम डाक, खम्मम- 507002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/08	6.6.84
1254	एम. रवि, पुत्र श्री आर. मनि	टीएनएसवीसी /4333/08	मुथागंडनूर, उमयलपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएस/08	1.6.85
1255	एम.साई प्रसाद उमाकांत	महाएसवीसी/ 8140/09	"साई सदन", एटी अटकूर, धर्माबाद, जिला नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएफ एसयू/08	12.06.85
1256	एम. संदीप कुमार, पुत्र श्री एम. केशवुलु	पीएसवीसी/ 4763/08	म.न. 7-224, न्यू वी.टी. कॉलोनी, महालक्ष्मी पी.बी. मिल के निकट, मिरयलगुडा, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	6.1.84
1257	एम. सेंथिल मुरुगन, पुत्र श्री ए. मगुदेश्वर मूर्ति	टीएनएसवीसी /4317/08	एम-134, कावेरी नगर, एस. आई. हाउसिंग कॉलोनी, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएस/08	15.9.84
1258	एम. सेंथिलराजा, पुत्र श्री आर. मरियप्पन	टीएनएसवीसी /4234/08	3-2(पुराना न. 23), 8वां क्रॉस, पलानीयप्पा स्ट्रीट, थविट्टु पलायम, अंधियूर, डाक-भवानी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएएनयू वीएस/08	12.6.85
1259	एम. श्याम शंकर, पुत्र श्री सी. महाराजा	टीएनएसवीसी /4106/08	30 (पुराना न. 60), थर्ड स्ट्रीट, कामराज नगर, अवाडी, चेन्नई	बीवीएससी/टी एएनयूवीएस /98	9.1.75
1260	एम. श्रावन्ति, पुत्री श्री एम. मोहनगम चेट्टी	पीएसवीसी/ 4722/08	डी.न. 1-96, पुडीपाटले (ग्राम व डाक), तिरुपति ग्रामीण मंडल, चित्तूर जिला- 517505, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	30.4.85
1261	एम. श्रावन्ति, पुत्री श्री एम. जेकब	पीएसवीसी/4 733/08	म.न. 5-12-374/1, श्री साई नगर, आईटी के सामने, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	7.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1262	एम. थिरुसेल्वी, पुत्र श्री के. मुनियासामी	टीएनएसवीसी /4290/08	11/2, शेक मिथर लेन, कडालडी रोड, मुडुकुलाथूर, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	23.5.83
1263	एम. तुलसी, पुत्री श्री एम. सत्यनारायण	पीएसवीसी/ 4698/08	थिमिरम ग्राम, लक्कावरम (एसओ), वकापल्ली (बीओ), विशाखापट्टणम जिला— 531075, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	9.05.84
1264	एम. वसंता, पुत्र श्री एम. मदासामी	टीएनएसवीसी /4326/08	6, जे.एल.जे. बिल्डिंग, नॉर्थ कैलासपुरम स्ट्रीट, तिरुनेलवेली जं., तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	27.1.85
1265	एम. वेयिलान, पुत्र श्री एम. मुथु नाचन	टीएनएसवीसी /4103/08	अट्टूरपरई, मूलाक्कडई डाक, माइलाडुमपरई वाया, अंडीपट्टी तालुक, थेनी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /01	10.2.72
1266	एम. विंध्या, पुत्री श्री एम. वेंकटरमन नरसिम्हा रेड्डी	पीएसवीसी/ 4739/08	थुंगाथुरथी ग्राम, केथेपल्ली (एम), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	6.3.83
1267	एम. विनोथ, पुत्र श्री जे. मथियाजगान	टीएनएसवीसी /4178/08	3, अम्बेडकर नगर, शिवाजी नगर पश्चिम, थंजावूर— 613001, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	4.3.84
1268	मदन मुरारी पसाद, पुत्र स्व. श्री राम शरन प्रसाद	जेवीसी/416 /08	वेटरिनरी सर्जन, सिमडेगा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 74	16.03.51
1269	मदाने शैलेश शामराव	महाएसवीसी/ 8082/08	त्रिमूर्ति सदन, कमरा न. 1, कमरा न. 1, गणेश नगर, पंच कुटीर, आई.आई.टी., तालुक पोवई, मुम्बई— 400076	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	05.09.85
1270	माधो सिंह मीना, पुत्र श्री रतन लाल मीना	राजएसवीसी/ 3517/08	ग्राम खरली, डाक ककराला, थाना— बामनवास, सवाई माधोपुर— 32211, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	30.8.81
1271	मधु कुमारी, पत्नी श्री राजन कुमार साहू	जेवीसी/454 /09	द्वारा श्री अरुण कुमार साह, प्रेम नगर, कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 96	12.11.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1272	मधु रंजन कुमार, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद यादव	यूवीसी / 416 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), गजा जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंडारी	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 05	5.6.78
1273	मधु सुमन, पुत्र श्री कृष्ण लाल राना	एचपीएसवीसी / 830 / 08	ग्राम- नानू, डाक- रोपरी, थाना- सरकाघाट, जिला- मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / सीएसके केवीवी / 08	23.11.84
1274	मधुरंजन कुमार, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद यादव	बीवीसी / 2814 / 06	ग्राम-पीपरा, डाक-गुमला, थाना - सौर बाजार, सब- डिवीज़न सहरसा, जिला सहरंसा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / जेएनएयू / 05	5.6.78
1275	मागर नितिन सुधाकर	महाएसवीसी / 7948 / 08	ए / पी वाघुंडे केडी, तालुक पारनेर, जिला- अहमद नगर- 414301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	27.05.85
1276	महा शंकर, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2881 / 07	ग्राम- लेई, थाना बिहटा, सब -डिवीज़न- दानापुर, जिला- पटना- 801112, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एसवीवीयू / 06	3.6.79
1277	महाजन मधुवंती विजय कुमार	महाएसवीसी / 8045 / 08	वरदान, रेलवे स्टेशन रोड, जमहूर डी.एड.कॉलेज के सामने, उदगीर जिला, लातूर	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	12.01.85
1278	महाजन नरेंद्र देवीदास	महाएसवीसी / 7850 / 07	ए-2, सिल्वर अपार्टमेंट, विजय नगर, भिगवान रोड, बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	1.4.83
1279	महाजन विकास एकनाथ	महाएसवीसी / 7916 / 07	ए / पी गुनोरे, तालुक- पारनेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	25.3.85
1280	महाजन नम्रता अनिल	महाएसवीसी / 8092 / 08	द्वारा एस.आर. पवार, क्वा.न. सी-3, सुधीर कॉलोनी, अकोला- 444104, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	23.08.86
1281	महाजन सिंह मांडवी, पुत्र श्री सामी लाल सिंह	सीजीएसवीसी / 362 / 08	ममता नगर, वार्ड न. 6, राजनाथगांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 06-07	10.6.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1282	महाले तुषार राजेंद्र	महाएसवीसी / 8059 / 08	सर्वे न. 13, काकुबाई बाग, स्वामी समर्थ केंद्र के निकट, संगमेश्वर, मालेगांव, जिला—नाशिक— 426203	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	14.09.84
1283	महानवार तुषार राम	महाएसवीसी / 8049 / 08	क्रांतिदीप, नीरा रोड, लोनांड, महाराष्ट्र, तालुक खंडाला, जिला सतारा— 415521	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	26.07.85
1284	महावीर प्रसाद यादव, पुत्र श्री सुरजा राम यादव	राजएसवीसी / 3540 / 08	स्वामीवाला की धानी, तनमोहन पुरा यूआरएफ खरकरा, डाक पाटन, थाना नीम का थाना, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	20.2.85
1285	महेंद्र सिंह, पुत्र श्री संत राम	हरिसवीसी / 2072	ग्राम एवं डाक— सांगा, जिला— भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	3.1.84
1286	महेंद्र कुमार छंगानी, पुत्र श्री एच.सी. छंगानी	राजएसवीसी / 3520 / 08	पुष्टिकर पंचायत भवन, बंसीवाला, नागपुर— 24	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	16.8.77
1287	महेंद्र कुमार, पुत्र श्री गणपत सिंह छिरंग	राजएसवीसी / 3476 / 08	ग्राम एवं डाक— देवास, थाना— फतेहपुर, सीकर— 323301, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	13.8.82
1288	महेश एन., पुत्र श्री डी. नारायण नायर	केरलएसवीसी / 3454 / 09	अक्षय, थलायोला परम्बु डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	28.1.85
1289	महेश चंद्र खंडूरी, पुत्र स्व. श्री जे.डी. खंडूरी	यूवीसी / 113 / 08	दयानंद मार्ग, सुभाष नगर, क्लीमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / आगरा विवि / 64	24.8.41
1290	महेश पाटिल, पुत्र श्री रायनगौडा पाटिल	कर्नाएसवीसी / 4159 / 08	महाराज कॉलोनी, मुधोल— 587313, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	23.6.85
1291	महेश सिंह बघेल, पुत्र स्व. श्री आयुत राम बहाले	सीजीएसवीसी / 430 / 08	पशु चिकित्सा अस्पताल, भानु प्रताप, जिला— रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 95—96	2.6.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1292	महेश कुमार, पुत्र श्री प्रभन्ना एस.	कर्नाएसवीसी/ 4180/08	सागर कैम्प, सिंधनूर— 584128, रायचूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	8.10.85
1293	महेश्वर तिवारी, पुत्र स्व. श्री अजब लाल तिवारी	जेवीसी/191 /08	वी.एस. सराईकेला, पशु चिकित्सा अस्पताल, सराईकेला —833218, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 83	23.1.58
1294	महिमा मिंज, पुत्र स्व. श्री मार्टिन मिंज	जेवीसी/413 /08	टिगरा गंगा, टोली गुरु, रातू, पिन— 835222, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 96	02.02.71
1295	महीप दीक्षित, पुत्र श्री बी.एन. दीक्षित	एमपीएसवीसी /2585/09	शबद प्रताप, आश्रम, ग्वालियर, म.प्र.— 474012	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	21.8.80
1296	मयकिल सोरेन, पुत्र श्री बर्नार्ड बरका सोरेन	जेवीसी/375 /08	पोवल, अपरोल बारियो, साहिबगंज— 816120, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 02	11.05.76
1297	मकवाना हितेश कुमार लभु भाई	गुजएसवीसी/ 2908/08	2, प्रार्थना सोसायटी, हडगोड रोड, खेतीवाडी, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 08	21.9.84
1298	मकवाना प्रागी भाई अरजनभाई	गुजएसवीसी/ 2909/08	कुंडलियाला, तालुक—राजुला, जिला— अमरेली, वाया— वडाली, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 08	8.8.84
1299	मकवाना रिकेश कुमार बाबूलाल	गुजएसवीसी/ 2961/08	33/ए, मयूर हाउसिंग सोसा., रेलवे के पीछे, बीवीएम रेलवे के निकट, बीवीएम मिल के निकट, कलोल— 382721, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसडीएयू /08	25.4.86
1300	मलापुर चंद्रशेखर दौलतराव	महाएसवीसी/ 7955/08	एटी— मेंडकी, डाक— सोनोली, तालुक— कटोल, जिला— नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	5.3.84
1301	मलय कुमार विश्वकर्मा, पुत्र श्री डी.पी. विश्वशर्मा	यूपीएसवीसी/ 4740/08	म.न. 88, मौह. चौधरायन, जलौन, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जीबीपीयू एंडटी/08	5.3.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1302	माली सुजय लक्ष्मण	महाएसवीसी / 7884 / 07	पौधर माला रोड, ए/पी बागानी, तालुक— वाल्वा, जिला— सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	8.6.85
1303	ममता सोनी, पुत्री श्री श्याम लाल सोनी	राजएसवीसी / 3473 / 08	सुभाष चौक के निकट, हनमानगढ़ शहर, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 07	29.9.81
1304	मन मोहन महतो, पुत्र श्री श्री चंद महतो	जेवीसी / 464 / 09	पलना, बाबूरामडीह तमार, बुंदु, रांची— 835225, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 96	03.01.68
1305	मनमोहन पांडे, पुत्र श्री जी.एन. पांडे	यूपीएसवीसी / 4731 / 08	ग्राम— राम नगर, डाक— बिगवारा, जिला— यू.एस. नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एंडटी / 92	19.6.69
1306	मनाली पंत, पुत्री स्व. श्री चंद्रा पंत	यूवीसी / 373 / 08	चंद्रा निवास, बम्बाघर, राम नगर, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एंडटी / 08	8.6.84
1307	मनस्विनी देहुरी, पुत्री डॉ. पी.के. देहुरी	उडीसाएसवी सी / 2210 / 08	एटी— बहारीपदा, मोहंती साही, बौधी, जिला बौधी, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 06	1.1.81
1308	मंडाखलीकर केदार दिवाकर	महाएसवीसी / 8141 / 09	द्वारा: डॉ. डी.डी. कुलकर्णी, हाई सिक्वोरिटी एनिमल डिजीज लेब्रोरेटरी, आईवीआरआई, आनंदनगर, भोपाल— 462021	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	26.05.84
1309	मांडवी वल्लभ झा, पुत्र श्री दशरथ नाथ झा	जेवीसी / 225 / 08	द्वारा श्री दशरथ झा, हरिपुर, गैरवन्ना, गोड्डा, 814133, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 97	08.08.70
1310	मंदीप अत्रे, पुत्र श्री चरनजीत शरन	पीबीएसवीसी / 2818 / 08	10 / 115, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच / जीएडीवी एसयू / 08	19.12.85
1311	मांडेला थबाह, पुत्री श्री एम. सियेमियोग	मेघएसवीसी / 2 57 / 08	भोइरिम्बोंग, वाया बड़ापानी, रि—भोई, जिला— मेघालय— 793103	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	8.4.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1312	मांडे मंगेश कैलाश	महाएसवीसी / 7820 / 07	अम्बेटकर वार्ड, देसाईगंज (वाडसा), जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.9.83
1313	माने अमरप्रसाद अर्जुन	महाएसवीसी / 8135 / 09	द्वारा अर्जुन गंगाराम माने, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ), तालुक- राहुरी, जिला- अहमदनगर	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	03.06.84
1314	मनेश चंद, पुत्र श्री राम किशन	यूपीएसवीसी / 4753 / 08	ग्राम एवं डाक- रनवारी, थाना- छाटा, जिला मथुरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	11.7.81
1315	मनीश श्रीवास्तव, पुत्र श्री जे.पी. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 2566 / 08	माइक्रोवेव पुरानी बस्ती के निकट, जिला- भिंड- 477001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	2.7.82
1316	मनीश कुमार, पुत्र श्री बीरेंद्र कुमार	बीवीसी / 2934 / 08	ग्राम सिमा, डाक व थाना- सिलाव, सब-डिवीजन- राजगीर, जिला-नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	4.4.78
1317	मनीष कुमार, पुत्र श्री मीतल यादव	बीवीसी / 2841 / 07	ग्राम- मिल्की दुमरिया, डाक- भांघी, थाना- फुलकाहा, सब-डिवीजन- फोबिशगंज, जिला- अरेरिया, बिहार	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	17.6.82
1318	मनीष कुमार सहरावत, पुत्र श्री आर.एस. सहरावत	हरिएसवीसी / 2084	1845, सेक्टर- 15, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	27.2.83
1319	मनीष कुमार शेंडे, पुत्र श्री टीकाराम शेंडे	एमपीएसवीसी / 2509 / 08	डब्ल्यू / एन-13, साई मंदिर रोड, बालाघाट- 481001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	13.1.81
1320	मनीष मिश्रा, पुत्र श्री यश पाल मिश्रा	एचपीएसवीसी / 843 / 08	मुबारकपुर रोड, अम्ब जिला, उना, हि.प्र.- 177203	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	11.10.82
1321	मनीष मिश्रा, पुत्र श्री यश पाल मिश्रा	पीवीएसवीसी / 2788 / 08	म.न. 447, फेज I, ए, शिवालिक एवेन्यू, नंगल, रोपड़, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / सीएसके एचपीकेवीवी / 08	11.10.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1322	मनीष, पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह	यूवीसी/402/08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, लखवार, जिला—देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंएच/सीएसकेएचपीकेवीवी/08	23.9.79
1323	मनीष तिवारी, पुत्र श्री जे.डी. तिवारी	यूपीएसवीसी/4859/08	3 ई-37, कूर्माचल नगर, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएवंएच/जेएलकेवीवी/08	22.11.80
1324	मनीष यादव, पुत्र श्री भीखाराम यादव	एमपीएसवीसी/2533/08	एलआईजी- 8/87, सरिता कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएवंएच/जेएनकेवीवी/08	4.9.83
1325	मनीषा लाकरा, पुत्री श्री हीरा लाल लाकरा	जेवीसी/373/08	एल्बर्ट कम्पाउंड, पुरुलिया रोड, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससीएवंएच/आरएयू/02	03.11.77
1326	मनीषा वर्मा, पुत्र श्री केहर सिंह वर्मा	एचपीएसवीसी/832/08	ए.एस.एस.एस. स्कूल के निकट पिरडी, मोहल कुल्लु, जिला कुल्लु, जिला— कुल्लु, हि.प्र.	बीवीएससीएवंएच/सीएसकेकेवीवी/08	17.1.84
1327	मनजीत कौर, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद	बीवीसी/2921/08	ग्राम— सुंदरगढ़ भैसासुर, डाक व थाना— बिहार शरीफ, जिला— नालंदा— 803101, बिहार	बीवीएससीएवंएच/एमएफएसयू/07.	5.11.78
1328	मनजीत कुमार शर्मा, पुत्र स्व. श्री अर्जुन प्रसाद शर्मा	बीवीसी/2746/06	ग्राम— गांधी चौक, छपरा, डाक व थाना छपरा, सब—डिवीजन— छपरा, जिला— छपरा (सारन), 841301	बीवीएससीएवंएच/एसकेयूएसएंडटी/06	1.3.81
1329	मनजीत सिंह, पुत्री श्री तारा सिंह	यूवीसी/375/08	सरला भवन, मौहल्ला गुजरातियां जासपुर, जिला— यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंएच/जीबीपीयूएंडटी/08	8.7.81
1330	मंजू आरमो, पुत्री श्री जे.आर. आरमो	सीजीएसवीसी/378/08	टाइप-5, क्वा.न. 11, टेलीफोन ऑफिस कॉलोनी, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंएच/आईजीकेवीवी/06-07	29.3.81
1331	मंजु पाल, पुत्री श्री दया नंद पाल	यूवीसी/444/09	म.न. बी-75, बेनी कॉलोनी, डेयरी नागला, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंएच/जीबीपीयूएंडटी/01	30.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1332	मंजुलता, पुत्री श्री शीतल प्रसाद मनि	यूवीसी / 400 / 08	ग्राम एवं डाक— इनकेत, जिला— यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	25.8.83
1333	मंजुलता साहू, पुत्र श्री कमला प्रसाद साहू	सीजीएसवीसी / 434 / 09	एन.सी.—78, सीएसईबी कॉलोनी, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके बीवी / 07.08	11.5.82
1334	मंजुनाथ डी.आर., पुत्र श्री रामइयाह डी.सी.	कर्नाएसवीसी / 4104 / 08	दासलुकुंटे— 572138, कोराटागेरे, तालुक— तुमकुर, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	9.5.85
1335	मंजुनाथ एल.एच., पुत्र श्री हिरियन्ना एल.वी.	कर्नाएसवीसी / 4098 / 08	सप्तस्वर, कार स्ट्रीट, उजीरे— 574240, बेलंगडी तालुक, दक्षिणी कन्नड जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यू एएसबंगलौर / 75	25.5.54
1336	मंजुनाथ एस, पुत्र श्री सिदप्पा	कर्नाएसवीसी / 4171 / 08	न. 9, प्रथम क्रॉस, तीसरा मेन, सोमेश्वर नगर, येलाहंका न्यू टाउन, बंगलौर—560064, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	31.10.85
1337	मंजुनाथ एन.एस., पुत्र श्री सिदप्पा एन.जी.	कर्नाएसवीसी / 4129 / 08	नरसिम्हनाहल्ली, गेडारे डाक— 561213, गौरीबिदनूर तालुक, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	25.6.85
1338	मंजुनाथ वी.एस., पुत्र श्री वेंकटप्पा बी.	कर्नाएसवीसी / 4132 / 08	ग्राम से बाहर, पलायकरे डाक — 563124, बागेपल्ली तालुक, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	24.6.85
1339	मनकर दीपिका रमन	महाएसवीसी / 8057 / 08	बियाबनी, अचलपुर सिटी, अचलपुर, महाराष्ट्र, जिला— अमरावती— 444806	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	25.09.85
1340	मनोहर दयाबेरी, पुत्र श्री पांडुरंग	कर्नाएसवीसी / 4216 / 09	दयाबेरी, बीजापुर तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 96	2.8.71
1341	मनोज कौशिक, पुत्र श्री आर.के. कौशिक	एचपीएसवीसी / 856 / 08	कौशिक निवास— 5, सनी साइड, सोलन, हि.प्र.— 173212	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	7.12.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1342	मनोज कुमार द्विवेदी, पुत्र स्व. श्री श्रीनाथ द्विवेदी	बीवीसी/ 2959/08	ग्राम— सोहसा, डाक— मीव, थाना— बीड, जिला— कैमूर— 821101, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आई.ई/06	19.9.74
1343	मनोज कुमार गौतम, पुत्र श्री राम मुनि गौतम	एमपीएसवीसी /2567/08	वेटेरिनरी कैम्पस, स्नेहियत गंज, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/87	5.7.65
1344	मनोज कुमार महंता, पुत्र स्व. श्री लुथु राम महंता	जेवीसी/533 /09	राज नगर, सरायलेला —खरसावान, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 94	15.11.67
1345	मनोज कुमार मनि, पुत्र स्व. श्री दीना नाथ मंडल	जेवीसी/560 /09	हाजीपुर (राजीगांव), मिर्जाचौकी, साहबगंज, पिन— 813208, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 92	29.01.67
1346	मनोज कुमार मंदू, पुत्र श्री नित्यानंद सिंह	बीवीसी/ 2866/07	ग्राम एवं डाक— धानछोहा, थाना— सौर बाजार, जिला— सहरसा, बिहार	बीवीएससीएवं एच/केएएंडए फएसयू/05	4.6.77
1347	मनोज कुमार राजपूत, पुत्र श्री बलराम सिंह	यूपीएसवीसी/ 4806/08	ग्राम— पतखुरी, डाक— जरिया, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	1.5.82
1348	मनोज कुमार, पुत्र श्री राम बिनोद सिंह	जेवीसी/239 /08	क्वा.न. बी।।/289 (टी), शर्मा रोड, धुरवा, रांची— 834004, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/95	31.07.71
1349	मनोज कुमार, पुत्र श्री अर्जनाथ सिंह	बीवीसी/ 2848/07	ग्राम— बंकाजुया, डाक— चोरम, थाना— भगवानपुरहाट, सब— डिवीज़न— महाराजगंज, जिला— सीवन, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 07	21.1.83
1350	मनोज कुमार, पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद	जेवीसी/250 /08	टी.वी.ओ. हुवनघाटू, रांची	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 01	05.11.73
1351	मनोज कुमार, पुत्र श्री सीता राम महतो	राजएसवीसी/ 3575/08	द्वारा केदार शर्मा, नगर परिषद के सामने, हनुमान हट्टा, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	25.3.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1352	मनोज कुमार साहू, पुत्र श्री लीलाधर साहू	यूपीएसवीसी/ 4850/08	ग्राम एवं डाक— कैनहा रथ, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएलके वीवी/08	20.6.81
1353	मनोज कुमार सिंह, पुत्र श्री सुदिन प्रसाद सिंह	जेवीसी/342 /08	द्वारा श्री सुदिन प्रसाद सिंह, बड़ी कोडर जन्ना, साहिबगंज— 816109, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 93	05.12.68
1354	मनोज कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राम लखन सिंह	जेवीसी/072 /08	साकेत नगर, हिनू, दोरांडा, रांची, झारखंड— 834002	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 89	05.01.62
1355	मनोज कुमार तिवारी, पुत्र स्व. श्री जय नंदन तिवारी	जेवीसी/315 /08	मौह— बालीडीह, पांडे टोला, बालीडीह बी.एस. सिटी-14, चास, बोकारो— 827014, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 03	18.09.74
1356	मनपाल सिंह, पुत्र श्री खचेर सिंह	हरिएसवीसी/ 2083	जी.वी.एच. बिछोर, डाक— बिछोर, मेवात, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीएसके वीवी/01	1.7.71
1357	मंसूरी आसिफभाई रजाकभाई	गुजएसवीसी/ 2962/08	सर्वे न. 108, महिला कॉलेज के पीछे, विजय रोड, एटी व डाक— सावगढ़, तालुक— हिम्मत नगर, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसडीएयू /08	4.12.84
1358	मनता राज यादव, पुत्र श्री राम नाथ यादव	यूपीएसवीसी/ 4778/08	ग्राम— लंगरपुर, डाक— बंकट, जिला— आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/एनडीयूए टी/08	6.7.79
1359	मनु दीक्षित, पुत्र श्री बी.के. दीक्षित	एमपीएसवीसी /2589/09	बी-14, कृष्णा नगर, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.— 474011	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	14.10.84
1360	मरकंड शानू जगदीश प्रसाद	महाएसवीसी/ 8015/08	शांताराम टेलर बिल्डिंग, गोकुलपेठ बाजार रोड, तालुक व जिला— नागपुर— 440010	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	1.02.84
1361	मार्टिना योहानन, पुत्री श्री टी.आर. योहानन	केरलएसवीसी /3374/08	थेक्केडथ हाउस, वेलीकुलंगरा डाक, थिसूर— 680693, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 08	10.12.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1362	माथुर प्रणव दिनेश	महाएसवीसी / 7764 / 07	प्लॉट न. 48, पटेल नगर, गोरेवाडे रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 07	24.8.84
1363	मजरूल हसन, पुत्र श्री जहीर हसन	जेवीसी / 312 / 08	द्वारा जहीर हसन, मौह-बारटोला, चित्रपुर, रामगढ़, हजारीबाग- 82510, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 03	17.07.74
1364	मौह. सरपुराज अली, पुत्र श्री सुलेमान अंसारी	सीजीएसवीसी / 397 / 08	ग्राम एवं डाक- मुखराग खंड, कलारी, कोरभा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंएच / आईजीके वीवी / 06-07	29.6.79
1365	मौह. जावेद जफर खान, पुत्र स्व. श्री अनीश खान अशरफ	बीवीसी / 2887 / 07	ग्राम-न्यू मैलोला कॉलोनी, अपना घराना, सज्जत नगर, डाक- फुलवारी शरीफ, थाना दानापुर, जिला-पटना, बिहार	बीवीएससीएवंएच / एसवीवीयू / 06	6.3.79
1366	मौह. मुसाफिक आजम, पुत्र स्व. श्री अब्दुर राब	बीवीसी / 2891 / 07	ग्राम एवं डाक- आजम नगर, सब-डिवीजन-बरसोई, जिला -कटिहर-855113, बिहार	बीवीएससीएवंएच / एएयू / 07	1.1.80
1367	मौह. जमीरुद्दीन, पुत्र श्री लाल मुहम्मद	बीवीसी / 2749 / 06	ग्राम- बाशा, डाक- बरहारे, थाना, सब-डिवीजन व जिला मधुबनी- 847401, बिहार	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 06	15.6.78
1368	मौह. आसिफ अहमद, पुत्र स्व. मौह. अहमद अली	जेवीसी / 518 / 09	तीन पहाड़, राजमहल, साहेबगंज- 816116, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 97	25.02.70
1369	मौह. इमरान अंसारी, पुत्र मौह. मुस्लिम अंसारी	जेवीसी / 520 / 09	कालाझार, काठीकुंड, दुमका- 814101, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 94	13.01.69
1370	मौह. जावेल अख्तर, पुत्र मौह. नयीमुद्दीन	जेवीसी / 441 / 08	नयानगर, महागाम गोड्डा- 814154, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 08	01.09.82
1371	मौह. कलीमुद्दीन, पुत्र श्री एस.के. नोमानी	जेवीसी / 568 / 09	जामनी कोला, आगम पकेरिया, पाथरगाम, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 77	04.02.53

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1372	मौह. शाहिद इकबाल, पुत्र मौह. अब्दुल कलाम	जेवीसी / 433 / 08	द्वारा मौह. अब्दुल कलाम, आजाद बस्ती, लोहारडागा— 835302, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 08	01.03.79
1373	मौह. शोहेल खान, पुत्र मौह. कफील खान	जेवीसी / 103 / 08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, गंडे, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 87	06.01.63
1374	मौह. वैजे अंसारी, पुत्र मौह. फैयाज अंसारी	जेवीसी / 296 / 08	द्वारा मौह. फैयाज अंसारी, लोयाबाद, बांसजोरा, धनबाद— 828101, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 08	06.02.81
1375	मौह. जियाउल हसन सरवर, पुत्र मौह. कुरैशी	जेवीसी / 422 / 08	द्वारा मौह. कुरैशी, तिनपहाड़, राजमहल, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 01	24.11.74
1376	मौह. कलीमुद्दीन अंसारी, पुत्र मौह. अंसारी अली	जेवीसी / 352 / 08	छोटी कोडारजन्ना, साहिब गंज— 816109, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 95	01.05.68
1377	मौह. शाइद कुरैशी, पुत्र मौह. सईद कुरैशी	सीजीएसवीसी / 374 / 08	सेक्टर-3, एकता नगर, चिरकुटी मंदिर के निकट, गुडसारी, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06-07	14.9.81
1378	मौह. जियाउल हसन, पुत्र मौह. अनवल हसन	उडीसाएसवी सी / 2235 / 08	एटी: रौयान हाउस, पठान मौहल्ला, डाक— मोतीग्राम, बालसौर— 756003, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	20.8.84
1379	मीना अरोड़ा, पत्नी श्री रजनीश अरोड़ा	उडीसाएसवी सी / 2206 / 09	प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, डी-3, रेल कुंज, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 87.88	5.8.64
1380	मीना गोस्वामी, पुत्री श्री नर सिंह गोस्वामी	यूवीसी / 390 / 08	2-278, आशादीप अम्बिका विहार, डाक— भोटिया परावा, हलद्वानी, जिला—नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	21.7.84
1381	मीना हरीशचंद्र, पुत्री श्री हरि चंद्र	यूवीसी / 396 / 08	द्वारा श्री बी.डी. थवाल, थवाल पुस्तक सदन, गोरल चौर रोड, चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	15.4.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1382	मीनाक्षी प्रधान, पुत्री डॉ. एम. प्रधान	यूवीसी / 427 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), सीटीओ, पिथोरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 07	9.9.83
1383	मीनू बशीर, पुत्री श्री पी.एस. मौहम्मद	केरलएसवीसी / 3460 / 09	शालीमार चेलाको, पठानुपरम डाक, कोल्लम— 689695, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	19.2.85
1384	मीरा कुमारी, पुत्री श्री मदन मोहन सिंह	जेवीसी / 447 / 09	गरी खाश पाटन, पंडवा, मेदनी नगर, पलामू झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 08	30.01.83
1385	मेघा बी.एल., पत्नी श्री विजय भास्कर के.एस.	कर्नाएसवीसी / 4140 / 08	द्वारा के.पी. सोमेशइयाह, कामा गोंडानाहल्ली, पुट्टयाना हल्ली— 572137, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	4.10.84
1386	महारे अवेश मुरलीधर	महाएसवीसी / 7837 / 07	12, विलास कॉलोनी, वी.एम.वी. रोड, कठोरा नाका, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	12.4.83
1387	मेरियानी किकोन, पुत्र स्व. श्री त्सेनियोमो किकोन	एनएसवीसी / 2 38 / 08	अपर बयावू हिल कॉलोनी, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	14.1.85
1388	मेशराम सोनाली यशवंत	महाएसवीसी / 7800 / 07	ब्रह्मपुरी के निकट, ब्लास्ट ऑफिस, कॉलेज रोड, ब्रह्म पुरी, जिला— चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	10.3.85
1389	मेस्त्री गौरव रवीन्द्र	महाएसवीसी / 8075 / 08	ग्राउंड फ्लोर, विश्वनारायण 58, कोअरगेट, खडक, भिवंडी, तालुक भिवंडी, जिला थाणे— 421302	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	26.06.86
1390	मेतांगले माधव ज्ञानबा	महाएसवीसी / 7922 / 08	एटी— मादरी, डाक— आरेगांव, तालुक— मेहकर, जिला— बुलदाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	4.4.82
1391	म्हात्रे प्रीति सुभाष	महाएसवीसी / 7779 / 07	लक्ष्मी निवास, म्हात्रे वाडी, बौदुखई मार्ग, वारसोली, तालुक— अलीबाग, जिला— राजगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	6.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1392	मिथुन चंद्रन टी.सी. पुत्र श्री टी.एम. चंद्रशेखरन	केरलएसवीसी /3329/08	थेक्कमडाथिल हाउस, कोजाङ्गी थिसूर- 68010, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	2.4.83
1393	मिली मीनाक्षी, पुत्र श्री तोसेश्वर मिली	एसएम/ 2424/09	ग्राम मोकालीगांव, डाक हलेम, जिला- सोनितपुर- 784170, असम	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	31.10.85
1394	मिसालकर वैशाली फकीरा	महाएसवीसी/ 7997/08	मिलिंद नगर, वार्ड न. 21, तालुक व जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	02.03.84
1395	मिस्त्री कुरुश रूसी	महाएसवीसी/ 8090/08	पाम स्प्रिंग्स, 1-1, 104, कफ परेड, महाराष्ट्र, मुम्बई- 400005	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	23.08.73
1396	मिथिलेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	जेवीसी/299 /08	टीवीओ बडारवा (साहिबगंज), डाक- बडारवा, जिला- साहेबगंज-816101, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 85	02.08.62
1397	मोध दर्शन कुमार नरेद्र कुमार	गुजएसवीसी/ 2963/08	सोहम- शिवाजी पार्क के निकट, सुखबाग रोड, पालनपुर, बी.के., गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	29.6.86
1398	मोहलकर अमोल सुदाम	महाएसवीसी/ 7971/08	कोरेवाडा, सराफ लेन, खरदा, तालुक जामखेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	29.7.85
1399	मोहम्मद फजल इब्राहीम, पुत्र मौह. इब्राहीम साहेब	टीएनएसवीसी /4380/08	अमीना प्लॉट न. 28, भारती नगर, रानीपेट- 632403, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/60	1.9.37
1400	मोहम्मद गौस, पुत्र मोहम्मद हुसैन एच.	कर्नाएसवीसी/ 4133/08	द्वारा- मंसूर जाफर, अंतिम क्रॉस, रामदास कम्पाउंड, मैच फैंक्ट्री के पीछे, चित्रदुर्ग- 577501, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	1.5.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1401	मौहम्मद शरीफ, पुत्र श्री सेगू मौहम्मद	टीएनएसवीसी /4349/08	3, पट्टानी स्ट्रीट, दावूद मेंशन, वल्लम, थंजावुर, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनयूवीए एस/91	1.6.67
1402	मौहम्मद आरिफ बाशा के., पुत्र श्री कलीम बाशा जे.	कर्नाएसवीसी/ 4124/08	तीसरा मेन, तीसरा क्रॉस, बी बल्लॉक, विद्यानगर, हरिहरा— 577601, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एएच/केवीए एफएसयू/08	3.8.85
1403	मोहन लाल कंसल, पुत्र श्री पाली राम कंसल	हरिएसवीसी/ 2086	27, विराट नगर, पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/पीयू/62	20.2.37
1404	मोहनवीर सहारन, पुत्र श्री ज़िले सिंह	हरिएसवीसी/ 2055	ग्राम एवं डाक— कोलेखन, थाना— कलायत, जिला— कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/08	10.4.81
1405	मौहम्मद नदीम, पुत्र मौहम्मद अमीन सिद्दकी	यूपीएसवीसी/ 4795/08	782/2, शिवाजी नगर, झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/एनडीयूए टी/08	8.6.78
1406	मौहम्मद जाफर के, पुत्र श्री अब्दुल जब्बार	कर्नाएसवीसी/ 4192/08	न. 471, 14वां क्रॉस, 8वां मेन, विल्सन गार्डन— 560030, कर्नाटक	बीवीएससी/ यूएसएसबंगलौर /68	14.8.45
1407	मोहिन्दर कुमार यादव, पुत्र श्री हरदीत सिंह	हरिएसवीसी/ 2088	ग्राम एवं डाक— खाटीवास, जिला— झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/एचएयू/ 85	22.8.63
1408	मोहित कुमार, पुत्र श्री राज कुमार	पीबीएसवीसी/ 2823/08	धीर स्ट्रीट, गली न. 3, बस स्टैंड के निकट, मनसा, जिला— मनसा, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	9.7.83
1409	मोहती सिंह चौहान, पुत्र श्री आर.के. सिंह	यूपीएसवीसी/ 4802/08	ग्राम एवं डाक— जासमो, थाना— बेहटा, जिला— सहारनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जीबी पीयूएण्डटी/ 08	10.11.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1410	मोनिका गोयल, पुत्री डॉ. राजीव गोयल	यूवीसी / 430 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, बरकोट, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 04	13.8.80
1411	मोरांग मधुमिता, पुत्री ले. बी.एस. मोरांग	एएसएम / 2370 / 08	ग्राम- पिजबी, डाक- रतनपुर, थाना- जोनाई, जिला- धीमाजी, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 7	30.6.80
1412	मोरे सुनील निवृत्ति	महाएसवीसी / 7822 / 07	प्लैट न. 11, दूसरी मंजिल, श्री अमर सोसायटी, तारवाला नगर, मारी ढिंडोरी रोड, नासिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	18.9.83
1413	मोरे बाबा साहेब सूर्यभान	महाएसवीसी / 8121 / 08	मूला शुगर फैक्ट्री, डी-टाइप कॉलोनी, सोनई, महाराष्ट्र, तालुक- नेवासा, जिला- अहमदनगर- 414105	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	22.06.84
1414	मोरे गौरी दिलीप	महाएसवीसी / 8094 / 08	प्रतीक कृपा, 301, प्लॉट न. 4, सेक्टर-1, महाराष्ट्र सम्पदा, नवी मुम्बई- 400705	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	24.07.86
1415	मोरे विक्रम सिंह बाजीराव	महाएसवीसी / 7878 / 07	ए / पी काशिल, तालुक व जिला- सतारा- 415579, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	30.10.85
1416	मोरु निशा हरीश चंद्र	महाएसवीसी / 8076 / 08	खार डांडा कोटपदा, राम मंदिर के पीछे, महाराष्ट्र, खार (प.), मुम्बई- 400052	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	17.01.85
1417	मृत्युंजय प्रसाद सिंह, पुत्र श्री महेश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 304 / 08	द्वारा श्री महेश प्रसाद सिंह, मौह.- द्यूब बारीडीह, बारीडीह, सिदगोरा, पूर्वी सिंधभूम- 831017, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 03	20.10.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1418	मृत्युंजय कुमार, पुत्र स्व. श्री सिद्धेश्वर शर्मा	बीवीसी/2889 /07	ग्राम एवं डाक कैथी, थाना— ओबरा, सब—डिवीजन— दौड नगर, जिला— ओरंगाबाद— 824124, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 7	25.12.76
1419	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानंद शर्मा	बीवीसी/2867 /07	ग्राम एवं डाक— पियर, थाना पियर, सब—डिवीजन तिरहुट, जिला— मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/केएएफए सयू/05	3.11.79
1420	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानंद शर्मा	यूवीसी/413 /08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), देवलगढ़, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/05	3.11.79
1421	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री रनबीर सिंह	जेवीसी/037 /08	मीट टेक्नोलॉजिस्ट, क्षेत्रीय कुक्कुट पोल्ट्री फार्म, होतवार, रांची, हरिद्वार	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 93	01.07.67
1422	मृत्युंजय कुमार, पुत्र स्व. श्री संतलाल राम	जेवीसी/200 /08	दिघी, दिघी सीवनपुर, मेहर्मा, ठाकुरघंटी, गोड़डा— 814160, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 93	05.02.65
1423	मुबारक हुसैन, पुत्र श्री ए.के. घनी	सीजीएसवीसी /444/09	ग्रास स्टेट— 3, ब्लॉक 9/ जे, सेक्टर—6, भिलई, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07—08	30.5.83
1424	मुधोलकर राजेंद्र राजशेखर	महाएसवीसी/ 7964/08	ए/पी येताला, तालुक— धर्माबाद, जिला— नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	27.05.83
1425	मुकेश कुमार, पुत्र श्री बनारस प्रसाद	बीवीसी/2944 /08	ग्राम—नयाोला, डाक— बंकीपुर, थाना— पीरबोहोर, सब —डिवीजन—पटना सदर, पटना	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 07	10.1.79
1426	मुकेश कुमार, पुत्र श्री भूषण प्रसाद सिंह	बीवीसी/ 2832/07	ग्राम— अख्तियारपुर, डाक— उरबिशुनपुर, थाना— अलीपुर, जिला— गया, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/06	15.8.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1427	मुकेश कुमार, पुत्र श्री भूषण प्रसाद सिंह	यूवीसी / 418 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, पचूवन, जिला- चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	15.8.81
1428	मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री शांति कुमार	एमपीएसवीसी / 2563 / 08	क्वा.न. 1, कृषि विज्ञान केंद्र, डाक- कालूखेडा, थाना- जावरा, जिला- रतलाम, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 78	10.5.54
1429	मुकेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री रामचंद्राना सिंह	जेवीसी / 213 / 08	म.न.-17, काडरू, दोरांडा, आर्गोरा, रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 9 9	01.03.74
1430	मुकेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री दामोदर प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2954 / 08	ग्राम- हनुमान बीघां, डाक- बेलार, थाना व सब-डिवीजन - गोगरी, जिला- नवादा - 851213, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 07	3.8.80
1431	मुकेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री उपेंद्र किशोर प्रसाद	जेवीसी / 532 / 09	डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा, अरघा घाट, राजपूत मौहल्ला, गिरिडीह- 815301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 90	23.12.66
1432	मुकेश मिश्रा, पुत्र श्री राजेंद्र मिश्रा	जेवीसी / 332 / 08	बी- 111, एचईसी कॉलोनी, धुरवा, रांची- 834004, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 95	05.06.71
1433	मुकेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री उमा शंकर सिंह	जेवीसी / 419 / 08	47, सीसम रोड, न्यू केबल, टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंधभूम - 831003, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	13.01.76
1434	मुकेश, पुत्र श्री होशियार सिंह	राजएसवीसी / 3484 / 08	ई- 112, इंदिरा नगर, झुंझुनू- 333001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	20.6.81
1435	मुकुंद प्रसाद खार, पुत्र श्री कनिया लाल खार	सीजीएसवीसी / 429 / 08	पशु चिकित्सक अस्पताल, धारसेवाला, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 94-95	10.4.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1436	मुले प्रमोद मधुकर	महाएसवीसी / 8114 / 08	एटी- बीरसिंगपुर, डाक- देउलघाट, महाराष्ट्र, जिला- बुलधाना- 443001	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	05.03.84
1437	मुंढे भरत लिम्बाजी	महाएसवीसी / 7963 / 08	'जीवन धारा', खारेगांव रोड, तालुक व जिला- परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	29.12.84
1438	मुंद्रिका दास, पुत्र श्री मोहन दास	जेवीसी / 528 / 09	डॉ. मुंद्रिका दास, नवादा, जाबरा सिमरिया, चतरा- 825103, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 97	13.03.69
1439	मुनि रंजन सिंह, पुत्र स्व. श्री त्रिवेनी प्रसाद सिंह	जेवीसी / 265 / 08	वी.एस. गिरिडीह भंडारीडीह, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 82	01.10.50
1440	मुनीष गोयल, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार	पीबीएसवीसी / 2661 / 08	सोडी अमर सिंह स्ट्रीट, पाठेला मार्बल, मुक्तसर- 152026, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसयू / 06	22.1.81
1441	मुनीष कुमार, पुत्र श्री सुरेंदर कुमार	हरिएसवीसी / 2039	मैसर्स पन्ना लाल, सोहन सिंह, न्यू ग्रेन मार्केट, इस्लामाबाद, जिला- कुरूक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	15.6.84
1442	मुन्नी कुरमु, पुत्र श्री सानो राम मुरमु	जेवीसी / 221 / 08	ग्राम- छोटा बाड़ा मारी, बाड़ा मारी, गमहरिया, सरायकेला- खरसावन, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 05	11.07.79
1443	मुरली धर झा, पुत्र स्व. श्री बिष्णु प्रसाद झा	जेवीसी / 554 / 09	अशारी माधुरी, पोरइया हाट, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरयू / 6 6	06.12.44
1444	मुट्टुराज पचनानवर, पुत्र श्री रामचंद्रप्पा पचनानवर	कर्नाएसवीसी / 4174 / 08	बौटनोर- 587204, मुधोल तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	6.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1445	एन. अंजीरेड्डी, पुत्र श्री एन. मल्ला रेड्डी	पीएसवीसी/4 747/08	अवुनूर (डाक), मुस्ताबाद (एम), जिला— 505404, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	18.5.84
1446	एन. ब्रह्मा नंदन, पुत्र श्री पी. नटराजन	टीएनएसवीसी /4195/08	अरासुनिलायपलायम ग्राम, पूसारीपट्टी डाक, मंजमपट्टी वाया— मनापरई, तालुक— त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	14.1.83
1447	एन.डी. रामा देवी, पुत्री श्री एन. विजय कुमार	पीएसवीसी/ 4746/08	म.न. 3—17सी—2, प्लॉट न.12, राधानगर, गोदावरी गुंटा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	16.3.83
1448	एन. दानाबाथी, पुत्र श्री ए. नटराजन	टीएनएसवीसी /4289/08	5/13, कामराज स्ट्रीट, सेंगुट्टई, कटपडी तालुक, वेल्लोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	18.10.84
1449	एन. ईलमपरुथी, पुत्र श्री पी. नटराजन	टीएनएसवीसी /4166/08	20/1, कोंगु नगर, एलीज नगर, डाक— धारापुरम तालुक, इरोडे— 638657, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	28.3.85
1450	एन. जयचंद्र राव, पुत्र श्री एन. नागेंद्र राव	टीएनएसवीसी /4112/08	173, वी.के.वी. नगर, एनजी जीओ कॉलोनी, कोयम्बतूर —621022, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयू/75	17.2.50
1451	एन. कन्नन, पुत्र श्री वी.एस. नारायण स्वामी	टीएनएसवीसी /4127/08	6/40, वल्लुवर स्ट्रीट, जगन्नाथ नगर, अरुम्बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनयू/85	6.2.60
1452	एन. लक्ष्मनन, पुत्र श्री वी. नान्जुडियाह	टीएनएसवीसी /4143/08	14/5, जय कमल हाउस, 14, बीस्ट वेस्ट वार्ड, मैसूर रोड, ऊटकमंड, नीलगिरी, तमिलनाडु	बीवीएससी/यू एसबंगलौर/ 82	17.1.59
1453	एन. मदेश, पुत्र श्री पी. नांजुंडा नायडू	टीएनएसवीसी /4337/08	न. 4/13, मुथमपट्टू ग्राम, डोड्डाथिमनाली डाक, देनकोईकोट्टल, कृष्णागिरि, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	7.1.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1454	एन. मनिचवाचकन, पुत्र श्री एम. नीलकंडा मुदलियार	टीएनएसवीसी /4150/08	86/1-ए, नानमंगलम रोड, मेट्टू स्ट्रीट, नेमीचेरी ग्राम, क्रोमपेट, चेन्नई	बीवीएससी/ एमयू/63	13.9.39
1455	एन. मुरुगेशन, पुत्र श्री ए. नटेसन	टीएनएसवीसी /4404/09	इलुप्पथम डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएस /97	13.5.71
1456	एन. नागांजनेयुलु, पुत्र श्री एन. येलमंडा राव	पीएसवीसी/ 4713/08	3-55, सत्य नारायण पुरम, आंगोल, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	12.7.85
1457	एन. नागराजन, पुत्र श्री जी. नागप्पा	टीएनएसवीसी /4331/08	बोम्मियमपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएस/08	3.7.85
1458	एन. पलानीकांत, पुत्र श्री सी. नटराजन	टीएनएसवीसी /4207/08	33, वेलियप्पन स्ट्रीट, गोबी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएस/08	15.1.83
1459	एन. पेठीराज, पुत्र श्री वी. नल्लुसामी	टीएनएसवीसी /4109/08	मुथुसामी नायडू स्ट्रीट, टी. कल्लूपट्टी डाक, पेराइयूत तालुक, मदुरै, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएएनयूवीएस /93	13.3.68
1460	एन. पूंगोडी, पुत्र श्री एल. नटराजन	टीएनएसवीसी /4396/09	295-ए, श्रीनिवास नगर, अट्टूर सलेम- 636102, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएएनयूवीएस /95	14.1.72
1461	एन. राजेंद्र रेड्डी, पुत्र श्री एन. यादगिरी रेड्डी	पीएसवीसी/ 4753/08	म.न. 17-186/1ए, श्रीनगर कॉलोनी, प्रशांत नगर, जी.पी. सिद्दीपेट, मेडक, आ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	18.7.85
1462	एन. रामाचंद्रन, पुत्र श्री एम. नटेसन	टीएनएसवीसी /4393/09	6/73, नाथमेदू मोलिया पल्ली, डाक- तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएएनयूवीएस /97	25.7.74
1463	एन. थुंगबेन, पुत्र श्री निहामो यथान	एनएसवीसी/2 33/08	एल.आर.सी., दीमापुर, नगालैंड	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 89	12.9.63

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1464	एनत्र बलारमथि, पुत्र श्री आर. नल्लासामी	टीएनएसवीसी /4244/08	7, पश्चिमी कुट्टीपलायम, गोबी तालुक, इरोडे- 636002, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	15.3.81
1465	एन. वसंत कुमार, पुत्र श्री आर. नल्लाथम्बी	टीएनएसवीसी /4319/08	3-21 (पुराना न. 62), उट्टूपलायम, इरागलेर डाक, संकागिरि तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	27.2.85
1466	नबी हुसैन अंसारी, पुत्र स्व. श्री महबूब अंसारी	जेवीसी/488 /09	करहारिया, बालीडीह, चास, बोकारो, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/9 6	07.07.70
1467	नागप्पा बानूवल्ली, पुत्र श्री कुशियप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4130/08	बीरेश्वर हाउसिंग कॉलोनी, मेदलेरी- 581211, रेनेबन्नूर, तालुक हावेरी, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएफ एसयू/08	20.5.83
1468	नागराज एन.पी., पुत्र श्री पम्पारेड्डी पुलिस पाटिल	कर्नाएसवीसी/ 4118/08	54/ए.देवीनगर, दूसरा क्रॉस, बेलारी- 583101, बरेली तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएफ एसयू/08	12.8.85
1469	नागदेओते नरेश विजय	महाएसवीसी/ 7839/07	श्री चक्रधर स्वामी मंदिर के निकट, नागपुर रोड, देलनवाडी, जिला- चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	10.8.81
1470	नागेंद्र सिंह राजपूत, पुत्र श्री लखन सिंह	एमपीएसवीसी /2530/08	34/532, गोपालपुरा, पटवारी गली, मोरैना- 476005, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	1.8.82
1471	नागमोटे स्वप्निल गुनवंत	महाएसवीसी/ 7803/07	प्लॉट न. 98, बापू नगर, उमरेद रोड, नागपुर-09, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	16.4.84
1472	नेयन एस.एच. पुत्री श्री ई.टी. सामोन	केरलएसवीसी /3450/09	वाइट हाउस, टीसी 14/752, ऑब्जरवेटरी लेन, थिरुवनंतपुरम- 695033, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	16.5.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1473	नाइक प्रकाश कृष्णा	महाएसवीसी / 7789 / 07	म.न. 227, इंदिरा निवास, राजाराम गली, निटदूर तालुक, चौडगढ़, जिला- कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	23.9.82
1474	नजीब ए.पी., पुत्र श्री पारीथ	केरलएसवीसी / 3475 / 09	आयपुरक्कल, कलाथूकावाडु, डाक- इलप्पुंकल, इराट्टुपेटा, कोट्टायम- 686579, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 9	7.3.85
1475	नाकाडे मंगेश कृष्णराव	महाएसवीसी / 7941 / 08	साई नगर, पारसोली रोड, धमनगांव रेलवे, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमए एफएसयू / 07	8.1.85
1476	नाले राजेंद्र पुंडलीक	महाएसवीसी / 7744 / 07	एटी- डोंडिले माले, ग्राम- कोल्की, तालुक फाल्टन, जिला सतारा- 415523, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	4.4.84
1477	नमन सिंह ठाकुर, पुत्र श्री राम सिंह ठाकुर	एमपीएसवीसी / 2576 / 08	सिविल लाइन्स, ठाकुर कॉलोनी, थाना पाटन, जिला - जबलपुर- 483113, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	7.1.80
1478	नंद किशोर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री बैद्य नाथ प्रसाद साह	जेवीसी / 035 / 08	सब-डिवीजनल पशु पालन अधिकारी, खुंटी, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 74	02.07.51
1479	नंद कुमार मोदी, पुत्र स्व. श्री हरिहर मोदी	जेवीसी / 500 / 09	जानकी निवास, गांधी स्कूल रोड, वार्ड न. 14, झुमरी तलैया, कोडर्मा, पिन- 825406, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 72	30.06.49
1480	नंद लाल बैरवा, पुत्र श्री राम स्वरूप बैरवा	राजएसवीसी / 3479 / 08	ग्राम एवं डाक- सवाई गंज, कुस्तला, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	12.7.76
1481	नंदा वाडेकर अमित कुमार विठ्ठल राव	महाएसवीसी / 8138 / 09	शिवकृपा, दत्ता नगर, ए/पी वटांगी, तालुक- अजारा, जिला- कोल्हापुर- 416504	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	06.01.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1482	नारायणी, पुत्री श्री रामचंद्र साहू	सीजीएसवीसी /448/09	एल।-67, गुरवार्ड के पीछे, तातीबंध, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07-08	24.11.84
1483	नरेंद्र गर्ग, पुत्र श्री आर.पी. गर्ग	एमपीएसवीसी /2556/08	30, टी.आर. पुरम, ए.बी. रोड, मोरैना- 476001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	20.7.85
1484	नरेंद्र जायसवाल, पुत्र श्री कमलेश्वरी चौधरी	बीवीसी/ 2733/06	ग्राम- लौखा, डाक व थाना- लौखा, सब-डिवीजन सुपौल, जिला सुपौल-852110, बिहार	बीवीएससीएवं एच/डब्ल्यू बीयूएफएसयू/ 05	23.11.76
1485	नरेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री डूंगर मल शर्मा	यूपीएसवीसी/ 4771/08	404, अनंतश्री, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	2.1.60
1486	नरेंद्र कुमार झा, पुत्र श्री नागेश्वर झा	जेवीसी/381 /08	इंस्टी. ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोड., आर.वी.सी., कनके, रांची- 834007, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 38	29.01.66
1487	नरेंद्र लाल, पुत्र श्री जगत राम	यूवीसी/381 /08	ग्राम- गौतम नगर, डाक- मलधान चौड़, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	5.7.81
1488	नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री प्रहलाद सिंह	जेवीसी/592 /09	टीवीओ, निरशा, निरशा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/8 7	22.12.62
1489	नरेंद्र सिंह तोमर, पुत्र श्री रतन सिंह तोमर	एमपीएसवीसी /2583/09	माधव नगर, शिवपुरी (म.प्र.)- 473551	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	4.9.81
1490	नरेंद्र श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री एन. एल. श्रीवास्तव	सीजीएसवीसी /350/07	वेटी हॉस्पिटल, परिशर, धमधारी, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनके वीवी/81-82	21.5.56

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1491	नरेंद्र वी., पुत्र श्री वेंकट रेड्डी बी.	कर्नाएसवीसी / 4112 / 08	गट्टाहल्ली, होलूर डाक- 563126, कोलार तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	10.3.86
1492	नरेशकुमार मोहपात्रा, पुत्र श्री अनंत कुमार मोहपात्रा	उड़ीसाएसवीसी / 2246 / 08	एटी / डाक- नचिंता, वाया- खंटापारे, जिला- बालासौर- 756043, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	24.4.79
1493	नरेश कुमार, पुत्र श्री शाम लाल	हरिएसवीसी / 2061	दूकान न. 94, अनाज मंडी, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	13.3.84
1494	नरेश कुमार सिंह, पुत्र श्री सोहन लाल	यूपीएसवीसी / 4858 / 08	ग्राम- पटखुरी, तालुक सरीला, जिला- हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएलके वीवी / 08	5.7.81
1495	नरेश कुरेचिया, पुत्र श्री काशीराम	एमपीएसवीसी / 2525 / 08	सी-19, अशोक विहार, तानसेन रोड, ग्वालियर- 474002, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	16.4.80
1496	नरेश कुटा, पुत्र श्री ठाकुर राम खुटा	सीजीएसवीसी / 367 / 08	मेढापल्ली चंद्रपुर जिला, जाजगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06-07	1.7.84
1497	नरेश प्रसाद, पुत्र श्री हरि प्रसाद	जेवीसी / 380 / 08	फॉर्म मैनेजर, सुअर प्रजनन फार्म, कनके, आर.वी.सी., रांची- 834007, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 81	25.06.57
1498	नरिन्दर सिंह नारा, पुत्र श्री इंदर सिंह	हरिएसवीसी / 2024	137-ए / 22, विकास नगर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / एचएयू / 90	29.6.67
1499	नरोत्तम चंद्राकर, पुत्र श्री तुलसी राम चंद्राकर	सीजीएसवीसी / 423 / 08	जूनियर एम.आई.जी. न. 17, अवंति विहार, तेलीवाड़ा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 88-89	30.5.63

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1500	नरपाल सिंह कंवर, पुत्र श्री बछित्तर सिंह	हरिएसवीसी / 2023	इक्वाइन ब्रीडिंग स्टड फार्म, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / पीएयू / 74	18.8.53
1501	नरुते विनोद राजाराम	महाएसवीसी / 7871 / 07	ए / पी- आरेवाडी, तालुक- कावाथे, महंकल जिला- सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	30.12.83
1502	नाटडा संजय कुमार देवदनभाई	गुजएसवीसी / 2910 / 08	लाटीपुर, बोरीचवास, तालुक- धरोल, जिला- जामनगर- 381220, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	11.6.85
1503	नाथ नबज्योति, पुत्र श्री जाल्ती राम नाथ	एसएम / 2382 / 08	ग्राम- दक्चिन चुबुरी, डाक- सीपाझर- 784145, असम	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 07	7.3.82
1504	नाथ विशाखा, पुत्र श्री आर.के. नाथ	एसएम / 2400 / 08	बेलटोला तिनियाली, चौथी बाईलेन, बिष्णु राभा पाथ, गुवाहाटी- 781028, असम	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	7.10.84
1505	नवल किशोर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बिश्वेश्वर प्रसाद सिन्हा	जेवीसी / 076 / 08	क्षेत्रीय निदेशक, पशु पालन विभाग, पलामू झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 69	15.05.50
1506	नवीन बी.आर., पुत्र श्री रंगास्वामी बी. टी.	कर्नाएसवीसी / 4105 / 08	विद्या नगर, केएचबी कॉलोनी, कुनीगल- 572130, कुनीगल तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	7.1.86
1507	नवीन कुमार, पुत्र श्री मुरारी लाल	हरिएसवीसी / 2054	124, इंदिरा कॉलोनी, उकलाना मंडी, जिला- हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	21.10.82
1508	नवीन चंद्र, पुत्र श्री चंद्र शेखर .	बीवीसी / 2796 / 06	ग्राम-रामचंद्रपुर, डाक- बिहार शरीफ, थाना- लहरी थाना, सब-डिवीज़न- बिहार शरीफ, जिला- नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 06	11.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1509	नवीन चंद्र सिंह, पुत्र श्री रामाश्रय सिंह	जेवीसी / 595 / 09	टीवीओ पालोजोरी, मधुपुर, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 96	01.12.69
1510	नवीन कुमार आर्या, पुत्र श्री भगवान जी प्रसाद	जेवीसी / 513 / 09	टीवीओ जोरापोखर, धनबाद— 828110, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 94	08.09.69
1511	नवीन कुमार गुप्ता, पुत्र श्री आनंदी प्रसाद गुप्ता	बीवीसी / 2953 / 08	ग्राम एवं डाक—पकरेल, थाना गोगरी, सब—डिवीजन गोगरी, जिला— खगरिया, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 07	15.5.76
1512	नवीन कुमार, पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद	बीवीसी / 2915 / 08	ग्राम— मकदूमपुर, डाक— पारथु, थाना— एकंगरसराय, जिला— नालंदा— 801303, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	26.10.81
1513	नवीन्या जॉर्ज, पुत्री श्री सी.के. जॉर्ज	केरलएसवीसी / 3407 / 09	चौवुमपुरथ हाउस, परावूर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने, पुन्नापरा डाक, अलेप्पी— 688004, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू/ 09	11.8.84
1514	नवजीत जोशी, पुत्र श्री नवीन चंद्र जोशी	राजएसवीसी / 3521 / 08	म.न. 302, लक्ष्मी नगर, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 03	26.2.78
1515	नवनीत रोहिल्ला, पुत्र श्री हरीश चंद्र	हरिएसवीसी / 2014	जी.वी.एच. ओबरा, जिला— भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / आरकेवीव 1 / 02	9.10.77
1516	नवल किशोर सिंह, पुत्र श्री अवध नारायण सिंह	बीवीसी / 2878 / 07	ग्राम— बंधुबरवा, डाक व थाना रंगारवा, सब—डिवीजन रकसौल, जिला— पूर्वी चमपारन, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एएयू/ 02	4.4.76
1517	नवल सिंह रावत, पुत्र श्री नतादिया रावत	एमपीएसवीसी / 2528 / 08	ग्राम— धनौरा, डाक— जीराबाद, थाना— गंधवनी, जिला— धार— 454446, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनक वीवी / 08	13.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1518	नायका लक्ष्मनभाई मनसंगभाई	गुजएसवीसी / 2964 / 08	एटी: वरधी, डाक- रायसिंग पुर, तालुक- चोटौडेपुर, जिला- वडोडरा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	1.6.84
1519	नाज़िया रहमान, पुत्री श्री वी.के. अब्दुल रहमान	केरलएसवीसी / 3481 / 09	चेथीकट्टू हाउस, वेस्ट वेलियाथुंडा डाक, अलंगड (वाया), अर्नाकुलम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 9	23.4.83
1520	नीलम टांडिया, पुत्री श्री जी.एल. टांडिया	एमपीएसवीसी / 2575 / 08	राजेंद्र ग्राम (किरगिल), जिला- अनूप पुर- 484881, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	8.2.83
1521	नीरज अरोड़ा, पुत्र. श्री केवल कृष्ण अरोड़ा	राजएसवीसी / 3538 / 08	वार्ड न. 22, गुरुनानक बस्ती, सांगरिया, हनुमान गढ़- 335063, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	13.2.86
1522	नीरज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री एस.एन. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4849 / 08	10 / 53, इंदिरा नगर, गरुथा, झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलक वीवी / 08	6.4.83
1523	नीरज शेवाश्री, पुत्र श्री एल.एन. शेवश्री	यूपीएसवीसी / 4897 / 09	15 / 73, बडी अलाही नाई का मंडी, आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 07	15.11.81
1524	नीरज सिंघल, पुत्र श्री ईश्वर प्रकाश सिंघल	यूवीसी / 356 / 08	75 / 10ए, पूर्वावली, भटनागर नर्सिंग होम के सामने, गणेश पुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबी पीयूएंडटी / 87	1.7.65
1525	नीरज टंडन, पुत्र श्री रामशरन टंडन	सीजीएसवीसी / 387 / 08	कवा.न. 1, इंद्रावती कॉलोनी, राजा तलाब, राजीपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06-07	7.7.82
1526	नीथा के. नायर, पुत्री श्री ए. कृष्णन कुट्टी	केरलएसवीसी / 3408 / 09	कुजीपिला हाउस, मायकडे डाक, अलुवा, अर्नाकुलम- 683583, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	7.10.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1527	नीथू वी., पुत्री श्री पी.वी. वासुदेवन नायर	केरलएसवीसी /3375/08	रंजूली निवास, मुचुकुन्नु, कोयिलांडी- 673307, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	1.1.83
1528	नीतू बाला, पुत्री श्री परषोत्तम लाल	पीबीएसवीसी/ 2656/08	असारंदी चक्की वाली गली, शिव मंदिर के निकट, मोगा रोड, बाग पुराना, जिला-- मोगा, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसयू/06	25.6.81
1529	नेहा डबराल, पुत्री डॉ. पी.के. डबराल	यूवीसी/404 /08	अपर कलाबर रोड, कोटद्वारा, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपी यूएण्डटी/08	24.6.82
1530	नेहा कपूर, पुत्री श्री सुरेश कपूर	सीजीएसवीसी /392/08	वर्षा टेंट हाउस रोड, चर्च रोड, शांति नगर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	9.6.83
1531	नेहा मिश्रा, पुत्री श्री जुगल मिश्रा	सीजीएसवीसी /408/08	स्मृति नगर, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	12.2.85
1532	नीलासा सोपफू, पुत्र श्री थेपफुंगियो सोपफू	एनएसवीसी/2 32/08	ऑफिसर्स क्वार्टर, एनएपीटीसी, चुमुकेडिमा, दीमापुर, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 95	6.11.71
1533	नामदे गजानन सोपान	महाएसवीसी/ 7796/07	द्वारा श्री एस.टी. नेमादे, ए/पी नंदगांव, तालुक- बोडवाड, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	10.11.83
1534	निबिन जोश, पुत्र श्री के.वी. जोसेफ	केरलएसवीसी /3373/08	कानीपराम्बिल हाउस, चेरुपुजा डाक, कन्नूर- 670511, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	19.12.83
1535	निधि समानिया, पुत्र श्री विजय कुमार	हरिएसवीसी/ 2060	1090/144, गली न. 3, मिल गेट, विनोद नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	15.6.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1536	निधि तिवारी, पुत्री श्री अमित कुमार तिवारी	सीजीएसवीसी /365/08	11-ए, गली-13, सेक्शन 10, भिलई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	29.1.81
1537	निधिन राज, पुत्र श्री सी.के. राजन	केरलएसवीसी /3409/09	"निधि" टीसी 8/1790 (4), लक्ष्मी नगर, थिरुमला डाक, थिरुवनंतपुरम-695006, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 9	24.12.84
1538	निधिश फ्रांसिस, पुत्र श्री टी.वी. फ्रांसिस	केरलएसवीसी /3317/08	थोट्टापिल्ली हाउस, भावना नगर, अंगामली डाक, अर्नाकुलम- 683572, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	21.9.83
1539	निहाल सिंह, पुत्र श्री समय सिंह	राजएसवीसी/ 3492/08	ग्राम एवं डाक- खेरी, थाना- रामगढ़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	21.4.84
1540	निकेश किरन के. आरं., पुत्र श्री बी. रवि	केरलएसवीसी /3490/09	श्रीविलासम बंगलो, कुजीविलाकोम, कोटुकल डाक, थिरुवनंतपुरम- 695501 केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	31.5.84
1541	निकुंज कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र नाथ शर्मा	पीबीएसवीसी/ 2785/08	9, माया नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/पीएयू/ 90	20.2.68
1542	नीलादी प्रसाद सतपथि, पुत्र श्री विजॉय कुमार सतपथि	उड़ीसाएसवीसी /2254/08	एटी/डाक- कल्याणी नगर, एटी/ जिला- कटक-13, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	3.7.82
1543	नीलेंदु बिमल, पुत्र श्री रघुबर प्रसाद साह	बीवीसी/ 2765/06	ग्राम एवं डाक- बेलामेघ, थाना -उजियारपुर, सब- डिवीजन- समरतीपुर, जिला- समरतीपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/ओयूएटी /06	22.2.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1544	नीलेश कुमार कुम्भाकर, पुत्र श्री राधे श्याम कुम्भाकर	सीजीएसवीसी /438/09	ग्राम एवं डाक— आमही, थाना व जिला— धमतरी, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07-08	30.7.83
1545	नीमकर धनंजय ध्यानेश्वर	महाएसवीसी/ 7836/07	50, संगनी प्रैस, भाजी मार्केट रोड, दरवा, जिला— यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	25.5.83
1546	निंदर कौर, पुत्री श्री हरबंस सिंह	जेवीसी/303 /08	पत्नी विमल कुमार त्रिवेदी, फ्लैट न. सीडी-3, सेक्टर -3, एचईसी कॉलोनी, धुरवा, रांची - 834004, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 03	16.08.76
1547	निंगप्पा ओलेकर, पुत्र श्री होनप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4200/08	न. 256, नेराल्पी, हावेरी— 581108, हावेरी तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	14.2.83
1548	निपुन ठाकुर, पुत्र श्री प्रेम सिंह ठाकुर	पीबीएसवीसी/ 2845/08	ग्राम एवं डाक— डोनडोह, थाना व जिला— होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/सीएसकेए चपीकेवी/08	4.12.84
1549	निपुर ठाकुर, पुत्र श्री जीत सिंह ठाकुर	एचपीएसवीसी /845/08	ग्राम एवं डाक— दौलतपुर चौक, थाना— अम्ब जिला— उना, हि.प्र.— 177204	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/08	4.12.83
1550	नीरज कुमार चंचल, पुत्र श्री विद्यानंद	बीवीसी/ 2845/07	ग्राम एवं डाक—पारथू, थाना एकंगरसराय, सब—डिवीजन हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच/बीवीयू/ 06	23.11.82
1551	नीरज कुमार, पुत्र श्री एस.एस. सचान	यूपीएसवीसी/ 4867/08	राजेंद्र नगर, संगम मार्केट के निकट, पुखरायन, कानपुर, उ. प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	17.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1552	नीरज कुमार वर्मा, पुत्र डॉ. ब्रज नंदन प्रसाद वर्मा	जेवीसी / 090 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, रातू, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	27.09.67
1553	निरंजन कुमार निराला, पुत्र श्री रामहरि प्रसाद	जेवीसी / 399 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, बोलवा, सिमडेगा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 05	01.01.79
1554	निरंजन कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री अलख नारायण	जेवीसी / 490 / 09	क्वा.न. 15 / 4, यूनिवर्सिटी कॉलोनी, बरियातु, रांची- 834009, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 84	28.04.57
1555	निरीश चंद्र शाहू, पुत्र श्री बद्री प्रसाद शाहू	यूपीएसवीसी / 4837 / 08	ग्राम एवं डाक- कमसिन, जिला- बांदा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 07	28.3.82
1556	निर्मल डेविड बारा, पुत्र श्री निकोलस बारा	जेवीसी / 582 / 09	बेनडोरा, किरतो ओली, चैनपुर, गुमला- 835206, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 04	08.04.79
1557	निर्मल कुमार सिंह, पुत्र श्री केशव प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2767 / 06	ग्राम- सुंदरपुर, डाक- बहा चौकी, थाना- धरहारा, सब- डिवीज़न- मुंगेर सदर, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / ओयूएटी / 06	25.1.79
1558	निर्मल आर., पुत्री श्री रामालिंगइयाह	कर्नाएसवीसी / 4188 / 08	सी.के.पुरा मेन रोड, चित्रदुर्गा - 577501, चित्रदुर्गा तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीए एफएसयू / 08	18.3.85
1559	निरूपम दलाई, पुत्री श्री अनिरुद्ध दलाई	उड़ीसाएसवीसी / 2218 / 08	एटी / डाक- बंकासाही, जिला- भदभद राश- 756100, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 08	19.6.82
1560	निशांत एम. प्रभा, पुत्र श्री एम.एम. प्रभारन	केरलएसवीसी / 3486 / 09	मूजिकल हाउस, पूथाक्कु (वाया), वाजीथला डाक, थूडुपुजा- 685583, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	31.5.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1561	निसार अहमद, पुत्र मौह. इस्लाम	यूपीएसवीसी / 4751 / 08	ग्राम— कौसोरी, डाक— कलवारी, जिला— बरती, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	10.6.79
1562	निशा के.आई., पुत्री श्री इतियाचन एन. पी.	केरलएसवीसी / 3381 / 08	कोलेनगडेन हाउस, फायर स्टेशन के सामने, कडावनकोडे, थट्टामंगला, पलक्कड— 678102, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू/ 08	24.5.84
1563	निशा पटेल, पुत्री डॉ. एस. के. अम्बावटिया	एमपीएसवीसी / 2531 / 08	एफ—51, वेटेरिनरी कैम्पस, ए. बी. रोड, शाजापुर— 465001, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनके वीवी / 08	6.2.83
1564	निशा एम., पुत्री श्री रामाकुट्टी एम.	केरलएसवीसी / 3425 / 09	मदामपथ हाउस, पटाईकारा (डाक), पेरिथलमन्ना (वाया), मलप्पुरम, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 0 9	8.2.85
1565	निशांत कुमार, पुत्र श्री अशोक प्रसाद	बीवीसी / 2823 / 06	ग्राम एवं डाक— नेसुहा, थाना हरनौट, सब—डिवीजन बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / जेएनएयू / 06	10.11.83
1566	निशांत वर्मा, पुत्र श्री दयाल सिंह वर्मा	एचपीएसवीसी / 836 / 08	ग्राम एवं डाक— दलाश, थाना— अनी, जिला— कुल्लु, हि.प्र.— 172025	बीवीएससीएवंए एच / सीएसके केवीवी / 08	23.2.83
1567	निशांत अहमद, पुत्र मौह. सिराजुल हक	बीवीसी / 2876 / 07	ग्राम व डाक— मूसापुर, थाना —कोडा, सब—डिवी. व जिला —कटिहर— 854108 बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 07	26.3.80
1568	निशि किरन वर्मा, पत्नी श्री अनिल कुमार	जेवीसी / 425 / 08	द्वारा श्री शिव सिंह, पतरातू के निकट, ब्लॉक पतरातू, रामगढ़, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 91	20.06.68
1569	निशि प्रभा हंसदा, पुत्री श्री नारायण हंसदा	जेवीसी / 427 / 08	गंगटिया कल्याणचक, तलझरी, राजामजाल, तलझरी, राज महल, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 0 8	13.04.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1570	नितेंद्र सिंह, पुत्र श्री फूल चंद सिंह	यूपीएसवीसी / 4893 / 09	ग्राम- पगुआर (रानीगंज), संकरगढ़, जिला- इलाहाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 09	19.5.83
1571	नितिन प्रभु के., पुत्र श्री चंद्रकांता प्रभु के.	कर्नाएसवीसी / 4152 / 08	बस स्टैंड के सामने, सुलिया डाक- 574239, दक्षिण कन्नडा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीए एफएसयू / 08	26.4.86
1572	निथना के. बाबूराज, पुत्री श्री के. बाबूराज	केरलएसवीसी / 3410 / 09	"निसर्ग", थनथोडे, इरिट्टी डाक, कन्नूर, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएसयू / 09	1.5.84
1573	नीतिका शर्मा, पुत्री श्री यशपाल शर्मा	यूपीएसवीसी / 4900 / 09	दुर्गा पुरी कॉलोनी, डाक- जनौरा, जिला- फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एएसयू / 0 5	22.4.80
1574	नितिन गौतम, पुत्र श्री हरि कुमार	यूपीएसवीसी / 4785 / 08	786, गली न. 13, अम्बेडकर विहार, मेरठ रोड, हापुड़, गाजीपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	13.9.81
1575	नितिन गौतम, पुत्र श्री मदन लाल गौतम	पीबीएसवीसी / 2828 / 08	म.न. 419-ए, कोर्ट रोड, सब्जी मंडी, कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	5.01.84
1576	नितीश कुमार, पुत्र श्री सत्य नारायण प्रसाद	बीवीसी / 2815 / 06	ग्राम एवं डाक- सारथा, थाना- चंडी, सब-डिवीजन- हिलसा, जिला-नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / जेएनएसयू / 05	15.3.75
1577	नितुरे गनेश सिधम्पा	महाएसवीसी / 7903 / 07	नितुरे निवास, दाम रोड, उदगीर, जिला- लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	25.3.85
1578	नित्यानंद पाठक, पुत्र श्री इंद्रकांत पाठक	बीवीसी / 2963 / 08	ग्राम- हरदुआर, डाक- पाली, थाना- घनश्यामपुर, सब- डिवीजन- पिरौल, जिला- दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 07	3.5.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1579	नोसाद अहमद, पुत्र स्व. श्री इम्तियाज़ सिंह	यूपीएसवीसी/ 4845/08	ग्राम एवं डाक— हरिपुर, अमरिया, जिला— पीलीभीत, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जीबी पीयूएंडटी/0 8	9.8.81
1580	ओहल अजय गोरख	महाएसवीसी/ 8081/08	ए ब्लॉक, 443/885, सुभाष टेकड़ी रोड, उल्हासनगर, तालुक उल्हासनगर, जिला व थाना— 421004	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	07.11.83
1581	ओम नारायण गुप्ता, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	बीवीसी/2865 /07	ग्राम एवं डाक— टांडवा, सब-डिवीजन व जिला— औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/06	8.12.74
1582	ओम प्रकाश पांडे, पुत्र श्री गणेश पांडे	जेवीसी/476 /09	401, शारदा एंक्लेव, इंदिरा पथ, शुक्ला कॉलोनी, हिन्नु, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 83	15.07.60
1583	ओम प्रकाश सिंह, पुत्र श्री युगेश सिंह	बीवीसी/ 2779/06	ग्राम—देहरी, डाक— सतगांवा, थाना— कुटुम्बार, सबडिवीजन व जिला— औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/06	3.9.78
1584	ओम प्रकाश सिन्हा, पुत्र डॉ. रामजीवन सिन्हा	जेवीसी/077 /08	2 सी, अप्रित अपार्ट., जे.सी. रोड, लालपुर, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 82	25.01.58
1585	ओम प्रकाश यादव, पुत्र श्री हंस राज यादव	यूपीएसवीसी/ 4754/08	ग्राम एवं डाक— खंजहनपुर, जिला— आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	12.6.77
1586	ओम प्रकाश, पुत्र श्री रामलाल	सीजीएसवीसी /437/09	ग्राम— लाबजी, जिला— सरगूजा, डाक— बिटरीकला— 497001, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/07-08	2.2.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1587	ओम प्रकाश वर्मा, पुत्र श्री आर.सी. प्रसाद वर्मा	यूपीएसवीसी/ 4786/08	ग्राम एवं डाक— जांगीपुर, जिला— गाजीपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	20.2.81
1588	ओथी शिव शंकर, पुत्र श्री ओथी विश्वनाथ	कर्नाएसवीसी/ 4203/08	17-04-320/1, आंनदनगर, सीएमसी कॉलोनी, गुम्पा, बिदर— 858403, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	10.9.85
1589	पी.ए. जयरमन, पुत्र श्री वी.एस. आरुमुगादौस	टीएनएसवीसी /4120/08	एचआईजी— 66, शारोन रोज कॉटेज, तमिल नगर, अनईयूर रोड, मद्रास, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/68	2.9.44
1590	पी. आनंदबाबू, पुत्र श्री आर. पूमलई	टीएनएसवीसी /4250/08	74-ए/9, सक्ति स्ट्रीट, पाथीनम, डाक— रासीपुरम तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	4.6.86
1591	पी. आरीबुलसेल्वम, पुत्र श्री टी. पंचनाथन	टीएनएसवीसी /4281/08	पोरपोथिटानल्लूर ग्राम, अनाई कुडम डाक, उदयारपलायम तालुक, अयालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	20.7.84
1592	पी. अरुणसेल्वी, पुत्र श्री वी. पलानीसामी	टीएनएसवीसी /4198/08	कामराज नगर (पश्चिम), उथानगरई, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	3.6.85
1593	पी. चैतण्या, पुत्र श्री पी.वी. सुब्बा रेड्डी	पीएसवीसी/4 682/08	श्रीरामुलपेट ग्राम, ओबुला रेड्डी पेट डाक, चपाडू (एम), कडपा जिला— 516172, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	11.6.85
1594	पी. दीथी, पुत्री श्री पी. संजप्पा	पीएसवीसी/4 708/08	म.न. 51/1044ए, सीता राम नगर, कुर्नूल— 518003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	4.2.83
1595	पी. धन लक्ष्मी, पुत्र श्री आर. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4260/08	57/46, मंगिल रोड, नागल नगर, डिंडीगल— 624001, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	6.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1596	पी. डिकसन, पुत्र श्री जे. पॉल राजानायगम	टीएनएसवीसी /4145/08	इशिल नेसा पिनोन, गुड समारिटन स्कूल, 1/1 श्री निवास नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली— 620001 तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	12.5.60
1597	पी. ज्ञानशेखर, पुत्र श्री आर. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4361/08	2/36—ए, साउथ स्ट्रीट, पेरियापट्टी डाक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	25.6.86
1598	पी. गोकुल कृष्णन, पुत्र श्री के. पलानीसामी	टीएनएसवीसी /4238/08	6/141—ए, अन्ना स्ट्रीट, कलिंगारायन पलायम, भवानी डाक, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	2.3.84
1599	पी. गोपाल, पुत्र श्री एम. पलानिअप्पन	टीएनएसवीसी /4280/08	47, जंगामनिक्कनपट्टी, विलीपलायम डाक, परमथिवेलूर तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	14.4.86
1600	पी. गुरु पक्कियम, पुत्र श्री पिलियर मूप्पनर	टीएनएसवीसी /4090/08	364 (पुराना न. 280—ए), सिवाकामीपुरम स्ट्रीट, राजा पलायम विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/78	10.11.53
1601	पी. हेमलथा, पुत्री श्री पी. वेंकटराजम	पीएसवीसी/ 4737/08	शिवालयम के निकट, जम्मीकुंटा (पुराना), (डाक व एम), करीमनगर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	6.6.84
1602	पी. जयावेल, पुत्र श्री के. पेरियन्नन	टीएनएसवीसी /4124/08	2/50, इरानकडु, मसक्कली पेट, डाक— रासीपुरम, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीए एस/94	5.3.71
1603	पी. जयावेल, पुत्र श्री पी.ए.एस. पलानी वेलायुधम	टीएनएसवीसी /4113/08	15—एसी, संकरलिंगम स्ट्रीट, विरुधुनगर— 626001, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/71	28.6.46

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1604	पी.के. चौधरी, पुत्र श्री एम.एस.चौधरी	यूपीएसवीसी / 4861/08	ग्राम एवं डाक— कुडार, जिला— महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएलकेव ीवी/08	21.9.79
1605	पी.के. श्रीवास्तव, पुत्र श्री ए.एल. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 4733/08	3/24, न्यू बहार सहारा एस्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/सीएसएयू एंडटी/78	20.10.54
1606	पी. कल्याणी, पुत्री श्री पी.एन. सुबइयाह	पीएसवीसी / 4674/08	म.न. 12-15-652, एम.के. नगर, ओ.यू. कैम्पस, हेदराबाद-07, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एएनजीअ एएयू/05	17.8.79
1607	पी. कमलानाथन, पुत्र श्री पी. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4171/08	32 ए, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, टी. इलामंगलम, थिट्टागुडी डाक व तालुक— कुडालोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	2.6.85
1608	पी. कार्तिक, पुत्र श्री एम. पलानीअप्पन	टीएनएसवीसी /4279/08	पुथुर (नाथकडु), वेलागौंडमपट्टी डाक, नमक्कल डाक, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	3.5.85
1609	पी. करुणा मूर्ति, पुत्र श्री एन. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4139/08	इसानी—एस.ओ., पेराम्बलूर, जिला— 621219, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	17.11.50
1610	पी. कुमारवेल, पुत्र श्री ए.के. पलानीवेल	टीएनएसवीसी /4154/08	अरासमपलायम, थोट्टियापट्टी, डाक— तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	22.1.83
1611	पी.एम. सेतू, पुत्र श्री पी. मनि	टीएनएसवीसी /4093/08	पेरुमल कोइल स्ट्रीट, पुराना पेट हरूर तालुक, धर्मापुर, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनयूव एस/01	10.7.77
1612	पी. मेघनाथ, पुत्र श्री आर. परमेश्वरन	टीएनएसवीसी /4315/08	208, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, रामनाथपुरम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	16.2.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1613	पी. मोहन कुमार, पुत्र श्री एम. पॉल सामी	टीएनएसवीसी /4390/09	45 एम. मानापराई पट्टी रोड, मनपराई, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनयूवीए एस/89	5.11.66
1614	पी. नल्लामुथु, पुत्र श्री पोंगियाना गौंडेर	टीएनएसवीसी /4400/09	आथीकट्टू थोट्टम, कावुनडिचीपलायम डाक, वेल्लोड वाया, इरोडे आरएमएस, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/68	4.1.44
1615	पी. निथियावल्ली, पुत्र श्री के. पलानीसामी	टीएनएसवीसी /4190/08	38, II क्रॉस स्ट्रीट, साथी रोड, कावंडापडी, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.5.84
1616	पी. पांडु रंगा रेड्डी, पुत्र श्री पी. चिन्ना रंगइयाह	पीएसवीसी/ 4692/08	खाजीपुरम (ग्राम एवं डाक), बेस्तावारीपेट (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	5.5.85
1617	पी. पवन कुमार, पुत्र श्री पी. सत्य नारायण	पीएसवीसी/ 4807/08	चेक्का वारी पेटा, नीलापल्ली, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/पीयू/08	20.5.85
1618	पी. प्रभु, पुत्र श्री डी. पन्नीरसेत्वम	टीएनएसवीसी /4225/08	27, एम.एम. नगर, शोलिंघूर, डाक- वेल्लोर- 631102, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	2.3.85
1619	पी. प्रसंथ, पुत्र श्री पी. पोन्नूसामी	टीएनएसवीसी /4309/08	2/147 (पुराना न. 2/ 109), साम्बेरी सर्वोयुदूर अथूर तालुक, सलेम- 636121, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.6.84
1620	पी. पुष्पा लता, पुत्र श्री पी. पांडुरंगम	टीएनएसवीसी /4288/08	4218, मिडल स्ट्रीट, मजावनथागल डाक, विल्लु पुरम- 605701, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	7.7.83
1621	आर.पी. वेंकटेश, पुत्र श्री पी.के. रामाचंद्रन अइय्यर	टीएनएसवीसी /4096/08	रमानी न. 4 (पुराना न. 44), वेंकटरत्नम नगर एक्सटेंशन, अदयार, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/सीएसयूए एंडटी/83	12.7.61

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1622	पी. राजाराम, पुत्र श्री पी. परमदयालन	पॉण्डीएसवीसी /315/08	न. 37, मंगली अम्न कोइल स्ट्रीट, मुदलियारपेट, पुडुचेरी	बीवीएससीएवंए एच/पीयू/07	16.8.84
1623	पी. रामाकुमार, पुत्र श्री एम. पेरियन्न	टीएनएसवीसी /4282/08	कडाधिकुलामेडु, ए. मल्लपुरम पलकोड तालुक, धरमपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	6.4.85
1624	पी. रमेश, पुत्र श्री पी. संकरुडु	पीएसवीसी/4 789/08	थोकलापुडी (ग्राम एवं डाक), वीरावासरम (एम), पश्चिमी गोदावरी जिला- 534247, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	14.6.85
1625	पी. सक्ति पूर्णिमा, पुत्र श्री एम. दयानिधि	टीएनएसवीसी /4274/08	53/42, सुब्रमण्यम पिल्लै स्ट्रीट, सिंगानल्लूर, कोयम्बतूर-5, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	22.11.86
1626	पी. शिवा कुमार, पुत्र श्री पी. पुलइय्याह	पीएसवीसी/ 4734/08	थिप्पारथी (ग्राम, एम एवं डाक), नालगोंडा जिला- 508247, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	10.4.85
1627	पी. श्रीनिवास रेड्डी, पुत्र श्री पी. वी. सुब्बारेड्डी	पीएसवीसी/ 4677/08	अंकाभूपलेम (ग्राम), पापीनेनीपल्ली (डाक), अराधावीडू (एम), प्रकासम जिला- 523335, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	21.8.83
1628	पी. श्रीनिवास रेड्डी, पुत्र श्री पी. चिन्ना रेड्डी	पीएसवीसी/ 4760/08	म.न. 6-634, रामनगर, मिरयलगुडा, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	7.5.84
1629	पी. श्रीनिवासु रेड्डी, पुत्र श्री पी. वीरा रेड्डी	पीएसवीसी/ 4729/08	माल्यावन्थुंजपडु (डाक), मरकापुरम (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	15.3.83
1630	पी.टी. दिव्या, पुत्र श्री पी. थंगावेल	टीएनएसवीसी /4365/08	170 (नया न. 51), पलानीमुथु रोड, अम्मापेट, सलेम- 636003, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	3.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1631	पी. तमिलसेल्वी, पुत्र श्री के. पलानी	टीएनएसवीसी /4316/08	पवईकुलम, अरसादीकुप्पम, डाक— पानरुति तालुक— कुडालोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	5.5.83
1632	पी. उमा देवी, पुत्री श्री पी. प्रताप रेड्डी	पीएसवीसी/ 4727/08	डी.न. 1/153, चुक्कालु डाक, ताडपत्री, अनंतपुरम— 515415, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	3.6.83
1633	पी. वंशी, पुत्र श्री पी. सत्यनारायण	पीएसवीसी/ 4791/08	म.न. 1-469, सदानंद कॉलोनी, भीमारम, हनमकोंडा, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	15.1.82
1634	पी. वसुदेवी, पुत्र श्री पी. पेरुमल	टीएनएसवीसी /4350/08	मठाहल्ली परपरापट्टी डाक, पेन्नाग्राम तालुक, धरमपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	20.5.84
1635	पी. वेंकटेश प्रभु, पुत्र श्री के. पलानीचामी	टीएनएसवीसी /4221/08	134, कुप्पाये वलासू, पोरुलुर डाक, ओड्डानचटरम तालुक, डिंडीगल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	13.7.84
1636	पी. विद्याश्री, पुत्र श्री पोन्नुदुरई के.	टीएनएसवीसी /4344/08	काल्लेरीपट्टी डाक, अट्टूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	21.9.84
1637	पी. युवराजन, पुत्र श्री एन. पलानी सामी	टीएनएसवीसी /4323/08	84, साउथ स्ट्रीट, नानजई उदुकुली डाक, इरोडे— 638104, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	10.4.85
1638	पडालकर रवीन्द्र दत्तात्रेय, पुत्र श्री पडालकर दत्तात्रेय	कर्नाएसवीसी/ 4084/07	क्वा.न. बी-4, यूएस कैम्पस, डाक— 329, रायचुर— 584101, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/एमएयू/ 77	21.2.55
1639	पडावे सुदर्शन गोपाल	महाएसवीसी/ 7901/07	वेटेरिनरी पॉलीक्लिनिक, स्टाफ क्वा., बिल्डिंग न. 2, रामनाथ रोड, रामनाथ तालुक, अलीबाग, जिला— रायगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमए एफएसयू/07	6.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1640	पाधे ईश्वरी प्रसाद अनंतराव	महाएसवीसी / 8104 / 08	78, एच.बी. एस्टेट, सोनेगांव, सोनेगांव टंकी के सामने, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / पीआरकेव ीवी / 72	09.05.48
1641	पद्म भूषण प्रसाद, पुत्र श्री नंदकिशोर प्रसाद	जेवीसी / 196 / 08	कुंडा, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / वीएयू / 90	10.10.62
1642	पाडोल अमोल रामदास	महाएसवीसी / 7991 / 08	एटी डोमरूल, डाक धमनगांव (डांड), तालुक व जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	20.04.85
1643	पडवल नवनाथ पोपट	महाएसवीसी / 7973 / 08	ए / पी गोलेगांव, तालुक शिरूर, जिला— पुणे— 412210, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	12.1.85
1644	पल्लवी राय, पुत्री श्री अरविंद कुमार राय	यूपीएसवीसी / 4847 / 08	ग्राम एवं डाक— खेरा, बन्नवान, जिला— देवरिया, उ. प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबी पी यूएएंडटी / 08	10.9.84
1645	पामी कुमारी, पुत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2829 / 07	ग्राम— डेकपुरा, डाक— मीरा तालाब, थाना— राहुल, सब— डिवीजन— बिहार शरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / जेएनएयू / 06	1.3.80
1646	पंचाल विजय कुमार प्रानला	गुजएसवीसी / 2965 / 08	35, हरे कृष्णा सोसायटी, जैन मंदिर के सामने, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	9.10.85
1647	पंचाल देवांग हरि प्रसाद	गुजएसवीसी / 2990 / 08	एफ—30 / 430, उत्सव अपार्ट., भवसार होस्टल के सामने, नवा वडाज, अहमदाबाद — 380013, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 02	7.6.80
1648	पंचभाई गिरीश जगन्नाथ राव	महाएसवीसी / 8109 / 08	ए / पी— सिरसला, तालुक परली ग्राम, जिला— बीड— 431128, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 06	20.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1649	पनदाओ सुशील प्रकाश राव	महाएसवीसी/ 7816/07	श्रीराम कृपा, बंदे गार्डन, रिंग रोड, इंदिरा स्क्वेयर, वारुद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	11.1.84
1650	वसंडे शोभना, पुत्र श्री शेखर कुमार पांडे	एसएम/ 2376/08	गर्ल्स होस्टल न. 1, सीवीएससी, खानापाड़ा, गुवाहाटी— 22, असम	बीवीएससीएवंए एच/एसयू/0 8	14.3.85
1651	पंडया मोहित कुमार मधुसूदन	महाएसवीसी/ 7893/07	603, हीना रेजेन्सी, मेन कस्तूरबा रोड, परमार हॉस्पिटल के सामने, बोरीवली (पू.), महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	
1652	पंडया उन्नति धीरेन	महाएसवीसी/ 8131/09	ए-1, 201 मानक, सी.एस. रोड, दहीसर (पू.), महाराष्ट्र, मुम्बई— 400068	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	14.05.83
1653	पन्जीत कुमार वर्मा, पुत्र श्री पंकज कुमार	बीवीसी/2809 /06	ग्राम— गुरिया, डाक— गुरिया पुकरी, थाना— इमामगंज, सब—डिवीजन— शेरघाटी, जिला— गया, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एमए एफएसयू/06	22.12.73
1654	पंकज झा, पुत्र श्री चंद्रानंद झा	बीवीसी/2774 /06	ग्राम एवं डाक—शाहपुर, थाना — सोनबरसा, सब— डिवीजन — सहरसा— 852129, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/06	1.4.82
1655	पंकज कुमार, पुत्र श्री माना राम	हरिएसवीसी/ 2077	ग्राम— निवाज नगर, डाक— घारसून, थाना— नारनौल, जिला— महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/08	28.8.83
1656	पंकज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री के.एन. गुप्ता	एमपीएसवीसी /2557/08	द्वारा रोहित मेडिकल, डाक— बीरपुर, जिला— शिओपुर— 476335, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	7.3.82
1657	पंकज कुमार मिश्रा, पुत्र श्री लालबाबू मिश्रा	बीवीसी/2906 /07	ग्राम— चुपचुपवा, डाक व थाना— मरवा, जिला— सीवन— 841239, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 07	3.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1658	पंकज कुमार पाठक, पुत्र श्री रजीत राम पाठक	यूवीसी/348 /08	वेटी हॉस्पिटल, धौलाचाइना, जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/यूएसघा रवाड़/99	8.1.72
1659	पंकज कुमार, पुत्र श्री आनंदी प्रसाद	बीवीसी/ 2763/06	ग्राम- भकनी बीघा, डाक- औंदा, थाना-सारे, सब-डिवी. - बिहारशरीफ, जिला - नालंदा- 803101, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	21.11.81
1660	पंकज कुमार, पुत्र श्री माना राम	राजएसवीसी/ 3541/08	ग्राम- कनरा, डाक- चूड़ियां, थाना- भुआना, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/98	28.8.83
1661	पंकज कुमार, पुत्र श्री आर.के. सदान	यूपीएसवीसी/ 4790/08	जवाहर नगर, घाटमपुर, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	5.2.80
1662	पंकज कुमार, पुत्र श्री नीरम कुमार सिंह	बीवीसी/ 2951/08	ग्राम- मौलाबाग आरा, यादव हाई स्कूल के निकट, डाक व थाना- नवादा, भोजपुर आरा, जिला-भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 7	10.3.79
1663	पंकज कुमार सिंह, पुत्र श्री केदार नारायण सिंह	बीवीसी/ 2898/07	ग्राम एवं डाक- राकिया, थाना- बिहरा, जिला- सहरसा- 852110, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	11.1.76
1664	पंकज कुमार सिंह, पुत्र श्री महेश्वर सिंह	जेवीसी/ 537/09	आवादगंज, डाल्टनगंज, पलामू- 822101, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/9 7	04.03.72
1665	पंकज कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह	जेवीसी/ 309/08	द्वारा डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, मौह.- अपर बिलासी, बी. देवघर- 814112, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 3	14.10.76
1666	पंकज सेठ, पुत्र श्री शशि भूषण सेठ	जेवीसी/572 /09	ओरेदारू, लंदुपडीह, सोनाहाट्ट, बुंदू रांची- 835225, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 1	01.01.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1667	पंकज सियाग, पुत्र श्री मदन सिंह सियाग	राजएसवीसी / 3527 / 08	म.न. 4, नागौरी कॉलोनी, श्री गंगानगर— 335001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	10.8.83
1668	पन्ना लाल पोपडिया, पुत्र श्री कांजी पोपडिया	सीजीएसवीसी / 404 / 08	निदेशालय डाक, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 85—86	4.8.63
1669	पप्पू कुमार, पुत्र श्री विजय शर्मा	जेवीसी / 288 / 08	म.न.—3, ब्लॉक न. 343 / 2, रोड न.27, आदित्यपुर कॉलो., आरआईटी, गमहारिया, सराय केला— खरसावान— 831013, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एमएयू / 01	14.01.75
1670	परायंकर नाथ, पुत्र श्री अमर नाथ	यूवीसी / 434 / 08	म.न. 67, जेवीजी कॉलोनी, जमालपुर कला ज्वालापुर, जिला— हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / सीएसएके ईपीवीवी / 00	16.4.78
1671	प्रदीप शर्मा, पुत्र श्री कृष्ण सिंह	एचपीएसवीसी / 851 / 08	ग्राम— भाटेड़, डाक— जकातखाना, थाना— श्री नैना देवी, बिलासपुर	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	8.3.85
1672	पारेकर सुशांत शाहजी	महाएसवीसी / 7851 / 07	ए / पी आरेवाडी, तालुक— कावाथे— महनकाल, जिला— सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	25.9.83
1673	परेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री सरत कुमार मिश्रा	उड़ीसाएसवीसी / 2251 / 08	एटी— पुरुषोत्तमपुर, डाक— बाली खंड, जिला— बालासौर — 756166, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 08	22.4.85
1674	परमार चेतन भरत कुमार	महाएसवीसी / 7891 / 07	पुराना प्रभुनिवास, 3 / 4, लाजपत राय रोड, विलेपारले (प.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	8.10.84
1675	परमार दिलीप कुमार वसंत कुमार	गुजएसवीसी / 2966 / 08	एटी एवं डाक— दांतीवाड़ा, बनास बैंक के सामने, दांतीवाड़ा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	24.8.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1676	परमार दिपजय कुमार जगमलभाई	गुजएसवीसी / 2911 / 08	सुखापुर, तालुक— मालिया (हातिना), जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	7.4.85
1677	परमार हरेश कुमार प्रकाश भाई	गुजएसवीसी / 2967 / 08	76, अर्बुद नगर, शांतिदान गधवी बंगले के पीछे, एटी एवं डाक— पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	15.2.86
1678	परमार जिग्नेश जर्याति लाल	गुजएसवीसी / 2968 / 08	सी.एच.सी.स्टाफ क्वा., सीएच सी संखेडा, तालुक— संखेडा, जिला— वडोडरा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	12.3.83
1679	परमार संजय कुमार तेजालाल	गुजएसवीसी / 2969 / 08	एटीएवंडाक— आसरागाम, तालुक— वाव, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	5.9.83
1680	पारमेर सौरभ कुमार मेघ लाल	गुजएसवीसी / 2912 / 08	81 / ए, शक्ति पार्क सोसायटी, वाराधरी रोड, एटी— लुनावाडा, जिला पंचमहल— 389230, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	21.5.86
1681	परमेश्वरी दयाल, पुत्री श्री मदन लाल	यूपीएसवीसी / 4784 / 08	ग्राम एवं डाक— बुनेरा, पनवारी, जिला— महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू ए / 08	20.8.82
1682	परमिंदर सिंह, पुत्र श्री नागिन्दर सिंह	पीवीएसवीसी / 1363 / 08	ग्राम— नौधरनी, डाक— मालेरकोटा, जिला— संगरूर — 148002, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / पीएयू / 90	15.10.62
1683	प्रमोद कुमार कोसरिया, पुत्र श्री उत्तम कुमार कोसरिया	सीजीएसवीसी / 417 / 08	ग्राम एवं डाक— साजापल्ली, वाया— सरायपल्ली, महा सुमंद, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	6.9.70
1684	प्रमोद कुमार नामदेव, पुत्र श्री श्याम लाल नामदेव	सीजीएसवीसी / 377 / 08	ग्राम एवं डाक— पोढारा (कांसवाला), जसपुर नगर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	3.3.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1685	प्रमोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा	एमपीएसवीसी /2532/08	225/38, केशव कॉलोनी, मोरैना— 476001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	5.12.81
1686	प्रमोद कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री गंगा प्रसाद	सीजीएसवीसी /351/07	बी-7/44 बी टाइप, सोदरीपारा, चिमिरी कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनके वीवी/88	1.9.64
1687	प्रमोद रात्रा, पुत्र श्री मगतू रात्रा	सीजीएसवीसी /376/08	ग्राम एवं डाक— किशारी (एस), वाया— चंद्रपुर, जांसगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	31.9.80
1688	पार्वती थम्पी, पुत्री श्री एस. उदय कुमार थम्पी	केरलएसवीसी /3474/09	कैलास, कैराली नगर, मूलेपदम रोड, कलमसेरी, अलुवा, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 9	14.10.84
1689	प्रवीन कुमार, पुत्र श्री राम निवास	हरिएसवीसी/ 2053	ग्राम एवं डाक— मंडना, जिला— भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	18.8.83
1690	पशुपति कुमार, पुत्र श्री हरि नारायण चौधरी	बीवीसी./2750 /06	ग्राम—शोवनी, डाक— जहांगीर टोला, थाना—सब—डिवीजन— जिला—खगरिया — 851204, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	17.12.79
1691	पटानकर रमेश्वर भुजंगराव	महाएसवीसी/ 7811/07	ए/पी जारुद, तालुक— वारुद, जिला— अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	26.1.84
1692	पटेल हरेश कुमार प्रह्लाद भाई	गुजएसवीसी/ 2973/08	अम्बिका सोसायटी-2, एटी— जागुदान, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	25.3.84
1693	पटेल लोमेश शिरीष भाई	गुजएसवीसी/ 2918/08	बी-160, वृंदावन पार्क, ब्राइट स्कूल के पीछे, वीआईपी रोड, काडेलीबाग, वडोडरा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 8	2.10.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1694	पटेल शैलेश कुमार कालूभाई	महाएसवीसी / 7780 / 07	20, ए-3, हाइवे व्यू बिल्डिंग, कुरार, तालुक- मलाडे, जिला - मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	25.5.85
1695	पटेल अजीत आशिफ	महाएसवीसी / 7806 / 07	आनंद नगर, कौलखेड रोड, हिंगना, फाटा, अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	2.8.82
1696	पटेल अंकित कुमार वीराभाई	गुजएसवीसी / 2913 / 08	जेतलवसाना, तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	18.4.86
1697	पटेल आशीष कुमार प्रहलादभाई	गुजएसवीसी / 2935 / 08	ए / 16, सौंदर्य अपार्ट., सी.पी. नगर- II के सामने, घटोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	7.11.84
1698	पटेल अशरुना अशोक कुमार	गुजएसवीसी / 2914 / 08	प्रसन्न पार्टी प्लॉट, खेड तीसिया रोड, हिम्मतनगर, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	23.1.86
1699	पटेल अविनाश जाधव भाई	गुजएसवीसी / 2915 / 08	11 / लक्ष्मी गली, एटी-डाक, तालुक- तापी, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	17.7.84
1700	पटेल चेतन कुमार नारनभाई	गुजएसवीसी / 2970 / 08	16 / 4, सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	7.8.85
1701	पटेल चिराग कुमार जयंति भाई	गुजएसवीसी / 2971 / 08	जिनीपोल, तालुक- पाटन, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	2.10.85
1702	पटेल हाद्रिक कुमार अमृत लाल	गुजएसवीसी / 2972 / 08	डी व ई- 8 / 2, एसडीएयू, एस.के. नगर, तालुक- दांतीवाड़ा, जिला- बी.के.- 385506, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	30.12.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1703	पटेल हर्षद कुमार विष्णुभाई	गुजएसवीसी / 2974 / 08	मोटोमध, एटी— मालेकपुर, तालुक— वाडनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	5.11.85
1704	पटेल हिमांशु अरविंद भाई	गुजएसवीसी / 2975 / 08	वनभानी खड़की, एटी— वस्त्राल, तालुक— दक्षरोई, जिला— एबीडी, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	8.7.86
1705	पटेल जिग्नेश कुमार भीमा भाई	गुजएसवीसी / 2916 / 08	जीएसईसीआई कॉलोनी, 111 / 31 / 5, वानाबोरी जिला, खेडा, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	17.8.86
1706	पटेल जिग्नेश कुमार मनुभाई	गुजएसवीसी / 2936 / 08	काशीपुरा, दलवाड वाडी, रामजी मंदिर के पीछे, बोरसाड, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	6.12.83
1707	पटेल केतन कुमार गणेश भाई	गुजएसवीसी / 2976 / 08	13, स्नेहकुंज, स्पोर्ट क्लब के सामने, गायत्री मंदिर रोड, दीसा— 385480, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	29.7.86
1708	पटेल केतन कुमार नवीनचंद्र	गुजएसवीसी / 2977 / 08	80, बलोल नगर सोसायटी, रानिप, अहमदाबाद— 382480, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	12.5.86
1709	पटेल कुलीन किरीथ भाई	गुजएसवीसी / 2917 / 08	45, श्याम विहार— II, तुलसी बंगले के निकट, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 0 8	4.8.86
1710	पटेल मेहुल कुमार चंदूभाई	गुजएसवीसी / 2978 / 08	भवनपुरा, लाडोल, तालुक— विजयपुर, जिला— मेहसाना— 382866, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एसडीएयू / 08	31.10.83
1711	पटेल निखिल कुमार नटवरभाई	गुजएसवीसी / 2919 / 08	ब्लॉक न. 119 / 10, “च” प्रकार, सेक्टर—22, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 0 8	19.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1712	पटेल नितिन कुमार शंकरलाल	गुजएसवीसी / 2989 / 08	एटी- सरदार कृष्ण नगर, दांतीवाड़ा, जिला- बी.के. अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	14.4.83
1713	पटेल पीयूष कुमार अर्पण भाई	गुजएसवीसी / 2920 / 08	एफ-7, सुवास अपार्ट., गुलाब टावर के निकट, सोला रोड, थट्टेज, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	3.1.86
1714	पटेल रजनीकांत जयंतिभाई	गुजएसवीसी / 2921 / 08	एटी एवं डाक- बोरोई, तालुक- बयाद, जिला- एस.के.- 383330, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	28.2.86
1715	पटेल रीनाबेन शशिकलाल	गुजएसवीसी / 2979 / 08	मेलवासा, जैन मंदिर के निकट, लंघनाज, तालुक मेहासाना, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	15.1.85
1716	पटेल रीतेश कुमार सशंकाभाई	गुजएसवीसी / 2980 / 08	एटी एवं डाक- गगलासन, तालुक- सिधपुर, जिला- पाटन- 384151, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	7.1.83
1717	पटेल संजय नाटूभाई	गुजएसवीसी / 2939 / 08	26-सुविधा सोसायटी, डांडिया फालिया, वालसड- 396001, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	23.5.84
1718	पटेल सतीश कुमार द्वारका दास	गुजएसवीसी / 2922 / 08	एटी एवं डाक- वडराद, तालुक- प्रांतिज, जिला- एस.के.- 383205, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	1.6.86
1719	पटेल तेजस पुरुषोत्तम भाई	गुजएसवीसी / 2981 / 08	48 / 412, क्वा., एस.के. नगर, तालुक- दांतीवाड़ा, जिला- बी.के. - 385506, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	11.11.85
1720	पटेल विनोद चंदूभाई	गुजएसवीसी / 2942 / 08	एटी- चोपाडा, पानी के टंकी के निकट, पटेल फालिया, तालुक- लूनावाड़ा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	15.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1721	पठान अब्दुल रहीम सिकंदर	महाएसवीसी/ 7993/08	प्लॉट न. 13, चैत्रावेल अपार्ट. के सामने, विद्या नगर, अजिंकितारा रोड, गोडोली, जिला— सतारा— 415001	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	04.08.85
1722	पठारकर श्रीनिवास चंद्रकांत	महाएसवीसी/ 7910/07	खांडोबा नगर, गणेश पार, परली बैजनाथ, जिला— बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	27.7.83
1723	पाटिल आशीष जयवंत	महाएसवीसी/ 8066/08	प्राथमिक स्वास्थ्य उप—केंद्र, ग्राम नागीथाने, महाराष्ट्र, तालुक— पालुस, जिला— सांगली— 416313	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	06—07.85
1724	पाटिल पवन प्रकाश	महाएसवीसी/ 8063/08	टाइप— 11—बी—1805, ओझार—टाउनशिप, महाराष्ट्र तालुक— निफद, जिला— नासिक— 422207	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	14.04.85
1725	पाटिल प्रियंका गुलाब राव	महाएसवीसी/ 7919/08	“नंदादीप”, योगेश्वर कॉलोनी, टी.वी. सेंटर, मालेगांव कैम्प, जिला— नासिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	27.7.84
1726	पाटिल राजकुमार अरुण	महाएसवीसी/ 7880/07	ए—101, हीरा हरिशचंद्र अपार्ट, रमाभाई चौक, कल्याण (पू.), जिला— थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	19.12.84
1727	पाटिल रोहित दिनकर	महाएसवीसी/ 8067/08	ए/पी— हटनूर, पानी की टंकी के निकट, तासगांव, महाराष्ट्र, जिला सांगली— 416314	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	21.11.84
1728	पाटिल सचिन वामनराव	महाएसवीसी/ 7957/08	जिला बैंक कॉलोनी, प्लॉट न. 35, गेट न. 348/2, वैभव फ्लोर मिल के निकट, पिमपराला, जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	15.05.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1729	पाटिल सतीश सदाशिव	महाएसवीसी / 7781 / 07	प्लॉट न. 105, म.न. ए / 201, सिद्धेश्वर, सीएचएस, सेक्टर— 2, कोपरखेरान, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	7.4.85
1730	पाटिल स्नेहल दीपक	महाएसवीसी / 8107 / 08	434, नाइक अली, वारसोली, तालुक— अलीबाग, जिला— रायगढ़— 402201, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	17.6.86
1731	पाटिल सुयोग सुभाष राव	महाएसवीसी / 7831 / 07	25, स्वप्निल, पुरुषोत्तम नगर, जलगांव रोड, जामनेर, जिला —जलगांव—424206, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	23.10.84
1732	पाटिल स्वप्नजा विष्णु	महाएसवीसी / 8054 / 08	205, जिडके, डाक—दिघाशी, तालुक— भिवंडी, जिला थाणे— 421302, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	02.03.86
1733	पाटिल उत्तम बालासाहेब	महाएसवीसी / 7815 / 07	21, श्री केदारलिंग अपार्टमेंट, फ्रांसिस्को रोड, वालोली, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	21.1.81
1734	पाटिल वर्षारानी सूर्यकांत	महाएसवीसी / 8065 / 08	श्रीराम, विनायक टाइल्स के निकट, भडगांव रोड, गांधी गलाज, तालुक गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर— 416502	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	23.06.86
1735	पाटिल विजय सरजेराव	महाएसवीसी / 7856 / 07	ए / पी— कोलोली, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.6.84
1736	पाटिल यशवंत जगन्नाथ	महाएसवीसी / 8098 / 08	ए / पी— लोनखेडा, तालुक— शहादा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	1.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1737	पाटिल योगेश शामराव	महाएसवीसी/ 7838/07	मातृछाया निवास, लेक्चरर कॉलोनी, नांडेड रोड, गोकुंडा, तालुक किनवत, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	29.6.83
1738	पाटिल अनिरुद्ध दादाराव	महाएसवीसी/ 8124/09	165, नेलको सोसायटी, सुभाष नगर, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/ डॉपीआर डीकेवीवी/98	15.7.75
1739	पाटिल राहुल चैतराम	महाएसवीसी/ 7885/07	स्वयंवर मंगल कार्यालय के निकट, खरजई रोड, डाक ओज़ार, तालुक चालीसगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	10.5.85
1740	पाटिल संदीप सदाशिव	महाएसवीसी/ 7770/07	ए/पी कावाथे अकंद, तालुक तासगांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	30.3.85
1741	पाटिल तृप्ति सुभाष	महाएसवीसी/ 8105/08	"सु-स्नेह निवास", ताम्बरी विभाग, शिवाजी नगर, उस्मानाबाद- 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	24.05.86
1742	पाटिल वैशाली कृष्णा	महाएसवीसी/ 7990/08	द्वारा श्री कृष्णा वी पाटिल, ए/पी हराली खुद्र, तालुक गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर - 416502	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	11.04.86
1743	पॉल रुक्मिणी, पुत्र श्री मानिक चंद पॉल	एसएसएम/237 9/08	डाक- सोनापुर, जिला कामरूप, पिन- 782402, असम	बीवीएससीएवं एच/एसयू/0 8	1.12.84
1744	पवन दिवान रघुवंशी, पुत्र स्व. श्री शिवेंद्र सिंह	राजएसवीसी/ 3581/08	179, चेतक विहार, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/जेएनके वीवी/04	2.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1745	पवन किशोर राय, पुत्र श्री सुशील राय	बीवीसी / 2808 / 06	ग्राम एवं डाक— छपाही, थाना राजनगर, सब— डिवीजन— मधुबनी, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 06	1.3.78
1746	पवन कुमार, पुत्र श्री धूप सिंह	हरिएसवीसी / 2087	ग्राम एवं डाक— बडेसरा, जिला— झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	24.10.84
1747	पवन कुमार, पुत्र श्री हरि राम	यूपीएसवीसी / 4769 / 08	ग्राम— भरौली (बडागांव), डाक— जलालपुर, अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	5.6.79
1748	पवन कुमार, पुत्र श्री सतपाल	हरिएसवीसी / 2037	ग्राम एवं डाक— बालू, जिला — कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	8.2.83
1749	पवन कुमार, पुत्र श्री बंश गोपाल सिंह	यूपीएसवीसी / 4775 / 08	ग्राम— लच्छी खेरा, डाक— बिजुली, जिला— फतेहपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	20.1.81
1750	पवन कुमार, पुत्र श्री परमानंद मिश्रा	यूवीसी / 412 / 08	पशुचिकित्सा अधिकारी(टेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, बिरोनखल, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / सीएसएके ईपीवीवी / 04	5.1.78
1751	पवन कुमार, पुत्र श्री अमरीक चंद	यूवीसी / 441 / 08	317, आवास विकास, गरदरपुर जिला, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबी पीयूएंडटी / 08	16.1.82
1752	पंवार दिनेश हरि	महाएसवीसी / 8113 / 08	लाहाने लेआउट, सामर्थ नगर, बुलदाना— 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	17.04.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1753	पवार दिनेश शिवराम	महाएसवीसी / 7959 / 08	द्वारा टी.आर. राठौड़, तुलजय निवास, केशव नगर, हनुमान गोड, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	14.08.85
1754	पवार हितेश नंदलाल	महाएसवीसी / 7787 / 07	सरस्वती कॉलोनी, 34— मनतृप्ति, इरानडोल, जिला— जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	12.7.83.
1755	पवार महेश मुकिंदा	महाएसवीसी / 7911 / 07	एटी धूमलवाड़ी, डाक गिरनी, तालुक— फाल्टन, जिला— सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 05	1.6.83
1756	पवार महेश कुमार लक्ष्मण राव	महाएसवीसी / 7819 / 07	डाक— नेहरू नगर (नागल गांव), तालुक— कंधार, जिला — नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	17.5.85
1757	पवार पराग जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7889 / 07	गोविंद सदन, काल कई कोड, दापोली, जिला— रतनागिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	29.11.81
1758	पवार शिवाजी पांडुरंग	महाएसवीसी / 7739 / 07	ध्यानदीप बंगलो, शेटफलगडने, तालुक— इंदापुर, जिला— पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	15.10.84
1759	पवार सुधाकर वालू	महाएसवीसी / 7804 / 07	एटी— देवलदरी, डाक— सत खम्ब, तालुक— सुरगुना, जिला नासिक— 422211, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	12.1.83
1760	पवार वैभव नंदभाऊ	महाएसवीसी / 7869 / 07	फ्लैट न. 8, मेट्रो— बी, गोल्डन पार्क, बेटुकरपदा कल्याण, जिला— थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	25.9.84
1761	पवार योगिता पंडितराव	महाएसवीसी / 7771 / 07	1077, श्रमिक कॉलोनी, सतवाड़ी, हडपसर, तालुक— हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	25.11.84
1762	पवार प्रतीक सुभाष	महाएसवीसी / 7792 / 07	समता, सीएचएस, ए-1, 20 रोड, खार (प.), महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	28.5.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1763	पवार प्रमाप जुजर्या	महाएसवीसी / 8016 / 08	ए / पी- बिजोरी, तालुक- धोगांव, जिला नंदुरबार- 425414, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	02.06.79
1764	पार्येण सदानंद, पुत्र श्री मोहन च पार्येण	एएसएम / 239 1 / 08	ग्राम- पठारीचुकगांव, डाक- कमबंग, थाना- पानी गांव, जिला- लखीमपुर- 787001, असम.	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	1.4.83
1765	पेगु भैकन, पुत्र स्व. श्री सुनाधर पेगु	एएसएम / 2393 / 08	द्वारा श्रीमती रोंगधोई पेगु, ग्राम - मोहारी कैम्प, डाक- उखामती, गोगामुख, धीमाजी, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	10.12.85
1766	पेंडे दीपक कैलाशनाथ	महाएसवीसी / 8150 / 09	ए / 104, जैन पैलेस, केबिन क्रॉस रोड, भयन्दर तालुक, जिला व थाना महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	9.10.84
1767	फुरबा लेपचा, पुत्र श्री सांगे लेपचा	सिविकम / 85 / 06	टिमपेम बस्ती, रे मिंडु ब्लॉक, पूर्वी सिविकम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 06	
1768	फुसे हितेश रमेशराव	महाएसवीसी / 7967 / 08	दुर्गा नगर, तालुक मोरशी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	24.05.85
1769	पिट्रोडा आरती हर्षदराय	महाएसवीसी / 8132 / 09	कमरा न. 6, अमर कॉटेज, शिम्पोली रोड (प.), बोरीवली (प.), मुम्बई- 400092	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	16.2.86
1770	पायस मिंज, पुत्र स्व. श्री सिमोन मिंज	जेवीसी / 366 / 08	काथल टोली (रशमे नगर), सिसई रोड, गुमला- 835207, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	02.02.67
1771	पीयूष दूबे, पुत्र श्री जे.के. शर्मा	एमपीएसवीसी / 2550 / 08	24 / 151, द्वारिका नगर, रीवा- 486001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	19.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1772	पीयूष प्रकाश, पुत्र श्री सुरेश चंद्र सिन्हा	जेवीसी / 438 / 08	बीएक्स-037, अशमाना सनसिटी, बालीगुमा, मांगो, पू.सिंगभूम- 831018, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 08	24.07.81
1773	पंकज बाबू कौशिक, पुत्र श्री श्रीराम शर्मा	एमपीएसवीसी / 2561 / 08 एमपीएसवीसी / 2554 / 08	अशोक गली, पहाड़गंज रोड, केलारस, जिला- मोरैना- 476224, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	1.7.81
1774	पूजा आर्या, पुत्री श्री रामदेव कोरी	यूपीएसवीसी / 4862 / 08	एस-49, रवीन्द्र नगर, यशोदा नगर, जिला- कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलकेव ीवी / 08	22.6.82
1775	पूनम डढ़वाल, पुत्री श्री एस.पी.जे.एस. डढ़वाल	पीवीएसवीसी / 2825 / 08	म.न. 2081, सेक्टर 27-सी, चंडीगढ़, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसयू / 08	13.6.84
1776	पूरन सिंह भदोरिया, पुत्र श्री रूप सिंह	एमपीएसवीसी / 2519 / 08	एम-1150, न्यू हाउसिंग बोर्ड, मयूरखान, जिला मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	5.3.72
1777	पोरे अजय दिनकर	महाएसवीसी / 8079 / 08	मातेश्री निवास, परदी रोड, लक्ष्मी नगर, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद- 413504	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	18.06.85
1778	पोवार कोमल विजय	महाएसवीसी / 7784 / 07	302, स्वामी कृपा, डी.एल. वैद्या रोड, दादर, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	30.3.85
1779	प्रभाकर सिन्हा, पुत्र श्री कपिलदेव रामा	जेवीसी / 081 / 08	कनिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 9 1	01.01.67
1780	प्रभात रंजन, पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2816 / 06	ग्राम एवं डाक- मिर्जाग, थाना- महुआ, सब-डिवीजन महुआ, जिला-वैशाली, बिहार	बीवीएससीएवं एच / केएफ एसयू / 06	3.5.79

क.सं.	नाम	पजी सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1781	प्रभुदेवा ए.एन., पुत्र श्री नारायण स्वामी एस.	कर्नाएसवीसी / 4108/08	अब्बेनाहल्ली ग्राम, मादीवाला डाक, मलूर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	18.3.83
1782	प्रमोद रंजन ठाकुर, पुत्र श्री सच्चिदानंद ठाकुर	बीवीसी / 2899 /07	ग्राम- रामानंद पेठ, डाक व थाना- लहरिया सराय, जिला बरभंगा- 846001, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/07	26.12.79
1783	प्रदीप कुमार बर्नवाल, पुत्र श्री महादेव लाल बर्नवाल	जेवीसी / 295 /08	द्वारा श्री महादेव लाल बर्नवाल, दोरांडा (पुराना बस स्टैंड), दोरांडा, धनवर, गिरिडीह- 825412, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/0 8	19.6.79
1784	प्रदीप कुमार जांगीर, पुत्र श्री भोक्कू चंद जांगीर	राजएसवीसी 3478/08	आम्ही नगर, वार्ड न. 15, पशु चिकित्सा के निकट, सीकर- 822001, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 07	13.12.79
1785	प्रदीप कुमार जिंदा, पुत्र श्री नरेश प्रसाद	बीवीसी / 2922 /08	ग्राम- वाडनपुरा, डाक- जगरी, थाना सब-डिवीजन- हिससा, जिला- नालंदा- 801302, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	1.3.80
1786	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री दीप नारायण भंडल	बीवीसी / 2852/07	ग्राम- छोटी झिटकिया, डाक व थाना- महेशकुंड, सब- डिवीजन- गोगरी, जिला- खगरिया, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/0 6	6.8.80
1787	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री हीरा सिंह	हरिएसवीसी / 2031	शिव मेटल इंडस्ट्रीज, शिव नगर के निकट, रोहतक रोड, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/08	11.10.83
1788	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री शिव प्रसाद दादव	यूपीएसवीसी / 4841/08	ग्राम- पवन, थाना- मिल्कीपुर, जिला- फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/एनडीयूए टी/08	10.3.78
1789	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री रामा दीन राम	जेवीसी / 497 /09	ग्राम- बोंगा, डाक- दैहर, चोपारन, बरही, हजारीबाग- 825408, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 96	01.05.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1790	प्रदीप कुमार तिवारी, पुत्र श्री राम प्रताप तिवारी	एमपीएसवीसी /2518./08	डाक— पिथौराबाद, जिला— सतना, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	1.7.10
1791	प्रदीप, पुत्र श्री अत्तर सिंह	हरिएसवीसी/ 2044	ग्राम एवं डाक— गिवाना, थाना— गोहाना, जिला— सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/08	7.5.82
1792	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्व. डॉ. अर्जुन प्र. वर्मा	जेवीसी/484 /09	मासीपिधी, हजारी बाग, पिन— 825301, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 86	12.11.57
1793	प्रद्युम्न कुमार स्वेइन, पुत्र श्री हरे कृष्णा स्वेइन	जेवीसी/178 /08	टीवीओ: हाट गामरिया, झिंकपानी, चाईबासा, पश्चिम सिंगभूम— 833214, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/89	23.9.66
1794	प्रफुल्ल कुमार सिंह, पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद सिंह	जेवीसी/506 /09	देवी मेंडप रोड, हेसल, रांची— 834005, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/9 7	24.09.66
1795	प्रफुल्ल कुमार कुम्बले, पुत्र श्री प्रेमलाल कुम्बले	सीजीएसवीसी /349/07	डोगरगढ़ जिला, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/जेएनके वीवी/89-90	11.9.66
1796	प्रज्ञा भदौरिया, पुत्री डॉ. एस.एस. भदौरिया	एमपीएसवीसी /2584/09	जीएच-766, दीनदयाल नगर, गवालियर— 474805, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनके वीवी/08	28.6.83
1797	प्रजापति गुंजन कुमार रमेश भाई	गुजएसवीसी/ 2982/08	51-आशापुरी नगर सोसायटी योगेश्वरी सोसा. के निकट, के के.नगर रोड, घाटियोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसडीएयू /08	21.6.85
1798	प्रजापति कौशल अरविंद भाई	गुजएसवीसी/ 2923/08	1- गोकुल धाम सोसायटी, स्वामी नारायण स्मृति मंदिर के पास, घोडासर, अहमदाबाद — 380050, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/0 8	6.7.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1799	प्रजापति मुकेश भाई डाह्या भाई	गुजएसवीसी/ 2983/08	एटी-वजापुर, डाक मुमनवासा, तालुक- सतलासना,	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू /08	24.3.85
1800	प्रजापति पीयूष कुमार दिनेश चंद्र	गुजएसवीसी/ 2937/08	303- लक्ष्मीराजव सोसायटी, अर्बन हॉस्पिटल के सामने, दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 8	12.8.84
1801	प्रजापति वीरेंद्र कुमार महेश भाई	गुजएसवीसी/ 2924/08	एटी एवं डाक- आश्रम, प्राइमरी स्कूल के निकट, तालुक- अंकलाव, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 8	9.8.85
1802	प्रजीथा जी., पुत्री श्री जी. गोपीनाथन	केरलएसवीसी /3351/08	प्रसांथ अंजिलीप्रा, थट्टारमबालम डाक, मवेलीक्कारा- 690103, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	21.5.84
1803	प्रकाश चंद्र वैष्णव, पुत्र श्री नवीन चंद्र	यूवीसी/428 /08	ग्राम- टोला, डाक- चनोदा, टोलशिलिंग थाना, सोमेश्वर, जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 6	10.2.85
1804	प्रकाश कुमार, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी कांत ठाकुर	बीवीसी/2888 /07	ग्राम- जमालपुर गोगरी, मालीटोला, डाक- जमालपुर, थाना- गोगरी, जिला- खगारिया, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /06	1.3.77
1805	प्रकाश कुमार राटौड़, पुत्र श्री काशीनाथ	कर्नाएसवीसी/ 4158/08	आईबी के पीछे, यूवीएमपीएस के निकट, सिंदागी 586128, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	22.7.86
1806	प्रमाथ नाथ पॉल, पुत्र श्री राजेंद्र नाथ पॉल	जेवीसी/135 /08	बहारगोरा, घाटशिला, पूर्वी सिंगभूम- 832101, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बिहार विदि/61	12.11.34
1807	प्रमोद कुमार आर., पुत्र श्री सी.एन. रवीन्द्रन पिल्लै	केरलएसवीसी /3345/08	चेरुकारा अय्याथु पुथेन वीडू, वेंगई डाक, साष्टमकोट्टा, कोल्लम- 690569, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	5.5.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1808	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री राज किशोर प्रसाद	बीवीसी / 2913 / 08	ग्राम एवं डाक— चमार बीघा, थाना— हिलसा, जिला— नालंदा— 801302, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	8.8.84
1809	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री संतोषी लाल	राजएसवीसी / 3510 / 08	ग्राम एवं डाक— हलेना, बरातपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	23.10.82
1810	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री रघुनंदन प्रसाद	जेवीसी / 504 / 09	टी.वी.ओ. हुसैनाबाद, कुमुदनी घोष रोड, बरमासिया, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	05.10.70
1811	प्राण एम., पुत्र डॉ. वी. मोहन कुमार	केरलएसवीसी / 3326 / 08	डी-4, करुप लेन, साष्टा मंगलम, तिरुवनंतपुरम— 695581, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 8	4.12.82
1812	प्रसन्ना डी. हगडे, पुत्र श्री हेगडे डी. एस.	कर्नाएसवीसी / 4110 / 08	चिन्मय, निवेदिता, ओलाकाडू — 576101, उडुपी तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	19.6.85
1813	प्रसीना पॉलोस, पुत्री श्री एन. पौलोस	केरलएसवीसी / 3411 / 09	पुन्नोलिल हाउस, पलापल्ली डाक, वायनाड— 673579, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 9	24.12.84
1814	प्रशांत कुमार, पुत्र स्व. श्री प्रभु लाल	बीवीसी / 2837 / 07	ग्राम एवं डाक— लोढवे, थाना फतेहपुर, सब— डिवीजन माहेर, जिला— गया, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 95	9.1.81
1815	प्रशांत कुमार, पुत्र श्री विनोद दास	बीवीसी / 2923 / 08	ग्राम— पातेरघाटी, डाक व थाना— त्रिवेनीगंज, जिला— सुपौल, बिहार	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएडएफएसयू / 07	3.1.82
1816	प्रशांत माण्डव्या, पुत्र श्री धरम चंद	एचपीएसवीसी / 850 / 08	म.न. 34 / 6, रूपा कॉलोनी, सरकाघाट, जिला— मंडी, हि.प्र. — 175024	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	2.11.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1817	प्रशांत कुमार, पुत्र श्री मारुथ राव वाघे	कर्नाएसवीसी / 4213 / 08	न. 5-3-3413, माताश्री निवास, दत्तानगर, भल्की- 585328, भल्की तालुक, विदर जिला, कर्नाटक	वीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	1.1.85
1818	प्रताप बीराजी, पुत्र श्री राजेंद्र बीराजी	बीवीसी / 2822 / 06	ग्राम एवं डाक- अचरा, थाना - फुलकाहा, सब-डिवीजन- फोर्बिसगंज, जिला- अरेरिया, बिहार	वीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 05	1.3.77
1819	प्रताप कुमार माझी, पुत्र स्व. श्री विभूति भूषण माझी	जेवीसी / 567 / 09	आमडांगा, महुलिया, घाटशिला, पूर्वी सिंगभूम, झारखंड	वीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 9 9	12.03.71
1820	प्रताप नारायण शर्मा, पुत्र स्व. श्री रमाकांत सिंह	बीवीसी / 2846 / 07	ग्राम एवं डाक- वालीपुर, थाना- पिपरिया, जिला- लखीसराय, बिहार	वीवीएससीएवंए एच / बीवीयू / 06	4.9.78
1821	प्रतिभा सिधमुख, पुत्र श्री डी.वी. सिधमुख	हरिएसवीसी / 2073	जांगरा मार्केट, च. दादरी, जिला- भिवानी, हरियाणा	वीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	5.11.86
1822	प्रतिमा कुमारी, पत्नी श्री मुकेश कुमार सिंह	जेवीसी / 331 / 08	द्वारा डॉ. मुकेश कुमार सिंह, 47, शीशम रोड, न्यू केबल टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंधभूम- 831003, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 01	10.01.75
1823	प्रवीण कुमार गुप्ता, पुत्र श्री शिवनाथ साऊ	बीवीसी / 2853 / 07	ग्राम तिवारी मथीनिया, डाक कुचईकोट, थाना बिशम्बरपुर, जिला गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / सीएसएए यू / 06	11.8.80
1824	प्रवीण कुमार, पुत्र डॉ. रामजी प्रसाद	जेवीसी / 420 / 08	सहायक प्रोफे. एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक, मेडिसिन, आरवीसी कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 93	31.01.69
1825	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री चंडी प्रसाद शाही	जेवीसी / 320 / 08	टीवीओ धुरवा, धुरवा- 834004, जिला- रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 89	16.06.62

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1826	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री कामेश्वर रॉय	जेवीसी / 192 / 08	जे.वी.ओ., धनबाद, पुलिस लाइन, हीरापुर, धनबाद— 826001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 88	15.06.64
1827	प्रवीण, पुत्र श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह	जेवीसी / 550 / 09	बीएचओ तांत नगर, चाईबासा, पश्चिमी सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 5	23.11.78
1828	प्रवीण कुमार एम. आर., पुत्र श्री रंगास्वामी एम.जे.	कर्नाएसवीसी / 4138 / 08	मरावलालु, बाईचनाहल्ली— 573102, अराकलुगुडु तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	1.8.84
1829	प्रवीण एच. गोठवाड, पुत्र श्री हरसिंग गोठवाड	राजएसवीसी / 3533 / 08	डाक— दुर्गापुर, थाना— दुर्गापुर, जिला— उदयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/03	1.6.79
1830	प्रवीण कुमार गुप्ता, पुत्र श्री शिव नाथ साऊ	यूवीसी / 423 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (टेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, गुशगली, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/सीएसएके ईपीवीवी / 06	11.8.80
1831	प्रयाग रविदास, पुत्र स्व. श्री पांचू रविदास	जेवीसी / 495 / 09	झलकडीह, चोपनाडीह, मरकाचो, कोडर्मा— 825410, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/8 2	02.01.59
1832	प्रीथा सकरिया, पुत्री श्री एम. सकरिया	केरलएसवीसी / 3334 / 08	पाडुवा भवन, मुखाथला डाक, कोल्लम— 691577, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	25.5.83
1833	प्रीति मंजरी नायक, पुत्री श्री अमृत नायक	उडीसाएसवीसी / 2220 / 08	एटी— रेंगलोई, डाक— लइडा, जिला— सम्भलपुर— 768214, उडीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएएंड टी/08	4.10.85
1834	प्रेम चंद साह, पुत्र श्री सत्य नारायण साह	जेवीसी / 335 / 08	कोटल पोखर, बढरवा, राजमहल, साहेबगंज, पिन— 816105, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/8 1	12.01.55

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पुत्रा	अर्हताएं	जन्मतिथि
1835	प्रेम चंद साओ, पुत्र श्री नंद लाल साओ	जेवीसी / 507 / 09	टी.वी.ओ., नवागढ़, खरखरी, मधुबन, बाघमारा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 97	16.11.67
1836	प्रेम प्रभाकर, पुत्र श्री कृष्ण देव प्रसाद	बीवीसी / 2849 / 07	ग्राम— हनुमंथगंज, डाक व थाना— इस्लामपुर, सब— डिवीज़न— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आनंदकृ विवि / 05	5.12.78
1837	प्रेम प्रकाश चौधरी, पुत्र श्री परमेश्वरी प्रसाद चौधरी	यूवीसी / 408 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (टेका), भेड़ प्रजनन फार्म, केदार नाथ जिला, चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एएंडएफएसयू / 05	2.12.78
1838	प्रेम प्रकाश, पुत्र श्री महादेव प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4827 / 08	ग्राम एवं डाक— मदनपुर, थाना— फतेहपुर, जिला— बाराबंकी, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	7.7.77
1839	प्रेम सागर भंडारी, पुत्र श्री आर.सी. भंडारी	यूवीसी / 121 / 08	मौहल्ला थापलिया (मल्ला), अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबी पीयूएएंडटी / 88	9.9.65
1840	प्रेम शंकर यादव, पुत्र श्री मूल चंद	यूवीसी / 47 / 08	105, संजना सदन, पावर हाउस के निकट, रुद्रपुर— 263153, जिला— यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीकेई पीवीवी / 83	4.3.59
1841	प्रेम लता कुमारी, पुत्री श्री अर्जुन प्रसाद	बीवीसी / 2826 / 06	ग्राम विष्णुपुरी, डाक अनीसा बाद, थाना गरदानी बाग, सब डिवीज़न पटना सदर, जिला पटना— 847103, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एसकेयूए सएएंडटी / 06	1.1.80
1842	प्रेम सागर, पुत्र श्री त्रिपुरानंद झा	बीवीसी / 2807 / 06	ग्राम एवं डाक सुगौना, थाना राजनागा, सब—डिवीज़न— मधुबनी, जिला— मधुबनी	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 06	1.3.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1843	प्रेम शंकर, पुत्र श्री बलिराम प्रसाद	बीवीसी / 2806 / 06	ग्राम— धरमपुर, डाक— जगई, थाना— एकंगरसराय, सब— डिवीज़न— हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंएच / एमएएफ एसयू / 06	4.2.79
1844	प्रिंस, पुत्र श्री सुंदर यादव	बीवीसी / 2900 / 07	ग्राम एवं डाक— मेनहा, थाना — बिहरा, सब— डिवीज़न— समस्तीपुर— 848101, बिहार	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 07	5.2.84
1845	प्रिसिला करकेट्टा, पुत्री स्व. श्री मनोहर करकेट्टा	जेवीसी / 292 / 08	द्वारा बिमल करकेट्टा, उलुंग, रानिया, खुंटी, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 08	23.11.81
1846	पृथ्वीराज, पुत्र श्री शिवराज	कर्नाएसवीसी / 4184 / 08	बरदापुर, येलकर डाक — 585328, भल्की तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच / केवीएएफ एसयू / 08	1.10.85
1847	प्रीति सरोज खोया, पुत्र स्व. श्री लग्नेटियस खोया	जेवीसी / 251 / 08	द्वारा जॉन खोया, तिलसिरी, सेमरा, भंडारा, लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 05	12.05.80
1848	प्रियाव्रत बेहेरा, पुत्र श्री जगन्नाथ बेहेरा	उड़ीसाएसवीसी / 2216 / 08	एटी एवं डाक— कापतीपडा, जिला— मयूरभंज— 757040, उड़ीसा	बीवीएससीएवंएच / ओयूएंड टी / 08	12.7.84
1849	प्रियंका पुंडीर, पुत्री श्री आर.के. पुंडीर	यूवीसी / 439 / 08	इंडिया ग्लाइकोल्स लि., काशीपुर जिला, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंएच / जीबी पीयूएंडटी / 08	2.8.84
1850	प्रियंका, पुत्री श्री महादप्पा	कर्नाएसवीसी / 4189 / 08	रागागल्ली, बासबन्ना मंदिर के निकट, औरद, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच / केवीएएफ एसयू / 08	2.1.86
1851	प्रियंका मीना, पुत्री श्री राम दयाल मीना	राजएसवीसी / 3502 / 08	2 ए / 6, सरस्वती कॉलोनी, बारान रोड, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 08	22.8.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1852	प्रियंका श्रीवास्तव, पुत्री डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 4860 / 08	तारा भवन, मौहल्ला रायगंगा, गाज़ीपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 08	17.8.86
1853	प्रियंका ठाकुर, पुत्र श्री चंदर सिंह ठाकुर	एचपीएसवीसी / 838 / 08	म.न. 177 / 11 (पुराना), खानेडा स्ट्रीट, तरनाहिल्स, मंडी, जिला— मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	7.10.82
1854	श्रीवेंग कुमार पिलानिया, पुत्र श्री राम किशन पिलानिया	राजएसवीसी / 3555 / 08	ग्राम— शयोदनपुरा, डाक— खनानिया, बाया— नोहर, थाना— तिब्बी, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	4.12.79
1855	पीएसएम मौहम्मद अय्यूब, पुत्र श्री पीएसएम मौहम्मद सुलेमान	टीएनएसवीसी / 4375 / 08	19, बशीर अप्पा स्ट्रीट, मेलापलायम, थिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयूवीए एस / 93	30.4.70
1856	राज जैन, पुत्री श्री पी.सी. जैन	यूपीएसवीसी / 4871 / 08	जी.डी. जैन, एडीओ (डाक), ब्लॉक कॉलोनी, चिरगांव, जिला— झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 08	12.11.83
1857	पूनम कुमारी, पत्नी श्री रंजन कुमार चौधरी	जेवीसी / 577 / 09	भंडारीडीह, गिरिडीह, पिन— 815301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	28.07.75
1858	पूनम पुरी, पुत्री श्री इंदर पुरी	राजएसवीसी / 3496 / 08	टाटा पेट्रोल पम्प के सामने, जी.एस. रोड, बीकानेर— 334001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	4.8.77
1859	पुनीत कुमार, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा	यूपीएसवीसी / 4764 / 08	एमआईजी— 213, महाबलीपुरम, कल्याणपुर, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	27.6.83
1860	पूनीत सिंह, पुत्र श्री अभे राम	हरिएसवीसी / 2056	ग्राम एवं डाक— मालवी, थाना— जुलाना, जिला— जींद, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	5.4.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1861	पुनीत टिकरी, पुत्र श्री नालसन टिकरी	सीजीएसवीसी /405/08	ग्राम— रायता, डाक— लोडान, जिला— जासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/04-05	8.9.90
1862	पुरी रंगनाथ मारुतिराव	महाएसवीसी/ 7847/07	रेलवे पुलिस कॉलोनी, सेलू (नया रेलवे स्टेशन), जिला— परभनी— 431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	8.3.83
1863	पूर्णिमा बनौला, पुत्री श्री आर.एस. बनौला	यूवीसी/353 /08	वी.ओ.— लकसर, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/सीएसएके ईपीवीवी/00	3.6.76
1864	पर्णिमा रामटेक, पुत्र श्री लखन लाख रामटेके	सीजीएसवीसी /414/08	क्वा.न.द 4/एफ, ग्रास स्ट्रीट -1, सेक्टर-1, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आई जीकेवीवी/ 06-07	30.6.82
1865	पुरुषोत्तम दास पाल, पुत्र श्री सियाराम पाल	एमपीएसवीसी /2564/08	पाल मेडिकल स्टोर, चांडला, छतरपुर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	8.12.81
1866	पुष्पा कुमारी, पत्नी डॉ. सुमन कुमार	जेवीसी/530 /09	द्वारा: डॉ. सुमन कुमार, हरि ओम स्टोर, मरकाछो कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 96	23.01.68
1867	पुष्पांजलि बेहेरा, पुत्री श्री नरसिंगा च. बेहेरा	उड़ीसाएसवीसी /2223/08	एटी एवं डाक— पलियाबिंधा, जिला— भद्रक— 756167, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	6.7.83
1868	पुष्पांजलि, पुत्री स्व. श्री रघुवंश कुमार सिंह	जेवीसी/056 /08	जे.आर.ओ., आईएचपी, कनके, 3सी, अप्रित अर्पाट., जेसी रोड, लालपुर, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 87	02.02.61
1869	पुष्पिंदर कौर, पुत्री श्री गुरजंत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2824/08	म.न. 20/1, इंद्रा कॉलोनी, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसयू/08	20.8.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1870	पुष्प रूप सिंह बरार, पुत्र श्री एच. एस. बरार	पीवीएसवीसी / 1567 / 08	46, क्लब रोड, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / पीएयू / 93	2.7.70
1871	आर. अनुपमा, पुत्री श्री सन्यासी राव	पीएसवीसी / 4 689 / 08	डी.न. 65-3-349 / 1 मंजिल, एक्स-सर्विसमैन कॉलोनी, मलकापुरम (डाक), विशाखा पटणम- 530011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	20.1.84
1872	आर. भरतीदासन, पुत्र श्री जी. राजामनि	पॉण्डीएसवीसी / 314 / 08	न. 10, नॉर्थ स्ट्रीट, पूराननकुप्पम, पुडुचेरी- 7	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 07	8.7.86
1873	आर.सी. गौरव, पुत्र श्री आर.सी. गौतम	पीएसवीसी / 4 691 / 08	डी.न.9-2-14, नूकालम्मा मंदिर के पीछे, पिठापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	17.4.82
1874	आर. दस्तगीरम्मा, पुत्री श्री आर. दस्तगिरि	पीएसवीसी / 4 719 / 08	पत्नी एन. रामाजनेयुलु, रामचंद्रपुरम (ग्राम), परियापडु (डाक), राजूपलेम (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	23.9.83
1875	आर. दामोदरन, पुत्र श्री एम. रामासामी	टीएनएसवीसी / 4223 / 08	56 / 17, मोलाडिगडु, पुडुथोट्टम (पश्चिम), नल्लमपट्टी डाक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीए एनयूवीएएस / 08	25.10.85
1876	आर. धनसेखरन, पुत्र श्री जी. रंगनाथन	टीएनएसवीसी / 4179 / 08	इलूर, रेड्डीपलायम डाक, भवानी तालुक, इरोडे- 638504, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएएनयू वीएएस / 08	18.5.85
1877	आर. दिनेश कुमार, पुत्र श्री आर. राजू	टीएनएसवीसी / 4329 / 08	देवानूर डाक, देवानूर पुडूर, मुसिरी तालुक, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएएनयू वीएएस / 08	2.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1878	आर.ई. सुषमा, पुत्री श्री जी. ईश्वरप्पा	कर्नाएसवीसी / 4167 / 08	शिवा इलेक्ट्रिकल्स, बस स्टैंड के निकट, आजमपुरा— 577547, तारीकेरे तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	5.1.86
1879	आर. गणेश, पुत्र श्री एम. राधा कृष्णन	टीएनएसवीसी / 4098 / 08	बृंदावन, 436 / 1, डॉ. रामासामी रोड, के.के. नगर, चेन्नई— 600078, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयूवीए एस / 92	22.5.68
1880	आर. गायत्री देवी, पुत्र श्री टी. राजा मनिकम	टीएनएसवीसी / 4314 / 08	न. 4 (पुराना न. 57), पिंजला सुब्रमण्यम स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	2.2.85
1881	आर. हल्ले गोरा, पुत्र श्री आर. चुनव	पीएसवीसी / 4 813 / 08	द्वारा के. रामानुजम, म.न. 1-307, जेडपीएच स्कूल के निकट, वुय्यूरु, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / ओयूएटी / 08	17.01.86
1882	आर. कुमार, पुत्र श्री के. रामासामी	टीएनएसवीसी / 4338 / 08	वेल्लामेट्टू थोट्टम, रामचंद्रपुरम, निगामन वाया, उडुनालई तालुक, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीए एनयूवीएस / 08	15.12.85
1883	आर. लक्ष्मनन, पुत्र श्री के. राज कुमार	टीएनएसवीसी / 4296 / 08	8 / 37, मनिकवासागर नगर, पेरियानईकन पलायम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	25.5.84
1884	आर. लक्ष्मी, पुत्र श्री पी. कृष्णन	टीएनएसवीसी / 4130 / 08	एच-6 / बी-3, दिवन रोजिज अपार्टमेंट, 68, ईस्ट कोस्ट रोड, थिरुवनमियूर, चेन्नई	बीवीएससीएवं एच / पीयू / 99	16.11.76
1885	आर.एम. कन्मबल, पुत्र श्री आर.एम. अलगप्पन	टीएनएसवीसी / 4123 / 08	4 / 2, श्री सत्य साई फ्लैट्स, यदावल, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, विरुगामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस / 96	1.4.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1886	आर. मनोहरन, पुत्र श्री एम. राजू	टीएनएसवीसी /4383/09	17 ई4, थेंडरल स्ट्रीट, जे.सी. के. नगर, चिंगलपुट- 603001, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू/73	26.4.49
1887	आर. मनिक्कम, पुत्र श्री वी. रामासामी	टीएनएसवीसी /4147/08	कूडाचेरी डाक, नंदनथई वाया, परमथी- वेल्लूर, नमक्कल-637206, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयूवीएस /98	7.3.74
1888	आर. मनोहरन, पुत्र श्री एन. रामासामी	टीएनएसवीसी /4353/08	22, वार्ड न. 4, नंगावल्ली, डाक- मेट्टूर तालुक, सलेम- 636454, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच / टीए एनयूवीएस / 08	28.5.86
1889	आर. मेनका	गुजएसवीसी / 2993/09	13/14, सी-टाइप स्टाफ क्वार्टर्स, नवसारी, कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	बीवीएससी एवं एच / जीबी पीयूटी / 03	9.5.76
1890	आर. नागराजन, पुत्र श्री एम.डी. रामचंद्रन	टीएनएसवीसी /4403/09	7, गायत्री निवास, साउथ नटराजपुरम कॉलोनी, मेन रोड, थंजावुर- 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 61	27.3.39
1891	आर. प्रकाश, पुत्र श्री आर. राजा मनिक्कम	टीएनएसवीसी /4275/08	एसएम कोइल स्ट्रीट, वरियानकावल, डाक- अरियालूर- 621806, तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच / टीएनयू वीएस / 08	27.7.83
1892	आर. पुगाजेंडी, पुत्र श्री एस. राजेंद्रन	टीएनएसवीसी /4231/08	उलियाकुडुडी, उदियार पलायम तालुक, अरियालूर, जिला - तमिलनाडु	बीवीएससी एवं एच / टीए एनयूवीएस / 08	15.6.85
1893	आर. राधाकृष्णन नायर, पुत्र श्री रामकृष्णा पिल्लै	केरलएसवीसी /3312/08	नमपद हाउस, टी.सी.24 / 1868 (टेनरा-35), थाइकौड डाक, तिरुवनंतपुरम- 695014, केरल	बीवीएससी एवं एच / केएयू / 81	21.2.39

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1894	आर. रघुरमन, पुत्र श्री आर. रामालिंगम	टीएनएसवीसी /4301/08	48, कॉलोनी हाउसिंग यूनिट, बी/15, थोडी रोड, शिवगंगा, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	30.10.85
1895	आर. राजेश, पुत्र श्री जी. रथिनावेल	टीएनएसवीसी /4341/08	वीरानाकुप्पम ग्राम, एम. डोड्डमपट्टी, उठानागरई, तालुक कृष्णागिरि, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	22.6.84
1896	आर. रामादुरई, पुत्र श्री डी. रामासामी	टीएनएसवीसी /4246/08	नयनारकुडीकाडु, टी-14, मथूर आर.एस. एवं डाक- सेंदुरई तालुक, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	30.5.85
1897	आर. रामानाथन, पुत्र श्री टी. रामालिंगम	टीएनएसवीसी /4330/08	फ्लैट सी 2, न. 21, चिदाम्बरम स्ट्रीट, भरतीपुरम, क्रोमपेट, चेन्नई	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	17.2.84
1898	आर. रामादू, पुत्र श्री आर. चंद्रइयाह	पीएसवीसी/4 756/08	म.न. 4-7, नुर्जनपल्ली (ग्राम), काटरापल्ली (डाक), श्यामापेट (एम), वारंगल जिला- 506349, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	12.6.85
1899	आर. रवि शंकर, पुत्र श्री एस. राधा कृष्णन	टीएनएसवीसी /4285/08	12, 21-बी, के.एम. कॉलेज रोड, साईनाथपुरम, वेल्लोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	13.6.85
1900	आर. श्रवनन, पुत्र श्री के.ए. राजा मनिक्कम	पॉण्डीएसवीसी /317/08	न. 28, डोर न. 3, तीसरा क्रॉस, ओजावरकरई, नवासक्ति नगर, पुडुचेरी	बीवीएससीएवं एच/पीयू/07	26.10.85
1901	आर. ससिकुमार, पुत्र श्री एम. पुहाजेंडी	टीएनएसवीसी /4224/08	स्कूल स्ट्रीट, सिरुकलथूर, डाक- सेंदुरई तालुक, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	7.6.83
1902	आर. सतीश कुमार, पुत्र श्री सी. राजा मनिक्कम	टीएनएसवीसी /4219/08	2/252, सेक्कमपट्टी, मट्टूकोट्टई हरूर तालुक, धर्मापुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	23.1.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1903	आर. सेथियामूर्ति, पुत्र श्री आर. रामासामी	टीएनएसवीसी /4325/08	साथी मेन रोड, ओरीचेरीपुडुर डाक, सकीनानगर वाया, भवानी तालुक, इरोडे— 63815, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	16.8.84
1904	आर. सेंथिल, पुत्र श्री एम. रामासामी	टीएनएसवीसी /4321/08	ई/128, कोट्टपल्ली कॉलोनी, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	9.1.86
1905	आर. सिवा प्रकासम, पुत्र श्री के. रथिनावेल	टीएनएसवीसी /4155/08	कीलारीकडु, कूनावेलमपट्टी, कुरुक्कापुरम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	18.5.81
1906	आर. सोरनारानी, पुत्र श्री एम. रामाकृष्णन	टीएनएसवीसी /4271/08	7, मिन नगर, मेलाग्राम डाक, तेनकासी— 627818, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	22.1.85
1907	आर. श्रीधर बाबू, पुत्र श्री बी. राजेंद्रन	टीएनएसवीसी /4362/08	74/47, उत्तरी मुनियप्पा कोइल स्ट्रीट, 6 करुंगईपट्टी, गुगई सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	21.1.84
1908	आर. सुधाकर, पुत्र श्री आर. श्रीरामुलु	पीएसवीसी/4 705/08	डी.न. 13/128, न्यू स्ट्रीट, पोरूमामिला, कडपा जिला— 516193	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	29.10.83
1909	आर. सुरिन्द्रा बाबू, पुत्र श्री एस. रंगासामी	टीएनएसवीसी /4300/08	थलिगई, थलिगई डाक, नमक्कल— 637212, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	18.11.83
1910	आर.वी.एन. सृजन, पुत्र श्री आर. हरनाथ	पीएसवीसी/4 704/08	द्वारा च.रामाचंद्र राव, पलैट 204, दिव्या शक्ति अपार्ट., लथा हॉस्पिटल के पीछे, वाल्टेयर अपलैंड्स, विशाखापटणम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	22.2.84
1911	आर. विनेशाह, पुत्र श्री एस. सेज़ियान	टीएनएसवीसी /4367/08	न. 16, ए.वी. थॉमस नगर, कोनम, नेगरकोइल—4, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनयूवीए एस/97	25.12.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1912	राबडी बकराली अकबरभाई	गुजएसवीसी / 2984 / 08	एटी एवं डाक— बदरपुर, तालुक— वडनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	16.2.85
1913	रबि कांत, पुत्र श्री इंद्रदेव प्रसाद	बीवीसी / 2836 / 07	ग्राम— काट गच्छी, डाक— चांद चौरा, थाना— सिविल लाइंस, सब—डिवीजन— सदर गया, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएनजीआ रएयू / 05	12.3.80
1914	रबि कुमार, पुत्र श्री संत लाल	बीवीसी / 2773 / 06	ग्राम—मेन रोड, मसौरही, डाक व थाना— मसौरही, सब— डिवीजन— मसौरही, जिला— पटना— 804452, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	1.3.78
1915	रबीन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री अमर देव सिंह	बीवीसी / 2838 / 07	ग्राम— अनीसाबाद, सी—67, पुलिस कॉलोनी, डाक अनीसा बाद, थाना— गरदानी बाग, सब—डिवीजन पटना, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 74	3.5.53
1916	रबीन्द्र भक्त, पुत्र स्व. श्री पुनीत भक्त	जेवीसी / 277 / 08	यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पशु पोषण विभाग, आर.वी.सी. कनके, रांची— 83406, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 72	04.01.47
1917	रबीन्द्र कुमार, पुत्र श्री बलिराम प्रसाद गुप्ता	बीवीसी / 2775 / 06	ग्राम—अमेठ, डाक—बैठी, थाना— मोहनिया, सब— डिवीजन— मोहनिया, जिला— कैमूर— 821109, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	5.6.77
1918	रबीन्द्र शर्मा, पुत्र स्व. श्री दीपालाली शर्मा	जेवीसी / 257 / 08	डी.ए.एच.ओ., दुमका, चुहाबगान, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 7 0	01.07.49
1919	रबीश रंजन, पुत्र श्री परमेश्वर महतो	बीवीसी / 2753 / 06	ग्राम— तरबन्ना, डाक— पंच बीर, थाना साहेबपुर कमल, सब—डिवीजन— बलिया, जिला— बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	22.12.76

क्र.सं.	नाम	पंजी सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1920	रचना बेनुगोपाल, पुत्री श्री टी.वी. बेनुगोपाल	केरलएसवीसी /3412/09	"अव्युक्ता", केएनआरए 53ए, कडप्पाथल नगर, पडपिनमोडू कौडियार, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 09	7.8.84
1921	रचना बंसल, पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता	एमपीएसवीसी /2579/09	जी-3, पंजाबी बाग, रायसेना रोड, भोपाल- 462023, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनके वीवी/05	11.6.79
1922	राधेश्याम रॉय, पुत्र श्री उमेश चंद्र रॉय	जेवीसी/485 /09	मोरावादी कुसुम विहार, रोड नं. 7, गुरु वाटिका, डाक- संची विश्वविद्यालय, बरियातु, संघो- 834008, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 87	17.11.63
1923	राधेश्याम, पुत्र श्री माती राम	राआएसवीसी/ 3550/09	ग्राम- आभावास, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/08	1.7.82
1924	राधेश्याम कुवना, पुत्र स्व. श्री लखन लाल कुवर	जेवीसी/939 /09	टीवीओ रामगढ़, हजारीबाग- 829122, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 86	03.01.62
1925	राधिका श्याम, पुत्री श्री श्याम नाथ आर.	केरलएसवीसी /3437/09	राजधारा, मनायिलकुलंगारा, कोल्लम- 691012, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 09	6.9.85
1926	राधोरते योगेश भांगिक	महाएसवीसी/ 7808/07	बुधवारी पेठ, गुरुदेव सेवाश्रम के निकट, उमरेर, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	29.10.85
1927	राधुवीर सिंह, पुत्र श्री भान सिंह	पीबीएसवीसी/ 2842/08	द्वारा डॉ. रेनू गुप्ता, 130- सी, बीआरएस नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/एसकेयू ऑफएसएंड टी/08	13.1.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताए	जन्मतिथि
1928	रघुनंदन सिंह, पुत्र स्व. श्री बासुदेव सिंह	जेवीसी / 421 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, हरिहर गंज, छतरपुर, पलामू, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 83	08.02.59
1929	रघुनाथ सेठ, पुत्र स्व. श्री सुखराम सेठ	जेवीसी / 229 / 08	द्वारा डॉ. रघुनाथ सेठ, सरजमडीह / जेगो, तमार, रांची— 835225, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 93	28.01.68
1930	राघवेंद्र प्रसाद शर्मा, पुत्र श्री श्याम सरन सिंह	जेवीसी / 336 / 08	वेटेरिनरी सर्जन, शिव पहाड़, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 74	06.02.52
1931	रागनी त्रिपाठी, पुत्र श्री सुरेश चंद त्रिपाठी	सीजीएसवीसी / 433 / 09	रामचंद्र संस्कृति विद्यालय, नया पास, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 07—08	20.5.85
1932	रहांगडेल संतोष परशराम	महाएसवीसी / 8021 / 08	जय किराना स्टोर के निकट, सुरेंद्र गढ़, सेमिनरी हिल्स, नागपुर— 440006	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	18.05.84
1933	रहमान जावेद, पुत्र श्री मुकलिशुर रहमान	एएसएम / 242 0 / 09	म.न. 12, रंगपुर पेठ, अहमद नगर, पूरनबस्ती, सिक्समाइल, गुवाहाटी— 781037 असम—	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	14.9.82
1934	रहमत अली अंसारी, पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी	बीवीसी / 2952 / 08	ग्राम पीपरा टरा, डाक— मुसतफाबाद, थाना— गोर्ैया कोठी, महाराजगंज, जिला— सीवन— 841439, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 07	12.10.79
1935	राहुल गुप्ता, पुत्र श्री राम सहाय वैश	यूपीएसवीसी / 4818 / 09	मौह— मीरनपुरा, डाक— टांडा, जिला— अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	5.11.81
1936	राहुल कुमार, पुत्र श्री चंद्रिका ठाकुर	जेवीसी / 435 / 08	गिडी 'ए' चर्चु, हजारीबाग— 829108, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 0	20.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1937	राहुल रंजन चौधरी, पुत्र श्री दिलीप कुमार	बीवीसी / 2754 / 06	ग्राम— किशन नगर, डाक— अनीसाबाद, थाना— फुलवारी शरीफ, जिला— पटना— 800002, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	30.11.82
1938	राय शर्मिला, पुत्र श्री मोहन कुमार राय	एसएम / 2415 / 08	ग्राम— स्माइल, जागुम, डाक— बिष्णुपुर, जिला— तिसुखिया, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	25.6.85
1939	रैहान ए. रहीम, पुत्र श्री एन.ए. रहीम	केरलएसवीसी / 3489 / 09	कोचुरोटिटल वीडु, नेडुमोन, डाक— ईजमकुलम, पथानम थिट्टा— 691556, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 9	28.9.84
1940	रैना डोनेरिया, पुत्र श्री एन.के. पाठक	एमपीएसवीसी / 2580 / 09	द्वारा श्री एस.के. डोनेरिया, 20 नई शकुंतला पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.— 479001	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 05	5.8.81
1941	रैना राज वी.आर., पुत्र श्री वी. राजन	केरलएसवीसी / 3337 / 08	टीसी 27 / 1134 (2), श्रीवालसम, वांचीयूर, थिरुवनंतपुरम—695025, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	30.12.84
1942	ऋषिकेश कुमार, पुत्र श्री नंदू प्रसाद	जेवीसी / 396 / 08	सहायक प्रोफे., डिपा. ऑफ फिजियोलॉजी, रांची वेटरिनरी कालेज, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 99	02.06.74
1943	राज भरत शर्मा, पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	एचपीएसवीसी / 853 / 08	ग्राम— बाउत, डाक व थाना— बंगाना, जिला— उना, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	23.12.84
1944	राज गोपाल गुप्ता, पुत्र श्री आनंदी प्रसाद साहू	जेवीसी / 587 / 09	सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल, झरिया, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 86	15.02.58
1945	राज कुमार शर्मा, पुत्र श्री सेवाराम शर्मा	एमपीएसवीसी / 2559 / 08	17, देव नगर कॉलोनी, पेच न. 2, इटावा रोड, मिंड— 477001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	5.8.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1946	राज कुमार सिंह, पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह	बीवीसी / 2735 / 06	ग्राम—लोदीपुर, डाक जवाज, वाया जनडाहा, थाना महनार, सब—डिवीज़न— महनार, जिला— वैशाली, बिहार	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 00	21.1.71
1947	राज कुमार सिंह, पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह	जेवीसी / 586 / 09	टीवीओ दुमरी, दुमरी, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 00	21.01.71
1948	राजाराम चौधरी, पुत्र स्व. श्री हरंगी चौधरी	जेवीसी / 509 / 09	डीएचओ, पलामू रांची रोड, रेरमा, चियाकी, मेदिनीनगर, पलामू, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 75	10.11.50
1949	राजा कृष्णइयाह, पुत्र श्री गट्टइयाह सेट्टी के.	कर्नाएसवीसी / 4088 / 08	न. 465, चौथी स्टेज, टी.के. लेआउट, मैसूर— 570023, कर्नाटक	बीवीएससी / यू एसबंगलौर / 83	15.6.59
1950	रजत पात्रा, पुत्र श्री रत्नाकर पात्रा	उड़ीसाएसवीसी / 2214 / 08	एटी—कृष्णानगर, डाक— सेरा पुर, वाया— काईपारा, जिला— जाजपुर— 755010, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 08	23.1.85
1951	राजबीर सिंह ग्रेवाल, पुत्र श्री मनजीत सिंह ग्रेवाल	पीबीएसवीसी / 2826 / 08	म.न. 552 / 1, रूलिया राम कॉलोनी, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसयू / 08	7.6.84
1952	राजबोहोरा शर्मा, पुत्र श्री राम मूरत शर्मा	सीजीएसवीसी / 402 / 08	वेटरिनरी हॉस्पिटल, चुई खदान, जिला— राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 86—87	4.5.64
1953	राजीन नयन, पुत्र डॉ. नरेंद्र कुमार	बीवीसी / 2752 / 06	ग्राम— बेलदारी टोला, डाक— जीपीओ गया, थाना सिविल लाइन, सब—डिवीज़न— गया, जिला—गया—820001, बिहार	बीवीएससीएवं एच / राजकृवि वि / 06	24.1.80
1954	राजीव भारती, पुत्र श्री विजय कुमार सिंह	जेवीसी / 187 / 08	टी.वी.ओ., बिलाशपुर, गढ़वा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 04	01.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1955	राजीव कुमार रंजन, पुत्र श्री राम लखन प्रसाद	बीवीसी / 2947 / 08	ग्राम- दीवान मुहल्ला, सिरी घाट, डाक- पटना सिटी, जिला पटना 800008, बिहार	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 07	3.12.80
1956	राजीव कुमार, पुत्र स्व. श्री रमेश चंद्र	यूवीसी / 350 / 08	वी.ओ. - गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 96	14.1.72
1957	राजीव कुमार, पुत्र श्री सतियाल साह	बीवीसी / 2875 / 07	ग्राम- ऑफिसर्स कॉलोनी, डाक व थाना कटिहर, जिला कटिहर- 854105, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 07	2.4.83
1958	राजीव कुमार, पुत्र श्री कृष्णा सिंह	जेवीसी / 442 / 08	कुजमा कोलियरी, लोडना झरिया, धनबाद- 828131, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 06	15.02.79
1959	राजीव कुमार, पुत्र श्री श्याम सुंदर चौधरी	जेवीसी / 128 / 08	बी-3, श्याम कुटीर, गौतम बुध मार्ग, बरियातु रोड, रांची, झारखंड- 834009	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 96	19.05.70
1960	राजीव रंजन, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2851 / 07	ग्राम एवं डाक- बंगपुर, थाना - पेरवलपुर, सब-डिवीजन - हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 06	25.2.80
1961	राजीव रंजन, पुत्र श्री खुशी लाल यादव	बीवीसी / 2740 / 06	ग्राम गिडाहा, डाक रतनसारा, थाना घोघाडीह, सब- डिवीजन सासाराम, जिला- रोहतास, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएनजीअ रएयू / 05	1.3.78
1962	राजेंद्र सिंह, पुत्र श्री उमेद सिंह	हरिएसवीसी / 2040	13 / 425, विनोद नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	25.5.82
1963	राजेंद्र बैठा, पुत्र स्व. श्री जनक बैठा	जेवीसी / 487 / 09	वांघगड़ी दीपाटोली, बरियातु, रांची- 834009, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 77	01.02.54

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1964	राजेंद्र कुमार, पुत्र श्री कृष्ण दयाल राम	जेवीसी / 461 / 09	सिलवर खुद्र, जगन्नाथ धाम, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 89	25.12.64
1965	राजेंद्र प्रसाद मोदी, पुत्र स्व. श्री दशरथ मोदी	जेवीसी / 440 / 08	योगीडीह चंदाकियारी, चास, बोकारो— 828303, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 08	11.10.82
1966	राजेंद्र यादव, पुत्र स्व. श्री भुवनेश्वरी यादव	जेवीसी / 355 / 08	अरसनडे, वीआईपी कॉलोनी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 74	18.07.49
1967	राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री एस. कृष्णामूर्ति	कर्नाएसवीसी / 4209 / 08	न.1, अपार्ट.न. 203, सिलहोंटे एंकलेव, प्रथम मेन रोड, अराकरे, माइको लेआउट, बंगलौर— 560076, कर्नाटक	एमएसवी / एम एसएवीएमएंड बीटी, मॉस्को / 97	22.7.70
1968	राजेश चौहान, पुत्र स्व. श्री एस.एस. चौहान	जेवीसी / 541 / 09	टीवीओ सुंदर नगर, जमशेदपुर, नया सीताराम डेरा, एग्रीको, पूर्वी सिंघभूम, पिन— 831009, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 89	10.07.65
1969	राजेश खारवी, पुत्र श्री रंगा कारवी	कर्नाएसवीसी / 4204 / 08	कोडी डाक, कनयाना— 576226, उडुपी तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीए एफएसयू / 08	14.1.85
1970	राजेश कुमार, पुत्र श्री राम दत्त वर्मा	यूपीएसवीसी / 4794 / 08	ग्राम— लांगरा की चौकी, ज्योति सदन, मसोधा, फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयूए टी / 08	1.8.80
1971	राजेश कुमार, पुत्र श्री राम शंकर	यूपीएसवीसी / 4796 / 08	ग्राम— खोंकर, डाक— खोरिया बाजार, जिला— बस्ती, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयूए टी / 08	15.3.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1972	राजेश कुमार, पुत्र श्री राम सिंह	बीवीसी / 2949 / 08	गाम— सचिवालय कॉलोनी, डाक— कंकरबाग, जिला— पटना— 800020, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एसकेयूए एसएंडटी / 07	6.12.78
1973	राजेश कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप प्रसाद	बीवीसी / 2892 / 07	ग्राम एवं डाक— मेघी, थाना— दीपनगर, सब—डिवीजन बिहार शरीफ, जिला— नालंदा — 803111, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एसवीवीयू / 06	25.2.79
1974	राजेश कुमार, पुत्र श्री राम यश शर्मा	बीवीसी / 2839 / 07	ग्राम— सहरसा; डाक— बनलालपुर, थाना— धाता, सब—डिवीजन— सीकरहाने, जिला— चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / केएएफ एसयू / 05	16.2.80
1975	राजेश कुमार, पुत्र श्री रामयश शर्मा	यूवीसी / 425 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, रीठाखल, जिला— पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / केवीए एफएसयू / 05	16.2.80
1976	राजेश कुमार, पुत्र श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा	जेवीसी / 285 / 08	1512, किरथार अपार्ट., विजया हेरिटेज, कडमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंधभूम— 831005, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 96	10.03.72
1977	राजेश कुमार, पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद यादव	जेवीसी / 406 / 08	बी.ए.एस.ओ., रुंडा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूवीयू एएंडएफएस / 0 3	15.11.76
1978	राजेश कुमार, पुत्र श्री मुक्तार साह	बीवीसी / 2843 / 07	ग्राम— बिशोनी पावर हाउस, डाक— मसदी मुशारी, थाना— सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / वीवीयू / 06	13.11.77
1979	राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री धनंजय कुमार शर्मा	जेवीसी / 337 / 08	द्वारा श्री बिस्वनाथ मिश्रा, 188, न्यू एजी कोऑरेटिव कॉलोनी, आरगोरा, रांची— 834002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 9 9	03.07.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1980	राजेश कुमार बेंडे, पुत्र श्री देवी दास शेंडे	एमपीएसवीसी /2592/09	ग्राम— अलकापुर, थाना— सौसर, जिला— छिंदवाडा, म.प्र. — 480106	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/09	24.5.80
1981	राजेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री अवधेश कुमार सिंह	जेवीसी/280 /08	प्लॉट न.112, 'ए' युवराज एंकलेव, दीमा रोड, मंगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंधभूम— 831012, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएटी /01	12.05.74
1982	राजेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री चितेश्वर प्रसाद सिन्हा	बीवीसी/2901 /07	ग्राम एवं डाक— मोहनपुर, थाना— मुफ्फसिल, सब— डिवीजन व जिला—समस्तीपुर — 848101, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/0 6	5.6.79
1983	राजेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री दुखी तिवारी	जेवीसी/584 /09	मालदा, गवान, गिरिडीह— 815313, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/0 4	22.02.78
1984	राजेश प्रसाद, पुत्र श्री लाल प्रसाद	बीवीसी/2939 /08	ग्राम एवं डाक— नौहट्टा, थाना— नौहट्टा, जिला— सहरसा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/0 7	15.12.79
1985	राजेश प्रसाद, पुत्र स्व. श्री मुरलीधर प्रसाद	जेवीसी/408 /08	टीवीओ, बेरबारी, गिंगो, ठाकुर गांव, बुरमु, रांची— 835205, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/8 6	17.07.61
1986	राजेश प्रसाद, पुत्र स्व. श्री दुलारी सिंह	जेवीसी/070 /08	जिला पशु पालन अधिकारी, जमतारा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 72	14.07.49
1987	राजेश रातुरी, पुत्र श्री एस.डी. रातुरी	यूवीसी/389 /08	77, आशुतोष नगर, नेहरू मार्ग, ऋषिकेश जिला, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	16.3.71
1988	राजेश्वर राम, पुत्र श्री नेगा राम	बीवीसी/2895 /07	ग्राम एवं डाक— बलिया, थाना— महाराजगंज, जिला— सीवन— 841506, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एएनजीअ रएयू/05	5.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1989	राजी के.सी., पुत्री श्री के.ओ. चिन्नन	केरलएसवीसी /3346/08	कोट्टूर हाउस, नेन्नेनीकुन्नु डाक, चीरल वाया, वायनाड— 673595, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	2.7.83
1990	राजीव कुमार, पुत्र डॉ. वी.डी. गोयल	यूवीसी/431 /08	म.न. 5/1366, पंतनगर, जिला— यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/00	14.8.76
1991	राजीव नागर, पुत्र श्री तुलसी राम नागर	हरिएसवीसी/ 2063	98/4, विद्युत नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	15.1.85
1992	राजीव रंजन, पुत्र डॉ. ब्रजनंदन प्रसाद	जेवीसी/126 /08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, महुआंतम, बोकारो, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/9 4	03.01.70
1993	राजकुमार रामचंद्र गोंगले, पुत्र स्व. श्री रामचंद्र सुभाजी गोंगले	जेवीसी/010 /08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, बहादुरपुर, जारीडीह, बरमो, झारखंड— 829301	बीवीएससीएवं एच/पीकेवीवी /91	12.05.68
1994	रजनी कुमारी, पुत्री श्री गोबिंद प्रसाद	बीवीसी/2840 /07	ग्राम—काजीबाग, डाक— गुलजार बाग, थाना आलम, गंज, सब—डिवी.— पटना सिटी, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 05	26.9.82
1995	रजनी प्रभा महतो, पुत्री श्री बिनोद कुमार महतो	जेवीसी/254 /08	द्वारा श्री बिनोद कुमार महतो, गांधीटोला, चाईबासा, पश्चिमी सिंधभूम— 833201, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 5	11.02.79
1996	रजनी पुष्पा सिंकू, पुत्री स्व. श्री परमानंद सिंकू	जेवीसी/269 /08	द्वारा श्रीमती उषा सिंकू, चुनवा टोली, पुराना एचबी रोड, लालपुर, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 89	07.06.64
1997	रजनीकांत टिरके, पुत्र श्री महाबीर ओरांव	जेवीसी/212 /08	द्वारा श्री महाबीर ओरांव, कन्नौज, तारूप, रातू, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 80	17.12.57

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1998	रजनीश शर्मा, पुत्र श्री चंद्र शर्मा	यूपीएसवीसी / 4856 / 08	ग्राम- पुरा, तिन्नेट ते बान, जिला- आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 08	28.7.83
1999	राजपूत नीलेश गणेशराव	महाएसवीसी / 7936 / 08	ए / पी- रायपुर, तालुक व जिला- बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	10.7.83
2000	राज रोहित, पुत्र श्री सत्येंद्र कुमार सिंह	बीवीसी / 2732 / 06	ग्राम- परारिया, डाक व थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास- 802212, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 05	4.12.78
2001	राजशेखर बी., पुत्र श्री संगनागौड बी.	कर्नाएसवीसी / 4146 / 08	सदाशिवनगर, सिरागुप्पा- 583121, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	17.12.84
2002	राजशेखर, पुत्र श्री भीमना गौडा करजोल	कर्नाएसवीसी / 4190 / 08	द्वारा बी.एन. करजोल, बीएल डीई इंजी.कॉलेज के पीछे बॉयज़ होस्टल, सज्जन कॉलोनी, बीजापुर- 586103, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.7.84
2003	राजेंद्र कुमार पंडित, पुत्र श्री कन्हैया लाल पंडित	यूवीसी / 442 / 09	थपलियाल सदन, 40- सरस्वती सोनी मार्ग, लक्ष्मन चौक, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 71	21.3.46
2004	राजू प्रसाद, पुत्र श्री दोधेश्वर सिंह	जेवीसी / 030 / 08	सहा. प्रोफेसर, फार्मेकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी, आरवीसी कनके रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 00	31.12.76
2005	रजवी कुलभूषण, पुत्र श्री सत पॉल गर्ग	पीबीएसवीसी / 2805 / 08	लाजपत नगर, गली न. 5, कोटकापुरा, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	10.01.84
2006	राकेश कुमार नागिल, पुत्र श्री डूंगर मल	राजएसवीसी / 3477 / 08	ग्राम- बलवंतपुरा, डाक- चेलासी, वाया नवलगढ़, झुंझुनू- 333042, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 07	3.4.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2007	राकेश कुमार, पुत्र स्व. श्री गिरिजा शंकर	यूवीसी / 349 / 08	181 / 8, दून विहार कॉलोनी, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / सीएसएके ईपीवीवी / 97	6.8.70
2008	राकेश कुमार, पुत्र श्री बिनय कुमार	बीवीसी / 2825 / 06	ग्राम— द्वारिका बीघा, डाक— चिरो, थाना— हरनौत, सब— डिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / जेएनएयू / 06	15.9.79
2009	राकेश कुमार, पुत्र श्री सरयुग प्रसाद	बीवीसी / 2785 / 06	ग्राम— नियामत नगर, डाक— धारहारा, थाना— सिलाओ, सब—डिवी.— राजगीर, जिला— नालंदा— 803111	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 06	14.8.81
2010	राकेश कुमार सेठी, पुत्र श्री सुरेंद्र कु. सेठी	उड़ीसाएसवीसी / 2234 / 08	ई—42 / 1, सेंट्रल कॉलोनी, डाक— आईआरसी ग्राम, बीबीएसआर—751015, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	5.5.85
2011	राकेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री आर.सी. शर्मा.	हरिएसवीसी / 2065	ग्राम व डाक—बट्टा, हनुमान मंदिर के निकट, स्वामी मौह., जिला— कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	30.1.84
2012	राकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री धनी राम वर्मा	सीजीएसवीसी / 381 / 08	बजरंग चौक, मदपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06—07	27.6.73
2013	राकेश रंजन, पुत्र श्री बिंदेश्वरी प्रसाद	बीवीसी / 2737 / 06	ग्राम एवं डाक— मालती, थाना अस्थावन, सब—डिवी.— बिहार शरीफ, जिला— नालंदा— 803107, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू / 06	10.6.76
2014	राकेश रंजन, पुत्र श्री बिंदा प्रसाद यादव	बीवीसी / 2894 / 07	ग्राम एवं डाक— कमरगामा, थाना सिंघेश्वर, सब—डिवी.— माधेपुरा, जिला— माधेपुरा— 852218, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 07	1.3.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2015	राकेश रंजन, पुत्र श्री सशि कुमार सिन्हा	बीवीसी / 2772 / 06	ग्राम एसबीआई कॉलोनी न. 3, डाक-बीवी कॉलेज, थाना दानापुर, सब-डिवी. दानापुर, जिला-पटना 800014, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 06	19.8.77
2016	रख बलीराम जयराम	महाएसवीसी / 8038 / 08	एटी- थेरला, तालुक पटोडा, जिला- बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	22.11.84
2017	रामबाबू कुमार, पुत्र श्री इंदल साह	बीवीसी / 2933 / 08	ग्राम- बहुरवा, डाक- बिष्णु पुर, थाना- बेला, जिला- सीतामढ़ी- 843342, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एएनजीअ रएयू / 05	11.6.79
2018	राम बाबू सिंह, पुत्र श्री जे.एम. सिंह	यूवीसी / 405 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), वी.एच. नैनीसैंड, चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / सीएसएके ईपीवीवी / 98	13.8.64
2019	राम चंदर, पुत्र श्री बहादुर सिंह	राजएसवीसी / 3547 / 08	प्लॉट न. 272, सेक्टर-2, वार्ड न. 10, हनुमान गढ़, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / एसकेयूए एसएंडटी / 08	1.7.82
2020	राम चंद्र सोनी, पुत्र श्री जगदीश चंद्र सोनी	राजएसवीसी / 3512 / 08	विश्व कर्मा मंदिर के पीछे, वार्ड न. 31, हनुमानगढ़ शहर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 05	7.5.78
2021	राम किशोर शर्मा, पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा	जेवीसी / 180 / 08	शास्त्री नगर, गिरिडीह- 815301, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 80	18.01.57
2022	राम कृष्ण, पुत्र श्री विश्व नाथ मेहता	जेवीसी / 593 / 09	बीएएचओ, मसालिया, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 88	01.06.62
2023	राम लखन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम किशन प्रसाद	जेवीसी / 383 / 08	पटेल नगर, रोड न.-1ए, हरमू नर्सिंग कॉलोनी., आरगोरा, रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 75	02.01.53

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2024	राम नरेश झा, पुत्र स्व. श्री शेष कुमार झा	जेवीसी / 562 / 09	आर्शीवाद अपार्टमेंट, साकेत नगर, हिन्दू रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 9 2	30.10.64
2025	राम नाथ राम, पुत्र स्व. श्री पुनीत राम	जेवीसी / 496 / 09	बंधगरी (दीपाटोली), बरियातु, रांची- 834009, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 79	14.11.56
2026	राम प्रकाश सिंह, पुत्र श्री एम.पी. सिंह	यूवीसी / 438 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 95	3.7.69
2027	राम प्रवेश राम, पुत्र श्री राम बिलाश राम	जेवीसी / 256 / 08	सोहागारा, शिवपुर, मांझियावान (कंडी), गढ़वा- 822120	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 05	05.01.75
2028	राम सरीख प्रसाद, पुत्र स्व. श्री महांगी प्रसाद	जेवीसी / 115 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, चांडिल, सरायकेला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	20.10.68
2029	राम श्याम सिंह, पुत्र श्री राम आसीश सिंह	यूपीएसवीसी / 4797 / 08	ग्राम- इकडरवा, डाक- जौनपुर, जिला- बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	5.4.80
2030	राम सजीवन प्रजापति, पुत्र श्री सूर श्याम	एमपीएसवीसी / 2569 / 08	डाक- जयोरहा, थाना- लोढी, जिला- छतरपुर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	5.7.80
2031	राम सुमेर सिंह, पुत्र श्री मोती लाल सिंह	एमपीएसवीसी / 2516 / 08	एटी डाक उमरेश, जिला- छिंदवाड़ा- 480442, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनके वीवी / 08	5.6.71
2032	रमा कांत, पुत्र श्री राजबाली	यूपीएसवीसी / 4776 / 08	ग्राम- कोइडा, डाक- सुल्तानगढ़, जिला- अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	1.7.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2033	रामा नंद, पुत्र श्री बीरबल सिंह	यूवीसी/97/ 08	श्रीनाथ नगर, गली न. 2, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/आगरा विवि/70	28.7.47
2034	रमा शंकर प्रसाद, पुत्र श्री बाल गोविंद प्रसाद	जेवीसी/411 /08	बैदा कला, पाटन, डाल्टन गंज, पलामू, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 94	14.07.62
2035	रमाधर चौधरी, पुत्र श्री महातिम चौधरी	यूपीएसवीसी/ 4875/08	ग्राम एवं डाक— करांडा, जिला— गाजीपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	21.6.83
2036	रमाकांत भगत, पुत्र स्व. श्री मथुरा प्रसाद भगत	जेवीसी/471 /09	महागाम, गोड्डा— 814154, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 71	01.07.50
2037	रमन चोपड़ा, पुत्र श्री जे.सी. चोपड़ा	यूवीसी/440 /08	बी-11, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/93	30.6.66
2038	रमन कुमार, पुत्र श्री बनवारी लाल	राजएसवीसी/ 3529/08	ग्राम— धानी छोटी, डाक— सिधमुख, थाना— राजगढ़, चुरू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/07	5.7.83
2039	रमन कुमार ठाकुर, पुत्र डॉ. सुभाष चंद्र ठाकुर	जेवीसी/301 /08	पुत्र डॉ. सुभाष चंद्र ठाकुर, मौह.—शहर थाना रोड, दुमका— 8141001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 03	24.03.78
2040	रमन शर्मा, पुत्र श्री एम.एल. शर्मा	एचपीएसवीसी /844/08	ग्राम— टिकरू, डाक— संघोल, थाना— जय सिंहपुर, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/08	26.6.81
2041	रामाश्रय सिंह, पुत्र स्व. श्री कपिलदेव सिंह	जेवीसी/087 /08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, विकास (नेवरी), रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 88	29.08.58

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2042	रामबीर सिंह, पुत्र श्री रामपाल सिंह	यूवीसी / 364 / 08	एन / 14, नागला डेयरी फार्म, पंत नगर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 00	12.11.57
2043	रामचंद्र नागर, पुत्र श्री देवी लाल नागर	राजएसवीसी / 3486 / 08	ग्राम— रूपहेरा, डाक— बालुहेरा, वाया— कनवास, कोटा— 315602, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 08	2.8.81
2044	रामचंद्रन साहू, पुत्र स्व. श्री बलदेव प्रसाद साहू	सीजीएसवीसी / 390 / 08	मुधापारा, अबराया, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06—07	14.5.77
2045	रमेश, पुत्र श्री देवेन्द्र राठौड़	कर्नाएसवीसी / 4166 / 08	स्टेशन रोड, ज्ञानी कॉलोनी, बीजापुर— 586104, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.6.85
2046	रमेश भुरिया, पुत्र श्री शुक्ल भुरिया	एमपीएसवीसी / 2515 / 08	चैतन्या मार्ग, उदयपुरिया, दिलीप गेट, झबुआ— 457661, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	11.11.80
2047	रमेश कुमार सोनावने, पुत्र श्री सी.एस. सोनावने	सीजीएसवीसी / 413 / 08	3 / 9, प्रियादर्शिनी पारीशर (प.), भिलई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / जेएनके वीवी / 87—88	29.6.62
2048	रमेश नगर, पुत्र श्री मूल चंद नागर	राजएसवीसी / 3495 / 08	ग्राम एवं डाक— अंथरा, बूंदी— 323021, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 08	15.5.82
2049	रमेश सिंह, पुत्र श्री पी.एस. नितवाल	यूवीसी / 359 / 08	ग्राम— क्विटी, डाक— क्विटी, पंतनगर, पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 93	5.7.68
2050	रमेश तिवारी, पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी	जेवीसी / 190 / 08	रानकी कला, मनिका, लाटेहर— 822136, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एएफएसएन / 02	17.1.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2051	रमेश बाबू एस.एम., पुत्र श्री मणि एस. पी.	कर्नाएसवीसी / 4121 / 08	पहला पैरेलल रोड, ए ब्लॉक, गांधीनगर, शिमोगा— 577201, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	22.3.84
2052	रमेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री सिधनाथ सिंह	जेवीसी / 060 / 08	3 सी, अप्रित अपार्टमेंट, जेसी रोड, लालपुर, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 86	22.05.62
2053	रमेश्वर सिंह, पुत्र स्व. श्री पातीराम यादव	यूवीसी / 362 / 08	पुष्पकुंज, हरिद्वार बाइपास, मोथरावाला रोड, अजबपुर खुद्र, डाक— अजबपुर कलां, देहरादून	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 76	1.7.53
2054	राम किशोर प्रसाद मेहता, पुत्र स्व. श्री कैलाश महतो	जेवीसी / 121 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी (मोबाइल), लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 82	05.01.57
2055	रामलोचन कुमार, पुत्र श्री अर्जुन सिंह	बीवीसी / 2769 / 06	ग्राम— मामिया, डाक— अंडी, थाना— बींद, सब—डिवीजन— बिहार शरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / ओयूएटी / 06	6.1.77
2056	राम नारायण शर्मा, पुत्र स्व. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा	सीजीएसवीसी / 379 / 08	एमआईजी—12, मीनाक्षी नगर, बोरसी, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	4.6.68
2057	राम राघवेंद्र सिंह, पुत्र श्री गुरु नारायण सिंह	यूपीएसवीसी / 4791 / 08	ग्राम एवं डाक— कोंचतिराना, एआईटी, जिला— जालौन, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	10.1.84
2058	रामटेके रीना राजकुमार	महाएसवीसी / 8031 / 08	द्वारा श्री कृष्णा पंतावने, प्लॉट न. 138, कुकाडे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	18.12.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2059	रामटेके स्नेहल शालिक	महाएसवीसी / 7979 / 08	रामटेके भवन, पंचशील वार्ड, गजानन चौक, ए/पी साकोली, जिला भंडारा— 441802	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	25.10.84
2060	रामटेके रीना राजकुमार	महाएसवीसी / 8133 / 09	द्वारा के.एस. पंटावने, प्लॉट न. 138, कुकाडे लेआउट, नागपुर— 440027, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	18.12.83
2061	रामया राजन वी., पुत्र श्री वी.वी. राजन	केरलएसवीसी / 3368 / 08	वेलारा हाउस, पेलाकट्टू पय्यूर, कूनामुची डाक, थिरसूर — 680504, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएसयू / 08	8.10.83
2062	राना प्रताप, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद ठाकुर	जेवीसी / 206 / 33	टीवीओ, सिली, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएसयू / 84	25.03.61
2063	रानावरे प्रदीप बालासाहेब	महाएसवीसी / 8137 / 09	ए/पी जिन्ती (विकास नगर), तालुक फाल्टन, महाराष्ट्र, जिला— सतारा— 415523	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	12.03.85
2064	रनेश, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4801 / 08	यादव मार्केट, वी.पी.एस.ई.बी. के निकट, राजनगर, पुखरायन, कानपुर देहात, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	4.3.81
2065	रंगतेई कूपर मरबनियांग, पुत्र श्री सी.एस. सोनेज़	उमहीअब / 265 / 08	नोंगमेनसोंग, शिलोंग, डाक— असम राइफल्स— 793011, मेघालय	बीवीएससीएवंए एच / एएसयू / 08	20.7.82
2066	रानी चाको, पुत्री श्री टी.जे. चाको	केरलएसवीसी / 3360 / 08	थोट्टूमरिक्कल हाउस, माचीप्लावू डांक, इडुक्की— 685511, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएसयू / 08	23.5.84
2067	रंजना मलंकर, पुत्री श्री दीपक माओलंकर	एमपीएसवीसी / 2542 / 08	आर—16, शक्ति नगर, गुप्तेश्वर मंदिर के निकट, डाक जबलपुर—482001, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनके वीवी / 08	30.7.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2068	रंजना मूकेन, पुत्री श्री जोस ए. मूकेन	केरलएसवीसी /3370/08	मूकेन हाउस, ब्लॉक कार्यालय के निकट, प्रानवम नगर न. 45, ओलूक्कारा, थिसूर— 680655, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	9.8.83
2069	रणजीत कुमार पास वान, पुत्र श्री नवल किशोर पासवान	बीवीसी/2857 /07	ग्राम— छाजुपुर, डाक व थाना —तेलहरे, हिलसा, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	26.1.80
2070	रणजीत कुमार, पुत्र श्री सरयू चौधरी	बीवीसी/2783 /06	ग्राम— करहारा, डाक व थाना घोशी, सब—डिवीजन— जहानाबाद— 804406, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/06	2.1.82
2071	रणजीत सिंह, पुत्र श्री जरनैल सिंह	पीबीएसवीसी/ 2816/08	ग्राम एवं डाक— चमयार, थाना— अजनाला, जिला— अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसयू/08	15.12.83
2072	रणजीत कुमार भगत, पुत्र स्व. श्री बालेश्वर भगत	जेवीसी/519 /09	तोरार सरना टोली, जुरिया, सेनहा, लोहारडागा— 835302, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 93	15.11.69
2073	रणजीत सोरेन, पुत्र स्व. श्री लखन सोरेन	जेवीसी/521 /09	छोटा कुर्मा, शिरीपुर बाजार, मानड्रो, साहेबगंज— 813208, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 97	12.12.72
2074	रणवीर सतीश भाऊराव	महाएसवीसी/ 7975/08	विकास नगर, तारोडा (ब्लॉक), तालुक जिला— नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	29.7.83
2075	रश्मि, पुत्री श्री जगदीश बाबू	यूपीएसवीसी/ 4807/08	368, आवास विकास, जनकपुरी, राजेंद्र नगर, बरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी /08	3.2.80
2076	रश्मि देवी चंद्रा, पुत्री श्री गजाधर चंद्राकर	सीजीएसवीसी /435/09	सी, पॉकेट—ए, 10/सीए, मोरडा सेक्टर, भिलई, जिला — दुर्ग— 490006, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07-08	11.2.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2077	रश्मि कुमारी, पुत्री श्री अच्युतानंद प्रसाद	जेवीसी / 252 / 08	द्वारा श्री अच्युतानंद प्रसाद, चोरया चानहो, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 05	15.10.81
2078	रश्मि, पुत्र श्री समंदर सिंह	यूपीएसवीसी/ 4839/08	ग्राम— टिकेत, डाक— बिसावर, सापाबाद, जिला— हाथरस, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	1.1.80
2079	रतन कुमार दूबे, पुत्र श्री दिगम्बर प्रसाद दूबे	जेवीसी / 510 / 09	बंदनवार, पाथरगामा, गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 86	21.07.61
2080	रथीन्द्र नाथ मुखर्जी, पुत्र स्व. श्री भूतनाथ मुखर्जी	जेवीसी / 368 / 08	क्वा.न.—सीडी—655, सेक्टर— ।।.साइड—4, एचईसी कॉलोनी, घुरवा, रांची—834004, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 72	15.02.49
2081	राठौड़ अविनाश शंकर राव	महाएसवीसी / 8034 / 08	हुतात्मा स्मारक, जितूर, तालुक जितूर, जिला— परभनी— 431509, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू / 07	12.04.84
2082	राठौड़ जयलाल रोहीदास	महाएसवीसी / 7923 / 08	माहिनीराज अपार्ट., 11— राजपूत कॉलोनी, मछीन्द्र देवपुर, जिला— धुले, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू / 07	25.5.83
2083	राठौड़ राजेश माधवलाल	गुजएसवीसी / 2985 / 08	एटी एवं डाक— गढ़, श्री रोड के निकट, तालुक— पालनपुर, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू / 08	2.8.84
2084	राठौड़ रवीन्द्र बाबूराव	महाएसवीसी / 8033 / 08	द्वारा बी.जे. राठौड़, अम्बड रोड, तालुक जिला— जालना — 431203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू / 08	09.01.81
2085	राठौड़ सुरेश बालाजी	महाएसवीसी / 7840 / 07	पुलिस कॉलोनी, बासमत नगर, जिला— हंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू / 07	5.5.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2086	राठौड़ संदेश जयराम	महाएसवीसी / 7995 / 08	अजीसपुर रोड के निकट, बुलधाना, महाराष्ट्र तालुक व जिला बुलधाना- 443001	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	16.06.83
2087	रत्नेश कुमार चौधरी, पुत्र श्री मणिकांत चौधरी	बीवीसी / 2781 / 06	ग्राम- आनंद कॉलोनी, डाक व थाना-बंका, सब-डिवीजन बंका, जिला बंका- 813102, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू / 06	3.3.76
2088	राउल विवेक प्रमोद	महाएसवीसी / 8100 / 08	30 / 3, रफी अहमद वडवाज रोड, वडाला, जिला मुम्बई- 400031, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	27.06.84
2089	रौशन कुमार, पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद	बीवीसी / 2864 / 07	ग्राम- कचैरी रोड, डाक- हिसुआ पंचू, थाना- हिसुआ, जिला- नवादा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 07	12.5.80
2090	राउत अनिल नारायण	महाएसवीसी / 7746 / 07	वार्ड न. 6, प्लॉट न. 29, शिवजी नगर, मेहकर, डोंगांव रोड, मेहकर, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / पीआरके वीवी / 89	25.7.65
2091	राउत जया देवीदास	महाएसवीसी / 7799 / 07	द्वारा देवीदास डब्ल्यू राउत, एटी - पिम्पलगांव (पुलिस पाटिल हाउस के निकट), जिला व डाक- यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमए एफएसयू / 07	6.1.85
2092	राउत मुकुंद राज गजानन	महाएसवीसी / 7848 / 07	एटी- निरगुडे, तालुक- इंदापुर, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	14.12.82
2093	राउत सचिन दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 8024 / 08	सिविल अस्पताल क्वार्टर- क्लास 4-ए, महाराष्ट्र जिला, उस्मानाबाद	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	26.09.85
2094	राउत ललित जनार्दन	महाएसवीसी / 7917 / 07	अनंत लक्ष्मी निवास, आर.न.- 101, प्रथम मंजिल, कामतनगर, भिवंडी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	18.8.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2095	रावल दीप्तीबेन तीताभाई	गुजएसवीसी / 2938 / 08	केवडिया कॉलोनी, कैट-सी, ब्लॉक न. 31 / 184, जिला-नर्मदा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	30.12.84
2096	रेवथी टी.आर., पुत्री श्री के. रवीन्द्रन नायर	केरलएसवीसी / 3328 / 08	रेवथी नीलायम, इरुम्पा अरुविककारा डाक, थिरुवनंतपुरम- 695564, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	16.3.84
2097	रवि ए.एम., पुत्र श्री मनघाशेट्टी	कर्नाएसवीसी / 4137 / 08	अरेथीपुरु, कूलागेरे डाक- 571433, मद्दूर तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएफ एसयू / 08	21.6.83
2098	रवि भूषण, पुत्र श्री नरेश कुमार	पीबीएसवीसी / 2796 / 08	दूकान न. 69, कमीशन एजेंट, मनसा, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीए डीवीएसयू / 08	16.2.84
2099	रवि गोयल, पुत्र श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल	राजएसवीसी / 3526 / 08	32, लाजरस लेन, क्रिस्टियन गंज, अजमेर- 305001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	9.10.81
2100	रवि कांत कुमावत, पुत्र श्री बट्टी प्रसाद कुमावत	राजएसवीसी / 3509 / 08	पंच विहार कॉलोनी, प्लॉट न. 33, हरमदा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	27.1.82
2101	रवि कांत, पुत्र स्व. श्री बलदेव नायक	जेवीसी / 293 / 08	अशोक मेडिकल हॉल, पेटारबर, तेनुघाट, बोकारो- 829121, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / वीएयू / 08	30.11.79
2102	रवि नंदन, पुत्र स्व. श्री रंग प्रसाद सिन्हा	जेवीसी / 450 / 09	टी.वी.ओ., सरवन, देवघर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 91	06.04.65
2103	रवि प्रकाश द्विवेदी, पुत्र श्री राम लखन द्विवेदी	जेवीसी / 156 / 08	ब्लॉक पशु पालन अधिकारी, सरैयाहाट, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 03	10.05.77
2104	रवि सेन वर्मा, पुत्र श्री चंद्र सेन वर्मा	राजएसवीसी / 3472 / 08	म.न. 10-ए, पाओटा '6 सी' रोड, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 07	31.12.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2105	रवि शंकर कपूर, पुत्र श्री सत्येंद्र नारायण कपूर	जेवीसी / 227 / 08	द्वारा श्री एसएन कपूर, कनके ब्लॉक चौक के निकट, कनके, रांची- 834007, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/9 2	05.10.67
2106	रविकांत पांडे, पुत्र श्री राम सुजान पांडे	एमपीएसवीसी / 2545 / 08	ग्राम- खेरवा, डाक- टिकुरी, थाना- मानपुर, जिला- उमरिया, म.प्र.- 484661	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	22.8.80
2107	रवि किरन एच. पी. पुत्र श्री पांडुरंगप्पा एम.एच.	कर्नाएसवीसी/ 4141 / 08	प्रामि मेन रोड, मारुति नगर, डोड्डाबल्लपुरा- 561203, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएफ एसयू/08	3.2.86
2108	रवि नायक, पुत्र श्री चंद्रा नायक एल.	कर्नाएसवीसी/ 4143 / 08	द्वारा शमा नायक, कलकेरे- 577180, कडूर तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएफ एसयू/08	3.6.82
2109	रवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री रन सिंह	हरिएसवीसी/ 2034	203, बार्ड न. 10, सिविल हॉस्पिटल रोड, लोहारु जिला, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	12.10.81
2110	रवीन्द्र चंद्र, पुत्र श्री सी.आर. आर्या	यूवीसी / 363 / 08	ग्राम एवं डाक- गिनती गांव, कोटा बाग, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/89.	25.6.63
2111	रवीन्द्र कुमार, पुत्र श्री जगपाल सिंह	यूवीसी / 368 / 08	अकोडे खुद्र, डाक- मुकारमत पुर, मुंडखरे कलां, लकसर, जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	25.6.83
2112	रवीन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदेश्वर प्रसाद	जेवीसी / 042 / 08	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं सहायक प्रोफे, आरवीसी, कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 00	01.03.77
2113	रवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह	यूवीसी / 377 / 08	ग्राम- पेंग, डाक- रेनी, थाना- जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	2.4.83
2114	रविशंकर देव बर्मन, पुत्र श्री राम प्यारे प्रसाद	बीवीसी/ 2804 / 06	ग्राम एवं डाक- सलेमपुर, थाना -करईपेरसुआरी, सब डिवीजन - हिलसा, जिला- नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/06	25.1.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2115	रविशंकर कुमार, पुत्र श्री सदानंद प्रसाद	बीवीसी / 2791 / 06	ग्राम— सरदारपुर, डाक— अमावन, थाना बीद, सब— डिवीजन— बिहारशरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 6	12.7.73
2116	रचना सेखर सी. ए., पुत्र श्री ए.आर. चंद्र सेखर	केरलएसवीसी / 3413 / 09	“चैत्रा” टीसी 31 / 861 (1), पुली लेन, चक्कई, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	27.8.83
2117	रीबा पॉल, पुत्री श्री एम.ए. पॉल	केरलएसवीसी / 3357 / 08	मुलक्कल हाउस, 47 / 21, टूल गेट रोड, वाडुथला डाक, कोचीन, अर्नाकुलम— 682023, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	5.5.84
2118	रीमा वर्मा, पुत्री श्री आर.एस. वर्मा	हरिएसवीसी / 2051	475, सेक्टर—15 ए, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	25.12.85
2119	रीना कुमार कमल, पुत्री श्री राम दयाल प्रसाद	जेवीसी / 294 / 08	द्वारा श्री राम दयाल प्रसाद, शिव गंज, हरमू रोड, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 08	03.02.81
2120	रीना शैली कुजुर, पुत्री श्री बालाशियुस कुजुर	जेवीसी / 240 / 08	शतरंजी हुलहुंडू, हटिया, रांची— 835221, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 01	16.04.76
2121	रेहना हसन, पुत्री श्री हसन कुंजु पी. एम.	केरलएसवीसी / 3453 / 09	वरियथ हाउस, थलायोलापरम्बु डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	8.7.84
2122	रेमया जॉन, पुत्री श्री जॉन वी.जे.	केरलएसवीसी / 3371 / 08	वज़ापल्ली हाउस डाक, थोयाक्कवु, थिसूर— 680513, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	4.4.84
2123	रेमया रवीन्द्रन, पुत्री श्री एम. रवीन्द्रन	केरलएसवीसी / 3383 / 08	अंचाराडिकजाक्केथिल, नडुथेरी, पट्टाजी डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	31.3.84
2124	रीना पाठक, पुत्री श्री एन.के. पाठक	सीजीएसवीसी / 341 / 07	वेटरिनरी अस्पताल के सामने, गौरी मंदिर के निकट, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 05—06	5.8.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2125	रंजीथ गोपाल, पुत्र श्री राजकुट्टन पिल्लै	केरलएसवीसी /3372/08	रंजीथ गोपाल, कवूर, करीमपानी डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	30.5.84
2126	रेनू, पुत्री श्री वासु देव	हरिएसवीसी/ 2059	एफ-42, फॉरेस्ट कॉलोनी, डी. सी.एम. गेट के निकट, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	7.9.84
2127	रश्मि पी, पुत्री श्री टी.आर. पीथाम्बरन	केरलएसवीसी /3325/08	श्री पदमम, कोलाथरा डाक, कोजीकोड- 673655, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	20.4.84
2128	रिचा रूपम, पुत्री स्व. श्री अजीत कुमार सिंह	बीवीसी/2874 /07	गाम- छोटी कल्याणी चौक, मुखर्जी सेमिनरी रोड, डाक- रामना, थाना- मीठनपुरा, सब- डिवीजन- तिरहुत, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	29.1.78
2129	रिजस नाज़ वी. वी. , पुत्र श्री वी.वी. मोहम्मद बशीर	केरलएसवीसी /3414/09	कडीजा महल डाक, करपारम्ब नाडु, विलाकंडी परम्ब, थडाम्मदूथजम, कालीकट, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09.	20.9.83
2130	रिकेश रंजन, पुत्र श्री नवीन कुमार सिन्हा	बीवीसी/2777 /06	ग्राम- चांदमारी रोड, डाक- कंकरबाग, थाना- कंकरबाग, सब डिवीजन पटना-20, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	1.3.81
2131	रिधे संदीप नारायण	महाएसवीसी/ 8085/08	द्वारा एन.टी. रिधे, तिरुपति बालाजी नगर, एटी- सुंदरखेड तालुका- बुलधाना	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/06	29.12.83
2132	रिंकन सिंह, पुत्र श्री कृष्ण कुमार	यूवीसी/435 /08	वी.ओ. वेटरिनरी हॉस्पिटल बाड़ा, किच्छा, जिला- यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएडटी/98	6.5.73
2133	रिंकी कुमारी, पुत्री श्री हेमलाल सिंह	बीवीसी/2871 /07	ग्राम- रामनगर, डाक- पॉलीटेक्निक, थाना- खजांची हाट, सब-डिवीजन- पूर्णिया सदर, जिला- पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	3.11.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2134	रिपिल खरबंदा, पुत्र श्री आर.के. खरबंदा	पीबीएसवीसी/ 2723/08	113-बी, सराभा नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एसस्यू/07	23.1.83
2135	ऋषिकेश पंवार, पुत्र श्री हीरा लाल पंवार	एमपीएसवीसी /2512/08	द्वारा श्री ए.आर. चौहान, डी-5/9, एमओजी लाइन, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	7.9.78
2136	रीतेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री चंद्र देव प्रसाद गुप्ता	जेवीसी/260 /08	सिनेमा रोड, धनवर, गिरिडीह- 825412	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 03	06.05.75
2137	रीतेश कुमार जायसवाल, पुत्र श्री अशोक जायसवाल	सीजीएसवीसी /398/08	ग्राम एवं डाक- कल्याणपुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	12.6.86
2138	रीतेश कुमार, पुत्र श्री कमलेश्वरी मंडल	बीवीसी/ 2817/06	ग्राम- दुमखटोला, डाक- महेशखुंट, थाना- महेशखुंट, सब-डिवीजन खगरिया, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	1.1.80
2139	रितेश रंजन, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह	बीवीसी/2800 /06	ग्राम एवं डाक- नावादा, थाना चौथम, सबडिवीजन- खगरिया, जिला- खगरिया, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसस्यू/06	2.1.80
2140	रितीश रंजन, पुत्र श्री हरि नारायण प्रसाद	बीवीसी/ 2908/07	ग्राम- अगरपुर, डाक- मलिकपुर, थाना-करईपेरसुराई, जिला- नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 06	1.3.78
2141	ऋतु अग्रवाल, पुत्री श्री अशोक कुमार अग्रवाल	सीजीएसवीसी /451/09	383/29, पापुरा जूना सदन, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07-08	28.8.85
2142	रोडे सुहास रामकृष्ण	महाएसवीसी/ 7907/07	गणेशनगर, सुभाष वार्ड, ए/पी-तालुक- वारोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसस्यू/07	12.9.83
2143	रोहित गुलेरिया, पुत्र श्री संसार चंद गुलेरिया	एचपीएसवीसी /828/08	ग्राम एवं डाक- तलैयाहद, थाना- सदर, जिला- मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/08	24.2.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2144	रोकडे नंदकिशोर विलास	महाएसवीसी / 7949 / 08	ए/पी रोकडे, सावरगांव, तालुक अहमदपुर, लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	06.02.85
2145	रोपानंद पटेल, पुत्र श्री हलधर पटेल	सीजीएसवीसी / 450 / 09	ग्राम— बसंत पल्ली, डाक— सोडांका, थाना— खरसिया, जिला— रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी / 07—08	13.4.79
2146	रोज़ मेरी मैथ्यू, पुत्री श्री के.सी. मैथ्यू	केरलएसवीसी / 3466 / 09	कंजूपराम्बिल हाउस, पम्पहाउस रोड, कुरीसुमूडू डाक, कोट्टायम— 686104, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/09	26.5.85
2147	रोज़ेलीन पुष्पा टिरके, पुत्र स्व. श्री लूथर टिर्के	जेवीसी / 202 / 08	द्वारा डॉ. बिपिन भाल्को, पुराना लोवाडीह, नामकुम, रांची— 834010	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/93	13.4.68
2148	रोशनी टी.एस., पुत्री श्री सकरिया टी.एस.	केरलएसवीसी / 3340 / 08	थेकुमकट्टिल हाउस, थोडुपुजाह डाक, ओलामट्टोम, इडुक्की— 685584, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/08	25.5.82
2149	रॉय डेनियल सोनार, पुत्र स्व. श्री गेब्रियल सोनार	एसएसएम / 2423 / 09	सौरव नगर, नामघर के निकट, म.न. 31, डाक— बेलटोला, जिला— कामरूप, असम	बीवीएससीएवं एच/एएयू/74	1.3.50
2150	रुचि मान, पुत्री डॉ. ओ.पी. मान	राजएसवीसी / 3500 / 08	निजामपुर मोड़, खेरी झुंझुनू— 333503, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/08	9.1.83
2151	रुचि पचौरी, पुत्री श्री एस.के. पचौरी	राजएसवीसी / 3483 / 08	38—वन विहार कॉलोनी, एआईआर के सामने, चुरु— 331001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/08	7.6.83
2152	रुचि तिवारी, पुत्री श्री जे.एल. तिवारी	सीजीएसवीसी / 409 / 08	कवा.न. 5सी, सेक्टर—4, रोड न. 4, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी / 05—06	19.10.82
2153	रुद्रवंशी चंदन प्रकाश	महाएसवीसी / 8053 / 08	राधिका हाउसिंग सोसायटी, म.न. 2, सकोरा रोड, गिरना नगर, तालुक नंदगांव, जिला— नासिक — 423106	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	26.11.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2154	रूपा लाकरा, पुत्री श्री लाधू रुंडा	जेवीसी / 241 / 08	द्वारा श्री लाधू रुंडा, करम टोली, बरियातु रोड, मनकी भवन के निकट, रांची वि.वि., रांची- 834008, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 02	26.07.76
2155	रूपल पाठक, पुत्री श्री एन.के. पाठक	एमपीएसवीसी / 2586 / 09	पद्माधर कॉलोनी, धीखा रीवा, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी / 09	7.9.83
2156	रूपेश कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2912 / 08	ग्राम- टैक्स्ट बुक कॉलोनी, इंद्रापुरी, डाक- केशरिंग, थाना -पाटिलपुर, जिला- पटना - 24, बिहार	बीवीएससीएवं एच/पीयू/06	5.1.78
2157	रुस्तम कुमार रौशन, पुत्र श्री पृथ्वी चंद्र सिंह	बीवीसी / 2956 / 08	ग्राम एवं डाक-नूरपुर(महेशपुर), थाना- चौथा, जिला खगरिया- 851201, बिहार	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 07	22.2.83
2158	रुशाली नाखरो, पुत्र श्री जकियतुओ नाखरो	एनएसवीसी / 237 / 08	टाउन बैप्टिस्ट चर्च, मेडिजफ्रीमा - 707106, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	4.9.83
2159	एस.ए. दानी प्रीथा, पुत्र श्री ए. शोभनम	टीएनएसवीसी / 4312 / 08	थेरुम्बु हाउस, चथानकोडे डाक, कन्याकुमारी- 629153, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	1.6.85
2160	एस. अंबाजकी, पुत्र श्री के. सुंदरम	टीएनएसवीसी / 4328 / 08	नाथमपट्टी डाक, लालीगाम एस.ओ, धर्मापुरी- 636804, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	3.6.85
2161	एस. अनीथा, पुत्र श्री के.ए. सोमा सुंदरम	टीएनएसवीसी / 4157 / 08	3 / 271, नाइकन कोर्टर्ड डाक, कम्बईनल्लूर वाया, धर्मापुरी- 635202, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	29.5.85
2162	एस. अरुल, पुत्र श्री सी. सुंदरम	टीएनएसवीसी / 4208 / 08	2 / 75, कुमारन स्ट्रीट, कईपुधुर, एस. पापरापट्टी डाक, अट्टायमपट्टी वाया, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	7.5.83
2163	एस. अरुण, पुत्र श्री एम. सेल्वाराज	टीएनएसवीसी / 4348 / 08	5 (14), नेताजी नगर, नांजुंडापुरम रोड, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/ओयूएएंड टी/08	25.2.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2164	एस. बालाजी, पुत्र श्री आर. सेखर	टीएनएसवीसी /4165/08	383, नॉर्थ रेलवे कॉलोनी, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	29.7.86
2165	एस. भक्त वत्सलम, पुत्र श्री एस. बाथी रेड्डी	पीएसवीसी/ 4675/08	कापूगुन्नेरी (ग्राम एवं डाक), कलाहस्ती, (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	7.01.83
2166	एस. भाव्या	महाएसवीसी/ 8012/08	सीपीडब्ल्यूडी क्वा., टाइप-4 - 46 (पुराना), महाराष्ट्र सेमीनरी हिल्स, नागपुर- 440006	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	26.08.85
2167	एस. दीपा, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4254/08	एस.आर. इल्लम, मेन रोड, संगमपल्ली, पल्लापट्टी डाक, नमक्कल- 637017	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	4.6.84
2168	एस. देवी, पुत्र श्री पी. सुगारासम्पन	टीएनएसवीसी /4160/08	4/11, सीथमपूडी डाक, परमथिवेलूर तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	29.5.86
2169	एस. धनाबल, पुत्र श्री सी. सुंदरम	टीएनएसवीसी /4402/09	पिन्नावासल एवं डाक, पेरावुरानी तालुक, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	7.5.83
2170	एस. दुर्गादेवी, पुत्र श्री कं. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4297/08	सेंगुंधार नगर, दूसरी स्ट्रीट, चिन्ना सलेम, विल्लुपुरम- 606201, तमिलनाडु	बीवीएससीएवंए एच/टीएनयू वीएस/08	28.3.85
2171	एस. इश्थेरु, पुत्री श्री एस. भूपेंद्र लक्ष्मीपति राव	पीएसवीसी/ 4696/08	द्वारा: एस. हेलेन (एसबीआई), समलकोट, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /08	15.6.85
2172	एस. गनपति, पुत्र श्री टी.ई. सुब्रह्मण्यम	टीएनएसवीसी /4397/09	49, इलाग्राम स्ट्रीट, वलिऊर, तिरुनेलवेली- 627117, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयू/ 78	12.12.54
2173	एस. गनेशन, पुत्र श्री ए. सिवासुंदरम	टीएनएसवीसी /4122/08	4/703-1, सुंदा इल्लम, चौथी स्ट्रीट, महालक्ष्मी नगर, के. पुडार, मदुरै, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /96	8.11.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2174	एस. गंगासूदन, पुत्र श्री ए. सुब्रमनी	टीएनएसवीसी /4173/08	भगवतिअम्मन कोइल स्ट्रीट, टी. सुब्बुलापुरम, अंडीपट्टी, थेनी, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएस/08	2.5.85
2175	एस. हरिनी, पुत्री श्री वीरा रेड्डी	पीएसवीसी/4 679/08	चिन्नागुरुवल्लुरु (ग्राम), चपाडु (एम), माइडुकुरु (डाक), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	20.8.85
2176	एस. इम्तीसुंगकुम जमीर, पुत्र स्व. श्री सुपोंगमेरेन	एनएसवीसी/2 34/08	एलए बेले ब्यूटी पार्लर, चिशी मार्केट कॉम्प्लेक्स, दीमापुर, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच/सीएयू/0 8	21.5.85
2177	एस. जयंथन, पुत्र श्री टी. संधानम	टीएनएसवीसी /4177/08	11/28, सक्ति नगर, तिरुपट्टूर, वेल्लोर- 635601, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीए एनयूवीएस/ 08	3.10.84
2178	एस. जॉन रवि कुमार, पुत्र श्री एम. समीकन्नु	टीएनएसवीसी /4121/08	पिल्लईकुलम, करीसलपट्टी डाक, वेरनमहादेवी वाया, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /92	15.9.67
2179	एस. जोथी लिंगम, पुत्र श्री के. सोमा सुंदरम	पॉण्डीएसवीसी /318/09	न. बीएच-1, टेलीकॉम स्टाफ क्वा., जया नगर, रेडियार पलायम, पडुचेरी	बीवीएससीएवं एच/पीयू/08	17.8.84
2180	एस.के. चौधरी, पुत्र श्री एस.एन. चौधरी	यूपीएसवीसी/ 4738/08	म.न. 62- बी कॉलोनी, नाथमलपुर (केशवपुरम), जिला - गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	17.6.76
2181	एस.के. श्रीवास्तव, पुत्र श्री शिवा कांत लाल	यूपीएसवीसी/ 4741/08	ग्राम एवं डाक- पट्टी, बनकट्टा, जिला- आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एंडटी/08	7.12.79
2182	एस. कल्याण रमन, पुत्र श्री के. शुनमुगम	टीएनएसवीसी /4134/08	797-ए, नौवी स्ट्रीट, थियागराजा नगर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	23.4.53
2183	एस. कंगामनि, पुत्र श्री वी. श्रवणन	टीएनएसवीसी /4311/08	14, बाजार स्ट्रीट, चिन्ना सलेम, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएस/08	4.6.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2184	के. काविया, पुत्र श्री सी. सौद्रापण्डियान	टीएनएसवीसी /4264/08	1/36-सी (पुराना न. 2/ 84), वराम्बियम, देवम्बलपुरम, थिरुथुइपुंडी- 614715, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	5.4.85
2185	एस. कृष्णा कुमार, पुत्र श्री ए. सिवनाथन	टीएनएसवीसी /4308/08	नांगावल्ली, मेन रोड 14-418-81 (पुराना न. 618), वेटनीकराडु, अरुंधाडियार स्ट्रीट, धारामंगलम, ओमालूर तालुक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	31.5.85
2186	एस. मालती, पुत्र श्री सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4159/08	मुनिअप्पनकोइल थोट्टम, इन्नामंगलम डाक, अथियूर, वाया- भवानी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	25.5.85
2187	एस. मनिमोजी, पुत्र श्री ए. सेत्वाराजू	टीएनएसवीसी /4191/08	सुंदीपल्लम, मुथुसेरवा मदम डाक, उदयारपलायम तालुक, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	1.7.84
2188	एस. मनिवन्नन, पुत्र श्री आर. सिवासामी	टीएनएसवीसी /4351/08	259-बी, अविनाशलिंगम पलायम रोड, काईकटिटपुडुर, अविनाशी तालुक, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	26.5.84
2189	एस. मोहनदौस, पुत्र श्री आर. सांथनाकृष्णन	टीएनएसवीसी /4379/08	15/8, साउथ कलियम्मन कोइल स्ट्रीट, पट्टूकोट्टई- 614601, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/72	12.1.47
2190	एस. मोहनदौस, पुत्र श्री एम. सेमुअल	टीएनएसवीसी /4388/09	7/26, वेंकटरमन नगर, थिरुंग एक्सटेंशन, वेल्लूर-6, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयू/ 82	2.4.54
2191	एस. मुरुगावेल, पुत्र श्री जी. सोक्कालिंगम	टीएनएसवीसी /4117/08	341, कुचीपलायम स्ट्रीट, नल्लाथूर डाक, कुडालोर तालुक, 605106, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/पीयू/08	12.6.86
2192	एस. मुथु विरूधा गिरि के., पुत्र श्री सुब्रमनियन	टीएनएसवीसी /4168/08	29/8, बाजार स्ट्रीट, कुम्बकोनम बैंक के पीछे, वृद्धाचलम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	26.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2193	एस.एन.एन. मौह. अली जिन्नाह, पुत्र श्री एस.एन. नागोर गनी साही	टीएनएसवीसी /4382/09	72, लेब्बईशापुरम स्ट्रीट, पुलियांगुडी, तिरुनेलवेली- 627855, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/66	1.7.42
2194	एस.एन. सुथागर, पुत्र श्री एस. नामा सिवायामूर्ति	टीएनएसवीसी /4411/09	2 एन/647, भारती नगर, रिजर्व लाइन, शिवाकाशी (प.), विरुधुनगर-626124, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /94	12.3.72
2195	एस.एन. वेंकटेशन, पुत्र श्री एस.के. नारायणन	टीएनएसवीसी /4146/08	36 (पुराना न. 23), महालक्ष्मी स्ट्रीट, फ्लैट न. बी-4, सांति अपार्टमेंट, टी.नगर, चेन्नई	बीवीएससी /एमयू/68	15.6.46
2196	एस. नागराजन, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4389/09	54 (पुराना न. 3), अन्ना नगर, डिंडीगल- 624005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /97	24.8.75
2197	एस. नारयण सिंगमपल्ली, पुत्र श्री एस. चंद्राया	पीएसवीसी/ 4695/08	अलामंदा (आर.एस.), जामी (एम), विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	13.7.84
2198	एस.पी. दोहर, पुत्र श्री ओ.एल. दोहर	सीजीएसवीसी /403/08	शांति नगर वाड़ा, जगतलपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/91-92	21.1.67
2199	एस.पी. इंगोले, पुत्र स्व. श्री पी.एन. इंगोले	सीजीएसवीसी /356/08	जोन-2, जी.ई. रोड, नया आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/पीआरके बीवी/82	1.5.61
2200	एस.पी. मलार कन्नन, पुत्र श्री एस. पलानीचामी	टीएनएसवीसी /4406/09	7, मीनाक्षी स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर- 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /94	27.3.71
2201	एस. परमा सिवन, पुत्र श्री वी. सुब्बन	टीएनएसवीसी /4377/08	366, केएस नगर, रेलवे कॉलोनी, डाक- इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /98	5.11.72
2202	एस. पिरावीन, पुत्र श्री एम. श्रवनन	टीएनएसवीसी /4162/08	8/50, पनासकड्डू, वडकड्डू डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	4.4.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2203	एस. पोन्नूसामी, पुत्र श्री वी. संकर	टीएनएसवीसी /4209/08	1/77, बोम्मा समुथिरम, डाक- नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	30.5.85
2204	एस. पूर्वेंद्र राजा, पुत्र श्री एस.पी. सक्तिवेल	टीएनएसवीसी /4220/08	76/40, इरोडे मेन रोड, काविंडापडी, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	4.6.84
2205	एस. पुष्पा, पुत्र श्री के. सेनगोट्टायन	टीएनएसवीसी /4332/08	परक्कडु, थलावमपलायम, मरपरई डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	21.5.84
2206	एस.आर. प्रभाकर, पुत्र श्री एस.एन. रामामूर्ति	टीएनएसवीसी /4391/09	3/336, कृष्णा नगर, थिरुप्पलई, मदुरै, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /92	18.4.69
2207	एस. राजा गुनालन, पुत्र श्री सीतानंदन	पॉण्डीएसवीसी /310/08	न. 26, सुब्रामन्नीसामी काइल स्ट्रीट, मुथियलपेट, पुडुचेरी	बीवीएससीएवं एच/पीयू/ 08	12.9.85
2208	एस. राजेश, पुत्र श्री ए. सेल्वाराज	टीएनएसवीसी /4302/08	ओए/1, मपलुप्पन स्ट्रीट, मन्नारगुडी, थिरुवनंतपुरम- 614001, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	16.9.84
2209	एस. राजेश, पुत्र श्री एस. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4233/08	1/179, ईस्ट स्ट्रीट, पोनपराप्पी डाक, सेंदुरई, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	21.5.83
2210	एस. रामादेवी, पुत्र श्री आर.सुब्बइयाह पंडियान	टीएनएसवीसी /4270/08	9-बी, स्कूल स्ट्रीट, रायागिरि, तिरुनेलवेली- 627818, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	17.4.85
2211	एस. रमेश, पुत्र श्री ए. सम्पथ	टीएनएसवीसी /4295/08	20, पप्पाथयम्मम कोइल स्ट्रीट, अनानीपलायम, अरानी- 632301, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	1.6.84
2212	एस. रवि कुमार, आर. सिवानंदन	टीएनएसवीसी /4135/08	भारती स्ट्रीट, कुवागम डाक, पोनपराप्पी वाया, अरियालूर, जिला- 621710, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /95	15.6.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2213	एस.एस.जोधिराजा लिंगम, पुत्र श्री एस. सुबइयाह नादर	टीएनएसवीसी /4125/08	1/141, नॉर्थ स्ट्रीट, मेलापुथुकुडी डाक, अम्मनपुरा वाया, तिरुचेनथूर तालुक, द्यूटीकोरिन, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	19.11.58
2214	एस. संतोष, पुत्र श्री के. सुंदरम	टीएनएसवीसी /4283/08	49/22-बी, बाजार स्ट्रीट, धर्मापुरी- 636701, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	4.2.85
2215	एस. सारधा, पुत्र श्री एस. सुंदरम	टीएनएसवीसी /4237/08	45-बी, नॉर्थ, न्यू स्ट्रीट, रामनाथपुरम- 623501, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	17.3.84
2216	एस. सारण्य, पुत्र श्री के. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4291/08	23/6, 'सी' टाइप, गोल्डन रॉक, त्रिची- 620004, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.7.85
2217	एस. श्रवन्न, पुत्र श्री ए. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4324/08	24, चौथा क्रॉस स्ट्रीट, कामराज रोड, अथियुरु, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	21.3.84
2218	एस. सथीश कुमार, पुत्र श्री सेनगोट्टइयॉ	टीएनएसवीसी /4258/08	ए. सेम्बुलिचमपलायम डाक, भवानी तालुक, इरोडे- 638501, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	20.4.83
2219	एस. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4322/08	कट्टामारा पलायम, उंजलपलायम डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	9.1.86
2220	एस. सेंथिल, पुत्र श्री पी. सम्पथ	टीएनएसवीसी /4151/08	183/68, मल्लापुरम डाक, पाप्पीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /08	12.6.83
2221	एस. सीलम्बा रासन, पुत्र श्री सी. सूर्यराजयम	टीएनएसवीसी /4200/08	366, कुरुगुडी, पुलियाडी स्ट्रीट, कंडमंगलम डाक, कट्टूमन्नार कोइल तालुक, कुडालोर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	10.12.84
2222	एस. सिवाज्योति, पुत्री श्री एस. सदाशिव रेड्डी	पीएसवीसी/ 4757/08	डी.न. 3/2, वेमपल्ली रोड, वेरागुंटा, कडपा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	25.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2223	एस. सिवारामना, पुत्र श्री पी. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी /4386/09	23-ए, कोरोनेशन कॉलोनी, सिवाकासी- 626189, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएस /95	16.7.71
2224	एस. सिवारंजनी, पुत्र श्री टी. सेकर	टीएनएसवीसी /4181/08	8/5, चिदाम्बरनार स्ट्रीट, आर.एस. मगलम, रामनद, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	4.2.85
2225	एस. सुब्बा सिवागामी, पुत्र श्री के.एस. सोमा सुंदरम	टीएनएसवीसी /4284/08	205/306, राजा राजन स्ट्रीट, मिन नगर, कांचीपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	9.9.85
2226	एस. सुभानु, पुत्र श्री एस. श्रवनभावन	टीएनएसवीसी /4286/08	18/25, मयिम्मन कोइल स्ट्रीट, मामसापुरम, श्रीविल्ली पुट्टूर तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	20.6.85
2227	एस. स्वाथि, पुत्री श्री एस. गोपाल राव	पीएसवीसी/4 797/08	म.न. 18-410/1/1, मलिकार्जुन नगर, मलकजगिरि, हैदराबाद-500047, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	21.5.85
2228	एस. थिलागर, पुत्र श्री के. सुंदराजन	टीएनएसवीसी /4395/09	एमआईजी 378, III क्रॉस स्ट्रीट, मोगाप्येयर, ईआरआई स्कीम, चेन्नई	बीवीएससी/टी एनयू/-78	14.10.54
2229	एस. वासु, पुत्र श्री एस. चंद्रा रेड्डी	पीएसवीसी/ 4796/08	फ्लैट न. 104, श्री राय रेजीडेंसी, म.न. 12-13-832 /1, गोकुल नगर, तरनाका, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	20.2.82
2230	एस. विंदया रानी, पुत्री श्री एस. साई बाबा	पीएसवीसी/ 4697/08	डी.न. 16-14-27, अजनेया स्वामी मंदिर स्ट्रीट, पुराना गुटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	17.7.84
2231	एस. विष्णु प्रिया, पुत्री श्री वी. सत्यनारायण	पॉण्डीएसवीसी /312/08	न. 161, वायसियाल स्ट्रीट, पुडुचेरी-1	बीवीएससीएवं एच/पीयू/07	20.10.85
2232	एस. विल्फ्रेड रुबन, पुत्र श्री ए. सावरीराज	कर्नाएसवीसी/ 4208/08	जी-2, ग्राउंड फ्लोर, भानु पैराडाइज़, ब्लॉक-1, चलकरे, कायानगर, बंगलौर- 560043, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/पीयू/01	10.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2233	एस. यशोधर्ई, पुत्र श्री के. सामीनाथन	टीएनएसवीसी /4242/08	123/72, पेरूमल कोविल, पुदुर, इचीपलायम डाक, कोडुमुडी, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएस/08	23.3.84
2234	सबाले अमोल शिशुपाल	महाएसवीसी/ 8055/08	सी-9, सुखवानी प्लाजा, सी-9, मेन रोड, आकुर्डी, पुणे- 411035, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	24.10.84
2235	सविथा एण्टोनी, पुत्र श्री एण्टोनी जोसेफ	केरलएसवीसी /3350/08	कोचूपलाकल हाउस, पाला डाक, कोट्टायम- 686575, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	16.5.84
2236	सविथा जोस, पुत्री श्री जोस कुरुपिला	केरलएसवीसी /3358/08	इज़ाकुन्नेल हाउस, वालिक्काडवु डाक, परप्पा वाया, कासरागोड- 671533, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	31.5.84
2237	साबले मनीश ढोंडीराज	महाएसवीसी/ 7956/08	शनिवार पेठ, वारूद, तालुक वारूद, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	7.2.85
2238	सवना के.वी., पुत्री श्री बियानकुट्टी के.वी.	केरलएसवीसी /3441/09	"बीपास", कोर्ट के सामने, पराप्पननगडी डाक, मलप्पुरम- 676303, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 9	22.3.85
2239	सचिन कुमार जैन, पुत्र श्री एस.सी. जैन	यूपीएसवीसी/ 4853/08	544, गांधी नगर, नई बस्ती, ललितपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएलके वीवी/08	9.8.83
2240	सचिन पी.आर., पुत्र श्री परप्पा वी.	कर्नाएसवीसी/ 4164/08	न. 138, जीसीआर एक्स., विद्यानगर, होसादुर्ग- 577527, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/ 08	27.1.86
2241	सदची रिकमेम मोमिन, पुत्री श्री डब्ल्यू.एन. मारक	मेघएसवीसी/ 258/08	बोनेपा ए टिल्ला, टी.वी. अस्पताल के निकट, तुरा- 794002, मेघालय	बीवीएससीएवं एच/एएयू/0 8	12.9.84
2242	सहारे अमोल अशोक	महाएसवीसी/ 8088/08	समता नगर, वार्ड न. 1, आरमोरी, तालुक आरमोरी, जिला गडचिरोली- 441208	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	10.10.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2243	सहस्त्रबुद्धि अक्षय बालचंद्र	गुजएसवीसी / 2986 / 08	एटी एवं डाक- गढ़, श्री रोड के निकट, तालुक पालनपुर, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	18.7.83
2244	सहदेव मुर्मु, पुत्र स्व. श्री बुधु मुर्मु	जेवीसी / 322 / 08	द्वारा श्री राम मुर्मु, मिहिजाम, भागा, जमतारा- 815354, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 03	15.12.72
2245	साहिल गुप्ता, पुत्र श्री बिल्वा मंगल	पीबीएसवीसी / 2783 / 08	प्रताप नगर, गली न. 1, गुप्ता निवास, कोटकपुरा, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 08	31.5.82
2246	सैकिया जयनश्री, पुत्र श्री चंद्र सैकिया	एसएम / 2419 / 09	ग्राम- डेरगोयान, डाक- पदमापुर, जिला- लखीमपुर- 784164, असम	बीवीएससीएवं एच / एसयू / 08	1.02.85
2247	सजल कुमार, पुत्र श्री केदार नाथ सैनी	जेवीसी / 479 / 09	टीवीओ, बाराही, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 96	31.12.71
2248	सजनी के., पुत्री श्री के.जे. जोसेफ	केरलएसवीसी / 3485 / 09	कल्लुमकल हाउस, कुरिंजीपलावु, मून्नीलावू डाक, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	29.5.85
2249	सजीना एस.यू. पुत्री श्री ई सुलेमान कुंजु	केरलएसवीसी / 3472 / 09	'विलायिल', मदनकावू मंदिर के निकट, पदा नॉर्थ, करुंगापल्ली डाक, कोल्लम- 690518, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	5.6.85
2250	सज्जन कुमार सैनी, पुत्र श्री सेदू राम सैनी	राजएसवीसी / 3490 / 08	ग्राम एवं डाक- नेवारी, थाना- उदयपुरवटी, झुंझुनू- 333053, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	1.7.79
2251	सकीर हुसैन, पुत्र श्री कुनहा अहमद के.एम.	केरलएसवीसी / 3448 / 09	कयालमडाथी हाउस, कन्नमकुलम बी.पी., अंगडी डाक, मलप्पुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	27.7.84
2252	साकेत कुमार मिश्रा, पुत्र श्री राम सुंदर मिश्रा	एमपीएसवीसी / 2574 / 08	एसक्यू- 18, बाबूलाइन, नौरोजाबाद, जिला- उमरिया- 484555, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	29.9.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2253	साकेत मिश्रा, पुत्र श्री प्रभाष मिश्रा	यूपीएसवीसी / 4870 / 08	सी / 4, खाडिया परियोजना (चिकाटाड), तालुक दुधी, जिला— सोनभद्रा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलकेव वी / 08	12.2.83
2254	सकीना मलिक, पुत्री श्री जाहिद हुसैन मलिक	एमपीएसवीसी / 2568 / 08	56, बोहरा बखाल, बोहरामरिजद के सामने, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 07	10.9.79
2255	सक्षम चोपड़ा, पुत्र श्री योगेन्द्र लाल चोपड़ा	एमपीएसवीसी / 2544 / 08	म.न. 1116, विजय नगर कृषि उपज मंडी के निकट, फेज— II, जबलपुर, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	2.5.85
2256	साकसुले चंद्रहास मधुकर	महाएसवीसी / 7852 / 07	बनोसा, दरयापुर, जिला— अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	23.9.83
2257	सालंकर अमोल मधुकर	महाएसवीसी / 8003 / 08	47, सांताजी कॉलोनी, दांडेकर लेआउट, नरेंद्र नगर, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	26.12.81
2258	सालिनी ए.के., पुत्री श्री सी.के. उन्नीकृष्णन	केरलएसवीसी / 3335 / 08	कलाथी हाउस, विश्वरसेरीकारा, मन्नार डाक, अलपुजाह— 689622, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 8	20.5.84
2259	सलोनी गुप्ता, पुत्री श्री एस.एस. रूपक	यूपीएसवीसी / 4865 / 08	गोपाल सदन, हुमायुंपुर, सौती, गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	7.6.83
2260	सालुमोलएस.एस., पुत्री श्री एम. ससिधरन	केरलएसवीसी / 3332 / 08	श्रीरंगु, मदवूर, मदवूर डाक, थिरुवनंतपुरम— 695602, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 8	31.5.84
2261	सालुंखे प्रवीन सुरेश	महाएसवीसी / 7883 / 07	ए / पी— भलवंत, तालुक पंढरपुर, जिला— सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	23.8.84
2262	सम्बासिवा रेड्डी, पुत्र श्री येरप्पा रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 4219 / 09	न. 12, प्रथम क्रॉस, स्नेह नगर, अमृथल्ली मेन रोड, बंगलौर— 560092, कर्नाटक	बीवीएससी / यू एसएस बंगलौर / 84	1.9.59

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2263	समीर कुमार मंडल, पुत्र श्री मुरलीधर मंडल	जेवीसी / 246 / 08	द्वारा एम.डी. मंडल, देवली, जंगलपुर, गोबिंद पुर, धनबाद— 828109, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/03	16.04.77
2264	समीर सहाय, पुत्र श्री गोपालजी सहाय	जेवीसी / 402 / 08	श्री जानकी निवास, बोड्डम बाजार, हजारीबाग— 825301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 1	15.08.75
2265	सम्राट बीर सिंह, पुत्र श्री परमिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2850/08	ग्राम एवं डाक— फतेहपुर, राजपुबलार, जिला— अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	14.6.84
2266	सनप नीलेश अरुणराव	महाएसवीसी/ 8035/08	बीड जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास (भूविकास) बैंक, पोखारी रोड, प्रशांत नगर, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड— 431517	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	03.06.84
2267	सनत कुमार नायक, पुत्र श्री युवराज सिंह नायक	सीजीएसवीसी / 360/08	ग्राम एवं डाक— नवरंगपुर, जिला— रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	12.9.80
2268	संदीप सरोत, पुत्र श्री पी.एस. सरोत	हरिएसवीसी/ 2057	260/28, सुभाष नगर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	18.9.82
2269	संदीप कासवान, पुत्र श्री सोहन लाल कासवान	राजएसवीसी/ 3475/08	1-75, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 8	30.6.83
2270	संदीप कुमार, पुत्र श्री बख्शीश सिंह	पीबीएसवीसी/ 2856/09	13, न्यू मॉडल टाउन, कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 03	5.12.82
2271	संदीप कुमार, पुत्र श्री शिव कुमार मदारिया	सीजीएसवीसी / 391/08	निर्मल साइकल स्टोर के निकट, पंचशील नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	25.6.81
2272	संदीप कुमार, पुत्र श्री तारा चंद	हरिएसवीसी/ 2089	2689/2, पटेल रोड, अम्बाला सिटी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/01	26.6.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2273	संदीप कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार	पीबीएसवीसी / 2813 / 08	म.न. 567, गली न. 2, सुभाष नगर, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच / जीएडीवी एसयू / 08	24.11.84
2274	संदीप कुमार शर्मा, पुत्र श्री जी.पी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 4821 / 08	नई बस्ती, म.न. 1080, झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 07	6.3.81
2275	संदीप कुमार शर्मा, पुत्र श्री गणेश प्रसाद शर्मा	राजएसवीसी / 3580 / 08	179, चेतक विहार, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 07	6.3.81
2276	संदीप शर्मा, पुत्र श्री जगदीश कुमार शर्मा	एचपीएसवीसी / 858 / 08	एमआईजी-79, वार्ड न. 7, एच.बी. कॉलोनी, हमीरपुर जिला, हमीरपुर, हि.प्र.- 177001	बीवीएससीएवंए एच / टीएनवीए एसयू / 08	7.2.85
2277	संदीप सिंह मेहमी, पुत्र श्री बलदेव सिंह	पीबीएसवीसी / 2794 / 08	ग्राम एवं डाक- मनगओनी, थाना- नाभा, जिला- पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच / जीएडीवी एसयू / 08	3.8.85
2278	संदीप तिवारी, पुत्र श्री भुवन चंद्र तिवारी	यूवीसी / 372 / 08	मौहल्ला थपलिया, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	7.4.85
2279	संदेश एम., पुत्र श्री मल्लेश पी.	कर्नाएसवीसी / 4111 / 08	एन. शेट्टाहल्ली ग्राम, रावनदूर डाक- 571108, पिरियापटना तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	12.11.85
2280	संध्या कुमारी, पुत्री श्री शत्रुघ्न प्रसाद अग्रवाल	जेवीसी / 548 / 09	भारत गैस शॉप, गोला, रामगढ़, हजारीबाग- 829210, झारखंड	बीवीएससी / टी एनवीएसयू / 04	12.05.79
2281	संगमेश मुनियप्पा नावर, पुत्र श्री प्रसप्पा	कर्नाएसवीसी / 4099 / 08	स्पेशल तहसीलदार ऑफिस, चेन्नमकिट्टूर डाक-591115, बैलाहोंगला, तालुक बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	9.6.85
2282	संगीता कुमार, पत्नी डॉ. कृष्ण कुमार	जेवीसी / 384 / 08	सहायक पोल्ट्री अधिकारी, रीदम, चियानकी, मेदीनगर, पलामू पिन- 822101, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 96	09.02.70

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2283	संगीता यादव, पुत्र श्री ए.के. यादव	हरिएसवीसी / 2048	एआर-5, अर्जुन नगर, तुर्कियावास रोड, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	22.8.85
2284	संगीता जाधव, पुत्री श्री रमेश जाधव	कर्नाएसवीसी / 4165 / 08	न. ए-11157, अशोक नीलया, जयानगर, मुधोल- 587313, मुधोल तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	9.7.85
2285	सनीम वी., पुत्र श्री अहमद कोया	केरलएसवीसी / 3465 / 09	सुमन हाउस, पुन्नासेरी डाक, कोज़ीकोड- 673585, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	20.5.84
2286	संजय बरूआ, पुत्र श्री रामहित शर्मा	हरिएसवीसी / 2082	वेटरिनरी टाइप कल्चर, एनआरसीई, सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 91	6.9.69
2287	संजय सी. मेलिनामनि, पुत्र श्री चंद्रशेखर	कर्नाएसवीसी / 4169 / 08	इंगलेश्वरा- 586235, बासवनबागेवाडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.5.86
2288	संजय गौतम, पुत्र श्री तिलक सिंह	एमपीएसवीसी / 2588 / 09	116 / 118, पंचशील नगर, मेला ग्राउंड के पीछे, गवालियर, म.प्र.- 474011	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 09	20.12.82
2289	संजय घोरारकर, पुत्री स्व. श्री अन्नाजी घोरारकर	जेवीसी / 551 / 09	बीएएचओ, बागे, सिमडेगा, पिन- 835201, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	18.08.66
2290	संजय खोइवाल खटीक, पुत्र श्री मेवालाल खोइवाल खटीक	राजएसवीसी / 3491 / 08	सांगानेरी गेट, प्रेम नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	30.6.81
2291	संजय कुमार चखियार, पुत्र स्व. श्री बिजय किशोर प्रसाद चखियार	जेवीसी / 098 / 08	बी / 3, विद्यानगर, हरमू, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	12.01.66

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2292	राजय कुमार, पुत्र श्री बभलेश्वरी राजय यादव	बीबीसी / 2784 / 08	ग्राम— घुथियारा, डाक— पठाहा, थाना—फूलीदुमार, राब—डिवीजन—बंका, जिला— बंका— 813102, बिहार	बीबीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू/06	30.12.82
2293	राजय कुमार, पुत्र श्री मलिक जाल	राजएसवीसी / 3583 / 08	द्वारा ए.पी. साहू, स्टाफ कॉलोनी, वेटेरिनरी कॉलेज, बीकानेर— 334001, राजस्थान	बीबीएससीएवं एच / आरएयू/ 08	1.3.76
2294	राजय कुमार, पुत्र श्री जगेश प्रसाद	जेपीसी / 379 / 08	आरवीओ, रांची, आर.डी. कार्यालय, रांची, एचईसी सेट — III, हटिया, रांची, झारखंड	बीबीएससीएवं एच / आरएयू/ 94	01.04.70
2295	राजय कुमार, पुत्र श्री जगजस चौधरी	जेपीसी / 379 / 08	म.न. 39, विकाशनगर, हेराग, हटिया, रांची— 834003, झारखंड	बीबीएससीएवं एच / बीएयू/9 6	30.7.70
2296	राजय कुमार, पुत्र श्री रामबहा साहू	जेपीसी / 379 / 08	एच. मधुकम रोड न. 2, चूना मट्टा के निकट, सुखदेव नगर, रांची— 834001, झारखंड	बीबीएससीएवं एच / बीएयू/9 4	04.03.65
2297	राजय कुमार शाम्भू, पुत्र श्री माताराम	एमपीएसवीसी / 2522 / 08	ग्राम— अलापुर, थाना जौरा, जिला— मोरैना— 473001, म.प्र.	बीबीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	9.3.79
2298	संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री सरदार शर्मा	सीजीएसवीसी / 420 / 08	श्री आर.सी. शर्मा (एडवोकेट) कॉलोनी, सूरजपुर, सुरगुरजा, छत्तीसगढ़	बीबीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 04—05	1.7.76
2299	संजय कुमार सिंघानिया, पुत्र श्री जे.आर. सिंघानिया	सीजीएसवीसी / 427 / 08	ग्राम एवं डाक— गंधई, थाना— चुईखदान, जिला— राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़	बीबीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 90—91	2.1.68
2300	संजय ओरांव, पुत्र श्री गंदीरा ओरांव	जेवीसी / 097 / 08	श्री गंदीरा ओरांव, चुंड, ब्रामवे, मंडेर, रांची, झारखंड	बीबीएससीएवं एच / सीएसयूए एंडटी / 04	24.07.78
2301	संजय सिंह तोमर, पुत्र श्री सिंह तोमर	यूपीएसवीसी / 4842 / 08	ग्राम— शियारी चेलापुर डाक, बिचावली, जिला— जालौन, उ.प्र.	बीबीएससीएवं एच / आईजीके वीयू / 05	6.5.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2302	संजीत कुमार सिंह, पुत्र श्री बृजनंदन सिंह	बीवीसी / 2850 / 07	ग्राम एवं डाक— अंडी (कछारी टोला), थाना— अस्थावन, सब— डिवीजन— बिहारशरीफ, जिला— नालंदा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 06	5.2.78
2303	संजीव कुमार वशिष्ठ, पुत्र श्री आर.एस. वशिष्ठ	यूपीएसवीसी / 4742 / 08	ग्राम— लालपुर, डाक— घरवारा, जिला— अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जीवीपीयू एण्डटी / 08	29.6.83
2304	संजीव कुमार झा, पुत्र श्रीरामचंद्र प्रसाद	बीवीसी / 2793 / 06	ग्राम— रामलखन कॉलोनी, भोलवा टोला, डाक व थाना जयनगर, सब—डिवीजन— जय नगर, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 06	24.6.76
2305	संजीव कुमार, पुत्र स्व. श्री बाल किशोर सिंह	जेवीसी / 564 / 09	बीएचओ, बिरनी, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 92	01.07.66
2306	संजीव कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	बीवीसी / 2948 / 08	ग्राम रजावाजार, दौलतपुर, डाक व थाना— जहानाबाद, जिला जहानाबाद— 804408, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 07	24.12.76
2307	संजीव कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद शर्मा	राजएसवीसी / 3559 / 08	द्वारा राजीव कुमार, के.के. दिवाकर, गर्ल्स स्कूल के निकट, सिविल लाइंस, अतरू, बाराण, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	1.6.78
2308	संजीव कुमार, पुत्र श्री आर.सी. प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2932 / 08	ग्राम— बेमबेर, डाक— तेरिया बेम्बेर, थाना— संग्रामपुर, जिला —मुंगेर— 811201, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	2.1.78
2309	संजीव कुमार, पुत्र श्री नारायण यादव	यूवीसी / 403 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), वी.एच. बचार, चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 07	1.10.80
2310	संजीव कुमार, पुत्र श्री सीता राम सिंह	जेवीसी / 474 / 09	टी.वी.ओ., जमुआ, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 99	22.08.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2311	संजीव कुमार शर्मा, पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा	जेवीसी / 333 / 08	टीवीओ, बिरनी गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 01	05.11.73
2312	संजीव कुमार सिंह, पुत्र श्री चितरंजन सिंह	जेवीसी / 491 / 09	मरवानिया, नगर उंतारी, गढ़वा -822128, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 86	08.01.71
2313	संजीव कुमार, पुत्र श्री निरंजन प्रसाद ओझा	जेवीसी / 189 / 08	पूटकी बाजार, कुसुंदा, पूटकी, धनबाद- 828116, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 00	8.12.76
2314	संजीव रंजन, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद	बीवीसी / 2965 / 08	ग्राम- भौसासुर, डाक व थाना- बिहार शरीफ, जिला- नालंदा- 803101, बिहार	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 07	1.3.80
2315	संजीव शर्मा, पुत्र श्री रतिराम शर्मा	राजएसवीसी / 3532 / 08	23, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 03	11.12.76
2316	संजीव यादव, पुत्र श्री बाबूलाल	एमपीएसवीसी / 2549 / 08	बानपुर दरवाजा, गायत्री मंदिर रोड, टीकमगढ़- 4725001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	14.6.81
2317	संजीव कुमार लालसंगी, पुत्र श्री विठोबा	कर्नाएसवीसी / 4177 / 08	विद्या नगर, सिंदगी रोड, इंडी- 586209, इंडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	7.8.85
2318	संजीव कुमार एस. निमाकौदार, पुत्र श्री संगप्पा	कर्नाएसवीसी / 4131 / 08	मुदाल्गी- 591312, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.2.85
2319	संजीव कुमार, पुत्र डॉ. जयदेव मंडल	जेवीसी / 465 / 09	अरसनडे, कनके, रांची- 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 8 9	05.01.59
2320	संजीव मिश्रा, पुत्र डॉ. भवानी शंकर मिश्रा	उडीसाएसवीसी / 2212 / 08	एटी फारेट पदा, वार्ड न. 10, डाक- बारीपदा, जिला- मयूरभंज- 757001, उडीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएएंड टी / 08	25.8.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2321	संजीत कुमार, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद	जेवीसी / 437 / 08	द्वारा लक्ष्मी चंद प्रसाद, कुजलाल स्ट्रीट, कोतवाली, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	16.01.82
2322	संजीव कुमार, पुत्र डॉ. राम रहस्य सिंह	जेवीसी / 516 / 09	टीवीओ पटामदा, जमशेदपुर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	01.01.72
2323	संजीव कुमार, पुत्र श्री बैजू प्रसाद	जेवीसी / 371 / 08	अदलहओ, बरियातु, रांची— 834008	बीवीएससीएवं एच / सीएसयू एंडटी / 01	21.02.74
2324	संजुला कुमारी, पत्नी श्री हेमंत कुमार	जेवीसी / 480 / 09	आदित्यपुर—2, गमहारिया, सरायकेला, खरशवा, पिन— 831013, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 01	05.08.73
2325	संयोग राय	सिक्किम / 86 / 08	द्वारा सीमा राय, मिखोला बस्ती, नामची, दक्षिणी सिक्किम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू / 08	
2326	सन्नाबीरप्पा सन्नापुट्टाकनवार, पुत्र श्री शिदप्पा	कर्नाएसवीसी / 4191 / 08	हीरेलिंगाडल्ली, कुरुबगोंडा डाक— 581154, हावेरी तालुक एवं जिला कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	10.6.85
2327	संत कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता	सीजीएसवीसी / 400 / 08	ग्राम एवं डाक— बटवाली, थाना — सीतापुर, जिला— सरगुजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06—07	12.1.82
2328	संत कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री पुखराज सिंह	जेवीसी / 356 / 08	अरसनडे, ब्लॉक चौक, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 72	16.07.50
2329	संतोष अरविंद सज्जन, पुत्र श्री अरविंद सज्जन	कर्नाएसवीसी / 4156 / 08	कुदारी, सलवाडगी— 586208, बसावनबागेवाडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	30.7.84
2330	संतोष के.एम., पुत्र श्री सोम शेखरइयाह के.एम.	कर्नाएसवीसी / 4128 / 08	मेन रोड, खानाहोसाहल्ली— 583218, कुडलिगी तालुक, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.06.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2331	संतोष करबेरामन्नानवर, पुत्र श्री हमन्थप्पा	कर्नाएसवीसी / 4160 / 08	इब्राहिमपुर- 582208, नवलगुड तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	29.5.84
2332	संतोष कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल	जेवीसी / 573 / 09	छिपाडोहर, बरवाडीह, लाटेहर- 829204, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 01	03.01.73
2333	संतोष कुमार वर्मा, पुत्र श्री सी.पी. वर्मा	यूपीएसवीसी / 4824 / 08	ग्राम- ओसानी, बुजुरु (कियूताहिया), डाक- इसलामिया, जिला- गोंडा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीबीवी / 08	23.8.83
2334	संतोष कुमार, पुत्र श्री महेंद्र सधान	बीवीसी / 2790 / 06	ग्राम- वार्ड न. 1, डाक व थाना - जयनगर, जिला- मधुबनी- 847226, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 6	5.6.77
2335	संतोष कुमार, पुत्र श्री युगेश्वरी राम	जेवीसी / 329 / 08	द्वारा डॉ. संतोष कुमार, सुडना, डाल्टनगंज, पलामू- 822101, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	05.01.69
2336	संतोष कुमार शिवहरे, पुत्र श्री आर.एस. शिवहरे	एमपीएसवीसी / 2514 / 08	ग्राम एवं डाक- सुजाराम, थाना- केलारस, जिला- मोरैना- 476225, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	10.7.77
2337	संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री महेंद्र महतो	बीवीसी / 2955 / 08	ग्राम- महेशपुर, डाक व थाना पिटी बाजार (महेशपुर), जिला- लखीसराय- 811112, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 7	1.3.79
2338	संतोष कुमार, पुत्र श्री अमरेंद्र नारायण यादव	जेवीसी / 028 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, टीनापुर, साहेबगंज, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएससी / 02	01.01.79
2339	संतोष मरांडी, पुत्र श्री दासो मरांडी	जेवीसी / 430 / 08	कुमारपुर, बारतल्ला, रंगा, राजमहल साहिबगंज- 816119, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 05	19.10.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2340	संतोष प्रसाद सिंह, पुत्र श्री नंद किशोर सिंह	बीवीसी / 2764 / 06	ग्राम— अथगामा, डाक अकीदत पुर, थाना खरीक बाजार, सब— डिवीज़न— नौगछिया, जिला— भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	2.10.78
2341	संतोष रावानी, पुत्र श्री कलाचंद रावानी	जेवीसी / 585 / 09	छोटा नगरी, तेतुलमारी, बाघमारा, धनबाद— 828121, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 04	03.02.78
2342	संतोषी टोप्पो, पुत्र श्री मोहन टोप्पो	जेवीसी / 226 / 08	द्वारा श्री मोहन टोप्पो, मधुबन टोली, लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 89	20.12.63
2343	सरद बांगरी, पुत्र श्री के.एस. बांगरी	यूवीसी / 407 / 08	नई बस्ती, विजय नगर, कोटोरताल, काशीपुर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएंडटी / 08	19.3.85
2344	सारण्य एम.जी., पुत्र श्री गोनिंदन कुट्टी	केरलएसवीसी / 3433 / 09	मट्टापल्ली हाउस, कनीरमपट्टम डाक, अर्नाकुलम— 682315, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	18.12.84
2345	सारदा परिहार, पुत्र श्री सुधीर परिहार	सीजीएसवीसी / 421 / 08	मौहल्ला पुलिस स्टेशन के निकट, महासन गंज, विलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी / 05—06	6.5.87
2346	सरुराज अली, पुत्र श्री सुलेमान अंसारी	यूपीएसवीसी / 4895 / 09	ग्राम— नरही (नगरवाया नागरा ते राओदा), जिला— बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी / 08	29.6.79
2347	सारिका राय, पुत्री श्री आर.बी. सिंह	यूपीएसवीसी / 4878 / 08	ग्राम एवं डाक— धानपुर, जिला— देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	1.3.83
2348	सारीप्रभा पी., पुत्री श्री प्रभाकरन सी.	केरलएसवीसी / 3347 / 08	श्री कृपा, परनकिमा विला वीडू, कक्कमूला, कल्लियूर डाक, थिरुवनंतपुरम— 695042, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	30.5.84
2349	सरिता देवी, पुत्री श्री लाल चंद	यूपीएसवीसी / 4866 / 08	ग्राम एवं डाक— बाघान, थाना— चुनार, मिज़पुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/एसडीएयू / 06	30.1.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2350	सरिता कनकोरिया, पुत्री श्री एस.सी. लाल कनकोरिया	यूपीएसवीसी / 4896 / 09	ग्राम एवं डाक— सिंघनपुर बघार, जिला— महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 05	12.2.79
2351	सरिथा थंकचन, पुत्री श्री पी. थंकचन	केरलएसवीसी / 3483 / 09	पेनियल होम, वालीजू नगर, म. न. 127, पूवनचुज़ा, कावानाड डाक, कोल्लम— 691003, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू/ 09	19.12.83
2352	सर्मा जॉय प्रकाश, पुत्र श्री सर्वेश्वर सर्मा	एएसएम / 2383 / 08	गाम— बराठियाबारी, डाक— दिधीरपुर, जिला— दारंग, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	13.12.83
2353	सरोज कुमार, पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद	जेवीसी / 214 / 08	टी.वी.ओ. चंदवार, हज़ारीबाग— 825301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 9 6	02.12.68
2354	सरोज कुमार साहू, पुत्र श्री एस. किशोर चंद्र साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2229 / 08	एटी / डाक— तैनसर, वाया— पूर्णगढ़, जिला— देवगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 08	4.7.83
2355	सरोज कुमार ठाकुर, पुत्र डॉ. दिनेश कांत ठाकुर	जेवीसी / 412 / 08	अरसनडे, बोरैया, कनके, रांची, पिन— 835240, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	09.12.75
2356	सरोज मीना, पत्नी डॉ. प्रेम शंकर मीना	राजएसवीसी / 3523 / 08	म.न. 990, महावीर नगर— II, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	22.2.82
2357	सरपे स्वप्न भुज राय	महाएसवीसी / 8047 / 08	“स्वप्न” जायकवाड़ी रोड, पार्वती नगर, शिंदे माला, परभनी— 431401	बीवीएससीएवं एच / एमएफ एसयू / 08	31.03.84
2358	श्रवणन आर., पुत्र श्री रामचंद्रन ए.	एएंडएनएसवी सी / 96 / 08	द्वारा कौशलया एजेंसी, पंचायत जंक्शन के सामने, गढ़घरामा II, पोर्ट ब्लेयर— 744105	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	16.4.82
2359	सर्वजीत कुमार, पुत्र श्री राम शंकर प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2744 / 06	ग्राम एवं डाक— दयालपुर, थाना— राजापकार (हाजीपुर), सब—डिवीज़न— हाजीपुर, जिला—वैशाली, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एएनजीअ रएयू / 05	26.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2360	शशांक सिन्हा, पुत्र श्री राधा रमन प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2770 / 06	ग्राम— कैलाश नगर, शिवपुरी, सब—डिवीजन— शास्त्रीनगर, पटना सदर, जिला— पटना— 800023, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एसकेयूए एसएंडटी / 06	6.12.80
2361	शशि भूषण कुमार आनंद, पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह	बीवीसी / 2882 / 07	ग्राम— कुसुम कॉलोनी, स्टेशन रोड, हिलसा, डाक व थाना हिलसा, जिला— नालंदा— 801302, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	1.3.77
2362	शशि भूषण कुमार, पुत्र श्री बिश्वनाथ प्रसाद गुप्ता	बीवीसी / 2872 / 07	ग्राम— सीतलपुर— कमालपुर, डाक व थाना— बिदुपुर बाजार, सब—डिवीजन— हाजीपुर, जिला— वैशाली, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 07	3.2.79
2363	शशि भूषण प्रसाद, पुत्र श्री जयबीर प्रसाद साहू	बीवीसी / 2861 / 07	ग्राम एवं डाक— भकुआ, थाना खजौली, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 07	23.12.78
2364	शशि भूषण, पुत्र श्री राम स्वार्थ प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2813 / 06	ग्राम— शिवनगर, डाक व थाना नवादा, सब—डिवीजन— नवादा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / केए एंडएफएसयू / 05	1.2.80
2365	शशि शेखर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री रामजी सिंह	बीवीसी / 2924 / 08	ग्राम— मलवान, डाक— आब्दाचक, थाना— अस्थावन, बिहार शरीफ, जिला— नालंदा— 803101, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	1.3.80
2366	सशिटोला ओजुकुम, पुत्र श्री मापु ओजुकुम	एनएसवीसी / 236 / 08	पी.आर. हिल, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच / सीएयू / 0 8	27.3.85
2367	सतबीर सिंह डागर, पुत्र श्री भवर सिंह डागर	यूपीएसवीसी / 4760 / 08	78, मनसा पुरी कॉलोनी, कृष्णा नगर, मथुरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	25.3.84
2368	सतेंदर शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	राजएसवीसी / 3558 / 08	वार्ड न. 3, चनानिया चौक के सामने, पिलानी, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	30.10.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2369	साहे तेजस्विनी राजानन	महाएनवीसी/ 8106/08	सरस्वती सोसा., बिल्डिंग नं. 1, फ्लैट नं. 4, महाराष्ट्र नगर, पोखरन रोड 2, जिला थाणे— 400601	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	11.10.85
2370	शशीश कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बीवीसी/2780 /06	ग्राम—रामगंज, डाक— संसारपुर, थाना— खगरिया, सब—डिवीजन खगरिया— 951214, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एनडीयूए एंडटी/06	4.2.80
2371	सत्य नारायण तिवारी, पुत्र स्व. श्री राजेंद्र दत्ता तिवारी	जेवीसी/198 /08	सहायक निदेशक (पोल्ट्री), गवर्न. पोल्ट्री फार्म, सेक्टर-12, जोकारो— 827012, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरयू/6 8	14.07.49
2372	सत्यप्रकाश अरुण, पुत्र श्री सुक्ताधारी काशवान	बीवीसी/2960 /08	ग्राम एवं डाक— कहारा, थाना— मनीगाछी, जिला— दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /07	1.3.81
2373	सत्य प्रिय गौतम भल्ला, पुत्र श्री प्रीतम कु. भल्ला	यूवीसी/347 /08	ग.न. - 3, पुराना आवास विकास, कशीपुर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/0 8	23.1.80
2374	सत्यजय करकेटा, पुत्र श्री फिलिप करकेटा	जेवीसी/198 /08	द्वारा श्री फिलिप करकेटा, सिकरिया, भंडारिया, गढ़वा— 822125, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/9 4	08.10.69
2375	सत्यलक्ष्मी बेहेरा, पुत्र श्री श्वेता कुमार बेहेरा	उडीसाएसवीसी /2217/08	ग्राम— कयीपुर, डाक— निरकारपुर, थाना— जनका, जिला— खुरदिया, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	23.9.85
2376	सत्यम कुमार, पुत्र श्री सुधांशु कुमार सिंह	बीवीसी/2962 /08	ग्राम एवं डाक— खरिया, थाना हवेली खरगपुर, सब—डिवीजन सदर मुंगेर, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एसवीवीयू /07	1.4.82
2377	सत्य नारायण जेना, पुत्र श्री अक्षय कुमार जेना	उडीसाएसवीसी /2243/08	एटी— श्रीबंतपुर, डाक— बरत, जिला— भद्रक— 756114, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	14.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2378	सत्येंद्र कुमार चौधरी, पुत्र श्री लक्ष्मेश्वर चौधरी	जेवीसी / 569 / 09	द्वारा डॉ. बी.के. रॉय, प्रोफे. फार्मेकोलॉजी, आरवीसी, कनक, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 00	05.05.74
2379	सत्येंद्र कुमार, पुत्र श्री नाथूनी राम	बीवीसी / 2897 / 07	ग्राम—झाड़वर टोला, लाल कोठी रोड, गणेश भवन के निकट, डाक व थाना— कटिहर, जिला कटिहर— 854105, बिहार	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 07	16.09
2380	सत्येंद्र कुमार, पुत्र श्री रामदेव प्रसाद बर्नवाल	जेवीसी / 443 / 08	भलवाटाड, डोमचांच, कोडर्मा— 825418, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / एसकेयूए एसएंडटी / 08	01.03.80
2381	सत्येंद्र नारायण, पुत्र श्री श्याम किशोर शर्मा	जेवीसी / 268 / 08	बी.ए.एच.ओ., निरसा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 94	04.01.68
2382	सौरभ आनंद, पुत्र श्री सच्चिदानंद सिंह	जेवीसी / 245 / 08	टी.वी.ओ., जयनगर, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / जेएनकेवी वी / 05	21.12.80
2383	सौरभ चावला, पुत्र श्री बी.एस. चावला	एचपीएसवीसी / 827 / 08	भवानी निवास, म.न. 118, सनी साइड, सोलन, हि.प्र.— 173212	बीवीएससीएवंएच / सीएसके केवीवी / 03	1.12.83
2384	सौरभ कुमार सिंघल, पुत्र श्री डी. के. सिंघल	यूपीएसवीसी / 4852 / 08	गांधी चौक बाजार, महरोनी, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंएच / जेएलके वीवी / 08	26.6.83
2385	सौरभ कुमार, पुत्र स्व. श्री समीर मोहन कुमार	जेवीसी / 151 / 08	द्वारा श्री मदन मोहन कुमार, दुंगरी, चाईबासा, पश्चिमी सिंघभूम— 833201, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / डब्ल्यूबीयू एएफएससी / 02	15.07.78
2386	सौरभ शर्मा, पुत्र श्री ईश्वर दास शर्मा	एचपीएसवीसी / 854 / 08	ग्राम एवं डाक— डांगरी, थाना— नादौन, जिला— हमीरपुर, हि.प्र.— 177033	बीवीएससीएवंएच / सीएसके केवीवी / 08	23.6.81
2387	सौरव पॉल, पुत्र श्री गोपाल कुमार पॉल	जेवीसी / 291 / 08	द्वारा श्री गोपाल कुमार पॉल, रानीपोखर, बैदमारा, हेरला, सेक्टर— 9, चास, बोकारो— 827009, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 08	03.02.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2388	सावन कुमार, पुत्र श्री महक सिंह	यूवीसी / 352 / 08	वी.ओ., सतपाली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 01	20.12.79
2389	सविथा एस. टी., पुत्री श्री तुलसी रामू	कर्नाएसवीसी / 4212 / 08	सप्तगिरि नीलया, कामागोंडानाहल्ली, पूट्टनायकानाहल्ली, सिरा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.12.84
2390	सावंत प्रदीप महादेव	महाएसवीसी / 7906 / 07	ए / पी— मजनाल, तालुक— पनहाला, जिला— कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	18.6.84
2391	सावंत संजय पांडुरंग	महाएसवीसी / 7905 / 07	सुमेध नगर, तारोडा नाका, पूरन रोड, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	4.9.82
2392	स्वतंत्र कुमार, पुत्र श्री विद्या प्रकाश	पीवीएसवीसी / 299 / 08	49, बुधराम कॉलोनी, मेल रोड, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / पीएयू / 7 7	15.8.55
2393	सैथ्यद कमरुज्जमन महबूब अली	महाएसवीसी / 7766 / 07	एटी— मलवानी, 19 / 354—ए, गेट न.—5, मलाड (प.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	24.3.83
2394	सेवा पालित, पुत्री श्री अजीत कुमार पालित	जेवीसी / 351 / 08	किलबर्न कॉलोनी, हिन्नु, डोरांडा, रांची— 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 9 9	12.01.70
2395	सीमा अग्रवाल, पत्नी डॉ. सुभाष चंद्र	जेवीसी / 410 / 08	33, ए.जी. कॉलोनी, कडूरी, रांची— 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	01.10.76
2396	सेलोकर नरेश लालजी	महाएसवीसी / 7751 / 07	द्वारा लाला नारायण सेलोकर, ए / पी— अंधलगांव, तालुक— मोहादी, जिला—भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	12.6.84
2397	सेलवा कुमार वी, पुत्र श्री वसंथ कुमार	केरलएसवीसी / 3416 / 09	कृष्णा भवन (एच), ठाकुरपारा (डाक), चिथिरापुरम जिला, इडुक्की, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 9	9.12.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2398	सेंगबत साका मोमिन, पुत्र श्री जी. डी. शिरा	मेघएसवीसी / 259 / 08	सम्पलगे, तुरा— 794002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	12.1.79
2399	सेवांकर चंद्रकांत बालाजी	महाएसवीसी / 8019 / 08	शिवकल्याण नगर, तालुक लोहा, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	09.05.84
2400	श्याबारीश एस., पुत्र श्री एम. संकरन	केरलएसवीसी / 3417 / 09	“हरिश्री” थेवांगडी, अम्बालापदी डाक, एरानहिवकल, कालीकट— 673303, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	13.6.86
2401	शेख नूरमहम्मद शेख रहीम शेख	महाएसवीसी / 7962 / 08	शांति निकेतन कॉलोनी, गंगाखेड रोड, परभनी, जिला— परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	09.07.83
2402	शेख समीर मौह. राजोद्दीन	महाएसवीसी / 7913 / 07	ए/पी रुईछत्रपति, तालुक— पारनेर, जिला— अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	31.5.85
2403	शेख गुलाम मुखादीर गुलाम दस्तगीर	महाएसवीसी / 8040 / 08	सूर्योदय नगर, तारोडा (ब्लॉक), तालुक व जिला नांदेड— 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	07.10.85
2404	शेख तारेख शेख फतेउल्ला	महाएसवीसी / 8022 / 08	अहमदिया मस्जिद के निकट, बीड मामला, मोमिनपुरा, बीड— 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	26.06.83
2405	शैलेंद्र कुमार ठाकुर, पुत्र श्री सत्यदेव ठाकुर	जेवीसी / 395 / 08	बीएचओ, कृषि नगर, बूटी, रांची— 835217, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 92	04.03.63
2406	शैलेंद्र कुमार तिवारी, पुत्र श्री परशुराम तिवारी	जेवीसी / 306 / 08	टीवीओ बीबंकी, डाक अरकी, जिला— खुंटी, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 03	01.03.77
2407	शैलेंद्र वशिष्ठ, पुत्र श्री बाबू राम शर्मा	यूवीसी / 437 / 08	वीओ, वेटरिनरी हॉस्पिटल एंकलेव, जी.एम.एस. रोड, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एंडटी / 00	11.10.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2408	शैलेश कुमार, पुत्र श्री रूप नारायण झा	बीवीसी / 2818 / 06	ग्राम- सरहद, डाक- लोहात, थाना- पंडौल, सब-डिवीजन- सदर, मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आईजीए यू/05	9.11.80
2409	शक्ति प्रकाश साहू, पुत्र श्री प्रहलाद चंद्र साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2230 / 08	एटी/डण- टांगरपदा, वाया- स्वामपटना, केओन्झर, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	8.9.83
2410	शालिनी श्रीवास्तव, पुत्री श्री ए.के. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी / 4759 / 08	महादेव मंदिर के निकट, ग्राम- छवानी, डाक- पदरौना, जिला - कुशीनगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी/08	23.7.85
2411	शलमाली, पुत्री श्री चंदा पाल कश्यप	एचपीएसवीसी / 848 / 08	ग्राम- बंदाल, डाक- खोडा, थाना- सरकाघाट, जिला- मंडी, हि.प्र.- 175024	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/ 08	18.10.83
2412	शाम सुंदर लाल तिवारी, पुत्र श्री विद्या प्रकाश तिवारी	एचपीएसवीसी / 859 / 08	वेट्स फार्मर्स लि., ग्राम- दौलतपुर, डाक- खाड, थाना व जिला- उना, हि.प्र.- 177207	बीवीएससीएवं एच/पीएयू/ 70	2.5.47
2413	शाम सुंदर लाल तिवारी, पुत्र श्री विद्या प्रकाश तिवारी	पीबीएसवीसी / 314 / 08	1196, अर्बन एस्टेट, फेज-1, जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/पीएयू/ 70	2.5.47
2414	शमशेर सिंह, पुत्र श्री सतबीर सिंह	हरिएसवीसी / 2042	ग्राम- मायी, डाक- हुडियन, जिला- महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	5.1.85
2415	शानबाग प्रीति देवराया	महाएसवीसी / 7790 / 07	म.न. ई-15, कर्नाटक बिल्डिंग, मोगल लेन, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	10.6.84
2416	शंकर सिंह, पुत्र श्री श्रीरानी सिंह	जेवीसी / 570 / 09	टीवीओ, दलाही, मसालिया, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 00	10.10.75
2417	शंकर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री ठाकुर प्रसाद	जेवीसी / 354 / 08	प्रबंधक, सुअर प्रजनन केंद्र, कनके, रांची- 834007, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 91	14.01.64

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2418	शंकर टुडु, पुत्र श्री बाबू राम टुडु	जेवीसी / 418 / 08	भुरकुंडी, पलजोरी, मधुपुर, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 0 1	06.01.75
2419	शंकुमार मूयोतू, पुत्र श्री कुन्हीकन्नन	केरलएसवीसी / 3341 / 08	मूयोतू हाउस, डाक— पोनमेरी पराम्बिल, वडकारा— 673542, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 0 8	26.4.84
2420	शरद मिश्रा, पुत्र श्री वाई. मिश्रा	सीजीएसवीसी / 346 / 07	एस—27, सेक्टर—2, अवन्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 88	1.11.63
2421	शरनबासव बादामी, पुत्र श्री सिद्दरामप्पा	कर्नाएसवीसी / 4187 / 08	मिनि विधान सौधा के सामने, नवलगौडा— 582208, धारवाड़ जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.7.84
2422	शारदा सुमन, पुत्र श्री बिष्णु प्रसाद चौधरी	जेवीसी / 148 / 08	द्वारा श्री बिष्णु प्रसाद चौधरी, पूरनदाहा, देवघर— 814112, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / श्री वेंकटेश्वर प.चि. विवि / 06	19.10.79
2423	शर्मा दिशा सोहन	महाएसवीसी / 7772 / 07	102, नीलगिरि अपार्टमेंट फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	1.8.84
2424	शर्मा कपिल शंकरलाल	महाएसवीसी / 7904 / 07	76 / 6, एन—9, के—सेक्टर, पवन नगर, हुडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	11.9.83
2425	शर्मा मानव, पुत्र श्री सुरेश च. शर्मा	एएसएम / 2409 / 08	रंगिा वार्ड न. 6, अरबिक कॉलेज, साउथ साइड, कामरूप, असम	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	5.11.84
2426	शर्मा पापोरी, पुत्र श्री पबित्र कुमार शर्मा	एएसएम / 239 9 / 08	म.न. 199, राजीब गांधी पथ, शानापाड़ा, गुवाहाटी— 781022, असम	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 08	2.02.86
2427	शशि भूषण प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री बांके बिहारी	जेवीसी / 523 / 09	304, आकांक्षा अपार्टमेंट, कांता टोली, रांची— 834001, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 92	19.01.66

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2428	शशि सिन्हा, पुत्री श्री बी.पी. सिन्हा	जेवीसी / 374 / 08	नॉर्थ कुसई (आश्रय), दोरांडा, रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 02	24.03.77
2429	शशिकांत आर. कौजाल्जी, पुत्र श्री रामप्पा कौजाल्जी	कर्नाएसवीसी / 4215 / 09	प्लॉट न. 36, विवेकानंद नगर, 5वां क्रॉस, गोकक- 591307, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / ने कीतूक / 85	1.6.66
2430	शीबा अब्राहम पट्टूर, पुत्री श्री वेवीकुट्टी अब्राहम	केरलएसवीसी / 3380 / 08	पट्टूर विला, नादुविलेक्कारा, थेवलक्कारा डाक, कोल्लम- 690524, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	8.2.83
2431	शीतल सिंह, पुत्र श्री बिशन सिंह	पीवीएसवीसी / 2791 / 08	ग्राम- माखा, डाक- उमरपुर, जिला- होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीए डीवीएसयू / 0 8	13.2.85
2432	शीतल पंत, पुत्री श्री पी.सी. पंत	यूवीसी / 401 / 08	5 / 154, नवाबी रोड, मल्ला गोरखपुर, हलद्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	12.12.83
2433	शहरवान पी.एम., पुत्री श्री पी.के. मोहम्मद	केरलएसवीसी / 3447 / 09	पुजक्कारा हाउस, वडाक्केपुरम कावाडु रोड, कलमसेरी डाक, अर्नाकुलम- 683104, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	9.10.84
2434	शेख नदीमुद्दीन गफफारभाई	गुजएसवीसी / 2926 / 08	पुलिस ऑफिसर्स फ्लैट्स, ए-1, पुराना पाडरा रोड, अकोला, बडौदा, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	12.11.85
2435	शैल कुमारी श्रीवास, पुत्र श्री रामनिवास श्रीवास	सीजीएसवीसी / 370 / 08	ग्राम एवं डाक- भटगांव, थाना- भिलईगढ़, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06-07	11.2.82
2436	शेल्के हनुमंत सुदामराव	महाएसवीसी / 7875 / 07	एटी- हिंगोली, डाक- टकालसिंग, तालुक- अष्टी, जिला- बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	25.7.83
2437	शिव कुमार वर्मा, पुत्र स्व. श्री रशमय साओ	जेवीसी / 378 / 08	असंगी, आदित्यपुर इंड. एरिया, गमहारिया, सेरईकेला खरसावान- 832109, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 96	01.02.68

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2438	शेरसिया शिराज महमदभाई	गुजएसवीसी / 2927 / 08	मीरुमियाबावा की दरगाह के सामने, लक्ष्मीपुरा, वानकानेर, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	20.11.84
2439	शेरिन इब्राहीम, पुत्र श्री वी.पी. इब्राहीम	केरलएसवीसी / 3418 / 09	वलजट्टिल हाउस, इडेरीकापुजाह डाक, कंगाज़ा, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	8.10.83
2440	शिबिन जे.एस., पुत्र श्री एम. जॉनसन	केरलएसवीसी / 3322 / 08	ल्युमेन डेल, वलाथंकारा, चौकल डाक, थिरुवनंतपुरम—695132, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	27.5.81
2441	शिहास बी., पुत्र श्री ई.एम. बशीर	केरलएसवीसी / 3315 / 08	मेदायिल पाडिनजटाथिल, मनायिल कुलंगारा, कोल्लम, थिरुमुल्लावरम डाक, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	28.12.83
2442	शिल्पी अनुपमा मिंज, पुत्री श्री सुशील कु. मिंज	जेवीसी / 209 / 08	किलगा, कोनबीर— नवाटोली, बसिया, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 05	26.07.78
2443	शिमि राजन, पुत्री श्री राजन जोस	केरलएसवीसी / 3419 / 09	पंजाकिल हाउस, कुराविलंगड डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	18.8.83
2444	शिंदे दत्ता तुकाराम	महाएसवीसी / 7924 / 08	एटी— मेदशिगी, तालुक—संगोला, जिला— सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / डॉ.बी एसकेकेवी / 01	15.8.77
2445	शिंदे ऋषिकेश दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 8118 / 08	एटी / डाक— जौलाके खुर्द, तालुक खेड, जिला— पुणे—410505, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	22.9.85
2446	शाइनी एम., पुत्री श्री आर.पी. दामोदरन	केरलएसवीसी / 3431 / 09	श्रीदेवी नीलायम, नयट्टुपारा, पट्टानूर (डाक), कन्नूर—670595, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	24.6.84
2447	शिरास ए., पुत्र श्री अम्साथुकुट्टी ए.	केरलएसवीसी / 3318 / 08	कोचुथुंडिल हाउस, मयनागपल्ली डाक, कोल्लम—690519, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	18.3.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2448	शिव कुमार, पुत्र श्री रामजी मेहता	बीवीसी / 2788 / 06	ग्राम एवं डाक— बाबू अमौना, थाना— दाउद नगर, सब— डिवीजन— दाउदनगर, जिला— औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू / 06	15.1.78
2449	शिव कुमार, पुत्र श्री रणजी मेहता	यूवीसी / 420 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (टेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, चोपटा, जिला— रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एफएस / 06	15.1.78
2450	शिव कुमार शर्मा, पुत्र श्री के.सी. शर्मा	एमपीएसवीसी / 2577 / 09	435, हरगोविंद पुरम, सिटी सेंटर, ग्वालियर— 474011, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 05	21.8.80
2451	शिव कुमार तिवारी, पुत्र स्व. श्री बाबूलाल तिवारी	यूवीसी / 429 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (टेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, गोंडियतगांव, उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 01	15.1.71
2452	शिव प्रताप सिंह, पुत्र श्री शत्रोहण प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4868 / 08	3ए / 51, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	10.8.78
2453	शिव शंकर पाल, पुत्र श्री भैरब नाथ पाल	बीवीसी / 2890 / 07	ग्रा— नाट, डाक— उमरपुर, थाना— बक्सर, जिला— बक्सर, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / एएयू / 0 7	26.11.81
2454	शिव शंकर सिंह, पुत्र स्व. श्री सुखी सिंह	जेवीसी / 561 / 09	प्रबंधक, सरकारी मवेशी फार्म, गौरिया कर्मा, बढी, हजारीबाग — 825405, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 72	06.07.49
2455	शिव कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम शकारी शर्मा	जेवीसी / 237 / 08	शिव दुर्गा मंदिर लेन, रातू रोड, सुखदेव, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 79	11.01.54
2456	शिवानंद कुम्बर, पुत्र श्री सिद्धरामप्पा	कर्नाएसवीसी / 4179 / 08	कुम्बारा स्ट्रीट, रबकावी— 587314, जामखंडी तालुक, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	5.7.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2457	शिवप्पा नायक एच. बी., पुत्र श्री बासवराजू एच.के.	कर्नाएसवीसी / 4148 / 08	होन्नेबागी, डाक व ग्राम— 572214, चिक्कनायकानाहल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	15.12.85
2458	शिवेश कुमार देशमुख, पुत्र श्री केशव किशोर देशमुख	सीजीएसवीसी / 440 / 09	ग्राम— डोंडेलाहारा, जिला— दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 07-08	9.6.85
2459	शिवंकर अजय संजय	महाएसवीसी / 7958 / 08	एटी— केलजारा (ग्राम), डाक सावाली (एस), तालुक अर्नी, जिला यवतमाल— 445106, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	29.1.84
2460	शोभा कांत पाठक, पुत्र स्व. श्री राम चंद्र पाठक	जेवीसी / 274 / 08	(साहो, रांची), कनके, रांची, पिन— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 80	02.01.55
2461	शोभामनि मरंडी, पत्नी श्री रणजीत कुमार हंसदा	जेवीसी / 390 / 08	श्याम सुंदरपुर, झलक, राजनगर, सरायकेला— खरसवान, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 97	06.09.72
2462	श्रद्धा शिंगडे, पुत्री श्री डी.यू. शिंगडे	एमपीएसवीसी / 2554 / 08	म.न. 4110 / 5 बी, अम्बेडकर कॉलोनी, अधरताल, जबलपुर— 482004, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	18.8.82
2463	श्रवंकर प्रीति रघुनाथराव	महाएसवीसी / 8123 / 08	जे.एन. रोड, काम्पटी, जिला— नागपुर— 441002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	04.07.85
2464	श्रीनिवास सिंह, पुत्र श्री चंद्र भूषण सिंह	जेवीसी / 243 / 08	टी.वी.ओ., पिंडराजोरा, बोकारो, झारखंड	बीवीएससी / टी एएनयूवीएस / 05	10.02.82
2465	श्रेया सिन्हा, पुत्र श्री विनय कुमार सिन्हा	जेवीसी / 580 / 09	अरसनडे, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 01	01.01.76
2466	श्री कांत शर्मा, पुत्र श्री हरकेश शर्मा	हरिएसवीसी / 2080	63, फ्रैंड्स कॉलोनी, हिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / इन / 74	28.3.52

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2467	श्री राम महला, पुत्र श्री बनवारी लाल	राजएसवीसी / 3552 / 08	ग्राम एवं डाक- दूमरा, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	1.7.81
2468	श्रीकांत रामदास बरबूडे, रामदास चम्पतराव बरबूडे	जेवीसी / 546 / 09	टीवीओ, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, प. सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / पीआरके वीवी / 90	27.06.69
2469	श्रीति चौधरी, पुत्र श्री दिलीप कुमार चौधरी	जेवीसी / 210 / 08	द्वारा श्री दिलीप कुमार चौधरी, खुंटी, कारा रोड, खुंटी, रांची- 835210, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 04	28.07.79
2470	श्रीफ सागर ईश्वर लाल	गुजएसवीसी / 2928 / 08	8- स्वयंभू फ्लैट, जावईपारू, उंझा- 384170, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	11.2.86
2471	शुभनीत सिंह सरन, पुत्र श्री गुरचरन सिंह	पीवीएसवीसी / 2830 / 08	म.न. 240, फेज-9, मोहाली- 160063, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसयू / 08	16.9.84
2472	सुधांशु कुमार, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद	बीवीसी / 2755 / 06	ग्राम-अझी, डाक- मुबारकपुर, थाना- कोरमा, सब-डिवीजन - शेखपुरा, जिला- शेखपुरा- 811105, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	1.3.81
2473	श्वेता आनंद, पुत्री श्री ओम प्रकाश आजाद	बीवीसी / 2904 / 07	ग्राम- भीखनपुर नयाटोला, डाक भागलपुर, थाना- ईशवाक चक, जिला- भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 06	16.7.82
2474	श्वेता जैन, पुत्री डॉ. वीरेंद्र जैन	राजएसवीसी / 3501 / 08	म.न. 2-के-19, न्यू जवाहर नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	7.11.80
2475	श्वेता महेश्वरी, पुत्री श्री जगदीश चंद्र	एमपीएसवीसी / 2573 / 08	ऊन बुजुर्ग, थाना व जिल- खारगांव, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	20.8.83
2476	श्याम जानमोनी, पुत्र श्री दिलीप कुमार श्याम	एएसएम / 239 0 / 08	म.न. - 77, द्वारका नगर, चाचल, सिक्स माइल, गुवाहाटी - 781022, असम	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	22.2.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2477	श्याम राज, पुत्र श्री सिधारी राम	यूपीएसवीसी / 4805 / 08	ग्राम— सिंगापुर, डाक— सरीपुर, जिला— एस.आर.एन. भदोही, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी / 08	1.9.74
2478	श्याम सुंदर बैठा, पुत्र स्व. श्री जुगलाल बैठा	जेवीसी / 591 / 09	पुराना शुक बाजार, लोहरडागा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 79	15.04.55
2479	श्याम सुंदर ठकराल, पुत्र श्री आर.एल. ठकराल	हरिएसवीसी / 2025	आशीर्वाद कुंज, 77 / 18, डोंगरन बाजार, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / नि / 73	15.3.52
2480	श्याम लाल खेरवर, पुत्र श्री रामजी खेरवर	सीजीएसवीसी / 371 / 08	ग्राम— सिकातिनर, डाक— कोटेलारा, थाना जैसपुर, चम्पा, जहागीर	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06-07	13.10.78
2481	सिद्धार्थ कुमार जायसवाल, पुत्र स्व. श्री शिवचंद्र जायसवाल	जेवीसी / 084 / 08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, गांधी पथ, सिनेमा रोड, परसुडीह, जमशेदपुर, झारखंड— 831002	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 83	02.03.59
2482	सिकंदर बादशाह मुंडगनूर, पुत्र श्री लालसाव मुंडगनूर	कर्नाएसवीसी / 4182 / 08	चिक्कालागुंडी— 587204, बिलागी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	20.4.84
2483	सिंधु के. राजन, पुत्री श्री के.ए. राजन	केरलएसवीसी / 3366 / 08	श्रीवालसम, कलाथिल हाउस, आमला आर्कड, पेरामंगलम डाक, थिसूर— 680545, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	18.5.83
2484	सिंह खुशबू निर्मल	गुजएसवीसी / 2959 / 08	जी—2, आदित्य नगर, इंडियन रेयॉन इंडस्ट्रीज लि., वेरावल, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	20.8.86
2485	सिंधरे सलीब कुल्लु, पुत्र श्री सुशील चंद्र कुल्लु	जेवीसी / 429 / 08	जोरेटोली, पाकेरडार, सिमडेगा— 835223, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 08	13.05.82
2486	सिनि एम., पुत्री श्री मोइददीन मेचेरी	केरलएसवीसी / 3361 / 08	सूमी कॉटेज, बैथुल सुरूर, पूकायिल तिरूर— 7, मलप्पुरम— 676107, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	1.4.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2487	सिपिरियान गुरिया, पुत्री श्री आमरुस गुरिया	जेवीसी / 534 / 09	चापरी, बेरवाडीह (चेंछा), लाटेहर- 822111, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 93	21.11.69
2488	एस.के. मौहम्मद अली, पुत्र श्री जीलानी बाशा	पीएसवीसी / 4 725 / 08	म.न. 12 / 95-9, एसबीआई कॉलोनी, रवीन्द्र नगर डाक, कडपा, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच / एसवीवीयू / 08	25.8.83
2489	एस.के. मुक्तार, पुत्र श्री फजाला अहमद	पीएसवीसी / 4 750 / 08	म.न. 3-83, नेराडीगोंडा, आदिलाबाद- 504323, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच / एसवीवीयू / 08	15.6.84
2490	समरजीत मंडल, पुत्र श्री बादल चंद्र मंडल	जेवीसी / 344 / 08	टीवीओ, असुरा, झिंकपानी, चाईबासा, पश्चिमी सिंघभूम- 833201, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीसीकेवी वी / 90	06.01.67
2491	स्मिथा, पुत्री श्री के. सी.पी. सिंह	सीजीएसवीसी / 352 / 07	क्वा.न.-3, यूको बैंक के सामने, लावंडी, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 07	9.5.82
2492	स्मिथा पटेल, पुत्र श्री के.आर. पटेल	सीजीएसवीसी / 384 / 08	ईडब्ल्यूएस- 269, वैशाली नगर, भिलई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / आईजीके वीवी / 06-07	4.6.83
2493	स्मिथा एस., पुत्री श्री के.पी. सम्बासिवन	केरलएसवीसी / 3349 / 08	स्मिथा मंदीरम, एस.एल. पुरम, डाक- अलपुजाह- 688523, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 0 8	30.4.83
2494	स्मृति गुप्ता, पुत्री श्री राम नारायण गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2570 / 08	वार्ड न. 14, शहडोल, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	6.7.80
2495	स्मृति रंजन राउत, पुत्र श्री जगन्नाथ राउत	उडीसाएसवीसी / 2236 / 08	एटी- बिरासवाती, डाक- श्री बलदेव ज्यू, जिला- केंद्रपाड़ा- 754212, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	12.7.83
2496	स्मृति स्वरूप रौत्रे, पुत्र श्री जगन्नाथ रौत्रे	उडीसाएसवीसी / 2256 / 08	एटी एवं डाक- छेदिया, थाना- गोविंदपुर, तह. नियाली, कटक, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	24.1.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2497	श्रीमती नूपुर कोइल, पुत्री श्री पीटर पॉल कोइल	जेवीसी/238 /08	प्रेम नगर, हेसांग, हटिया, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 94	09.02.70
2498	स्नेहलता कुमारी, पत्नी डॉ. जय कुमार तिवारी	जेवीसी/310 /08	द्वारा श्री भुबनेश्वर राम, डोरांडा, दर्जी मौहल्ला, अंसारी लेन, डोरांडा, रांची-834002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 03	30.06.79
2499	स्नेला सनी, पुत्री श्री सनी फिलिप	केरलएसवीसी /3420/09	काडुथनम हाउस, कोट्टामुरिकल डाक, चंगनाचेरी, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/ 09	27.9.83
2500	संगीथा चंद्रन, पुत्री श्री आर. चंद्रभानु	केरलएसवीसी /3415/09	मनपट्टू हाउस, वेंगलूर डाक, थोडुपुजा- 685584, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएयू/0 9	11.8.84
2501	शोभा सिंह, पुत्री श्री राम ललित सिंह	बीवीसी/2902 /07	गाम- सोनमा, डाक- बकमंडल, थाना व जिला- दरभंगा- 847105, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 06	13.10.81
2502	सोलंकी गजेंद्र सिंह भवरसिंह	गुजएसवीसी/ 2987/08	एटी/डाक- अनापुर छोटा, तालुक- दानेरा, जिला- बी.के.- 38545, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एसडीएयू /08	8.1.84
2503	सोलंकी कन्हैया लाल गौतम भाई	गुजएसवीसी/ 2929/08	एटी- असजोल, तालुक- बेचारजी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 08	26.11.83
2504	सोले सुशांत शिवदास	महाएसवीसी/ 7747/07	92, राधा कृष्ण नगर, कनाल्डा रोड, जलगांव- 425001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/06	18.4.84
2505	सोमेंद्र कुमार, पुत्र श्री लालदेव प्रसाद खुशवाहा	बीवीसी/2831 /07	ग्राम- कोइरिया टोल, डाक व थाना- रकसौल, जिला- पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/डब्ल्यूबीयू एफएसयू/06	5.11.79
2506	सोमवंशी अमरनाथ गोरखनाथ	महाएसवीसी/ 8025/08	ए/पी निदबान, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	14.04.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2507	सोनाली प्रुथि, पुत्री श्री संकरसेन प्रुथी	उडीसाएसवीसी /2224/08	एटी/डाक- पिथापारा, जिला- कटक-- 754207, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/08	27.9.83
2508	सोनाली स्वेइन, पुत्री श्री कार्तिक चंद्र स्वेइन	उडीसाएसवीसी /2219/08	क्वान. एम/70, फेज़-1, छंद कॉलोनी, राउरकेला- 769015, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/08	19.7.82
2509	सोनार संदीप सुधाकर	महाएसवीसी/ 8056/08	104, वक्रतुंड, अनुसूया नगर, अनगांव, तालुक भिवंडी, महाराष्ट्र जिला-थाणे- 421302	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	05.06.85
2510	सोनावने गोकुल सदानंद	महाएसवीसी/ 7854/07	द्वारा सोनावने सदानंद किसन, जामगांव, तालुक- पारमेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	28.6.85
2511	सोनावने पंकज राजाराम	महाएसवीसी/ 7897/07	ए/पी- घोडेगांव, तालुक- नेवासा, जिला- अहमद नगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	2.10.84
2512	सोनगांवकर अस्मिता दत्तात्रेय	महाएसवीसी/ 7768/07	अनंतप्रभा- 22, अयोध्या नगर, नागपुर- 24	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	10.8.84
2513	सोनी हाद्रिक हसमुखभाई	गुजएसवीसी/ 2930/08	61- गुरुकृपा सोसायटी, दाभोलिंगम, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएवंए एच/एएयू/ 08	20.6.85
2514	सोनिया पठानिया, पुत्री श्री संदेश पठानिया	एचपीएसवीसी /840/08	ग्राम- चडबालका, डाक- तिहरा, थाना- सरकाघाट, जिला- मंडी, हि.प्र.- 175026	बीवीएससीएवंए एच/सीएसके केवीवी/08	13.2.85
2515	सोनिया, पुत्री श्री बलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2832/08	म.न. 434-जी, भाई रनधीर सिंह नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	24.3.85
2516	सोनोने स्वप्निल हीरामन	महाएसवीसी/ 8026/08	तपोवन कॉम्प्लेक्स, 45/सी, सोमलवाडा, वर्धा रोड, महाराष्ट्र, नागपुर	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	09.06.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2517	सोनोने प्रमोद वासुदेवराव, पुत्र श्री वासुदेव राव	राजएसवीसी / 3576/08	द्वारा बाबू लाल जांगिड, ग्राम एवं डाक- कोलीदा, सीकर- 332040, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	6.9.84
2518	सोनोने प्रमोद वासुदेवराव	महाएसवीसी / 7992/08	ए/पी सुगांव, तालुक- जलगांव, (जामोद), जिला- बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	06.09.84
2519	सोनफुले अंजली मारुतिराव	महाएसवीसी / 7953/08	अम्बेडकर स्कूल के निकट, ताल्वेस गली, ए/पी-तालुक उदगीर, जिला- लतूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	24.12.85
2520	सोनुले कंचन तानाजी	महाएसवीसी / 7920/08	प्लॉट न. 47, श्री कृष्णा नगर, तरोडा रोड, नाडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	16.3.83
2521	सोनुले सुरेंद्र विनायक राव	महाएसवीसी / 7859/07	सोनुले निवास, जनता कॉलोनी, गणेश नगर रोड, 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	28.9.83
2522	सौरभ, पुत्र श्री धरम पाल	पीवीएसवीसी / 2811/08	म.न. 1446/10, गुरु नानक नगर, धुरी लाइन, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीए डीवीएसयू/0 8	30.10.84
2523	सौरभ कुमार अमरवाल, पुत्र श्री राम स्वरूप अमरवाल	राजएसवीसी / 3545/08	ग्राम एवं डाक- फतेहगढ़, थाना- सरवर, अजमेर- 305412, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/08	10.7.82
2524	सोराते सचिन दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 7887/07	ए/पी- खंडज, तालुक- बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/06	6.4.79
2525	सोरेन सिम्सन, पुत्र श्री सिलाश सोरेन	एसएसएम/238 7/08	ग्राम- लताजुई, डाक- गोहेन गांव, जिला- गोलाघाट- 785601, असम	बीवीएससीएवं एच/एसयू/0 8	1.09.82
2526	सौम्या एन.पी., पुत्री श्री आर. नीलकंठ पिल्लै	केरलएसवीसी /3477/09	पदमम्, चंद्रमंगलम आनंद डाक, नेदुमंगड, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएसयू/0 9	10.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2527	सौम्या संकर, पुत्री श्री सिवसंकर पिल्लै टी.	केरलएसवीसी /3480/09	पेविला पुथेन वीडू, पल्लीक्कल (डाक), कोट्टराकारा, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	25.4.85
2528	सौम्या लक्ष्मी एस., पुत्री श्री वी. सुकुमारन नायर	केरलएसवीसी /3455/09	"श्री विनायकोम" टीसी 29/ 658, कोज्योट्टू लेन, पेट्टाह डाक, पाल्कुलागरा, थिरुवनंत पुरम— 695024, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	2.12.84
2529	सौदातिकर आनंद अनिलराव	महाएसवीसी/ 7925/08	द्वारा ए.एम. नाइक, थिंगले लेन, ढोंडीपुरा, सराफा रोड, बीड— 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	6.12.83
2530	श्रीकला एस. मोहनदास, पुत्री श्री मोहनदास एन.	केरलएसवीसी /3362/08	पंचजनयम हाउस, पोनमलम, कुट्टामथु, चेरुवथूर डाक, कासरगोड— 671313, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	7.5.84
2531	श्रीकुमार टी.आर., पुत्र श्री टी.के. रमेश बाबू	केरलएसवीसी /3438/09	म.न. 12/1566, थरायिल परम्बिल हाउस, पनायापल्ली, कोचीन—2, अर्नाकुलम— 682002, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	7.10.84
2532	श्रीलक्ष्मी पी.एम., पुत्री श्री पी.के. मनोहरन	केरलएसवीसी /3451/09	पथियमकट्टू हाउस, अयर डाक, अलपुजाह— 688534, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	26.4.85
2533	श्रीलेखा के.पी., पुत्री श्री ए.वी. बालाकृष्णन	केरलएसवीसी /3421/09	वृनोधावनम, कारुवाचेरी, पय्यानूर, कन्नूर, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	23.5.85
2534	श्रीनाथ डी.एस., पुत्र श्री के. श्रीधरन	केरलएसवीसी /3422/09	श्री अंजनेयम, म.न. 14679, वार्ड न. 8, मेलेथिल गणपति मंदिर के निकट, वजाविला, ऊकोडू डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	24.2.85
2535	श्रीपार्वती एम., पुत्री श्री पी. मुरली	केरलएसवीसी /3449/09	पूवाथनिककल हाउस, मालम डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	1.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2536	श्रीवत्सवा वी., पुत्र श्री वेंकटरमना के.	कर्नाएसवीसी/ 4127/08	न. 179, 2 क्रॉस, भगत सिंह रोड, विद्यानगर, कारेकलाहल्ली, गौरीबिदनूर तालुक, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	28.4.85
2537	श्रीदेव कुमार, पुत्र श्री भूपेश्वर प्रसाद सिंह	बीवीसी/2930 /08	ग्राम- तेरबाना, डाक- पंचबीर, थाना- साह कमल, सब- डिवीजन-बलिया, जिला- बेगूसराय- 851217, बिहार	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	12.2.79
2538	श्रीकांता, पुत्र श्री श्रीनिवास रेड्डी वी.	कर्नाएसवीसी/ 4214/08	दासगरीपल्ली- 561207, बागेपल्ली तालुक, चिक्कबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएएफ एसयू/08	2.7.85
2539	श्रीमंज नंदा, पुत्र श्री श्रीनिवास नंदा	उड़ीसाएसवीसी /2248/08	357, ब्रह्मेश्वर लेन, पालेसुनी, रसूलगढ़, भुबनेश्वर- 7511010, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	25.3.85
2540	सृष्टि राज, पुत्र श्री राम नारायण प्रसाद	बीवीसी/2760 /06	ग्राम- मुरादीचाक, डाक दामोदरपुर, थाना- नागरनौस, सब-डिवीजन हिलसा, जिला- नालंदा- 801305, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 06	2.9.81
2541	स्टेला सायरिका, पुत्री श्री सेरियन पी.जे.	केरलएसवीसी /3452/09	पप्पनमचिरायिल हाउस, थेलाकोम डाक, पारोलिकल, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/0 9	31.5.85
2542	स्टीफेन जोसेफ, पुत्र स्व. श्री संतोष जोसेफ	जेवीसी/400 /08	तांतीपारा, पकूर, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 76	17.07.51
2543	सूबे सिंह, पुत्र श्री हरदत्त	हरिएसवीसी/ 2035	ग्राम- बकरियांवाल, डाक- गुडिया खेरा, जिला- सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	7.9.83
2544	सुबीश पी.एम., पुत्र श्री मुथोरम पी.एम.	केरलएसवीसी /3484/09	पुलियाकुन्नुम्मल मीठल हाउस, कन्ननकारा डाक, चेलानूर वाया, कोजीकोड- 672616, केरल	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 09	25.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2545	सुभाकांता दाश, पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ दाश	उड़ीसाएसवीसी /2215/08	एटी- माटीमंडप साही, उदय गिरि लेन, पुरी- 752001, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	1.6.85
2546	शुभंकर नंदा, पुत्र डॉ. एस.एस. नंदा	उड़ीसाएसवीसी /2249/08	ग्राम- काडलीबारी सासन, डाक- नीमपेरा, जिला- पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	24.9.84
2547	सुभाष चंद, पुत्र श्री चुन्नी राम	राजएसवीसी/ 3530/08	ग्राम एवं डाक- बीरकली, थाना- नोहर, हनुमानगढ़- 335526, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/07	16.11.79
2548	सुभाष चंद्र, पुत्र श्री सांवर मल	राजएसवीसी/ 3539/08	सरदारपुरा, धोबी पास, भद्रा, हनुमानगढ़- 335501, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएयू/08	10.7.82
2549	सुभाष चंद्र खन्ना, पुत्र श्री सखाराम	एमपीएसवीसी /2572/08	ग्राम एवं डाक- कासल, थाना- राजपुर, जिला- बरवानी- 451556, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	5.7.84
2550	सुभाष चंद्र नौटियाल, पुत्र स्व. डॉ. नंद किशोर नौटियाल	यूवीसी/354 /08	सी.वी.ओ., नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/सीएसएके ईपीवीवी/81	15.4.56
2551	सुभाष चंद्र, पुत्र श्री राधे श्याम मंडल	जेवीसी/347 /08	सेक्टर-4 (जी), मकान न. 1357, चास, बोकारो- 827004, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 01	11.07.73
2552	सुभाष कुमार, पुत्र श्री रामा नंद प्रसाद	बीवीसी/2936 /08	ग्राम- मसौरही, डाक बंगलो रोड, डाक व थाना- मसौरही, पटना, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/डब्ल्यूवीयू एएफएस/07	28.12.82
2553	सुभाश्री पटनायक, पुत्री श्री काली प्रसाद पटनायक	उड़ीसाएसवीसी /2221/08	फ्लैट न. 1/63, बंजा अपार्टमेंट, यूनिट-6, बीबीएसआर - 751001, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएएंड टी/08	3.7.83
2554	सुबोध कुमार सिंह, पुत्र श्री राम निवास सिंह	यूपीएसवीसी/ 4803/08	ग्राम एवं डाक- पीपरा मदन गोपाल, जिला- देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी/08	16.1.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2555	सुबोध रंजन वर्मा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा	जेवीसी / 012 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, तातनगर, चाईबासा, पश्चिमी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 84	12.01.59
2556	सुचेंद्र कुमार सीकरवर, पुत्र श्री जगत सिंह सीकरवर	यूपीएसवीसी / 4770 / 08	ग्राम एवं डाक- तेहरा, जिला- आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी / 08	21.5.82
2557	सुदाके कविता शांताराम	महाएसवीसी / 7740 / 07	मंडेराची रोड, निरुगदसर, तालुक- अम्बेगांव, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 06	20.4.83
2558	सुधाकर बेहेरा, पुत्र श्री कृष्णा च. बेहेरा	उड़ीसाएसवीसी / 2250 / 08	एटी / डाक- प्रताप पुर, वाया प्रताप पुर, जिला- बालासौर- 756083, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	5.5.85
2559	सुधाकर सिंह मुंडा, पुत्र स्व. श्री हरिहर सिंह मुंडा	जेवीसी / 397 / 08	सीतमडीह, लांडुपडीह, सोनाहाटू, बूंदू, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 9 1	03.11.65
2560	सुधीर कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव	बीवीसी / 2966 / 08	ग्राम- जयप्रकाश नगर, रोड न. 5, डाक- बेतिया, थाना- मुफ्फसिल बेतिया, जिला- डब्ल्यूसी- 845438, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 05	3.3.80
2561	सुधीर कुमार सिंह, पुत्र श्री रामबीर सिंह	यूवीसी / 42 / 09	12- कमला नगर, ओ.एन.जी. सी. अस्पताल के सामने, बल्लूपुर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 91	26.6.67
2562	सुधीर कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राम कृपाल लाल	जेवीसी / 544 / 09	सीडी- 662, साइट-5, एसईसी, धुरवा, सेक्टर- 11, जगन्नाथपुर, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू/ 83	02.01.59
2563	सुदीना के., पुत्री श्री के. नारायणन	केरलएसवीसी / 3436 / 09	प्रियदर्शिनी लेडीज होस्टल मेन्स, कमरा न. 29, सीओवी एंड एससी, मन्नुथी, थिरुसूर, केरल	बीवीएससीएवंए एच / पीयू / 08	5.5.85
2564	सुदीप्ता बरियार, पुत्री स्व. श्री मानश कामनेश्वर प्रसाद बरियार	जेवीसी / 349 / 08	द्वारा स्व. मानश कामनेश्वर प्रसाद बरियार, बारहेत, सरियाहाट, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू/ 01	12.12.67

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2565	सुहासिनी, पुत्री श्री कृष्णा आर.	कर्नाएसवीसी / 4117 / 08	न. -123, वार्ड न.-29, विवेक नगर, केजीएफ- 563122, बंगारपेट तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच / केवीएएफ एसयू / 08	5.6.85
2566	सुजाता मुखर्जी, पुत्री श्री लाकनाथ मुखर्जी	जेवीसी / 119 / 08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, राजगंज, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 96	31.07.90
2567	सुजाता रानी कर, पुत्री श्री जगन्नाथ कर	उड़ीसाएसवीसी / 2232 / 08	पुत्री श्री जगन्नाथ कर, एटी / डाक- रोटंगी, जिला- कोरापुट- 764039, उड़ीसा	बीवीएससीएवंएच / ओयूएएंड टी / 08	16.5.83
2568	सुखपुत्र एन.ओ., पुत्र श्री ओबन्ना एम.	कर्नाएसवीसी / 4150 / 08	कूनाबेवू डाक- 577517, चित्रदुर्गा तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंएच / केवीएएफ एसयू / 08	15.7.85
2569	सुखबीर सिंह पंघल, पुत्र श्री डब्ल्यू.एस. पंघल	हरिएसवीसी / 2062	ग्राम एवं डाक- तालू जिला- भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएवंएच / सीसीएस एचएयू / 08	26.12.83
2570	सुखदेव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री कामेश्वर प्रसाद	जेवीसी / 457 / 09	हरमू रोड, किशोरगंज, रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / आरएयू / 70	28.06.48
2571	सुखलाल गगराई, पुत्र स्व. श्री लाल सिंह गगराई	जेवीसी / 559 / 09	टोला- हंगेरागुट्ट, हाट गामहरिया, झिंकपानी, चाईबासा, पश्चिमी सिंधभूम, झारखंड	बीवीएससीएवंएच / बीएयू / 90	05.01.64
2572	सुखपाल सिंह, पुत्र श्री संत सिंह	पीबीएसवीसी / 2806 / 08	म.न. बी-20, गुरु नानक कॉलोनी, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	23.11.84
2573	सुखवंत सिंह भुल्लर, पुत्र श्री रणजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 2815 / 08	ग्राम एवं डाक- महमदपुर, थाना- धुरी, जिला- संगरूर- 148020, पंजाब	बीवीएससीएवंएच / जीएडीवी एसयू / 08	28.10.85
2574	सुकुमार चंद, पुत्र श्री सत्येंद्र ख. चंद	उड़ीसाएसवीसी / 2233 / 08	एटी: बालीजोडी, डाक- सोनापरबत, राउरकेला, सुंदरगढ़ - 769016, उड़ीसा	बीवीएससीएवंएच / ओयूएएंड टी / 08	10.5.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2575	सुलभा जिंदल, पुत्री श्री भारती भूषण जिंदल	पीबीएसवीसी / 2831/08	8/5, कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	11.11.83
2576	सुमन बिस्वास, पुत्र स्व. श्री धीरेंद्र नाथ बिस्वास	जेवीसी /462 /09	3-बी, सीताराम अपार्टमेंट, शुक्ला कॉलोनी, हिन्दू, दोरांडा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएसयू/ 94	20.11.68
2577	सुमन चोपड़ा, पुत्री श्री महावीर चोपड़ा	राजएसवीसी / 3488/08	1-55, न्यू सिविल लाइन, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/आरएसयू/ 08	30.4.84
2578	सुमन कुमार, पुत्र श्री पांचूराम	सीजीएसवीसी /395/08	ग्राम एवं डाक- साहलूद, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी / 06-07	15.7.83
2579	सुमन कुमार, पुत्र श्री सीतम देव मोदी	जेवीसी /531 /09	द्वारा हरिनंदन प्रसाद बन्नवाल, हरि ओम स्टोर, मरकाछो, कोडर्मा, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएसयू/ 94	01.10.69
2580	सुमंथ कुमार आर, पुत्र श्री रामाचंद्र रेड्डी बी.	कर्नाएसवीसी / 4123/08	लक्ष्मी सागर ग्राम, श्रीनिवासपुर- 563138, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच/केवीएएफ एसयू/ 08	20.4.85
2581	सुमति कुजूर, पुत्र श्री फगवा कुजूर	जेवीसी /220 /08	ग्राम- करकट्टा, माल्शरिंग, कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएसयू/ 96	07.01.69
2582	सुमेधा अहाहन, पुत्री श्री विजय अवाहन	पीबीएसवीसी / 2799/08	ग्राम- डाबा, डाक- ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीए डीवीएसयू/ 08	17.4.84
2583	सुमेर सिंह जगत, पुत्र श्री चाटू लाल जगर	सीजीएसवीसी /354/08	मौह. व डाक- फरशावाली, वाया दामरा, जिला- जहागीर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी /07	1.7.79
2584	सुमिन जोस, पुत्री श्री पी.एस. जोस	केरलएसवीसी /3356/08	पथिकट्टू हाउस, अम्ममकुलम, पडापेनगाडू डाक, तालीपरम्बा, कन्नूर- 670581, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएसयू/0 8	19.10.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2585	सुमित प्रकाश यादव, पुत्र श्री सुभाष यादव	राजएसवीसी / 3489 / 08	ग्राम— गणेशपुरा, डाक— रनवा, थाना— खेतरी, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	8.3.82
2586	सुमित वाष्णोय, पुत्र श्री बी.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4755 / 08	म.न.—5, भवानी मंदिर के निकट, बिली, जिला— बदाऊँ, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसी बीवी / 08	2.6.83
2587	सुमिता कुल्लु, पुत्र श्री कमलकांत कुल्लु	जेवीसी / 208 / 08	टेंगरिया, कोयल टोली, टेंगरिया, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 4	25.01.79
2588	सुमित्रा टी.जी., पुत्री श्री टी.आर. गोपाल कुमार	केरलएसवीसी / 3364 / 08	थंगालाजी हाउस, थंगालूर डाक, थिसूर— 680581, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	21.5.85
2589	सुमित्रा सिंह चौहान, पुत्र श्री एन.पी.एस. चौहान	यूपीएसवीसी / 4836 / 08	म.न. 18, बुध विहार, वाया— न्यू शिवपुरी कॉलोनी, महत, रामपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	18.10.79
2590	सुधांशु गौड़, पुत्र श्री देव दत्त गौड़	हरिएसवीसी / 2029	666—ए, पंचवाला, कुतबपुर, रिवाडी, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	14.2.84
2591	सुनील कुमार प्रजापति, पुत्र श्री आर.बी. प्रजापति	यूपीएसवीसी / 4816 / 08	ग्राम— रसूलपुर खान, डाक— फरेंद्र खुद्र, जिला— गोंडा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीबीवी / 08	15.4.84
2592	सुनील जिंदल, पुत्र श्री ओंकार जिंदल	राजएसवीसी / 3507 / 08	ओंकार जिंदल, अग्रसेन कॉलो., भगवान बाड़ी के निकट, बयाना— 321401, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	7.8.79
2593	सुनील कुमार, पुत्र श्री आत्मा राम	एचपीएसवीसी / 842 / 08	ग्राम भारमत, डाक— बनूरी, थाना— पालमपुर, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.— 176061	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	19.1.84
2594	सुनील कुमार, पुत्र श्री ईश नारायण सिंह	पीबीएसवीसी / 2801 / 08	द्वारा डॉ. अजीत कुमार, म.न. 1049, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीए डीवीएसयू / 0 8	30.12.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2595	सुनील कुमार जोजो, पुत्र श्री हलधर जोजो	उड़ीसाएसवीसी /2238/08	ग्राम एवं डाक— बोंडामुंडा, आर.सी. चर्च के निकट, जिला— सुंदरगढ़— 770032, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/08	17.6.83
2596	सुनील कुमार, पुत्र श्री कृष्ण कुमार	पीबीएसवीसी/ 2793/08	म.न. 139, नाभा गेट, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	25.11.84
2597	सुनील कुमार, पुत्र श्री ईश नारायण	यूपीएसवीसी/ 4832/08	ग्राम— नासेरी, डाक— नासरपुर, जिला— अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जीएडीवी एसयू/08	30.12.82
2598	सुनील कुमार, पुत्र श्री सुदर्शन प्रसाद	बीवीसी/2761 /06	ग्राम एवं डाक— किरहिंदी, थाना — शिवसागर, सब— डिवीजन— सासाराम, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 06	27.2.80
2599	सुनील कुमार, पुत्र श्री राम चंद्र अवस्थी	यूवीसी/92/ 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशु चिकित्सा अस्पताल, टनकपुर, चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससीएवंए एच/सीएसएके ईपीवीवी/98	11.3.68
2600	सुनील कुमार, पुत्र श्री बृजनंदन प्रसाद सिंह	जेवीसी/555 /09	टीवीओ तिलैया, कोडर्मा— 835409, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 91	23.12.59
2601	सुनील कुमार सिंह, पुत्र श्री जग मोहन सिंह	यूपीएसवीसी/ 4768/08	934/28, बी/47.ई, अल्लापुर, जिला— आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी/08	28.12.81
2602	सुनील कुमार सिन्हा, पुत्र श्री दुलारी सिंह	जेवीसी/545 /09	टीवीओ (सिवनडीह), चास, बोकारो, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/ 84	20.07.61
2603	सुनील कुमार, पुत्र श्री राधे श्याम प्रसाद	जेवीसी/114 /08	ब्लॉक पशु पालन अधिकारी, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/बीएयू/8 7	15.11.61

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2604	सुनील प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 575 / 09	बीएएचओ, बरहरवा, राजमहल, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 0 1	05.04.72
2605	सुनील राज, पुत्र श्री राम मेहर	हरिएसवीसी / 2036	ग्राम एवं डाक- रूपगढ़, जिला- जींद, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	17.7.86
2606	सुनील सिंह, पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह	यूपीएसवीसी / 4779 / 08	ग्राम- गौरा, डाक- नेवादा, जिला- कौशम्बी, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	5.3.82
2607	सुनील सिंह तोमर, पुत्र डॉ. आर.जी. सिंह तोमर	एमपीएसवीसी / 2539 / 08	ग्राम एवं डाक- राजोठा, थाना -पोरसा, जिला- मोरैना- 476115, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	15.2.82
2608	सुनील सुशील जाल्सो, पुत्र श्री फ्रांसिस जाल्सो	जेवीसी / 197 / 08	भाटा, कनके रोड, हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के निकट, रांची- 834009, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 96	20.11.65
2609	सुनील तिवारी, पुत्र श्री योगेंद्र तिवारी	जेवीसी / 324 / 08	टीवीओ, जसीडीह, देवघर, पिन- 814142, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 94	23.11.68
2610	सुनील टोप्पो, पुत्र श्री हेमंत टोप्पो	जेवीसी / 314 / 08	मौह.-न्यू गार्डन सिरोम टोली (क्लब रोड), मुंडा चौक के पास चुटिया, रांची-834001, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 03	01.03.78
2611	सुनील कुमार एम. ए., पुत्र श्री आनंद एम. एम.	कर्नाएसवीसी / 4120 / 08	मवानुर ग्राम, हुनासावल्ली डाक- 573213, अतूर, तालुक हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	31.7.84
2612	सुनील सिंह नरवारिया, पुत्र श्री केशव सिंह नरवारी	एमपीएसवीसी / 2521 / 08	एफएच- 486, दीन दयाल नगर, ग्वालियर- म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	2.1.84
2613	सन्नी जैन, पुत्र श्री नरेश कुमार	पीबीएसवीसी / 2792 / 08	करयाना स्टोर, सरदुलगढ़ जिला, मनसा, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एसयू / 08	14.12.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2614	सुप्रीत सिंह, पुत्र श्री सुखदेव सिंह	पीबीएसवीसी/ 2843/08	म.न. 15-ए, ब्लॉक-8, संघु एवेन्यू, ओसीएम मिल के निकट, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच/जीए डीवीएसयू/0 8	1.9.85
2615	सुप्रिते सिन्हा, पुत्री श्री अमिताभ कुमार सिन्हा	बीवीसी/2903 /07	ग्राम- यू.एन. बगीचा रोड, डाक भागलपुर, थाना आदमपुर, जिला भागलपुर -812001, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/बीएसयू/0 6	14.11.79
2616	सुरादकर संजय गंगाराम	महाएसवीसी/ 7929/08	शिवाजी नगर, शिवाजी प्राइमरी स्कूल के सामने, चिखाली जिला- बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/06	1.12.79
2617	सुरादकर उमेश शालिग्राम	महाएसवीसी/ 8086/08	द्वारा एस.टी. सुरादकर, 'कुंतल निवास', विष्णुवाड़ी, बुलधाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/06	01.04.83
2618	सूरज शिवरमन पी., पुत्र श्री एन. शिवरमन	केरलएसवीसी /3444/09	'सूरज' कीर्ति नगर, नादथारा डाक, थिसूर- 680751, केरल	बीवीएससीएवंए एच/केएसयू/ 09	15.7.85
2619	सूरज तांती, पुत्र श्री ननकू तांती	सीजीएसवीसी /345/07	ग्राम एवं डाक- बोइरदादर, ग्राम- विजयपुर, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/05-06	28.6.80
2620	सुरक्षा यादव, पुत्री श्री अरविंद यादव	राजएसवीसी/ 3524/08	म.न. 7-जे-42, महावीर नगर-III, कोटा- 324005, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/आरएसयू/ 08	26.1.83
2621	सुरभि केशरवानी, पुत्र श्री डी.के. केशरवानी	सीजीएसवीसी /415/08	द्वारा श्रीमती गायत्री चंद्राकर, विभागाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	10.9.82
2622	सुरेंद्र नैन, पुत्र श्री जिले सिंह	हरिएसवीसी/ 2038	ग्राम- देवीगढ़, ग्राम एवं डाक- कैथल मंडी, जिला- कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच/सीसीएस एचएसयू/08	8.7.82
2623	सुरेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री ऋषि पाल सिंह	यूपीएसवीसी/ 4844/08	ग्राम- कुंडेसरा, डाक- आलियाबाद, जिला- मुरादाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जीबीपीयू एएंडटी/08	15.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2624	सुरेंद्र चौधरी, पुत्र श्री मुन्नी चौधरी	जेवीसी / 455 / 09	ए.आई.ओ., फ्रोजन सीमेन बैंक, होतवार, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 76	03.10.50
2625	सुरेंद्र कुमार कुरे, पुत्र श्री राज कुमार खुरे	सीजीएसवीसी / 357 / 08	पाटन रोड, सालूद जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी / 07-08	23.3.78
2626	सुरेंद्र कुमार नाग, पुत्र श्री जे.एस. नाग	सीजीएसवीसी / 412 / 08	ब्लॉक कॉलोनी, उसरी बोदा, लोहारी गुंडा, जगदलपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी / 06-07	22.7.82
2627	सुरेंद्र कुमार राम, पुत्र स्व. श्री बासुदेव राम	जेवीसी / 319 / 08	मौहल्ला-बेदानी खुद्र, तरहासी, मनातू, पलामू, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 99	20.08.69
2628	सुरेंद्र कुमार, पुत्र स्व. श्री जेना लाल	जेवीसी / 282 / 08	ए.पी.ओ. हजारीबाग, डीएचओ कार्यालय, रेडियो स्टेशन के निकट, हजारीबाग- 825301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 89	16.01.65
2629	सुरेंद्र सिंह गरबियल, पुत्र श्री रतन सिंह गरबियल	यूवीसी / 355 / 08	हॉस्पिटल रोड लाइन, गरबयाल खेरे, डाक- धारचौला, जिला- पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एएडटी / 88	11.12.73
2630	सुरेश कुमार, पुत्र श्री राम सिंह	हरिएसवीसी / 2076	ग्राम एवं डाक- आर्या नगर, जिला- हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच/सीसीएस एचएयू/08	15.3.84
2631	सुरेश कुमार झा, पुत्र श्री रामानंद झा	जेवीसी / 501 / 09	टी.वी.ओ.पोटका हाउस न. 40 / 11, वास्तु विहार, बैकुंठ नगर, मंगो, जमशेदपुर- 831017, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 97	15.01.70
2632	सुरेश कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह	राजएसवीसी / 3485 / 08	ग्राम एवं डाक- लालस, थाना- नावा, नागौर- 341509, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 08	1.7.81
2633	सुरेश कुमार, पुत्र श्री भुनेश्वर रविदास	जेवीसी / 305 / 08	द्वारा- श्री भुनेश्वर रविदास, मौह.- बरकी सरिया, सरिया, बागोदर, गिरिडीह- 825320, झारखंड	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/0 3	05.07.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2634	सुरेश कुमार, पुत्र श्री नारायण महतो	जेवीसी / 596 / 09	बीएचओ, गोमिया, बरमो (तेनुघाट), बोकारो, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 9 7	12.10.69
2635	सुरेश मेहता, पुत्र स्व. श्री किश्वर मेहता	जेवीसी / 266 / 08	काहुलिया, सोह, गढ़वा, पिन— 822114, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 9 9	20.11.68
2636	सुरेश, पुत्र श्री पन्नू	कर्नाएसवीसी / 4183 / 08	न. 56, जानकी नगर, गुलबर्गा —585105, गुलबर्गा तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.6.83
2637	सरजुसे प्रशांत दादाराव	महाएसवीसी / 7801 / 07	34, गजानन कॉलोनी, मुर्तिजापुर रोड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	9.10.84
2638	सुरुचि कुमारी, पुत्री श्री सुबोध कुमार	जेवीसी / 290 / 08	द्वारा श्री शंकर एंटरप्राइजिज, गौरी शंकर मौहल्ला, झुमरी तलइया, कोडर्मा— 825409, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 0 8	12.10.82
2639	सुर्वे विशाल सतीश	महाएसवीसी / 7876 / 07	305, शिवशंकर अपार्ट., स्टेशन रोड, उल्हास नगर—4, तालुक — कल्याण, जिला—थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	17.5.85
2640	सूर्य कुमार दीवान, पुत्र श्री केशव दीवान	सीजीएसवीसी / 358 / 08	म.न. 40 / 1052, बनियापारा, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 94	15.8.67
2641	सूर्या पी.एस., पुत्री श्री पी. शशिधरन	केरलएसवीसी / 3423 / 09	शशिधरमंगलम, पूवनाथूर डाक, नेदुमंगड, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 0 9	11.5.83
2642	सूसन चेरियन, पुत्री श्री चेरियन निनान	केरलएसवीसी / 3324 / 08	कैथाधारा हाउस, पयगाना, मुंडकायम— 686513, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 08	9.6.83
2643	सुशांत कुमार पाल, पुत्र श्री दैतारी पाल	उड़ीसाएसवीसी / 2211 / 08	भारासिंगपुर, डाक— कडबारंग, वाया— रांडिया हाट, जिला— भद्रक— 756135, उड़ीसा	बीवीएससीएवंए एच / ओयूएएंड टी / 08	15.6.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2644	सुशांत हंडागे, पुत्र श्री सुरेंद्र	कर्नाएसवीसी / 4139 / 08	न. 2025, रेलवे स्टेशन रोड, भवानी पेट्रोल पम्प के निकट, रायबाग— 519317, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	25.5.84
2645	सुशील कुमार, पुत्र श्री महेंद्र कुमार	जेवीसी / 345 / 08	टीवीओ, सरथ, कुंडा (गनपति निवास), देवघर— 814143, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 87	17.01.62
2646	सुशील कुमार सिंह, पुत्र श्री आर.पी. सिंह	यूपीएसवीसी / 4843 / 08	ग्राम— रेवती, डाक— रेवती, जिला— बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	9.8.84
2647	सुशील प्रसाद, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	जेवीसी / 263 / 08	सहायक प्रोफेसर, रांची वेट. कॉलेज, कनके, रांची— 834007	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 86	20.08.60
2648	सुशील सोनी, पुत्र श्री विश्वनाथ सोनी	पीबीएसवीसी / 1397 / 08	183, ग्रीन पार्क, सरहिंद रोड, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / उदय विवि / 78	12.12.53
2649	सुषमा ललिता बक्सला, पत्नी डॉ. रोशन मामल तोपनो	जेवीसी / 481 / 09	रामटोल्या (गिरजा टोली), कामदारा, गुमला, पिन— 835227, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 00	07.12.75
2650	सुषमा परधिया, पत्नी डॉ. राजू तिरके	जेवीसी / 275 / 08	द्वारा: श्री सहिन्द्र तिरके, झरना बस्ती, केडला मंडू, रामगढ़, हजारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	05.12.67
2651	सुषमा सारा, पुत्री श्री वाई. के. कंडुलना	जेवीसी / 353 / 08	जयपुर, रानिया, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 01	21.09.75
2652	सुषमा शेलू, पुत्री श्री राजाजी शेलू	एमपीएसवीसी / 2543 / 08	एच—112, पटवापुरा, शाहपुर, बेतुल— 460440, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	24.9.84
2653	सुषमा यादव, पुत्री श्री युधवीर सिंह यादव	हरिएसवीसी / 2075	ग्राम— बिरार, जिला— झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	11.4.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2654	सुशील कुमार सेठ, पुत्र श्री अंतार्यामी सेठ	उड़ीसाएसवीसी /2242/08	एटी/डाक- तुरुमु, वाया- कुलाडो, थाना-भजनगढ़, जिला - गंजम- 761131, उड़ीसा	बीवीएससीएवं एच/ओयूएंड टी/08	9.8.85
2655	सुजान मलसॉमथंगी, पुत्री डॉ. के. रोखावला	मिज़एसवीसी/ 179/09	दुर्तलांग, डाक- दुर्तलांग, आइज़वाल जिला, मिज़ोरम	बीवीएससीएवं एच/सीएयू/0 8	14.2.84
2656	स्वामी विजय चंद्रशेखर	महाएसवीसी/ 8078/08	स्वामी निवास, मुखेद रोड, वाजेगांव, ओम नगर, नांडेड- 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/08	17.03.84
2657	स्वतंत्र कुमार सिंह, पुत्र श्री उपेंद्र मनि सिंह	एमपीएसवीसी /2541/08	ग्राम एवं डाक- भिटा, रीवा- 486553, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/08	18.7.81
2658	श्वेता श्री, पुत्री श्री त्रिवेनी प्रसाद	जेवीसी/253 /08	द्वारा: श्री त्रिवेनी प्रसाद, इटकी रोड, हेहल, रांची- 834005	बीवीएससीएवं एच/बीएयू/ 04	15.01.77
2659	सैयद मोहसिन सैयद इकबाल	महाएसवीसी/ 7912/07	द्वारा: सैयद इकबाल, अरफत फंक्शन हॉल के पीछे, जूना बाजार, बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	1.10.83
2660	सैयद आलमदार रिज़वी, पुत्र श्री एस.एम. रिज़वी	यूपीएसवीसी/ 4737/08	प्लॉट न. 2, श्याम विहार कॉलोनी, प्रीति नगर, मदियान्हू, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/केएयू/ 08	15.11.82
2661	सैयद मुदस्सिर अहमद, पुत्र श्री सैयद सगीर अहमद	कर्नाएसवीसी/ 4205/08	न. 641, चौथा मेन, 12 वां क्रॉस, एच.एस. एक्सटेंशन, हरिहरा- 577601, दावणगेरे, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच/केवीएफ एसयू/08	14.7.85
2662	सैयद राना फातिमा सैयद नकी हसन तुराबी	महाएसवीसी/ 7939/08	मसरत विला, दादाराव प्लॉट, परभनी- 461402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएफ एसयू/07	23.09.85
2663	टी. अनिथा, पुत्री श्री आर.एम. तमिलमनी	पॉण्डीएसवीसी /313/08	न. 127, 7वां क्रॉस, शिवगामी नगर, रेडियार पलायम, पुडुचेरी	बीवीएससीएवं एच/पीयू/07	20.5.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2664	टी. गिरि, पुत्र श्री जी. थियागराजन	टीएनएसवीसी / 4306 / 08	नॉर्थ स्ट्रीट, कैकाली डाक, मुसिरी तालुक, त्रिची— 621210, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	20.7.84
2665	टी.आई. कोचूपापी, पुत्र श्री टी.वी. इत्तूप	टीएनएसवीसी / 4132 / 08	38-ए / 22, कामराज स्ट्रीट, के.के. पुडुर, कोयम्बतूर— 641038	बीवीएससी / एमयू / 60	6.5.38
2666	टी.एम. प्रवीन कुमार, पुत्र श्री टी. आर. मुथुसामी	टीएनएसवीसी / 4216 / 08	45, थसइयेर स्ट्रीट, थासमपुडुर, नल्लमपट्टी, डाक— पेरुनडुरई तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	4.7.84
2667	टी. राजा, पुत्र श्री पी. थंगावेल	टीएनएसवीसी / 4205 / 08	पेरियागौंडमपट्टी, थलाम्बडी डाक, नमक्कल— 637019, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	9.5.85
2668	टी. रवि, पुत्र श्री टी. रामलु	पीएसवीसी / 4781 / 08	म.न. 4-21, गोपारापल्ली, कोलानूर, ओडेला (एम), करीम नगर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	2.7.84
2669	टी. रेवथी, पुत्र श्री एम. थियागराजन	टीएनएसवीसी / 4235 / 08	13-बी-6, राजन इल्लम, दूसरी स्ट्रीट, जोथी नगर, कोविलपट्टी - 628501, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	8.4.86
2670	टी.एस. कुमारन, पुत्र श्री टी. सिवानेसन	टीएनएसवीसी / 4364 / 08	वीराप्पनियकेनपट्टी डाक, हरूर तालुक, धरमपुरी, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	7.5.85
2671	टी. सक्तिवेल, पुत्र श्री एम. थंगासामी	टीएनएसवीसी / 4217 / 08	3, वेडानइकन थोट्टम, नैनमपलायम, कलिंगियाम डाक— गोबी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	7.6.85
2672	टी. सेंथिल पंडियान, पुत्र श्री एस.पी. थंगम	टीएनएसवीसी / 4305 / 08	4 / 186 (पुराना न. 4 / 419), काकजी स्ट्रीट, एम.ए. नगर, रेड हिल्स, चेन्नई— 600052	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	4.1.84
2673	टी. सेंथिल, पुत्र श्री डी. थमिला रासन	टीएनएसवीसी / 4239 / 08	1 / 306 (पुराना न. 1 / 96), जमीरी कोलाथूर डाक, उडयारपलायम तालुक, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	20.7.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2674	टी. शैलजा, पुत्री श्री टी. लक्ष्मन	पीएसवीसी/ 4741/08	म.न. 6-33/ए, अंकाधीवाड़ा, कृपाकर अस्पताल के पीछे, लकजलीपेट (एम), आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	31.5.85
2675	टी. श्रीनिवास, पुत्र श्री टी. बलइयाह	पीएसवीसी/ 4808/08	म.न. 1-59, अंडुगुलापेट (डाक व ग्राम), मंडामारी (एम), आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	21.6.82
2676	टी. श्रीनिवास, पुत्र श्री टी. गंगा रेड्डी	पीएसवीसी/ 4787/08	म.न. 5-98, वेमपेट (डाक), मेटपल्ली (एम), करीम नगर, जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	14.11.84
2677	टी. श्रीनिवासन, पुत्र श्री टी. थिरुमारन	टीएनएसवीसी /4218/08	बी-16, पी.एस.एम. कॉलोनी, इरईयूर डाक- पेरम्बलूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएस/08	22.1.83
2678	टी.वी. शिरीषा, पुत्री श्री टी. मुनि कृष्णइयाह	पीएसवीसी/ 4686/08	डी.न. 20/580, नमस्थे बोर्ड लेन, कडपा (डाक), जिला- 516002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	22.6.84
2679	टकसांदे प्राची एकनाथ	महाएसवीसी/ 7909/07	बौद्ध मंदिर के निकट, म.न. 774, सदर बाजार, सदर, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	8.2.84
2680	ताम्बे नितिन यशवंत	महाएसवीसी/ 7890/07	ग्राम- अयानी, तालुक- खेड, जिला- रत्नगिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/06	13.4.81
2681	तामंकर स्मिता प्रकाश	महाएसवीसी/ 8097/08	रामदेव पार्क, ए/104, चंदावरकर रोड, बोरीवली (प.), मुम्बई- 400092	बीवीएससीएवं एच/एमएएफ एसयू/07	5.9.84
2682	जमुई अच्युत कुमार, पुत्र श्री दुर्गा नंद तमुली	एसएम/237 7/08	जुतमलोनी गांव, डाक- लंगपटिया, जिला- सिवसागर- 785692, असम	बीवीएससीएवं एच/एसयू/ 08	23.10.85
2683	तनबीर अहमद, पुत्र श्री मोह. हासिम	यूवीसी/351 /08	वी.ओ., वेंकीज़ इंडिया लि., मांडुवाला, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	20.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2684	तन्मय वर्मा, पुत्री श्री सेवक राम वर्मा	सीजीएसवीसी /340/07	बी-1-74, प्लॉट न. 15, नेहरू नगर, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/05-06	13.7.82
2685	तनवीर आलम, पुत्र श्री मकशूद आलम	बीवीसी/2859 /07	ग्राम- नवडीह डाक व थाना- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 07	25.11.79
2686	तपस कुमार पटबंध, पुत्र श्री भास्कर च. परबंध	उडीसाएसवीसी /2226/08	एटी/डाक- साराडीह, वाया- सुलियापदा, जिला- मयूरभंज- 757022, उडीसा	बीवीएससीएवंए एच/ओयूएंड टी/08	15.10.84
2687	तरन सिंह, पुत्र श्री सरदार हरिबंश सिंह	जेवीसी/008 /08	अनुसंधान अधिकारी (क्यूसी), पशु स्वास्थ्य व प्रजनन संस्थान, कनके, रांची-834006, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरएयू/ 82	21.06.59
2688	ताराटे सागर बबनराव	महाएसवीसी/ 7942/08	द्वारा बबनराव काकासाहेब ताराटे, डोइथान, तालुका- अष्टी- 414203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएफ एसयू/07	09.12.84
2689	ताराटे सागर बबनराव, पुत्र श्री बबनराव काका साहेब ताराटे	राजएसवीसी/ 3535/08	द्वारा प्रवीन गुजराती, पीजी होस्टल-1, कमरा न.-18, सीओवी साइंस एंड एनीमल साइंस, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच/एमएफ एसयू/08	9.12.84
2690	तरुण कुमार ठाकुर, पुत्र श्री रोशन लाल ठाकुर	एचपीएसवीसी /837/08	ग्राम- फगत, डाक- सोलन, थाना- गुमारविन, जिला- विलासपुर, हि.प्र.- 174021	बीवीएससीएवंए एच/सीएसके केवीवी/08	11.9.85
2691	तातेलु स्नेहा रमेश	महाएसवीसी/ 7774/07	सी/55, न्यू गजंट, सीएचएस, कोसाम्गो नगर, बोरीवली (प.) मुम्बई- 400092, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएफ एसयू/07	7.8.84
2692	तायडे रवीन्द्र शिवाजी	महाएसवीसी/ 8005/08	लाहाने लेआउट, वार्ड न. 15, तालुक जिला बुलधाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएफ एसयू/08	03.02.85
2693	तेजवीर सिंह, पुत्र श्री रंजन सिंह	यूपीएसवीसी/ 4767/08	ढंढुपुरा, ताजगंज, जिला- आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/यूपीपीडी डीयूपीसी वीवी/08	7.7.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2694	टेकाडे विजयंत मेघराज	महाएसवीसी / 7776 / 07	शिवाजी कॉलोनी, शिरवाल, तालुक— खंडाला, जिला— सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	25.4.84
2695	टेकाले आशीष अनंतराव	महाएसवीसी / 8009 / 08	द्वारा: मानिकराव देशमुख, शाहपुरकर, विठ्ठल मंदिर के निकट, सहकारनगर, तालुक व जिला परभनी	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	01.05.85
2696	ठाकोर गोपाल भाई अम्बालाल	गुजएसवीसी / 2940 / 09	एटी एवं डाक— थमना तालुक— उमरेथ, जिला— आनंद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	28.8.84
2697	ठाकुरा मुरमु पुत्र श्री सेरल मुरमु	जेवीसी / 460 / 09	रोला, राज नगर, सेरईकला, खरसावा, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 8 9	04.01.64
2698	थावानी कमलेश लोकचंद	गुजएसवीसी / 2931 / 08	16—आकाशदीप सोसायटी, सी. पी. कॉलेज के पीछे, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 0 8	20.9.84
2699	थेर संदीप विष्णु	महाएसवीसी / 7986 / 08	एटी— जामदारा, डाक— तोरानाला, तालुक— मनोरा, महाराष्ट्र जिला, वाशिम	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	6.9.83
2700	थोराट शशिकांत कोंडाजी	महाएसवीसी / 7926 / 08	तालेगांव फाटा, वडगांव—पान, तालुक— संगमनेर, जिला— अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	23.6.84
2701	थुंगजानो ऊडियो, पुत्र श्री नथिमोमो ऊडियो	एनएसवीसी / 240 / 08	पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी के निकट, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	24.9.84
2702	तिडके अल्का पंडितराव	महाएसवीसी / 8127 / 09	भाग्य लक्ष्मी निवास, बैंक कॉलोनी, अम्बेजोगई रोड, सपना होटल के पीछे, पारली (ग्राम), जिला बीड	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	05.10.85
2703	टिंसी मेरी जॉन, पुत्री श्री जॉन वर्धीज	केरलएसवीसी / 3330 / 08	प्रयाग, कैथाचल रोड, डाक— कोलाजी, थ्रिसूर— 68010, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	3.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2704	टिटू मैथ्यू पुत्री श्री पी.एम. मैथ्यू	केरलएसवीसी / 3388 / 08	मरया भवन, पेरुमबदावोम डाक, इलनजी, अर्नाकुलम— 686665, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	10.3.84
2705	टिक्सी के. जोसेफ, पुत्री श्री बी.के. जोसेफ	केरलएसवीसी / 3338 / 08	कंजूपराम्बिल हाउस, होम्यो अस्पताल का पूर्व, थथमपल्ली डाक, अलपुजाह— 688013, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 08	3.9.82
2706	त्रिभुवन कुमार, पुत्र श्री सदन राम	यूपीएसवीसी / 4799 / 08	2 / 177, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	4.7.83
2707	त्रिवेनी पांडे, पुत्र श्री बी. प्रसाद पांडे	यूपीएसवीसी / 4848 / 08	61 / 45 / 1, साउथ लोकपुर नैनी, इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलकेवी / 08	3.8.83
2708	त्रिवेनी पासवान, पुत्र स्व. श्री जगेश्वर पासवान	जेवीसी / 499 / 09	133, नॉर्थ ऑफिस पारा, डोरांडा, रांची— 834002, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 77	15.01.54
2709	त्शेरिंग चोडेन भूटिया	सिक्किम / 87 / 08	द्वारा डी.के. भूटिया, लोअर टाडोंग, लालकोठी, पूर्वी सिक्किम	बीवीएससीएवं एच / सीएयू / 08	
2710	तुसंगबर्थ सी. मारक, पुत्र श्री एल.डी. शिरा	मेघएसवीसी / 261 / 08	डाकोपग्रे, डीआईसी, न्यू तुरा— 794101, मेघालय	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	11.5.83
2711	तुषार प्रीत शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	पीबीएसवीसी / 2833 / 08	आदर्श नगर, वार्ड न. 10, मनसा— 151505, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	28.6.85
2712	यू. वेंकटेश्वर राव, पुत्र श्री यू. नारइय्याह	पीएसवीसी / 4792 / 08	म.न. 36—139 / ए, पापीरेडडी नगर, रोड न. 6, आईडीपीएल (डाक), जगतगिरि मट्टा, हैदराबाद— 37, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	23.5.81
2713	उदयवीर सिंह महोर, पुत्र श्री कल्याण सिंह	एमपीएसवीसी / 2524 / 08	ग्राम एवं डाक— बसई, थाना— अम्बाहा, जिला— मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी / 08	7.8.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2714	उदय भूषण मेहता, पुत्र स्व. श्री हरि कांत प्रसाद मेहता	जेवीसी / 193 / 08	मेहता, रतनपुर, एल चाक, हजारीबाग— 825402, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 01	29.3.76
2715	उदय कुमार सिन्हा, पुत्र श्री द्वारिका सिन्हा	जेवीसी / 184 / 08	विद्यानगर, हरमू, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 95	16.02.69
2716	उधेश्वर महतो, पुत्र स्व. श्री माणिक महतो	जेवीसी / 194 / 08	रतनडीह, कोइरीडीह, बागोदर, गिरिडीह— 825301, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरयू / 69	09.11.47
2717	उगीले सोनाली श्रीराम	महाएसवीसी / 8043 / 08	यरमे नगर, जलकोट रोड, उदगगीर, जिला— लातूर— 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	07.01.86
2718	उजाला भारद्वाज, पुत्र श्री संजय कुमार खावारे	जेवीसी / 451 / 09	मारवाड़ी कंवर संघ के निकट, चैतण्य नाथ, जाज वेयर पेठ, देवगढ़, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 02	29.06.79
2719	उज्ज्वल कुमार, पुत्र श्री बिजय कुमार सिंह	जेवीसी / 428 / 08	नवाडीह, खाडइया टांडवा, चतरा— 825321, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	24.05.84
2720	उकानी जेनिश कुमार रमनीक लाल	गुजएसवीसी / 2932 / 08	एटी— चिखलिया, तालुक— उपलेता, जिला— राजकोट— 360410, गुजरात	बीवीएससीएवं एच / एएयू / 08	12.1.86
2721	उमा कांत सिंह, पुत्र श्री अंगद प्रसाद सिंह	जेवीसी / 526 / 09	डॉ. उमा कांत सिंह बाड़ी, कोडर जन्ना, साहिबगंज— 816109	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 89	02.01.62
2722	उमा शंकर प्रसाद, साधु शरण प्रसाद	जेवीसी / 542 / 09	टीवीओ, पोरडाग, दुमरी, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 86	26.01.62
2723	उमाकांत मिश्रा, पुत्र श्री चिंतामनि मिश्रा	उडीसाएसवीसी / 2231 / 08	एटी— सहजोग नगर, डाक— डुंगुरीपाली, जिला— सोनपुर— 767023, उडीसा	बीवीएससीएवं एच / ओयूएएंड टी / 08	20.7.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2724	उमाले निखिल अशोक	महाएसवीसी / 8037 / 08	"सामर्थ", दूरदर्शन केंद्र के निकट, गांधी ग्राउंड, अकोट जिला, अकोला— 444101	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	24.06.84
2725	उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र श्री कांत प्रसाद	जेदीसी / 466 / 09	सुअर विकास अधिकारी, कनके, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरयू / 69	08.01.48
2726	उमेश सी.जी., पुत्री श्री एम.वी. गोपालन	केरलएसवीसी / 3424 / 09	चेम्पनपथालिल, चमपाकारा डाक, कारुकाचल, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 09	29.4.85
2727	उमेश कुमार पाटेरिया, पुत्र श्री एच.एस. पाटेरिया	यूपीएसवीसी / 4854 / 08	ग्राम एवं डाक— महुआबंद, तालुक— कुल्पानाद, जिला— महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलके वीवी / 08	8.12.81
2728	उमेश कुमार, पुत्र स्व. श्री प्रसादी मंडल	जेवीसी / 540 / 09	टीवीओ, जयरामपुर, गिनागोरा, अलकदीहा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	08.03.71
2729	उमेश कुमार, पुत्र श्री लछमन दास	पीबीएसवीसी / 2800 / 08	भगवान दास लछमन दास करयाना मर्चेट, मेन बाजार, भवानी गढ़, जिला— संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	9.10.84
2730	उमेश प्रसाद, पुत्र श्री रमेश राय प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4736 / 08	ग्राम— कानूनगो गांव, डाक— बंकाटा स्टेशन, देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	1.2.78
2731	उनाउने किरन प्रभाकर	महाएसवीसी / 7882 / 07	सिधनाथ कॉलोनी, पुलिस स्टेशन रोड, म्हासवाड, तालुक —मान, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	16.6.84
2732	उपन डांग, पुत्र श्री नथानियाल डांग	जेवीसी / 177 / 08	सारधा टोली, ट्यूटीकेल, कोलेबीरा, सिमडेगा— 835211, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 05	27.12.79
2733	उपेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री आर.बी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 4889 / 09	ग्राम एवं डाक— सिकता, कुशीनगर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / केयू / 09	30.6.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2734	उपेंद्र कुमार, पुत्र श्री रामलखन प्रसाद	बीवीसी / 2794 / 06	ग्राम आमीपुर, डाक ओधानपुर, थाना—मुफ्फसिल, सब डिवीज़न —नवादा, जिला—नवादा, बिहार	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एफएसयू / 06	1.3.83
2735	उपेंद्र कुमार, पुत्र श्री यदुनंदन महतो	जेवीसी / 270 / 08	द्वारा श्री यदुनंदन महतो, ढेलकाडीह, बेलाहाट, मंझागांव, गढ़वा— 822120, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 98	10.07.75
2736	उपेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री रामरूप सिंह	जेवीसी / 105 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, झुमरा, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 87	03.01.63
2737	उपेंद्र मिश्रा, पुत्र श्री रामानुज मिश्रा	एमपीएसवीसी / 2587 / 09	पुलिस वायरलैस लाइंस, एस. पी. कार्यालय, जबलपुर, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 09	4.6.84
2738	उत्तम कुमार, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह	यूवीसी / 422 / 08	पशु चिकित्सा अधिकारी (ठेका), पशुचिकित्सा अस्पताल, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएवं एच / ओयूएंड टी / 05	5.1.80
2739	उत्तम कुमार बैनर्जी, पुत्र श्री सचीन्द्र नाथ बैनर्जी।	जेवीसी / 394 / 08	टीवीओ, महाराजपुर, तालुक झारी, साहिब गंज, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 82	01.05.57
2740	वी. अनीश पिल्लै, पुत्र श्री आर. वासुदेवन पिल्लै	टीएनएसवीसी / 4184 / 08	146, सोक्करामनकडु, वर्णापुरम, भवानी—1, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	17.7.84
2741	वी. ब्रूवारागमूर्ति, पुत्र श्री जी. वैद्यनाथन	टीएनएसवीसी / 4243 / 08	3 / 44, ए—1, पेरुमल कोइल नॉर्थ स्ट्रीट, पंडानल्लूर, डाक — थंजावूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	1.10.84
2742	वी.च. सुब्बा राव, पुत्र श्री वी. तातइयाह	पीएसवीसी / 4 812 / 08	6—318 (एफ), श्री सत्यसाई नीलायम, शिरडी साईबाबा नगर, कुर्नूल रोड, आंगोल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / पी एयू / 69	14.04.46
2743	वी. धनलक्ष्मी, पुत्र श्री के.वी. वासुदेवन	टीएनएसवीसी / 4276 / 08	मलईपट्टी डाक, पलावानाथम वाया, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच / टीएनयू वीएस / 08	1.6.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2744	वी. दुराईराज, पुत्र श्री वेलुसामी थेवर	टीएनएसवीसी /4081/08	4/896, जे 11, 19वीं स्ट्रीट, रहमथ नगर, महाराजा नगर डाक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/70	9.5.46
2745	वी. गनेशन, पुत्र श्री पी. विजय राघवन	टीएनएसवीसी /4082/08	बी-90, 7वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई- 600082, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/64	4.11.34
2746	वी. गीथा रानी, पुत्री श्री वी. परमेश्वर राव	पीएसवीसी/ 4684/08	द्वारा पी वेंकटस्वामी (रिटा. टीचर), केल्ला ग्राम, नेल्ली मारला, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	25.6.85
2747	वी. जगन मोहन राव, पुत्र श्री वी. नारम नायडू	पीएसवीसी/ 4810/08	फ्लैट 103, रामया मनोर अपार्ट., डी.न. 45-53-4/2, आविद नगर, अक्कापलेम, विशाखापटणम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/ओयूएटी /08	18.04.82
2748	वी. जनार्थन, पुत्र श्री आर. वेनुगोपाल	टीएनएसवीसी /4108/08	2/81, बोम्मकोट्टई, डाक कल्लूरियानई, अरुप्पुकोट्टई तालुक, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /94	19.7.71
2749	वी. कासी, पुत्र श्री ए. वरदराजी गौंडेर	टीएनएसवीसी /4129/08	173, साथियामूर्ति रोड (एक्स.), जगथम्बल के निकट, कल्याणमंडपम, अरनी, तिरुवनमलई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	1.2.50
2750	वी. कविथा, पुत्र श्री एस. वेलियंगिरि	टीएनएसवीसी /4232/08	4/5, कोलाक्करनपुर, उम्मारादियूर डाक, भवानी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	16.10.83
2751	वी.एल. ससिकला, पुत्र श्री पी.जी. लिंगन्नन	टीएनएसवीसी /4248/08	1/163, वीरापल्ली ग्राम, थिरियालम डाक, जोलारपेट्टई - 635851, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	5.2.85
2752	वी. लक्ष्मी सौजन्य, पुत्री श्री वी. रंगानायकुलु	पीएसवीसी/ 4806/08	फ्लैट न. 37, कमर्शियल टैक्स कॉलोनी, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एएनजी आरएयू/02	12.8.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2753	वी. लावण्या, पुत्र श्री एम. विजयन	टीएनएसवीसी /4335/08	14/3, पेंशन लाइन, नॉर्थ स्ट्रीट, गुगई, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	12.7.85
2754	वी. माउट्टुओ विवेक श्रीनिवास, पुत्र श्री माउट्टुओ विश्वलिंगम	पॉण्डीएसवीसी /311/08	न. 95, कामराज सेलई, नेहरू नगर एंटरेंस, पुडुचेरी	बीवीएससीएवं एच/पीयू/07	24.11.84
2755	वी. नेपोलियन, पुत्र श्री एन. वेल्ईसामी	टीएनएसवीसी /4412/09	15, वीओसी स्ट्रीट, मडुक्कुर, थंजावूर— 614903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएएस /95	20.6.72
2756	वी.आर. अंजना, पुत्र श्री के. वेलाप्पन	टीएनएसवीसी /4189/08	10/109—सी, अश्वर्था भवन पल्लम परायडी रोड, थिरुवाडईकोड विल्लुकुरी, डाक— कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	7.5.86
2757	वी. राजशेखर, पुत्र श्री वी. प्रभका	पीएसवीसी/ 4793/08	म.न. 2—9—1213, वाडडेपल्ली, हनमकोंडा, वांगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	30.8.84
2758	वी.रवि, पुत्र श्री वेलायुथम	टीएनएसवीसी /4089/08	48, थोप्पालम्मन कोइल स्ट्रीट, शोलिंगर, वेल््लोर— 631102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएएस /90	4.6.66
2759	वी.एस. कार्तिकेयन, पुत्र श्री वी. सामीनाथन	टीएनएसवीसी /4277/08	454, अम्मनकोइल स्ट्रीट, डाक वरियानकवल, उडयारपलायम तालुक, अरियालूर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएनयू वीएएस/08	15.6.85
2760	वी.एस. मजूथु, पुत्र श्री वी. शेख उधुमन	टीएनएसवीसी /4394/09	127/49, अकबर स्ट्रीट, मलापलायम, तिरुनेलवेली— 627005, तमिलनाडु	बीवीएससी /एमयू/ /92	13.6.41
2761	वी.एस. मुराहरि, पुत्र श्री वी.एन. सोमासुंदरम	टीएनएसवीसी /4399/09	618, विवेकानंद स्ट्रीट, गांधी नगर, वेल््लोर— 632006, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/66	25.5.42
2762	वी. सक्तिवेल, पुत्र श्री एन. वेंकट चलम	टीएनएसवीसी /4091/08	एम.वी. कॉलोनी, डाक— थालीवसल, वाया अट्टूर, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयूवीएएस /92	30.6.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2763	वी. शंकरा लिंगम, पुत्र श्री एन. वेलियासामी	टीएनएसवीसी /4144/08	4/801, भरती स्ट्रीट, अनबू नगर, मदुरै, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /92	17.3.69
2764	वी. सिरीषा, पुत्री श्री वी. सम्बासिवा राव	पीएसवीसी/ 4758/08	डी.न. 65-6-68, मुलगडा हाउसिंग कॉलोनी, गाजूवाका डिपो, विशाखापटणम, आंध्र.	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	8.11.84
2765	वी. श्रीधर रेड्डी, पुत्र श्री वी. अंकी रेड्डी	पीएसवीसी/ 4685/08	सांथा गुडीपडु (डाक), रोम्पीचारला (एम), आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	20.12.83
2766	वी. श्रीलथा, पुत्र श्री जी. वासुदेवन	टीएनएसवीसी /4343/08	मुल्लीचेट्टीपट्टी, थिन्नापट्टी डाक— ओमालूर तालुक, सलेम	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	22.2.85
2767	वी. उधय शंकर, पुत्र श्री एन. वीरामनि	टीएनएसवीसी /4211/08	72, चिन्नाथम्बी पलायम, डाक— तिरुचेनगोड तालुक, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	14.1.84
2768	वी. वड़काराय सेल्वी, पुत्र श्री एस. वैयनापेरुमल	टीएनएसवीसी /4263/08	4/12, ईस्ट स्ट्रीट, मेलानमरिनाडु अलंगुलम वाया, सिवाकासी तालुक, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससीएवं एच/टीएएनयू वीएएस/08	20.5.85
2769	वी. वेदावथि, पुत्री श्री वी. रामा कृष्णइयाह	पीएसवीसी/ 4721/08	म.न. 5/506-4 डी-2, येगुरागड्डा स्ट्रीट, राजमपेट, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच/एसवीवीयू /08	25.8.84
2770	वी. वेंकटेशन, पुत्र श्री नारायणसामी	टीएनएसवीसी /4398/09	महादेवी मंगलम डाक, गिंजी तालुक, विल्लुपुरम— 604210, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एएनयूवीएएस /92	11.5.68
2771	वी. विश्नाथन, पुत्र श्री एम. वेलायुथम	टीएनएसवीसी /4128/08	64/सी 3, डाइवर्जन रोड, पालूर, तिरुवन्नामलई जिला— 605803, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनयू/76	12.12.52
2772	वडालिया जिग्नेश वृजलाल	गुजएसवीसी/ 2933/08	डाक— मतारवानिया, तालुक— मालिया, जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएवं एच/एएयू/ 08	25.3.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2773	वैद्य मंगेश महादेव	महाएसवीसी / 7749 / 07	एटी- दादापुर, डाक रामगढ़, तालुक- कुरखेडा, जिला- गढ़विरोली- 441209, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	13.10.82
2774	वज्रेश्वरी, पुत्री श्री शामसुंदर	कर्नाएसवीसी / 4175 / 08	मल्लना नगर, मुधोल- 587313, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	26.12.85
2775	वर्मा तृप्ति सुरेश	महाएसवीसी / 7996 / 08	वर्मा निवास, एसबीआई रोड, वनजारी फाल, यवतमाल- 445001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	02.03.86
2776	वरुण कुमार चौधरी, पुत्र श्री लखन चौधरी	जेवीसी / 004 / 08	दूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, मानिका, लाटेहर, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / डब्ल्यूबीयू एएफएससी / 05	15.02.79
2777	वरुणा एन.पनिकर पुत्री श्री एम.एम. पुरुषोत्तमन	केरलएसवीसी / 3470 / 09	पेरुमंगट्टू हाउस, उमबिडी (डाक), थोट्टाकड, कोट्टायम - 686542, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 09	11.12.82
2778	वसंथ कुमार एम., पुत्र श्री हरि राव	कर्नाएसवीसी / 4217 / 09	न. 917 / 44, किलोस्कर कॉलोनी, दूसरी स्टेज, दूसरा क्रॉस, बासवेश्वर नगर, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी / यू एसबंगलौर / 76	7.3.55
2779	वजे मकरंद नरसिम्हा	महाएसवीसी / 7742 / 07	ब्रह्मानंद कृपा- 2 / 922, तिलक रोड, इच्छलकरंजी, जिला- कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 06	3.4.84
2780	वेदामूर्ति जी.वी., पुत्र श्री वीरप्पा ए. जी.	कर्नाएसवीसी / 4155 / 08	अरालीकट्टे- 577552, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	25.7.85
2781	वीना के. अनिरुधन, पुत्री श्री के. अनिरुधन	केरलएसवीसी / 3488 / 09	शियानु मंदिरम थजुटाला, कोट्टायम, कोल्लम- 691571, केरल	बीवीएससीएवंए एच / केएयू / 09	31.5.84
2782	वीना एम., पुत्री श्री मुरलीधर एन.एस.	कर्नाएसवीसी / 4115 / 08	विनायक नगर- 570020, तिपतुर तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.1.86

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2783	कीर्त्तिकापानी शर्मा, पुत्री श्री जे.पी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 4899 / 09	100-2ए, लोधी विहार, सासनी गेट, अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जीबीपीयू एएंडटी / 08	6.7.85
2784	वीरा संजुक्ता नैन्सी खाल्खो, पत्नी श्री मयंक खाल्खो	जेवीसी / 589 / 09	शंकरपुर, सरजामदा, परशुडीह, ढल भूमगर, पूर्वी सिंघभूम, पिन- 831002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 92	14.03.63
2785	वीरांकी ओमकार लक्ष्मी माहे	महाएसवीसी / 7750 / 07	द्वारा डॉ. वी.एम. राव, डी-1, वामनीकोम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी रोड- 411007, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	19.7.85
2786	वेंकनगौडा डोड्डागौडरा, पुत्र श्री गुरुनाथगौडा	कर्नाएसवीसी / 4181 / 08	नलवाडी- 580029, नवलगुंड तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	30.7.85
2787	वेंकटेश बाबू एस., पुत्र श्री श्रीनिवास एस.	कर्नाएसवीसी / 4125 / 08	320, डोड्डावाजनेमाने रोड, चिक्कबल्लापुरा- 562101, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	2.9.85
2788	दिवटोरिया, पुत्री श्री कृष्ण गोपाल	पीबीएसवीसी / 2678 / 08	म.न. 14-145-बी, गली धोबियन वाली, नंगल कोटली गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएवंए एच / जीएडीवी एसयू / 06	5.1.83
2789	विद्या निधि गौतम, पुत्र श्री के.पी. गौतम	एमपीएसवीसी / 2510 / 08	411, सजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर- 482002, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 08	15.5.81
2790	विद्या एम. कांति, पुत्री श्री एम.सी. कांति	कर्नाएसवीसी / 4210 / 08	चौबारा रोड, सिंगर बाग, बिदर- 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	23.7.83
2791	विघने बालासाहेब रामदास	महाएसवीसी / 7758 / 07	एटी-दागड़वाडी, डाक- रइमा, तालुक शिरूर (के), जिला- बीड- 4142014, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 07	4.9.84
2792	विजय अन्नाजी बावारे, पुत्र श्री अन्नाजी बी. बावारे	राजएसवीसी / 3536 / 08	द्वारा प्रवीण गुजराती, पीजी- होस्टल-1, कमरा न. 18, सीओवी साइंस एंड एनीमल साइंस, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 00	15.7.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2793	विजय भदोरिया, पुत्र श्री पी.एस. भदोरिया	यूपीएसवीसी / 4898 / 09	एमओ— इडावरदी दत्त, इटावा, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएलक वीवी / 07	10.6.77
2794	विजय काशनिया, पुत्र श्री लाल चंद काशनिया	राजएसवीसी / 3513 / 08	जी.वी. सीनियर स्कूल, संगारिया, हनुमानगढ़— 335063, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / सीएसएके पीवीवी / 00	20.7.76
2795	विजय किशोर बारा, पुत्र श्री क्लीमेंट बारा	जेवीसी / 316 / 08	द्वारा श्री क्लीमेंट बारा, मौह, अटाकोरा तातर टोली, महादेव चैगिरी, भरनो, जिला— गुमला, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	07.01.72
2796	विजय कुमार भारती, पुत्र श्री अमीर पासवान	बीवीसी / 2778 / 06	ग्राम एवं डाक— अमरपुर, थाना — मेदनीचौकी, सब—डिवीज़न— लखसराय, जिला— लखीसराय — 811106, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	15.4.76
2797	विजय कुमार, पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद गुप्ता	बीवीसी / 2819 / 06	ग्राम एवं डाक— माधोपुर, थाना — लौखा, सब—डिवीज़न — फुल परास, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / राजकृ विवि / 06	16.2.81
2798	विजय कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी	बीवीसी / 2879 / 07	ग्राम— आरपीएफ कॉलोनी, डाक व थाना— समस्तीपुर, सब—डिवीज़न— समस्तीपुर, जिला— समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 06	25.2.82
2799	विजय कुमार, पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद	जेवीसी / 515 / 09	211, कनके रोड, म.न. 235 / बी15, सर्वोदय नगर, गोंडा टाउन, रांची 834008, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 87	11.01.63
2800	विजय कुमार, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 470 / 09	असि. इंस्ट्रक्टर, पशुपालन विद्यालय, गोरियाकरमा, बरही, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 96	23.09.71
2801	विजय कुमार, पुत्र श्री टेकमनी धोबी	जेवीसी / 549 / 09	सूरिया, बागोदर, गिरिडीह, पिन— 825320, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 04	25.05.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2802	विजय कुमार सिंह, पुत्र श्री शिव पूजन प्रसाद सिंह	जेवीसी / 477 / 09	एपीओ (ट्रेनिंग), क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म (होतवार), होतवार, रांची -835217, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू/ 82	27.07.59
2803	विजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री ब्रह्मदेव प्रसाद वर्मा	जेवीसी / 019 / 08	टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी, बरियातु, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 86	10.10.62
2804	विजय शंकर दूबे, पुत्र श्री शम्भू नाथ दूबे	बीवीसी / 2877 / 07	ग्राम- सोनकी, डाक व थाना- सुहियान, सब-डिवीजन- जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 07	1.3.83
2805	विजय सिंह बेनी वाल, पुत्र श्री जय किशन बेनीवाल	राजएसवीसी / 3537 / 08	ग्राम एवं डाक- परलीका, थाना- नोहर, हनुमानगढ़- 3355045, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	25.12.80
2806	विजय सिंह, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4777 / 08	ग्राम एवं डाक- खेरा शिलाजीत, जिला- हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / एनडीयू टी / 08	1.7.82
2807	विजय प्रताप सिंह जगत, पुत्र श्री एकादशी राम जगत	सीजीएसवीसी / 342 / 07	ग्राम- पातरपाली खुद्र, डाक- रागजा शक्ति, जहागीर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 05-06	16.10.78
2808	विजेथा बी.टी., पुत्र श्री थिप्पेस्वामी बी.	कर्नाएसवीसी / 4101 / 08	न. 69, श्रीअंग नीलया, 9वां मेन, बीरावेश्वर नगर, नगरभवी मेन रोड, बंगलौर- 560072	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.3.86
2809	विकास चतुर्वेदी, पुत्र श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी	राजएसवीसी / 3542 / 08	न्यू कॉलोनी, नेहरू गार्डन के निकट, लालसोट, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	30.10.83
2810	विकास लाम्बा, पुत्र श्री रघुबीर सिंह लाम्बा	राजएसवीसी / 3577 / 08	म.न. 4 / 23, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनू- 333001, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	16.9.79
2811	विकास नारायण चौरसिया, पुत्र श्री राम नारायण	एमपीएसवीसी / 2547 / 08	ग्राम एवं डाक- निवारी, जिला- छतरपुर- 471001, म.प्र.	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	19.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2812	विकाश चंद्र वत्स, पुत्र श्री एन.सी. शर्मा	यूवीसी/371 /08	गोरा फार्म, शिवराजपुर, पट्टी काशीपुर जिला, यू.एस. नगर, उत्तराखण्ड	बीवीएससीएवं एच/जीबीपीयू एण्डटी/08	12.2.78
2813	विकाश कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद शर्मा	बीवीसी/2920 /08	ग्राम- बुधा कॉलोनी, डाक- जीपीओ, थाना- बुधा कॉलोनी, जिला- पटना-800001, बिहार	बीवीएससीएवं एच/जेएनकेवी वी/06	16.1.82
2814	विकाश रंजन, पुत्र स्व. डॉ. विनोद कुमार	बीवीसी/2884 /07	ग्राम- नया टोला, माधोपुर, डाक व थाना बख्तियारपुर, सब-डिवीज़न- बड़, जिला- पटना, बिहार	बीवीएससीएवं एच/आरएयू/ 07	13.4.83
2815	विक्रमजीत सिंह, पुत्र श्री बलवंत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2844/08	ग्राम एवं डाक- लाहल धालीवाल, जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/जीएडीवी एएसयू/08	3.4.83
2816	विक्रम परिहार, पुत्र श्री अजीत प्रताप सिंह	पीबीएसवीसी/ 2840/08	136-डी, खेहलू नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएवं एच/बीचाअ /08	24.2.84
2817	विक्रम पतियाल, पुत्र श्री हेम राज	एचपीएसवीसी /849/08	ग्राम- पपलोग, डाक- साधोत, थाना- सरकाघाट, जिला- मंडी, हि.प्र.- 175024	बीवीएससीएवं एच/सीएसके केवीवी/08	1.4.85
2818	विक्रम प्र. तिवारी, पुत्र श्री योगेश्वर प्रसाद तिवारी	सीजीएसवीसी /389/08	श्याम नगर, पलसाया, पारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/06-07	22.8.81
2819	विक्रम सिंह राजपूत, पुत्र श्री बी.एस. राजपूत	यूपीएसवीसी/ 4732/08	ग्राम- बुंगरा, डाक- जिगनी तेहीक्राथ, हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/08	5.9.84
2820	विकौली मजात्सु, पुत्र श्री सालहौली मजात्सु	एनएसवीसी/ 235/08	हाई स्कूल एरिया (कोहिमा बाइबल कॉलेज), कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएवं एच/सीएयू/ 08	29.10.82
2821	विमल प्रसाद पटेल, पुत्र श्री चंडी प्रसाद पटेल	सीजीएसवीसी /432/09	ग्राम एवं डाक- किरारी डाबरा, जिला- जाजगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच/आईजीके वीवी/07-08	1.7.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पत्ता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2822	विनय कुमार झा, पुत्र श्री बैद्यनाथ झा	जेवीसी / 215 / 08	द्वारा डॉ. बी.एन. झा, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबाड़ी, बरियातु, रांची— 834008, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 96	23.12.71
2823	विनय कुमार, पुत्र श्री शिव शंकर सहाय	जेवीसी / 385 / 08	बी.ए.एच.ओ., सिली, रांची, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / इबाअ / 9 0	25.09.64
2824	विनय कुमार, पुत्र श्री अयोध्या कुमार मंडल	जेवीसी / 249 / 08	द्वारा श्री अयोध्या कुमार मंडल, कुंडोरी बालीडीह, चास, बोकारो— 827014, झारखंड	बीवीएससी / टी एएनयूवीएएस / 05	09.09.80
2825	विनय एम.एस., पुत्र श्री मुनि नारायणप्पा सी.	कर्नाएसवीसी / 4109 / 08	पुरा, विजयपुरा डाक—562135, देवेनाहल्ली तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	22.5.85
2826	विनय एन, पुत्र श्री नागराज	कर्नाएसवीसी / 4149 / 08	श्री सरस्वती नीलया, कुम्बेश्वर लेआउट, कुम्बरपेट, मलूर डाक — 563130, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	23.9.85
2827	विनय शंकर त्यागी, पुत्र श्री एन.सी. त्यागी	यूपीएसवीसी / 4735 / 08	ग्राम— पिलाने, थाना— बागपत, जिला— बागपत, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 07	17.12.80
2828	विनदेंद्र कुमार, पुत्र श्री डाल चंद	यूपीएसवीसी / 4789 / 08	ग्राम— रसूलपुर, डाक— फतेहपुर, जिला— बाराबंकी, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	14.7.76
2829	विनिता व्यास, पुत्री श्री एन.के. व्यास	राजएसवीसी / 3551 / 08	ए—102, तलवंडी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 08	6.5.84
2830	विनोद कडापट्टी, पुत्र श्री बालप्पा	कर्नाएसवीसी / 4198 / 08	लक्ष्मी नगर, कुदाल्गी— 591312, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	31.8.85
2831	विनोद कुमार, पुत्र श्री नफे सिंह पठानिया	हरिएसवीसी / 2079	4400, सेक्टर— 46—डी, चंडीगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएवं एच / सीसीएस एचएयू / 08	15.10.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2832	विनोद कुमार, पुत्र श्री राजकेश्वर प्रसाद	जेवीसी / 558 / 09	रोड न.-3, स्वर्णरेखा नगर (केतारी बागान), सामलोग, नामकुम, रांची-834010, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	15.01.68
2833	विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री राम सेवक सिंह	बीवीसी / 2759 / 06	ग्राम एवं डाक- जनकपुर, थाना- उजियारपुर, सब- डिवीज़न-डालसिंघसराय, जिला- समस्तीपुर- 848114, बिहार	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 06	5.12.78
2834	विनोद कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री चंद्रिका सिंह	जेवीसी / 334 / 08	टीवीओ बुरमू, बुरमू रांची- 835214, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / जेएनकेवी वी / 88	01.11.60
2835	विनोद रंजन, पुत्र स्व. श्री अवध नारायण दास	बीवीसी / 2736 / 06	ग्राम बलभद्रपुर, डाक व थाना लहरियासराय, सब-डिवीज़न- सदर, जिला- दरभंगा- 846001, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एमयू / 63	9.9.41
2836	विपिन दीप सिंह, पुत्र श्री बलजिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 2795 / 08	एस-1, कनाल कॉलोनी, गिड्डर बाहा, जिला- मुक्तसर, पंजाब	बीवीएससीएवं एच / जीएडीवी एएसयू / 08	21.7.84
2837	वीरेंद्र मठोदिया, पुत्र श्री सुरेश मठोदिया	राजएसवीसी / 3516 / 08	प्रताप चौक, पुलिस चौकी के पीछे, बाराण, राजस्थान	बीवीएससीएवं एच / आरएयू / 08	10.11.79
2838	विशाल बंसल, पुत्र श्री शंकर लाल बंसल	सीजीएसवीसी / 442 / 09	अग्रसेन वार्ड, सरदार रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 07-08	7.10.82
2839	विशाल, पुत्र श्री विजय सिंह	एचपीएसवीसी / 835 / 08	ग्राम- थमानी, डाक- वरसार, जिला- हमीरपुर, हि.प्र.- 176041	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	17.2.85
2840	विशाल सान्याल, पुत्र श्री हरबंस सान्याल	एचपीएसवीसी / 852 / 08	ग्राम एवं डाक- रायपुर, थाना - भट्टियात, जिला- चम्बा, हि.प्र.	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	23.1.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2841	विशाल शर्मा, पुत्र श्री एस.एन. शर्मा	हरिएसवीसी / 2030	627, एसबीआई काम्प्लेक्स के निकट, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	21.1.85
2842	विशालसिंह रावत, पुत्र श्री जगदीश सिंह रावत	एमपीएसवीसी / 2591 / 09	गोडिया बिल्डिंग, डाबरा, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच / जेएनकेवी वी / 04	10.3.78
2843	विशे हीराकांत पांडुरंग	महाएसवीसी / 8069 / 08	सरकारी गोदाम के निकट, संत ज्ञानेश्वर नगर, सुवर्णदीप निवास, एस.बी.कॉलेज रोड, तालुक शाहपुर, जिला थाणे 421601	बीवीएससीएवंए एच / एमएएफ एसयू / 08	25.05.85
2844	विष्णु देव बिभाकर, पुत्र श्री शिवू यादव	बीवीसी / 2758 / 06	ग्राम-बरनारझूला, डाक- अमही, थाना- घोघरडीहा, सब - डिवीजन-फूलपरास, जिला - मधुबनी- 847402, बिहार	बीवीएससीएवंए एच / आरएयू / 06	1.8.76
2845	विष्णु सावंत, पुत्र श्री वी. विजय कुमारन	केरलएसवीसी / 3390 / 08	"विपंचिका" लेविन नगर, मन्तुथी, थिरसूर, केरल	बीवीएससीएवंए एच / पीयू / 08	20.10.85
2846	विश्वास तेहलान, पुत्र श्री डी.एस. तेहलान	हरिएसवीसी / 2041	259, पी.एल.ए., हिसार	बीवीएससीएवंए एच / सीसीएस एचएयू / 08	23.2.84
2847	विश्वनाथ टोप्पो, पुत्र स्व. श्री अंतु टोप्पो	जेवीसी / 574 / 09	लाइन टैंक रोड, चादरी (गोपाल गंज), रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच / बीएयू / 01	02.12.76
2848	विश्वाराध्य टी.एम., पुत्र श्री थिप्पे स्वामी टी.एम.	कर्नाएसवीसी / 4107 / 08	थारेहल्ली ग्राम, फल्लागट्टे डाक 577513, जगलुरे तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	28.6.85
2849	विश्वास के.जी., पुत्र श्री गंगाधर गौडा के.	कर्नाएसवीसी / 4122 / 08	न. 925, 2-डी क्रॉस, 9वां मैन, पहला एन ब्लॉक, एसआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलौर- 560043, कर्नाटक	बीवीएससीएवंए एच / केवीएएफ एसयू / 08	31.10.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2850	विवेक किशोर, पुत्र श्री नरेश प्रसाद	बीवीसी / 2883 / 07	ग्राम— शेखपुरा, डाक— मथुरापुर, थाना व जिला— खगरिया— 851204, बिहार	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 06	19.8.78
2851	विवेक ठाकुर, पुत्र श्री जीत सिंह ठाकुर	एचपीएसवीसी / 846 / 08	ग्राम— हर न्यूगल कैफे, टर्निंग चौक डाक, बुंदला टी एस्टेट, थाना— पालमपुर, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.— 176061	बीवीएससीएवं एच / सीएसके केवीवी / 08	23.9.83
2852	विवेकानंद मंडल, पुत्र श्री पृथ्वी चंद मंडल	जेवीसी / 557 / 09	शासुल नगर, साहिबगंज— 816109, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / आरएयू/ 97	11.02.70
2853	विवेकानंद मिश्रा, पुत्र श्री राम चंद्र मिश्रा	बीवीसी / 2945 / 08	ग्राम— बौरहा, डाक— माधोपुर, थाना— लौखा, सब—डिवीजन— फुलपरास, जिला— मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएवं एच / केएयू/ 07	1.3.79
2854	वाडजे संतोष गणपतराय	महाएसवीसी / 7843 / 07	गानिमपारा भोई गली, कर्बला रोड, नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	5.3.81
2855	वाघ सुदाम विष्णु	महाएसवीसी / 7829 / 07	फुले नगर, बदनापुर, जिला— जालना— 431202, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	7.6.83
2856	वाघ विराज आनंदराव	महाएसवीसी / 8064 / 08	नानक टैरेस, फ्लैट न.1, खत्री एस्टेट, भिगवान रोड, तालुक बारामती, जिला पुणे— 413102	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	17.08.84
2857	वाघमारे संजीवनी प्रकाश	महाएसवीसी / 8103 / 08	एटी—अटकूर, तालुक धर्माबाद, जिला— नांडेड, महाराष्ट्र, जिला— नांडेड— 431809	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	23.10.83
2858	वालके अशोक जयसिंग	महाएसवीसी / 7988 / 08	एटी / डाक— चमभुरदी (धागेवाडी), महाराष्ट्र, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 06	7.5.81
2859	वलसांगकर मुदस्सर गुलाब	महाएसवीसी / 8051 / 08	फ्लैट न. एस-2, बी—बिल्डिंग, अंकुर पार्क, 176, बुधवार पेठ, सतारा— 415001	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	04.02.85

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2860	वालुंज उदय दादाभाऊ	महाएसवीसी / 8070 / 08	स्वामी समर्थ नगर, मलदाड रोड, संगमनेर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर 422605	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 08	01.01.85
2861	विन्नीमोल जोस, पुत्री श्री जोस जॉन	केरलएसवीसी / 3339 / 08	नादुविलेपुरक्कल हाउस, मेलुकावू कोट्टायम- 686652, केरल	बीवीएससीएवं एच / केएयू / 0 8	29.5.85
2862	वाई.डी. प्रसाद रेड्डी, पुत्र श्री वाई.गोपाल रेड्डी	पीएसवीसी / 4761 / 08	क्वान. एसटी- 737, सेंटेंनरी कॉलोनी, कमानपुर (एम)करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	16.3.84
2863	वाई. सतीश, पुत्र श्री वाई गंगा राजू	पीएसवीसी / 4710 / 08	वंगारम्मा पेटा सलूर, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवं एच / एसवीवीयू / 08	20.8.85
2864	यदुवंश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह	जेवीसी, 278 / 08	टी.वी.ओ. सिनी, सरायकेला- खरसावान, झारखंड	बीवीएससीएवं एच / बीएयू / 93	24.12.66
2865	यमनप्पा, पुत्र श्री यमनप्पा	कर्नाएसवीसी / 4199 / 08	मैर्स इय्यप्पा सेल्स कॉर्पोरेशन, स्टेशन रोड, बासवेश्वर सर्कल, बगलकोट, कर्नाटक	बीवीएससीएवं एच / केवीएएफ एसयू / 08	1.6.82
2866	यांगचेन डोमा भूटिया, पुत्री स्व. के.टी. भूटिया	सिविकम / 84 / 03	होटल बर्डोज नेस्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम	बीवीएससीएवं एच / डब्ल्यूबीयू एएफएस / 04	
2867	यशवंत बाला साहेब किशनराव	महाएसवीसी / 7863 / 07	फुलारी निवास, कंडक्टर कॉलोनी, पारली, बैजनाथ, जिला बीड-431515, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवं एच / एमएएफ एसयू / 07	14.9.82
2868	यशवंत कुमार दाहिया, पुत्र श्री बी.आर. दाहिया	सीजीएसवीसी / 373 / 08	ओम नगर, जहरमद, विलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवं एच / आईजीके वीवी / 06-07	11.8.81
2869	यशवंत सिंह यादव, पुत्र श्री राघव प्रसाद	यूपीएसवीसी / 4752 / 08	ग्राम- उमरी, डाक- करमा, जिला- इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएवं एच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी / 08	5.6.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2870	येरोलकर अमरं जीवनराव	महाएसवीसी/ 7794/07	मातृ-पितृ छाया निवास, अम्बई, देगलूर रोड, उदगीर, जिला- लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/07	23.12.84
2871	यावले दिशाल दादाभाऊ	महाएसवीसी/ 7972/08	ए/पी- रीनावाडी, तालुक- पारनेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/08	7.8.85
2872	योगेंद्र कुमार गौड़, पुत्र श्री जगदीश गौड़	एमपीएसवीसी /2546/08	1/7, हॉस्पिटल कैम्पस, सबलगढ़, मोरैना- 476229, म.प्र.	बीवीएससीएवंए एच/जेएनकेवी वी/08	22.7.82
2873	योगेंद्र प्रसाद, पुत्र स्व. श्री हरहर प्रसाद	जेवीसी/482 /09	रिटा. परियोजना अधिकारी (मवेशी प्रभाग), राना प्रताप नगर, चास, बोकारो- 827013, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/आरयू/ 67	12.12.44
2874	योगेश चंद्र वर्मा, पुत्र स्व. श्री सूर्य शेखर प्रसाद वर्मा	जेवीसी/264 /08	वी.एस. 151, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, कुडरू, अंगोरा, रांची- 834002, झारखंड	बीवीएससीएवंए एच/एमयू/ 69	06.08.44
2875	योगेश कटरे, पुत्र श्री कृष्ण लाल कटरे	सीजीएसवीसी /396/08	क्वा.न. 153, शिशांक नगर कटरा, निवास दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	31.7.83
2876	योगेश कुमार देवांग, पुत्र श्री मनिराम देवांग	सीजीएसवीसी /394/08	आशादीप स्कूल के निकट, नया चागोरा भाधा, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	17.6.81
2877	योगेश कुमार साहू, पुत्र श्री जगेश्वर प्रसाद साहू	सीजीएसवीसी /380/08	मौह. एवं डाक- गिडोरी, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/06-07	4.5.83
2878	योगेश्वर पटेल, पुत्र श्री राम दयाल पटेल	सीजीएसवीसी /447/09	ग्राम एवं डाक- बड़ीशहर, थाना- सरगंधा, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएवंए एच/आईजीके वीवी/07-08	3.4.84
2879	जाहिद मिर्जा, पुत्र श्री तैयब मिर्जा	पीएसवीसी/ 4673/08	म.न. 8-2-42, नूर मस्जिद, धारुगली, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएवंए एच/एमएएफ एसयू/03	25.2.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2880	जोसांगपुरई, पुत्री श्री लालहनछुआना	निजएसवीसी / 174 / 09	म.न. डी / जेड, दिनथार, आइजवाल, निजोरम	बीबीएससीएवं एच / सीएयू / 08	3.3.83
2881	जुला रुद्रेश राजेंद्र भाई	गुजएसवीसी / 2988 / 08	गुरुकुल रोड, शारदा स्कूल के निकट, बुशुब टावर-2, अहमदाबाद- 380052, गुजरात	बीबीएससीएवं एच / एसडीएयू / 08	21.3.85

डॉ. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./141/09]

VETERINARY COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2010

F. No. 10-7/2009-VCI.— Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2009 shall be published in the Gazette of India for general information.

Indian Veterinary Practitioner's Register, Supplement-200

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1	A.Akbar Ali S/o Abdul Khadir	TNSVC/4099/08	1/10-A,David Colony,Trichy-620021,TamilNadu	BVSc/TNAU/80	11.2.57
2	A.Amal Raj S/o S. Adaickalasamy	TNSVC/4372/08	AE-83-10th Main Road,7th Street Anna Ng,Chennai	BVSc/Uni of Madras/66	25.5.42
3	A.Anil Kumar S/o A.Venkanna	APSVC/4773/08	H.NO.2-2-67,Near Main Road,Sandhubavi Bazar, Nalgonda Dt,Suryapet,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	16.1.84
4	A.Arun Ramkumar S/o G.Angamuthu	TNSVC/4366/08	Perumal Kovil Thottam,Moongilpatti,Kilvani Via,Atani,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.7.85
5	A.Bharat Reddy S/o A Biksham Reddy	APSVC/4751/08	Pangavanikunta(V),Halia(M),Nalgonda(Dt),A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.5.84
6	A.Chidambaram S/o P.M.Avudai	TNSVC/4088/08	9/172,Singarathoppu,Ramanathapuram-623501,Tamil Nadu	BVSc/MU/70	28.5.46
7	A.Dinesh S/o R.Arumugam	TNSVC/4342/08	Ammani Mallapuram PO,Palacode taluk,Dharmapuri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.12.84
8	A.Harikrishna Pillai S/o G. Ayyappan Pillai	KeralaSVC/3403/09	Lakshmi Sadanam,VIP Lane,Nr Railway Stain,Angamaly(PO),Ernakulam-683572,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	2.5.84
9	A.Jayapal Raja S/o C. Arumugasamy	TNSVC/4095/08	80/3,East Street, Serndamaram PO, Tirunelveli-627859,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/97	7.5.74
10	A.Jbansi Ram D/o A.Guruva Reddy	APSVC/4731/08	Anajipoor (V&P),Gajwel (M),Medak Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	29.9.83
11	A.John Rose S/o Aruthal Nayagam	TNSVC/4142/08	40,L.K.S Ng,Maharaja Ng,PO-Tirunelveli,TamilNadu	BVSc/TNAU/77	19.9.50
12	A.Kannan S/o G. Alagarsamy	TNSVC/4100/08	Alamarathupathy,Thirutangal Village,Virudhung,Dist-626130,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/96	7.6.73
13	A.Karthikeyan S/o S.Archamy	TNSVC/4180/08	4/151,Indhra Ng,Vadasithur PO,Pollachi,Coimbatore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.7.84
14	A.Kranthi Kiran S/o A.Badha Krishna Murthy	APSVC/4714/08	J.Pangulur(P&M),Prakasam Dt-523261,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	7.5.83
15	A.Latchumkanthan S/o R.Annamalai	PondiSVC/316/08	NO.3 Barathi Street, Subbiyah Nagar, Ariyankuppam, Puducherry -9	BVSc&AH/PU/07	8.3.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
16	A.Mano Ranjitham S/o D.Suresh	TNSVC/4359/08	72/7-C, Avaaiyar Street, Palaniyaapa Ng, Cheyyar, Thiruvannamalai, Tamilnadu	BVSc/TA/TANUVAS/00	15.3.76
17	A.Mary Nirmala Josephine S/o R.Chandrasekeran	TNSVC/4405/09	17, Thiruvalluvar St, S.P.Kailash Appartment, Bharathi Ng, Receview Colony Extn Guindy Chennai	BVSc/TANUVAS/00	15.3.75
18	A.Muthumari S/o Harikrishnan	TNSVC/4259/08	East Alagunachiapuram PO, Kuruvikulam Via, Sankarankoil taluk-627754, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.5.85
19	A.Parvathi S/o P.Appusamy	TNSVC/4194/08	Panangattu Thottam, Mukasipudur PO- Bhavani, Taluk Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.84
20	A.Phaneendra S/o A.Veera Bhadra Rao	APSVC/4795/08	D.NO.20-25-12, Ramachandra Rao Peta, Devi Chowk, Rajahmundry, East Godavari Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	23.6.83
21	A.Ponkalai Vani S/o M.Arumugam	TNSVC/4356/08	1/137, Vellikuppampalayam, Sirumugai, Coimb atore-641302, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.6.84
22	A.Pradeep S/o A.Anbalagan	TNSVC/4307/08	5(Old NO.14), 8th Street, Periyar Ng, Irumbuliyur, Tambaram, Chennai	BVSc&AH/TA/TANUVAS/08	22.8.85
23	A.Prakash S/o Ayyapillai	TNSVC/4241/08	Kulamangalam North Post, Alangudi Taluk, Pudukottai, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.7.84
24	A.Prakash S/o C.Arumugam	TNSVC/4265/08	7/124, Vairampalayam, Karichipalaym PO, Paraathivelur taluk, Namakkal- 637209, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.4.83
25	A.Prakash S/o M.Appadurai	TNSVC/4269/08	68/84-1, Nithyanagar Hind Cross, Kannankurichi Main Rd, Salem, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.7.84
26	A.Prathipa S/o B.Anandarajan	TNSVC/4169/08	7/2, Rohini Street, Rajaji Ng, Villivakkam, Chennai	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.4.86
27	A.R.Ravi Kumar S/o A.P.Rangasamy	TNSVC/4107/08	Atthappamapptti, Kolangudi PO- Mallasamuthiram, Namakkal, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/98	28.3.75
28	A.Rahima S/o M.Abdul Rasak Kaffar Khan	TNSVC/4138/08	21, Sara Manzil West Venugopalapuram, Manjakuppam, Cuddalore, TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	13.7.86
29	A.Rajesh Kumar S/o T.Asokan	TNSVC/4354/08	4/53, Dharmapuri Main Road, Arsampatti PO, Pochampalli taluk, Krishnagiri, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/98	2.3.85
30	A.S.Vijaya Lakshmi W/o S.Suresh Kannan	TNSVC/4101/08	23, Bama Ng, Opp to Balamurugan Temple, Thapai Thanthi Ng, North Extn. Madurai, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/97	27.4.73
31	A.Sharmila Devi S/o M.Alagu	TNSVC/4266/08	1/351-A, 10th Street, T.Pudur Sivagangai- 630562, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.3.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
32	A.Sobana S/o K.Anbazhagan	TNSVC/4303/08	B.Nadoor,B Thurunjipatti,PO-Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.5.83
33	A.Sudhakar S/o V.Ananthasayanam	TNSVC/4105/08	Vinayagar Koil Stree,Pudukuppam Uppuvellore,PO-Vanur Taluk, Villupuram,TamilNadu	BVSc&AH/PU/01	26.4.79
34	A.Supriya D/o A.Asservadam	APSVC/4800/08	D.No.3-226,Sanjay Gandhi Ng, Katheru,Rajahmundry,East Godavari,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	18.2.81
35	A.Suresh Nayak S/o A.Teekyanayak	APSVC/4780/08	H.NO.30-126,Nr Petrol Bunk, Edulaguda, Miryalguda,Nalgonda Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	2.2.82
36	A.V.Backiya Lakshmi S/o A.Venkatachalam	TNSVC/4153/08	23,Goundapalayam,Puliyur,PO-Karur,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.3.86
37	A.Veerainthiran S/o E.Aranganathan	TNSVC/4202/08	Keeza Street,Karadikulam,PO-Udayarpalayam Taluk,Jayankondam,Ariyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	29.6.84
38	A.Venu S/o A.Agaiah	APSVC/4770/08	H.NO.25-8-650,Diesil Colony,Kazipet,Warangal-5069003,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	30.5.81
39	A.Yuvraj s/o P.Arumugam	TNSVC/4345/08	14/32,Kunsettikulam St,S.V.Road,Dharmapuri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.9.83
40	Aamod Kumar S/o Sh Rajendra Prasad	BVC/2928/08	Vill &PO-Bari Dhamiyari, Thane-Tharthari,Sub- Div-Hilsa, Dt-Nalinda-801307,Bihar	BVSc&AH/KVA&FS/07	1.3.80
41	Abdul Ali Ansari S/o Sh Abdul Wadood	UPSVC/4766/08	Takiya Nida Shan,PO-Dostpur,Dt- Sultanpur,U.P.	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	8.6.82
42	Abdul Firos P.A S/o Abdul Khader	KeralaSVC/3478/09	Puthiyaveettil House, PO- Talikulam,Thrissur, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	8.4.85
43	Abdul Mobin S/o Abdul Waheed	BVC/2919/08	Vill &PO-Mordwi,Thane-Budha Colony,Sub- Div-Patna Sadar-80001,Bihar	BVSc&AH/KVA&FS/07	12.2.84
44	Abhay Kumar S/o Sh Gopal Prasad Sinha	BVC/2786/06	Vill-Baraini,PO-Nekpur,Thane- Neemchak,Bathani,Sub-Div- Neemchak,Bathan,Dt-Gaya,Bihar	BVSc&AH/WBUFSU/06	1.3.78
45	Abhay Kumar S/o Sri Ganpati Mandal	JVC/434/08	Haranganj. College More,Hazaribagh- 825301,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	01.02.84
46	Abhay Prasad Singh S/o Late Bhuwneshwer Prasad Singh	JVC/199/08	Main Road, Latehar- Pin-829206 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	16.1.57
47	Abhinav S/o Shri Somnath Toppo	JVC/217/08	Tala (Dumber Toli), Chanho, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	10.11.80

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
48	Abhishek Anand S/o Sh Akhileshwar Pd Singh	BVC/2935/08	Vill & PO-Nohar, Thane-Suryapura, Sub-Div-Bikramganj, Dt-Rohtas, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	27.1.83
49	Abhishek Gaurav S/o Dr. Akhilesh Kumar	UVC/385/08	I/133 Phool Bagh Pantnagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	1.1.85
50	Abhishek Kr. Srivastav S/o Sh .P.M.Srivastava	UPSVC/4814/08	H.NO. 633, Begamganj, Maqabara, Faizabad, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	20.8.82
51	Abhishek Kumar Mishra S/o Sh P.N.Mishra	UPSVC/4864/08	Vill&PO-Baithwalia, Dt-Maharajganj, U.P	BVSc&AH/MAFSU/08	8.2.82
52	Abhishek Kumar S/o Sh Triloki Sharma	BVC/2738/06	Vill-Hirapur, PO-Gurthanwa, Thane-Kundwa Chainr, Sub-Div-Sikarhana, Dt-East Champaran, Bihar	BVSc/TNV&ASU/05	3.2.82
53	Abhishek Kumar S/o Sri Devi Dayal Mandal	JVC/372/08	Asstt. Prof. of Medicine, RVC, Kanke, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/99	15.06.77
54	Abhishek Mishra S/o Sh Ganesh Mishra	CGSVC/383/08	Nayaganj, Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	29.7.83
55	Abhishek Thakur S/o sh Jeet Singh Thakur	HPSVC/847/08	Vill- Har Neugal Café Turning Chowk PO, Bundla Tea Estate, The- Palampur, Distt-Kangra, H.P.-176061	BVSc&AH/CSKVV/08	12.3.82
56	Acche Lal Singh S/o Sh Ram Sundar Singh	CGSVC/424/08	Gram&PO-Janet, The-Todhar, Dt-Reva, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/86-87	3.10.62
57	Achyutananda Das Mohapatra S/o A. Dasmohapatra	OrissaSVC/2239/08	AT; Dharastak Nayabazar, Po-Jaleswar, Dt-Balasore-756032, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	24.5.83
58	Adarsha D.B S/o Basavarajappa D.J	KarSVC/4126/08	Mellekatte Post -577512, Davangere Tq&Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	30.7.85
59	ADGALE ASHOK ARJUN	MahaSVC/7832/07	A/P.-Pohner, Tal/Dist-Osmanbad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	2/6/83
60	Aditya Kumar S/o Sh Arbind Kumar Singh	BVC/2828/07	Vill-PO-Benipur, Thane-Benipur, Sub-Div-Benipur, Dt-Darbhangha, Bihar	BVSc&AH/SKUSA&T/06	1.3.80
61	Aditya Prasad Sahu S/o Sh Antaryani Sahoo	OrissaSVC/2257/08	Plot No.-N6/327, Jaydev Vihar, BBSR-15, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/05	17.7.81
62	ADSUL ABHISHEK PURUSHOTTAM.	MahaSVC/7777/07	F-19-01, Sarvoday Society, Sector-48, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13/6/81
63	Aftab Adil S/o Late Md. Alihuddin	JVC/571/09	Semar toli (Adhinabad) Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	19.11.74

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
64	AGHAV DHANANJAY VIKRAM	MahaSVC/7827/07	144,At-Nandgaon, Post-Shingave,Dt- Ahmednagar-414103,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/7/85
65	Agloidiya Khadimhusen Habibbhai	GujSVC/2944/08	At-Barodiyakampa,PO-Mathsar,Ta-idar,Dt- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	16.4.85
66	Agloidiya Rasidbhai Ahmedbhai	GujSVC/2945/08	At-Nagel,PO-Moriya, Ta-Danta,Dt-B.K.,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	1.6.82
67	Agresh Singh Yadav S/o Sh R.S.Yadav	UPSVC/4773/08	Vill-Dharawan,PO-Jewel,Dt-Ghazipur,U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	13.9.73
68	AHER AMOL SHARAD,	MahaSVC/8052/08	"Shital Bunglow",Sagar Housing Complex,Pune Nasik Road,Sangamner, Dist.Ahmednagar-422605.	BVSc&AH/MAFSU/08	29/11/85
69	AHER VAIBHAV VISHWASRAO.	MahaSVC/8071/08	Hanuman Nagar, Malegaon Road,Manmad,Maharashtra Tal.Nandgaon,Dist.Nasik-423104.	BVSc&AH/MAFSU/08	18-09-84
70	AHIRE GIRISH SURESHRAO	MahaSVC/7826/07	A/P.-Patne ,Tal-Malegaon,Dt-Nasik- 423203,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/7/85
71	Ahmed Shame Uddin S/o Sheikh Khadem Ali	ASM/2371/08	Hatsingimari, PO-Hatsingimari,Dist- Dhubri - 783135, Assam	BVSc&AH/AAU/06	1.3.80
72	Ahmed Mahiuddin S/o Riaz Uddin Ahmed	ASM/2402/08	Vill&PO-Mirza, Dist- Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/08	23.4.81
73	Aiswarya R Nair D/o B.Chandrasekharan Nair	KeralaSVC/3473/09	"Aiswarya" Velloorkonam,Attingal PO,Thiruvananthapuram-695101,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	7.5.84
74	Ajai Lawrence Disilva S/o Judy D'silva	KeralaSVC/3427/09	Valiakattath House, Ripon PO,Meppadi (via),Wayanad,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	5.9.84
75	Ajay Kumar Gupta S/o Sh Madan Mohan Golia	RajSVC/3508/08	VPO-Sikrai,Dausa-303508,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	16.7.82
76	Ajay Kumar Gupta, S/o Sri Jagannath Prasad Gupta	JVC/405/08	Touring Vety Officer,Godda, Jharkhand	BVSc&AH/ANGRAU/04	06.08.77
77	Ajay Kumar Niranjn S/o Sh Vasudev Singh	UPSVC/4798/08	Vill&PO-Beerpur,Dt-Jalaun,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	1.7.82
78	Ajay Kumar Patel S/o Sh Faguni Patel	CGSVC/359/08	Vill&PO-Reda,Via-Chandrapur,Dt- Jahangir,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	1.7.80
79	Ajay Kumar Patel S/o Sh Ram Surat Patel	UPSVC/4774/08	Vill-Siswababu,PO-Sawaraji Dt- Maharajan,U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	5.4.79

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
80	Ajay Kumar S/o Late Jagdish Pd. Singh	JVC/230/08	T.V.O. Barkagaon, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/92	01.09.65
81	Ajay Kumar S/o Sh Mehtab Singh	UPSVC/4886/09	New Basti, Modi Chauraha, Gursrain, Jhansi, U.P	BVSc&AH/KAU/09	5.7.85
82	Ajay Kumar S/o Sh Anil Kumar Singh	BVC/2795/06	Vill-Berbighi, PO-Husaina, Thane-Balia, Sub-Div-Balia, Dt-Begusarai, Bihar	BVSc&AH/WBUDSU/06	7.1.81
83	Ajay Kumar S/o Sh Brij Pal Singh	UPSVC/4746/08	Vill-Mongar, Dt-Badaun, U.P	BVSc&AH/GBPU&T/08	17.11.81
84	Ajay Kumar Singh S/o Sh Anirudha Singh	BVC/2745/06	Vill-Ananthpur, PO-Ruppur, Thane&Sub-Division-Mohonia, Dt-Kaimur-821109, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.1.79
85	Ajay Kumar Yadav S/o Sri Ram Kailash Prasad Yadav	JVC/367/08	Vill-Makari, Bhavnathpur, Nagarutari Garhwa, Pin822112, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	10.09.64
86	Ajay Pratap Singh S/o Sh Jai Ram Singh	UPSVC/4840/08	Vill-Aadarash Ng Po, Sagaripali Police Station, Dt-Balia, U.P	BVSc&AH/KAU/07	6.1.81
87	Ajay Shanker Singh S/o Late Katyayani Shanker Singh	JVC/566/09	TVO, Tatisilwai, Namkum, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/83	02.01.57
88	Ajeesh Mathew S/o K.M Mathew	KeralaSVC/3435/09	Kalayathinal House, Edamaruku PO, Kottayam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	2.10.82
89	Ajeet Kumar S/o Sri Bhagwat Prasad	JVC/404/08	Touring Vety Officer, Bari-Kodarjana, Sahibganj, Jharkhand	BVSc/TANUVAS/03	01.03.78
90	Ajit Kumar S/o Shri Ratneshwar Prasad Singh	UVC/384/08	V.O., Vety Hospital, Shrikot Uttarkashi, Uttarakhan	BVSc&AH/GBPUA&T/08	3.7.81
91	Ajit Kumar Sharma S/o Sh Nunumani Sharma	BVC/2905/07	VillPO-Parria, Thane-Sonbarsa Raj, Sub-Div-Simri Bariyantapur, Dt-Saharsa, Bihar	BVSc&AH/IGKVV/06	3.6.80
92	Ajit Kumar Sinha S/o Late Sada Shiva Prasad	JVC/359/08	University Professor, Dept. of Ani. Nut. RVC Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	17.08.50
93	Ajit Kumar Sinha S/o Sh Rajendra Prasad	BVC/2873/07	Vill-Dosuth, PO-Dosuth, Thane-Bena, Sub-Div-Biharsharief, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	1.3.80
94	Ajit Kumr S/o Sh Saryug Prasad Chaudhay	BVC/2896/07	Vill&PO-Pratapganj, Thane-Pratapganj, Dt-Supaul-852125, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/07	26.1.81
95	Ajit Sharan S/o Sri Kismori Raman Sharan	JVC/547/09	TVO Bermo, Tenughat, Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	20.07.69

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
96	Ajith M. S/o M.Kamaludeen	KeralaSVC/3428/09	Firdouz, Vikas Ng, Pattathanam PO, Polayathodu, Kollam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.2.84
97	Ajmer Singh S/o Sh Kitab Singh	HarSVC/2020	# 85/9, Shastri Nagar, Ladhok Road, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/03	16.12.79
98	Akash Maheshwari S/o B.S.Gupta	UPSVC/4734/08	8/172, Bharigon Bazar, Belanganj, Agra, U.P	BVSc&AH/RAU/07	19.4.81
99	Akhalesh Kumar S/o Sh Khushi Ram Singh	UPSVC/4892/09	Vill-Mewajet Po, Mewanawada Dt, Bijnor, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	8.5.79
100	Akhilesh Kumar Tripathi S/o Sh Rajkishore Tripathi	BVC/2824/06	Vill-Ward NO.12, PO+Thane-Bhabhua, Sub-Div- Bhabhua, Dt-Kaimur, Bihar	BVSc&AH/JNAU/06	1.3.77
101	Akhilesh Kumar Tripathi S/o Sbri Rajkishor Tripathi	UVC/411/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Chalthi, Distt- Champawat, Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/06	1.3.77
102	Akhilesh Kumar, S/o Shri Mukhdeo Singh	JVC/038/08	Block Ani. Hus Officer, Sonahatu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	14.11.72
103	Akhilesh Mishra S/o Sh Virendra Mishra	MPSVC/2593/09	V&P-Dakahara, Via-Chak, Dist-Rewa, M.P- 456226	BVSc&AH/JNKVV/08	1.8.80
104	Akhilesh Sagar S/o Sh Harsukh Lal Sagar	UPSVC/4757/08	Singh Colony, Bbalsapur, Rampur, U.P.	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	15.6.82
105	Akhilesh Singh Kushwaha S/o Shobhara m Kushwaha	MPSVC/2537/08	Bharoli Road, Sita Nagar (A-Block), B.T.I Teraha, Dt-Bhind-477001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	7.7.83
106	Akhileshwar Murmu S/o Sri Madan Murmu	JVC/444/08	Murgadih, Patrodih, Narayanpur, Jamtara, Jhark hand	BVSc&AH/BAU/08	04.05.82
107	Akshatha S Angadi D/o Siddappa S Angadi	KarSVC/4201/08	Kendur-587201, Badami Tq, Bagalkot Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	4.2.86
108	Akshay Tyagi S/o Sh C.D. Tyagi	UPSVC/4828/08	Vill-Badrudin Ng, Nanu, Sardhana Dt- Meerut, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	16.12.84
109	Akshya Prakash S/o Sh Keshev Pd	BVC/2926/08	Vill-Birnawa, PO-Dosut, Thane-Chandi, Sub-Div- Hilsa, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/CSKHPKVV/07	30.1.78
110	Alexy R.U D/o G.Raveendran	KeralaSVC/3378/08	Prasanth Kanchiyoorkonam, Kattakada PO, Thiruvananthapuram-695013, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	5.5.83
111	Alfred Minz S/o Late Victor Minz	JVC/563/09	Samtoli, Gotra (Simdega), Simdega-835223, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	16.08.66

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
112	Ali T.A. S/o T.K. Abdu	KeralaSVC/3313/08	Thanathuparambil PO, Madavana Eriyad (Via), Kodungalloor, Thrissur-680666, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	20.6.60
113	Alisha D/o Sh Suresh Chander	HarSVC/2050	6/4, Old Campus, CCS HAU, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	17.12.84
114	Alka W/o Sh Vikas Galav	RajSVC/3511/08	H.NO.B-44, New Jawahar Nagar, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/03	26.8.77
115	Alok Bharati S/o Dr. Awadhesh Prasad Singh	JVC/446/09	Permeshwar Colony, Opp Maruti Motor World, Kapli, Mango, Dalbhoom, East Singhbhoom, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	05.07.82
116	Alok Kumar Pandey S/o Sri Braj Kishor Pandey	JVC/458/09	2,C, Saraswati Apartment Mathura Vihar, Kanke Rd, Gonda, Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	30.01.63
117	Alok Kumar S/o Sri Ram Dayal Singh	JVC/492/09	Nichli Tarn, Ghanghari, Hanterganj, Chatra, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	11.09.69
118	Alok Kumar Singh S/o Late Sachindanand Singh	JVC/473/09	Jagdish Enclave B-223, Devi Mandap Ratu Road, Hehal, Ranchi-834005, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	03.01.70
119	Alok Kumar Sinha S/o Sri Suresh Chandra Prasad	JVC/386/08	T.V.O. Mahuda Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	03.01.66
120	Amandeep Kaur Gill D/o Sh Harjet Singh Gill	Pb.SVC/2797/08	1321/603, Sherpur Kalan Focal Point Post, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	25.11.84
121	Amandeep S/o Sh Omvir Singh	HarSVC/2028	#743, Sector-1, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	23.2.86
122	Amandeep Singh S/o Sh Gurbax Singh	Pb.SVC/2847/08	VPO-Fatehgarh, Panjtoor, Dt-Moga, Punjab	BVSc&AH/JNKVV/08	25.11.81
123	Amandeep Singh S/o Sh Gurjant Singh	Pb.SVC/2836/08	VPO-Bachhoana, The- Budhlada, Distt-Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	16.6.83
124	Amanpreet Singh Basra S/o Sh Jit Singh Basra	Pb.SVC/2820/08	26, BRS Nagar, Ludhiana	BVSc&AH/GADVASU/08	19.3.78
125	Amar Deep igga S/o Sri Ambrojius Tigga	JVC/307/08	S/o Sri Ambrojius Tigga, Mohalla-Brambay, Post-Mander, Dist-Ranchi-835214, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/03	30.12.77
126	Amardeep Singh S/o Dr. Bhanwar Singh	UVC/358/08	109 Indira Nagar, Coloney, New Forest Dehradun, Uttarakhan	BVSc&AH/GBPUA&T/92	17.7.66
127	Amardeep Singh S/o Sri Bhagwan Pd. Singh	JVC/489/09	Narhi Diyara, Ganga Prasad, Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/98	05.12.74

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
128	Amarendra Kumar S/o Sri Chandrashekhar Dutt	JVC/271/08	C/o Sri Chandrashekhar Dutt, Jhumari Tileiya , Ward No.1, Behind Sai Electronics Factory, Jhumri Telaeya, Koderma, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	03.07.70
129	Amarjeet Singh S/o Sh Manohar Singh	Pb.SVC/2834/08	Vill-Chock Sohna Sander,PO- Lamocheer Kalan, The- Jalalabad (W), Distt Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	15.3.83
130	AMBATKAR SHASHWATI KRISHNA	MahaSVC/7757/07	Radhakrishna Apartment,B-24,Chintaman Ng, Wardha Road, Nagpur-25,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/6/85
131	Ambika Kaw D/o Sh Ashok Kumar Kaw	Pb.SVC/2839/08	Room no.21, Hostel NO-5, GADVASu (PAU) Campus, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	23.1.85
132	Ambika V. D/o Thampuran K.S	KeralaSVC/3392/09	Bhargavi Nilayam,Kandalloor North,Pattoli Market PO, Alappuzha,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.12.84
133	Ambili.K D/o K.Prabhakaran	KeralaSVC/3353/08	Kancharankandi House PO, Pappinisseri West,Kannur-670565,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	18.1.83
134	AmbojKumar Mahto S/o Sri Bhikhu Mahto	JVC/517/09	Tunku, Patrahatu, Silli, Ranchi-835102, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	15.01.67
135	Ambuj Kumar S/o Sri Madan Lal Sharma	JVC/486/09	4D/5, Kalikanagar, M.G.M. Medical College, mango, Jameshedpur-831018,, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	31.01.74
136	Amit Mathur S/o Sh Jugal Kishore Mathur	RajSVC/3471/08	1-B-6 Pratap Nagar,Jodhur-342004,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	8.9.82
137	Amit Arora S/o Late Sh Gurudas Mal	UVC/432/08	Vety Hospital Manglore, Dt-Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	15.8.77
138	Amit Bhardwaj S/o Shri U.C.Dutt	UVC/406/08	4/2 Chaw Mandi ,Roorkee,Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	21.7.84
139	Amit Kawade S/o Sh Deepak Kumar Kawada	CGSVC/416/08	B/2, Bank of India Staff Qtrs -6, Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	13.3.84
140	Amit Kumar Das S/o Sh S.M.Das	CGSVC/445/09	S-201,Ashoka Ratan Shankar Nagar,Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	20.4.82
141	Amit Kumar Dash S/o Sh Sobhs Kh. Dash	OrissaSVC/2225/08	W.NO.-8,Denlasahai, Baripada,Mayurbhanj-757001,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	19.4.83
142	Amit Kumar Gupta S/o Dr. Rajendra Prasad Gupta	JVC/325/08	C/o Dr. Rajendra Prasad Gupta, Ramgarh Block Office, Ramgarh Cantt., Hazaribagh-829122, Jharkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/00	02.06.72
143	Amit Kumar Jha S/o Raj Kumar Jha	JVC/436/08	Basukinath Jarmundi,Dumka,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	25.02.79

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
144	Amit Kumar Rastogi S/o Sh S.K.Rastogi	CGSVC/348/07	A-1/29,Surya Vihar,Jamul, Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/91-92	18.5.68
145	Amit Kumar S/o Sh Arjun Singh	HarSVC/2070	VPO - Tankri, Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	24.12.82
146	Amit Kumar S/o Sh Arun Kumar Jha	BVC/2885/07	Vill &PO-Marukiya,Thane-Khajauli,Sub- Divison-Madhubani,Bihar	BVSc&AH/AAU/07	2.1.84
147	Amit Kumar S/o Sh Ishwer Singh	HarSVC/2033	VPO -Bhangarh, Distt-Bhiwani,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	11.8.84
148	Amit Kumar S/o Sh R.C. Chaoudhry	UVC/369/08	Vill-Rampura,The- Sitarganj, Dt-U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	28.8.83
149	Amit Kumar S/o Sh Rajendra Kumar Sinha	BVC/2868/07	Vill-Laugai(Habbipur),PO-Madhuapur,Thane- Kahalgaoon,Dt-Bhagalpur,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	15.8.81
150	Amit Kumar S/o Sh Sunil Kumar	Pb.SVC/2812/08	H.No.10/49,PAU Campus, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	1.03.82
151	Amit Kumar S/o Shri Hukam Singh	UVC/394/08	Vill-Hazzarpur, PO- Landhora, Dt- Haridwar,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	4.7.84
152	Amit Kumar Tiwari S/o Ashwani Ku Tiwari	CGSVC/366/08	11-A Street -13,Section 10, Bhilai,Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	18.4.81
153	Amit Malhotra S/o A.P.Malhotra	UPSVC/4756/08	55,Seetal dham Colony,Sarlabgarh Extension,Dayalbagh, Agra,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	11.10.82
154	Amit Sarwa S/o Sh Mool Chand Sarwa	RajSVC/3585/09	55,Church Road, Vivekanad Colony,Deoli, Tonk,Rajasthan	BVSc&AH/SKNDU/08	22.10.83
155	Amitabh Kumar S/o Bhagirath Pd Singh	BVC/2833/07	Vill+PO-Simhari,Thane-Dhanarua,Sub-Div- Masaurih,Dt-Patna,Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/06	18.12.82
156	Amitabh Sachnn S/o Sh P.K.Sachnn	UPSVC/4857/08	Vill&PO-Bamthara Kora Jahanabad,Dt- Fatehpur,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	7.4.80
157	Amitabha Dhar S/o Shri Amal Dr. Dhar	JVC/231/08	B.A.H.O Ramgarh, Hazaribagh-829122, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/83	21.11.59
158	Ammu Ramakrishnan D/o P.N Ramakrishnan	KeralaSVC/3440/09	Qtr No.30B,KAU Campus,KAU(PO),Thrissur- 680656,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	9.6.84
159	Amrendra Kishore S/o Sh Narendra Prasad	BVC/2860/07	Vill+PO-Dohar,Thane-Rasulpur,Sub-Div- Chhapra,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	21.11.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
160	Amrendra Kumar Bhushan, S/o Shri Mahabir Prasad	JVC/034/08	Block A.H Officer,Gamaharia,Adiyapur,Seraikela,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	10.03.71
161	Amrendra Kumar Pandey S/o Sri Rewati Raman Pandey	JVC/594/09	TVO Margomunda, Karon, Madhupur, Deoghar-815353, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/95	05.01.70
162	Amrendra Kumar Srivastava S/o Late Bishnu Deo Prasad	JVC/536/09	Panki Road,Rarma(Near C.P.I.Off)Daltanganj Palamu-822101,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	12.01.64
163	Amresh Narayan Sinha S/o Late Ganesh Praad Saha	JVC/379/08	Adarshpuri, Arsandey, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/95	06.03.71
164	Amreshwar Prasad Sinha S/o Late Rajeshwar Prasad Sinha	JVC/365/08	Uni. Proff & chairman, Dept of Ani. Nutrition, RVC Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/Magadh Uni/69	05.02.46
165	Amrita Singh D/O Shree Kant Singh	UVC/409/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital,Kaljikhil,Dt- Puari Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/AAU/06	9.9.79
166	Amritpal Singh Sekhon S/o Sh Sewa Singh Sekhon	Pb.SVC/2835/08	C-20/2,Ranjit Avenue, Amritsar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	9.10.83
167	Amruthraj G.K. S/o Gadigaiah K.V	KarSVC/4119/08	Nandigudi Vasana Post,Harihara Tq,Davanagere Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.8.85
168	AMRUTKAR SURAJ ASHOKRAO	MahaSVC/7927/08	Matanagar,Ralegaon. Tal-Ralegaon,Dt-Yavatmal,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	26/4/84
169	Anand Kumar Anand S/o Sh Rohit Thakur	BVC/2792/06	Vill-Gulaonagar,PO-Sanhauli,Thane-Khagaria,Sub-Div-Khagaria,Sub-Div-Khagaria,,Bihar	BVSc&AH/AAU/06	16.1.77
170	Anand Kumar Anandmay S/o Ram Sinhasan Singh	JVC/244/08	B.A.H.O. Barkatta, Hazaribag, Jharkhand	BVSc&AH/MAFSU/05	21.07.79
171	Anand Mohan S/o Sh Krishna Kr Prasad	Pb.SVC/2838/08	Room No.-210,Hostel NO.-8, GADVASU-PAU Campus,Ludhaian,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	1.3.83
172	Anand Pandey S/o Sh Ramprasad Pandey	CGSVC/418/08	Kapoor Bunglow Ka Pass,PO-Dhavari, Dt-Satna,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/03-04	5.7.84
173	Anand Patidar S/o Sh Mohanlal Patidar	MPSVC/2529/08	Sheetia Matta Gali, Kodariya Mhow,Indore-453441,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	7.1.83
174	Anant Kumar Sinha, S/o Late Shri Brihaspati Pd. Sinha	JVC/018/08	Project Officer, Sheep Breeding Farm, Chatra,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	18.07.51
175	Andrew M S Zula S/o T Liana	MizSVC/177/09	Durtlang M-5,PO-Durtlang, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	25.4.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
176	Aneer Hussain T.A S/o T.S. Anwar Hussain	KeralaSVC/3445/09	Thenungal, Pipe Line Road, Aluva- 683101, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.10.82
177	Angela L Rentlei D/o R. Lalrema	MizSVC/180/09	Chaltlang, Dawrkawn, PO- Aizwal, Mizoram	BVSc&AH/AAU/08	13.8.84
178	Anil Chaudhari S/o Sh Tara Chand Chaudhari	RajSVC/3543/08	VPO- Hetampur Via- Nau, Jhunjhunu Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/08	7.10.80
179	Anil Kumar Karn S/o Sh P.R.Karn	CGSVC/411/08	Moh&PO-Saposh, The-Dhafara, Dt- Jajagir, Champa, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	1.7.71
180	Anil K V S/o Umamaheshwarappa K.B	KarSVC/4102/08	238/A-Block, 1st Cross, 100ft Road, Gopalagowda Extn., Shimoga- 577204, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	28.5.85
181	Anil Kerketta S/o Late Madhu Oraon	JVC/318/08	C/o Sri Chamru Kerketta, Moh-Changani, Tikratoli, Bero, Ranchi-835202, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	15.12.72
182	Anil Kumar Giri S/o Sh Ram Awatar Giri	UPSVC/4872/08	42-D/1-A, Netaji Ng, PAC Rd, PO-Harjinder Ng, Kanpur, U.P	BVSc&AH/JLKVV/02	5.8.76
183	Anil Kumar Kewat S/o Shri K.R. Kewat	MPSVC/2520/08	H-5, Jal Sansadhan Colony, Debra, Gwalior- 475110, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	13.7.81
184	Anil Kumar Lugun, S/o Shri Amus Lugun	JVC/207/08	Kharwagarha, Jaldega, Simdega, 835211, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	08.08.75
185	Anil Kumar Nayak S/o Sri Kedar Nath Nayak	JVC/590/09	Obaria, Hatia, Jagarnathpur, Namkum, Ranchi-834003, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	19.01.71
186	Anil Kumar Patil S/o Sh Budhram Patel	CGSVC/363/08	Vill-Kharkhona, PO-Shala, Dt- Janjaghir, Champa, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	21.2.78
187	Anil Kumar Rabi S/o Amirchand Ram	BVC/2776/06	Vill+PO-Kamrigaon, Thane-Titiyab, Sub- Division-Jagdishpur, Dt-Bhojpur-802183, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	13.10.82
188	Anil Kumar S/o Sh Bhola Mandal	BVC/2768/06	Vill-Ganauli, PO-Parwana, Thane-Hathori, Sub- Division-Rosera, Dt-Samastipur, Bihar	BVSc&AH/GBPA&T/06	16.5.77
189	Anil Kumar S/o Sh J Sah	BVC/2950/08	Vill-Madhopur, PO&Thane-Desri, Sub-Div- Hajipur, Dt-Vaishali, Bihar	BVSc&AH/RAU/08	27.2.80
190	Anil Kumar S/o Shri Bhagwat Prasad	JVC/186/08	T.V.O; Bilashpur, Garhwa, Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSU/05	08.06.76
191	Anil Kumar S/o Shri Bhola Mandal	UVC/419/08	Vety Officer(Contract) Dewal, Distt- Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/06	16.5.77

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
192	Anil Kumar S/o Sri Ramkeshwar Ram	JVC/453/09	Saini, Niwas,Arsandey, Kanke Ranchi-834006,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	13.11.62
193	Anil Kumar Singh S/o Late Shiv Lok Singh	JVC/259/08	Kokar Chunna Bhatta, Kokar, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/88	20.01.61
194	Anil Kumar Singh S/o Sh Lal Saheb Singh	UPSVC/4739/08	Vill-Basti Ghak Gulra,PO- Pawai Dt-Azamgarh,U.P	BVSc&AH/KAU/08	3.7.80
195	Anil Kumar Sinha S/ Sri Kailash Prasad singh	JVC/348/08	BAHOGovindpur, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	09.04.68
196	Anil Kumar, S/o Shri Raghu Nandan Prasad	JVC/020/08	Manager, Regional Poultry Farm, Hotwar, Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	05.01.65
197	Anil Nama S/o Sh Chaturbhuj Nama	RajSVC/3499/08	A-16, Chitragupta Colony,Kota, Rajasthan	BVSc&AH/GADV&AU/07	21.8.82
198	Anil Patyal S/o Sh Vijay Kumar Patyal	HPSVC/833/08	Vill- Siswa, PO -Barin Mandir, The&Distt-Hamirpur, H.P -177023	BVSc&AH/CSKKVV/08	12.4.84
199	Anil Sharma S/o Shri Gandharwa Sharma	MPSVC/2582/09	Vill-Bhua-Ka-Pura,Po-Kand-Ka-Pura,The-Ambaha,Dt-Morena-476111,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	15.2.83
200	Anil Singh S/o Shri Achhelal	MPSVC/2526/08	Vill-Madro, The-Teothar,Dist-Rewa-486001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	25.1.80
201	Anilkumar B S/o C.C. Bettgowda	KarSVC/4207/08	No.2296,2nd Cross.Gandhinagar,Mandya-571401 Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.4.77
202	AnilKumar B.N. S/o Nagendrappa	KarSVC/4113/08	Agarabannihatty, Channagiri Tq,Devanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.6.85
203	Animesh Jaiswal S/o Late Sh Madan Mohan Jaiswal	CGSVC/399/08	Big Bazar, Dhirmiti Dt, Koreia,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	22.11.82
204	Anish Rajan S/o C.K.Rajan	KeralaSVC/3479/09	Charivupurayidathil, Keezhcherilmel,Chengannur PO, Alappuzha-689121,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	4.11.81
205	Anita Tewari D/o Shri Diwakar Prasad Tewari	UVC/392/08	T.No.913 Power House Laikua, Dt-Ninital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	16.2.85
206	Anjani Kumar Sinha S/o Sh Naresh kumar Sinha	BVC/2856/07	Vill- Dekpura, PO-Moratalab,Thane-Rahui, Biharsharif,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	1.3.78
207	Anjani Kumar S/o Sh Markandeya Rai	BVC/2938/08	Vill&PO-Rani,Thane-Bachhwara,Dt-Begusari,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	1.1.81

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
208	Anjani Kumar S/o Shri Devaki Nandan Prasad	UVC/410/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital,Kandakhal, Dt-Puari Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/04	15.2.79
209	Anjani Kumar Sinha S/o Shri Naresh Kumar Sinha	UVC/414/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital ,Chamoli,Uttarakhand	BVSc&AH/RAU/07	1.3.78
210	Anju Anna James D/o V.Y. James	KeralaSVC/3463/09	Vazhappallil "Anjali" Hospital Junction,Kundara(PO),Kollam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	4.12.84
211	Anju Elis Ben D/o K.A. Benjamin	KeralaSVC/3327/08	Kandnkulathu House,Karyavattom PO,Thiruvannathapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	2.4.84
212	Ankita D/o Sh Virender Singh	HarSVC/2074	Back Side Old Civil Hospital, Ch Dadri Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	27.11.84
213	Ankita Sharma S/o Sh Desh Raj Sharma	HPSVC/857/08	Vill-Patta,PO- Naswal, The -Ghumarwin Distt-Bilaspur, H.P-174021	BVSc&AH/CSKKVV/08	26.4.85
214	Ankur Jetli S/o Sh Sureshkumar Jetli	Pb.SVC/2798/08	Biv-237,Railway Road,Goraya Distt, Jalandhar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	24.11.85
215	Ankur Priyadarshan S/o Sh Santosh Kumar	UPSVC/4800/08	Vill&PO-Majhawan,Dt-Kanpur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	4.7.84
216	Ankur Rana S/o Sh B.S. Rana	HarSVC/2058	# 707,U.E.-II, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	13.10.85
217	Annesh .S D/o G. Vasavan	KeralaSVC/3464/09	Sreenilayam,Peroorkaranma,Charummood PO,Mavelikara,Alappuzha-690505,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	21.5.85
218	Anoop Ruthwal S/o Sh D.R. Ruthwal	HPSVC/831/08	Sai Niwas, Kahanwal Road, Ram Nagar Mandi, Distt- Mandi, H.P -175001	BVSc&AH/CSKKVV/08	24.7.83
219	Anoop Kumar Gupta S/o Sh Heera Lal Gupta	UPSVC/4745/08	328/235,Mahzani Tola, Faizabad,U.P	BVSc&AH/GBPU&T/08	1.7.81
220	Anoop Kumar, S/o Late Shri Mahesh Pandit	JVC/029/08	Block Animal Husbandry Officer, Lapung, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	31.12.63
221	Ansar Ahmad, S/o Md. Zafar Alam	JVC/055/08	Asst. Prof. cum Jr. Science (Preventive Medicine),RVC,Kankr,Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	04.01.71
222	Anshul Arora S/o Sh Rakesh Arora	Pb.SVC/2827/08	Street Bore Mohalla Sodian, Ferozpur City, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	9.12.84
223	Anshul Lather S/o Sh B.S Lather	HarSVC/2046	# 1649, U.E Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	10.10.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
224	Antony Kongari S/o Late Joseph Kongari	JVC/392/08	Vill-Kadam, PO-Kanke, Ranchi- 834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/98	01.01.73
225	Anuj Kumar S/o Sh Rameshwar Prasad	BVC/2787/06	Vill-Anatpur, PO-Madhapur, Thane-Chandi, Sub-Div-Hilsa, Dt-Nalanda-803108, Bihar	BVSc&AH/WBUDSU/06	20.1.80
226	Anumol Joseph D/o Joseph	KeralaSVC/3468/09	Kanjirathakmunnell House, Kottiyoor PO, Kannur-670651, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.11.84
227	Anup Kumar Sinha S/o Shri Kamleshwar Nath Sinha	JVC/223/08	C/o Shari K.N Sinha, Naya Bazar, Gomoh, Topchanchi, Katras, Dhanbad-828401, Jharkand	BVSc&AH/BAU/99	04.09.72
228	Anupam Sahay S/o Rati Kant Sahay	BVC/2742/06	Vill-Bishnupura, PO+Thane-Sidhwalia, Sub- DivGopalganj, Dt-Gopalganj, Bihar	BVSc/TNV&ASU/05	13.11.80
229	Anupama S.S. D/o Sasidharan.B	KeralaSVC/3457/09	Simi Bhavan, Valakkadu, Elampa PO, Attingal, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.5.85
230	Anupma Sharma D/o Sh Ashok Kumar Sharma	UVC/433/08	36-Nehru Marg, Ashutosh Nagar, Rishikesh Distt, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/00	12.9.74
231	Anupriya Chandrakar D/o Sh V.N. Chandrakar	CGSVC/339/07	Nr.Congres Bhawan, Balod Dt, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/05-06	19.3.82
232	Anuradha Kumari D/o Sh Ashok Kumar	BVC/2929/08	Vill-Nagla, PO-Patnacity, Thane-Malsalami, Dt- Patna-800008. Bihar	BVSc&AH/KVA&FS/06	20.7.80
233	Anurag Jindal S/o Sh Vijay Kumar Jinda	Pb.SVC/2668/09	Vijay Kumar Karyana Store, Near Shamshan Ghat, Baret, Mansa-15, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	28.8.83
234	Anuraj K.S S/o Sumedhan K.N	KeralaSVC/3469/09	Kaithakkatte House, Poomala Rd, Peringavu PO, Thrissur-680018, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.1.85
235	Aparan.M D/o Chekkutty.M	KeralaSVC/3393/09	Ambady House, Karuvanpoyil, Manipuram (PO), Kaduvally (Via), Kozhikode, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	1.6.85
236	Aparna Hebbar H D/o Subraya Hebbar H	KarSVC/4194/08	Shantinikethana Hosamata Walya, Kurupadi- 574221, Puttur Tq, Dakshina Kannada Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.3.86
237	Aparna Pandey D/o Late Dr. J.N. Pandey	JVC/391/08	C/o R.N.Sharma, 32, Sharadhanand Rd, Ranchi- 834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	23.07.63
238	Aparna Shankar D/o V.K.Sivasankaran	KeralaSVC/3354/08	Aiswarya Kada Yikuppu PO, Via- Kolencherry, Ernakulam-682811, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	11.1.84
239	Aparna Veerma D/o Sh Arun Pd Verma	BVC/2870/07	VII-Ghatican, PO-Thana, Then-Sivsagar, Sub- Div-Sasaram, Dt-Rohtas, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	3.1.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
240	Apsana R D/o Rizwan Basha M	KarSVC/4136/08	Vatadahosahalli-561228,Gouribidanur Tq, Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	30.6.85
241	Aravind S S/o Sasidharan Pillai. A	KeralaSVC/3316/08	Chandany, Alummoodu PO, Mampuzha, Kollam-691577, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.5.84
242	Arbind Kumar Dev S/o Sh Bindeshwari Pd Yadav	BVC/2821/06	Vili-Ithari, PO-Herdi(Durgaasthan), Thane-Supaul, Sub-Div-Sapaul, Dt-Supaul, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	1.3.79
243	Archana M. Sangma D/o Shri G. Marak	MeghSVC/262/08	Forest Tilla, Tura Meghalaya-794002	BVSc&AH/AAU/08	12.9.80
244	Archana S D/o B. Krishnankutty	KeralaSVC/3394/09	Surabhi, TC 5/1938 (1), Kowadiar PO, Thiruvananthapuram-695003, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	4.8.84
245	Archana Minj D/o Mr. Nicholas Minj	JVC/583/09	Longa, Basai, Gumla-835229, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	20.07.78
246	ARDE ROHINI RAJARAM.	MahaSVC/8110/08	Plot No.169,170,171, Dattoba Shinde Nagar, Kalamba, Tal. Karveer, Dist. Kolhapur-416007	BVSc&AH/MAFSU/08	20-2-86
247	AREWAD GAJANAN RAMRAO	MahaSVC/7974/08	Rahul Niwas, 4-2-38, Maratha Galli, Tal. Mukhed, Dt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	18-7-85
248	Arihant Jain S/o Sh Gian Chand	Pb.SVC/2814/08	H No.83, W.No.6, St.No.5/2, Raman Mandi - 151301, Dt-Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	22.7.84
249	Arora Manpreet Harpal Singh	GujSVC/2992/09	17, Panchshill Society, Nr. Motibaug, B/H Girnar Society, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/04	1.8.78
250	Arpana Priyanka Minj D/o Sri Thomas Justin Minj	JVC/289/08	C/o Michael Minj, Katkayan, Majhatoli, Riadh, Gumla-835232, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	07.04.83
251	Arun Kr Shukla S/o Sh Bal Krishna	UPSVC/4851/08	Sadar Bazar Karvi Chitrakoot, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	17.12.80
252	Arun Kumar Dey S/o Sh Devial Prasad	BVC/2855/07	Vili-Gauthaper, PO-Badauna, Thane-Chandi, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	5.11.80
253	Arun Kumar Mishra, S/o Late Sh Tirthraj Mishra	BVC/2842/07	Vili-Ganaula, PO-Narayanpur, Thane-Bihpur, Sub-Div-Bhagalpur, Dt-Bhagalpur, Bihar	BVSc&AH/MU/65	16.12.41
254	Arun Kumar Pandey, S/o Shree Bhagwan Pandey	JVC/053/08	Block Ani. Hus Officer, Jamtara, Jharkhand	BVSc&AH/BCKVV/85	10.11.62
255	Arun Kumar Rai S/o Sri Ganesh Rai	JVC/300/08	C/o B.Kumar, Plot No.119, Lohanchal, Biyada, Dist-Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/93	07.01.65

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
256	Arun Kumar Ram S/o Sri Mishri Ram	JVC/539/09	Arsandey, Kanke, Ranchi-834007, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	06.11.66
257	Arun Kumar Routray S/o Aswini Ku Routray	OrissaSVC/2253/08	At-Hirapur, PO-Ranibag, Dist- Jajpur, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	21.5.86
258	Arun Kumar S/o Late Rameshwar Ram	JVC/267/08	Saraidih, Panki, Daltanganj, Palamau, Pin822122, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	07.02.67
259	Arun Kumar S/o Sh Indra Jeet	UPSVC/4758/08	Vill&PO-Chhibon, Dt-Chirakut, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	5.7.79
260	Arun Kumar S/o Sri Govind Mahto	JVC/576/09	Alna, Jamtola, Reladih, Bundu, Pin-835204, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	22.04.76
261	Arun Kumar Singh S/o Late Jagat Naryan Singh	JVC/556/09	Siwala Road, Daltonganj, Palamu, Pin-822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	05.05.62
262	Arun Kumar Sinha S/o Late Dr. Jwala Prasad	JVC/360/08	Dean, RVC Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/Magadh Uni/69	01.10.47
263	Arun Kumar Sinha, S/o Late Shri Shyam Narayan Prasad	JVC/003/08	Junior Veterinary Officer, Veterinary Hospital, Mednagar, Palamu-822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	05.01.60
264	Arun M.M S/o Mohammed M.C	KeralaSVC/3342/08	Mammasaravillath, Chamakkalayil House, C/o Palatholmana, Thirumuppath Rd, Kodungallur, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	26.5.83
265	Arun Oraon S/o Sri.Gandru Oraon	JVC/327/08	S/o Sri Gandru Oraon, Banpur Dasratoli, Jori, Kisko, Lohardaga-835302, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	20.01.73
266	Arun Prasad S/o Late Permeshwari Narayan	JVC/276/08	Uni.Prof. Cum.Chief Scientist, Dept. of Microbiologes, B2/10, RVC, Campus, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	01.08.54
267	Arun Pratap Singh, S/o Shri Bup Narayan Singh	JVC/205/08	TVO; Nirsa. Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/91	01.07.68
268	Arvind Sharma S/o Sh Ramchandra Sharma	UPSVC/4730/08	H.NO.37 A/35/1, Madhu Nagar, Agra, U.P	BVSc&AH/RAU/07	3.1.79
269	Arvind Kr Tripathi S/o Sh J.N Tripathi	UPSVC/4813/08	Girls School, Indira Ng, Dibiyapur Dt, Auraiya, U.P	BVSc&AH/CSAU&T/89	8.6.68
270	Arvind Kr.Singh S/o Sh Jhagroo Prasad	UPSVC/4804/08	Vill&PO-Belghat, Dt-Basti, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	16.12.79
271	Arvind Kumar Dhaka S/o Sh Banbari Lal Dhaka	RajSVC/3549/08	Vill-Khoru, Po-Ghassu, Sikar-332313, Rajsthan	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.1.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
272	Arvind Kumar Manjhi S/o Sri Gourang Manjhi	JVC/439/08	Hari Niwas Nagratoli, Circular Road, Lalpur, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	24.12.81
273	Arvind Kumar S/o Sh Jay Narain	UPSVC/4781/08	Vill-Umaria, PO-Umaria, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	5.10.83
274	Arvind Kumar Sharma S/o Shri Ram Prakash Sharama	MPSVC/2538/08	C/o Kamlesh Sharma, Gayatri Market, Ater Road, Choraha, PO-Porsa, Dt-Morena- 476115, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	22.7.82
275	Arvind Kumar Singh, S/o Late Shri Kameshwar Singh	JVC/131/08	Flat No.-303, Akanksha Apart, Phase-II, Near Birsu Bus Stand, Kantatoli, Ranchi, Jharkhand- 834001	BVSc&AH/RAU/96	15.10.70
276	Arvind Malviya S/o Sh Gopal Malviya	UPSVC/4879/08	742/653, Malviya Ng, Allahabad, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/99	1.3.78
277	Arvind Sharma S/o Sh Ramesh Chandra Sharma	RajSVC/3481/08	Vill- Dulhara, Po-Mangrole, The- Mania, Dholpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	3.1.79
278	Arvind Tripathi S/o Sh Saru Prasad Tripathi	CGSVC/353/07	H.NO.33, Chanchal Vihar Colony, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/07	27.4.64
279	Arya S D/o K.K. Ramakrishnan	KeralaSVC/3377/08	Pournami, Nilamel PO, Kollam-691535, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	9.6.83
280	Asad Hussain S/o Abu Sayeed Ansari	JVC/393/08	C/o Md. Ibrahim Ansari, Thana Road, Lohardga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	20.12.71
281	Asha Ashraf D/o P.M.Ashraf	KeralaSVC/3395/09	Palamood TC 1/1839, Thamarabhogom, Kumarapuram, Medi- cal College, PO-Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.6.83
282	Asha Palakshan D/o Palakshan K	KarSVC/4185/08	Behind PKC Hospital, Birur-577116, Kadur Tq, Chikkamagalur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	30.9.84
283	Asha.N.Vincent D/o N.Vincent	KeralaSVC/3426/09	Eden, Chama Vila, Cureepuzha PO, Perinad, Kollam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	6.12.85
284	Ashish Kumar Gupta S/o SH Parashuram Gupta	UPSVC/4743/08	Moh-Kashi Nath Near Chandan X- Ray, Jalaun, U.P	BVSc&AH/GBPU&T/08	8.1.81
285	Ashish Singh S/o Sh Inderajeet Singh	UPSVC/4876/08	Vill&PO-Pursia, Dt-Basti, U.P	BVSc&AH/AAU/08	15.4.82
286	Ashok Kumar Arun, S/o Shri Sita Ram Singh	JVC/041/08	Touring Veterinary Officer, Padma, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	26.01.59
287	Ashok Kumar Das S/o Sri Nitay Chandra Das	JVC/401/08	Jamni Paharpur, Godda-814133, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	23.09.75

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
288	Ashok Kumar Rout S/o Prafulla Kumar Rout	OrissaSVC/2227/08	Plot NO.EA-182,Stage-II,Laxmi Nagar,Bhusaneswar-761006,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	27.6.83
289	Ashok Kumar S/o Late Sh Sukh Ram Singh	UVC/48/08	453 Avas Vikash, Roorkee,Dt-Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/88	12.7.63
290	Ashok Kumar S/o Late Dagdhu Pd.Singh	JVC/346/08	TVO, Mohanpur, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	02.01.67
291	Ashok Kumar S/o Late Kamala Charan	JVC/363/08	Sasbera, I.E. Gomia, Bermo, Bokaro-829112, Jharkhand	BVSc&AH/Magadh Uni/70	10.11.48
292	Ashok Kumar S/o Late Sh Nand Kumar	BVC/2917/08	Vill-Dariapur,PO-Berhogh,Thane-Bind,Sub-Biharsharief,Dt-Nalanda-803107,Bihar	BVSc&AH/AAU/07	1.2.76
293	Ashok Kumar S/o SH Babu Ram	UPSVC/4787/08	Vill-Semeri Motimadpur,PO-Belamau Kala,Dt-Sitjapur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	7.7.78
294	Ashok Kumar S/o Sh Ramhit Yadav	BVC/2805/06	Vill+PO-Umgaon,Thane-Herilakshi,Sub-Div-Benipathi,Dt-Madhubani,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	7.2.77
295	Ashok Kumar S/o Shri Ram Lakhan Prasad	JVC/204/08	Purna Bagan, Ward No.3, Saraujeka-Kharsawan-833213, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	28.03.72
296	Ashok Kumar S/o Sri.Late Ram Kripal Sharma	JVC/338/08	TVO Senadauni, Senadauni, Pachamba, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/82	01.11.55
297	Ashok Kumar Shrivastava S/o Late Bachan Prasad	JVC/279/08	Uni.Prof.Cum.Chief Scientist, Dept of LPM, RVC Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	06.01.53
298	Ashok Kumar Thakur, S/o Sh. Jadubansi Thakur	JVC/258/08	Junior Research Officer, I.A.H &P, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	15.12.53
299	Ashok Kumar, S/o Shri Ram Lakhan Mahto	JVC/023/08	Touring Veterinary Officer,Husainabad,Palamu,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/04	12.08.67
300	Ashok Liladhar Bist S/o Shri Liladhar Bist	UVC/123/08	Vill&PO-Masar, The-Dwarahat, Almora,Uttarakhand	BVSc&AH/KKVP/95	27.9.72
301	Ashutosh Dubey S/o Sh Ashok Kumar Dubey	CGSVC/449/09	C-2,Vasant Corner,Avanti Vihar, Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	20.8.84
302	Ashutosh Joshi S/o Late Sh Indu Shekhar Joshi	UVC/27/08	Joshi Niwas Main Bazar Uttarkashi,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/92	23.7.69
303	Ashutosh Sangwan S/o Sh Sham Sher Singh	HarSVC/2067	# 1787/5, Sangwan Niwas, Back Harsh Cinema, Jyoti Nagar, Kurukshetra, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	28.3.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
304	Asim Kumar Singh, S/o Shri Jayram Pd. Singh	JVC/203/08	T.V.O; Kenduadih, MIG/B-28, Housing Col. Dhanbad-826001 Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	18.01.69
305	Asit Ranjan Deb S/o Slate Satyendra Ranjan Deb	JVC/273/08	Beekay,s Enclave, 4-R. G. Street, Radha govind Street, Tharpakhna, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	02.08.53
306	ATAKARE SHRIPAD PANDHARINATH.	MahaSVC/7873/07	1/156, Nimboni Bag,Z.P.Colony,Tambri Vibhag,Osmanabad,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/3/83
307	Atul Kumar Verma S/o Apurb Narayan Prasad	JVC/272/08	Uni. Proff.-cum-Chief Scientist, Dept of Nutrition, R.V.C., Kanke, Ranchi-843006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/71	24.02.47
308	Atul Kumar Verma S/o Sh Hansraj Verma	UPSVC/4811/08	H.NO.33,C.S.A.Ng Po,Aurawan Dt- Lucknow,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	1.1.80
309	Atul Pranay S/o Sh Basudeo Prasad	BVC/2909/07	Vill-Abha Mokhtarpur,PO-KhanpurMal,Thane- Suitanganj,Dt-Bhagalpur,Bihar	BVSc&AH/SKUAS&T/07	7.3.76
310	AUTADE DEEPAK PRABHAKAR.	MahaSVC/7989/08	At-Goramala,Post- Ulup,Tal.Bhoom,MaharashtraDist.Osmanabad -413504	BVSc&AH/MAFSU/08	1-4-85
311	AVHAD CHANDRAKANT SUBHASH.	MahaSVC/7874/07	A/P- Fattepur, Tal.Jamner,Dt- Jalgaon,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/5/84
312	Avinash Anand S/o Shri S.P. Asthana	UVC/12/08	C.V.O. Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/87	2.6.63
313	Avinash Bhat K S/o Lakshminarayan Bhat K	KarSVC/4114/08	No.4-405, Vasundara House, Siraje,Vittal PO- 574243,Bantwal Tq, Dakshinakannada Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	5.9.85
314	Avinash Kumar Mera S/o Sh R.K.Mere	CGSVC/439/09	H.NO.120/43,Subhash Ng, Kanyiapuri,Durg- 491001,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	27.5.82
315	Avinash Kumar S/o Late Prof. R.B. Prasad	UVC/417/08	Vety Officer(Contract)Nakot, Tehri Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/04	1.10.82
316	AWACHAT VAIBHAV BHAGWAN.	MahaSVC/8145/09	A/P-Janephal,Tal.Mehkar,,Maharashtra Dist.Buldana-443001.	BVSc&AH/MAFSU/07	9-9-84
317	Awadesh Markam S/o Sh Mohan Singh	CGSVC/425/08	Vill&PO-Ranjana,Via-Pali,Korba, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/91-92	14.9.67
318	Awadh Kumar Jha S/o Shri Naresh Prasad Jha	JVC/247/08	C/o Shri Naresh Prasad Jha, Sarsa, Kurmahat, Hansdiha, Ramgarh, Dumka-814145	BVSc&AH/MAFSU/05	15.12.78
319	Awadesh Kumar S/o Sh Sadhu Thakur	BVC/2803/06	Vill-Bhawanipur,PO-Kurshi Barawan,Thane- Shikta,Sub-Div-Narkatiyaganj,Dt- W.Champaran,Bihar	BVSc&AH/MAFSU/06	1.3.79

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
320	AWALE NITIN VILAS	MahaSVC/7877/07	1069, Shri Balaji Park, Sangirwadi, Yashawantng, Wai Dt- Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/4/83
321	Awdesh Kumar Singh S/o Late Baldeo Prasad Singh	JVC/415/08	Touring Veterinary Officer, Govindpur, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	31.12.65
322	Awdhesh Kumar S/o Sh Jagdish Prasad	BVC/2747/06	VII-Tanpura, PO-Chowkhar, Thane-Pakribarawan, Sub-Div-Nawada, Dt-Nawada-805124, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	6.6.80
323	Azaruddin N S/o Sri Nizamuddin N	KarSVC/4193/08	LIC of India, Branch-1, Kote Rd, P. B. N. 35, Shimoga-577202, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	25.6.85
324	B. Anandaraj S/o S. Balakrishnan	TNSVC/4104/08	5/65-Y3, Arun Ng, Annex Alagapuram Pudur, Salem-16, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/95	25.7.66
325	B. Anitha Kumari D/o B. Chandru	APSVC/4743/08	H.NO. 11-8-303, R.T.C. Bus Depot Rd, Burhanpuram, Khammam, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.4.83
326	B. Arun S/o A. Balakrishnan	TNSVC/4176/08	H.NO. 4/62, Varadharajapuram, Nedungoor PO, Karur-639111, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.7.84
327	B. Baby Manasa D/o B. John Subhakar Rao	APSVC/4775/08	H.No. P/13, Postal & Telcom Colony, Opp - Pragati Bhawan, South Bypass Rd, Ongole-523001, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	24.5.84
328	B. Gowri Sankar S/o I. N. Balasubramanian	TNSVC/4118/08	H-38/F3, Seashore, Apartment Tiruvalluvar Ng, Tiruvanmiyur, Chennai	BVSc/MU/60	15.1.37
329	B. Jaya Sudha D/o B. Raghupathi Reddy	APSVC/4732/08	H.NO. 12-13-15/1, Janthanagar, Moosapet, Hyderabad, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.9.84
330	B. Justin Wilim W/o Jamini	TNSVC/4374/08	Kollen Vettivilai, Palappallam, PO-Kanyakumati Dt, Tamilnadu	BVSc/TNAU/83	11.1.57
331	B. K. Satheesh S/o S. Kannappan	TNSVC/4210/08	3/13, Ballepalayam, Sirumugai, Mettupalayam Coimbatore, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.8.86
332	B. Karthikeyan C. S/o Balasubramanian	TNSVC/4170/08	397, B Wad No. 3, Pudhu Ng, Palani - 624601, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.6.84
333	B. Kiran Kumar S/o B. Bikshapathi	APSVC/4742/08	H.NO. 3-1, Ulligadda Damera, Atmakur(M), Warangal-506006, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	26.3.83
334	B. Manoj Kumar S/o B. Balasubrahmanyam	APSVC/4777/08	Room No. 106, A.T. Agraharam, 4th Lane, Raavi Residential Apts, Guntur, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.8.84
335	B. Mrutyunjaya Sastry S/o B. Kutumba Rao	APSVC/4804/08	Flat NO. 102, Arama Apts, Premnagar Colony, Needmet Cross Rd, Secunderabad, A.P	BVSc&AH/APAU/68	12.4.46

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
336	B.P.Mugunthan S/o B.Perumal	TNSVC/4261/08	2/40-B, Pallipet Road, Rajanagaram East, Pallipet taluk, Thiruvallur- 631304, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.6.85
337	B.P.Parashivamurthy S/o Puttaswamy	KarSVC/4097/08	No.754, 11th Main, B Block, 3rd Stage, Vijayanagar, Mysore, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/80	6.8.51
338	B.Poornima S/o R.S. Bheema Raju	TNSVC/4346/08	11 A/B(Old NO.28), East Cross Road, Gandhi Ng, Vellore-632006	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.5.84
339	B.Prabhukumar S/o N.Balasubamaniam	TNSVC/4256/08	§3-D, West Colony, Komarapalayam, Nammakkal- 638183, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.10.84
340	B.Rajendar S/o B.Shanker	APSVC/4782/08	H.No.5-78/2, Bhagya Ng, Echoda(P&M), Adilabad Dt-504307, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	4.7.84
341	B.Rajesh S/o R.Babu	TNSVC/4111/08	36/68, Nainiappan Street, Mannady, Chennai, TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	21.3.85
342	B.Rama Rao S/o B.Laxmana	APSVC/4711/08	D.NO.6-57-6, Sramika Nagar, Old Gajuwaka, Visakhapatnam-530026, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	16.6.83
343	B.Ramesh S/o B Baksha	APSVC/4798/08	Donabanda Thanda (V), Pedaveedu(P), Mattampally(M), Nalgonda Dt- 508225, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	14.1.83
344	B.Ravi Kumar S/o B.Palsingh	APSVC/4769/08	Kona Thanda(V), Galipur(P), Banswada(Tq), Nizamabad Dt-503187, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.10.82
345	B.Ravi S/o B. Laxminarayana	APSVC/4748/08	Arvapally(V&P), Aravapally(M), Thungathurthy(Div), Nalgonda Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.7.83
346	B.S.Shivanna S/o Siddaramanna G.B	KarSVC/4218/09	No.104/13, 5th Cross, 9th Main, Vinayamarg, Siddarthanagar, Mysore, Kar nataka	BVSc/UAS B'lore/91	1.6.64
347	B.Santosh Kumar S/o B.Surya Narayana Murthy	APSVC/4799/08	37-11-7 1/2, Nrv MSM Public School, P.R.Gardens, Industrial Estate(P), Visakhapatnam, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	16.9.84
348	B.Sudhakara Reddy S/o B.Subba Reddy	APSVC/4728/08	Koppolu (P), Ongole (M), Prakasam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	25.8.84
349	B.Supriya, D/o B.Hanumantha Rao	APSVC/4700/08	2nd Flr, Plot No4, SV.Nivas, Besides Power Office, Gujjanagundla, Guntur, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	26.5.84
350	B.Swathi D/o B.Apparao	APSVC/4735/08	C/o B.Apparao, TGT(SS), JNV, Vennelavalasa, Sarubujjili, Sriakulam Dt	BVSc&AH/SVVU/08	10.6.85
351	B.Usha Rani D/o B.Linga Reddy	APSVC/4701/08	Near Water Tank,, Sattenpalli, Guntur Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	6.5.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
352	Babita Devagan D/o Late Sh Dashrath Lal Devagan	CGSVC/364/08	Shankar Nagar, Durga Chowk, Ward No.10, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	6.5.83
353	Bablu Sundi S/o Late Kanday Sundi	JVC/448/09	Vill- Baredih, Bhagabandi, Dumaria, Ghatsila, East Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	10.01.81
354	Baboo Lal S/o Sh Foosa Ram	RajSVC/3498/08	V/p Rangala, Via O Bagora, The-Bagora, Jalore-343032, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	20.7.81
355	Baby Prabha W/o Dr. Sunil Tiwari	JVC/323/08	Vet. Off. P.T.I. Jasidih, Jarsidih, Deoghar, -814142, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	05.07.71
356	BACHANTI DEEPAK RAMRAO.	MahaSVC/7892/07	Urjanagar Colony, Qtr.No.E-5/4, CSDS?MSB, Urjanagar, Dt-Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	14/12/84
357	BADGIRE VISHWAJIT VITTHALRAO	MahaSVC/7935/08	A/P-Swati, Tal./Dist-Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/5/85
358	BADHE SHEKHAR RAMESHRAO.	MahaSVC/8041/08	A/P-Palsa (Badhe), Tal.Dist.Akola, 444102, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	15-12-83
359	BAGDE VARSHA PUNDLIKRAO.	MahaSVC/7763/07	C/o Pundlikrao Tulsiram Badge, Shani Chauk, Ward No.22, Katol, Dt-Nagpur-441302, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/3/83
360	Bajj Nath Sahu S/o Sh Babu Lal Sahu	UPSVC/4835/08	Vill Teli Phari, PO-Kankunwa, Dt-Mahoba, U.P	BVSc&AH/JNKVV/07	31.7.81
361	Bajj Nath Sahu S/o Shri Babulal Sahu	MPSVC/2507/08	Ward No.3, Narayanganj, Harpalpur, Dt-Chhatrapur-471111, M.P	BVSc&AH/JNKVV/07	31.7.81
362	BAIS ISHA SWAROOPSING.	MahaSVC/7756/07	C/o Shri Swaroopsing Basis, Bilanpura, Achalpur City, Dt-Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	9/5/85
363	Baishya Nabajit S/o Sri Tarun Baishya	ASM/2375/08	Vill- Mongaldoi gaon, PO-Mongaldoi, Dist-Darrang, Assam	BVSc&AH/AAU/08	7.3.83
364	Baleshwar Choudhary, S/o Late Shri Ram Beyas Choudhary	JVC/062/08	Touring Veterinary Officer, Sarikela, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/81	08.01.59
365	Baleshwar Pd. Nirala S/o Late Newalal Singh	JVC/218/08	T.V.O; Jhinkpani, Chaibasa, W. Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	02.07.73
366	Baleshwari Kurmi D/o Shri J.L.Kurmi	MPSVC/2581/09	Wireless Police Lines, Qtrs Sagar M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	21.8.84
367	Balmukund Kumar S/o Late Shiv Sharan Prasad Singh	JVC/459/09	B.A.H.O Peterwar Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	01.07.73

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
368	Balmukund Prasad S/o Late Basudeo Narain	JVC/235/08	B.A.H.O, Dhanwar, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	03.09.58
369	Balmukund Prasad S/o Sri Awadh Prasad	JVC/388/08	B.A.H.O.Kisko, Lohardaga, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	05.12.64
370	Balram Gurjar S/o Sh Chhotto Lal Gurjar	RajSVC/3578/08	Vill-Harnawda Jagir,Po-Dolam, The-Chhipabarod,Baran, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	30.7.79
371	Balu John S/o C.J. John	KeralaSVC/3336/08	Chennouthu House,Nedumknam PO, Changanancherry Via, Kottayam-686542,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	11.7.83
372	Banani Mandal D/o Tushar Kanti Mandal	JVC/445/08	Kuriam,Nagri,Jamtara-815359,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	27.05.83
373	Bandhanu Oraon S/o Bhairava Oraon	JVC/578/09	Pokta, Kumhari, Basia, Gumla, Pin-835229, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	04.05.75
374	BANSOD SNEHAL MURLIDHARRAO	MahaSVC/8017/08	A/P-Mohpa,Tal.Kalmeshwar,MaharashtraMaharashtra Dist.Nagpur.-441502	BVSc&AH/MAFSU/08	31-05-84
375	Bapu Parasanalli S/o Sh Basavantray Parasanalli	HarSVC/2027	#1158, Urban Estate, Hisar, Haryana	BVSc/UAS,B'lore/88	1.6.62
376	Barad Mansinh Rajabhai	GujSVC/2896/08	To- Veraval, Tagor Nagar-2, Babhor Road, Veraval-362266,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	14.6.86
377	BARGAJE RAJIV BALKRISHNA	MahaSVC/7931/08	Saidham Apartment,205,B-Wing,Chikanghar,Tal-Kalyan,Dt-Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	31/12/84
378	Basant Kumar S/o Dr. Sant Kumar Singh	JVC/409/08	Kanke Block Arsande,RVC Ranchi - 834006,Jharkhand	BVSc&AH/CSAU&T/04	20.12.77
379	Basant Rao Patail S/o Sh Ram Jeet	UPSVC/4793/08	Vill Hardi,PO-Lalpur,Dt-Faizabad,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	20.7.81
380	Basanti Joytshana D/o Shree Srikanth	BVC/2834/07	Vill-Dasharathpur,PO-Pawapuri,Thane-Giriyak Sub-Div-Rajgir,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	16.4.80
381	Baskar Pattanashetty S/o Ramachandra	KarSVC/4202/08	Indiranagar,Muddebihal-586212,Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.1.82
382	Basumatary Panjit S/o Sh Malindra Nath Basumatary	ASM/2404/08	Vill-Taktaru, PO-Banargaon, Dist- Kokrajhar-783347, Assam	BVSc&AH/AAU/08	13.12.82
383	Baynazir Lone D/o Sh Abdul Aziz Lone	Pb.SVC/2848/08	H.No.126,Basant Vihar,Jawaddi, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/PAU/01	1.11.71

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
384	Beena Bisht D/o Shir Shobhan Singh Bisht	UVC/367/08	H.NO.159 Jarrori Baza, Ranikhet, Dt-Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	30.9.81
385	Begum Safeed Sultana S/o Md. Sirajuddullah.	ASM/2397/08	Infront of Christian,Kabarstan, JEC Road, Shakarpur, Gormum Jorhat,Assam	BVSc&AH/AAU/08	11.10.84
386	Begum Yasmine S/o Sh Raja Ali	ASM/2380/08	Town-Tinkunia, Pologround,P.S.-Dibrugarh, Dist-Dibrugarh, Assam	BVSc&AH/AAU/08	22.12.84
387	BENDALE KIRAN RAJARAM.	MahaSVC/8062/08	Hri Om Building,Room No.12, Reti Bandar Road,Kalher,Tal.Bhiwandi, Dist.Thane-421302	BVSc&AH/MAFSU/08	10/06/86
388	Bhabhan Shankar Behera S/o Sh Bhramarbar Behera	OrissaSVC/2255/08	At: Koratpanga PO-Batanai,Kunange,Dist-Kendagwara,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	10.1.85
389	BHAGAT SARIKA BHIMRAO.	MahaSVC/8111/08	Quarter No.1,Block No.9, Zilla Parishad Quarter,Dist.Hingolij,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	03-05-86
390	Bhagya B.K D/o Krishnamurthy B.H	KarSVC/4151/08	Sriram Road, Kote, Hosadurga PO-577527,Chitradurga Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	14.12.85
391	BHALERAO ASHWINKUMAR DAJIBA.	MahaSVC/8068/08	"Akshida",42-B,Shastri Nagar,Opp.Maharashtra Municipal Colony,Tal.Dist.Jalgaon-425002.	BVSc&AH/MAFSU/08	04/06/85
392	BHALERAO DIPTI RAJEEV.	MahaSVC/8089/08	13, Swastishri Society,Vishram Bungalow,Ganesh Nagar,Pune-411052.	BVSc&AH/MAFSU/08	26-06-86
393	Bhanderi Amitkumar Ganeshbhai	GujSVC/2897/08	"Bajarang"Krupa,Dhrol Latipur-Highway At&PO-Latipur-361220,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	10.9.86
394	BHANGALE GAJENDRA NAMDEO.	MahaSVC/7762/07	Chaitanyawadi, Malkapur,Dt-Buldana-443101,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/5/84
395	Bhanu Gaur S/o Sh Ramesh Chander Sharma	RajSVC/3525/08	11-A Shiv Shakti Industrial Area, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	19.1.83
396	Bhanu Pratap Singh Raj S/o Sh Nand Ram Rajput	UPSVC/4834/08	Mohal Budhaliya, The-Rath,Dt-Hamirpur,U.P	BVSc&AH/MAFSU/08	15.2.84
397	Bhanu Pratap Singh Thakur S/o Sh Manohar Thakur	HPSVC/855/08	Vill&PO-Jahal,The-Chachiot,Distt-Mandi, H.P-175039	BVSc&AH/CSKKVV/08	16.4.82
398	Bhanwar Singh S/o Late Shri Ram Singh	UVC/357/08	109 Indira Nagar, Coloney, New Forest Dehradun, Uttarakhan	BVSc&AH/Agra Uni/63	1.1.41
399	Bharat Lal Sharma S/o Shri J.P.Sharma	MPSVC/2555/08	Vill-Sikroda,Dist-Morena-476002,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.7.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
400	Bharat Dutt Dhoundiyal S/o Sh Bhawani Dutt Dhoundiyal	UVC/366/08	26 Shakti Vihar, Ph-II, Majra Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/AAU/94	24.11.68
401	Bharat Mahto S/o Sri Hare Krishna Mahto	JVC/407/08	Lowahatu, Sonahatu, Bundu Ranchi - 835204, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	21.12.74
402	Bharat Sahu S/o Sri. Hiralal Sahu	JVC/330/08	Baghima, Palkot, Gumla-835207, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	28.01.61
403	Bharat Suman Sharam S/o Sh Ganesh Shankar Sharma	MPSVC/2511/08	15-B/2, Senshah Garden, Bhopal, M.P	BVSc&AH/JNKVV/85	6.1.64
404	Bhartendu Prasad S/o Sri Sri Ram	JVC/524/09	Road No.1B, Basant Bihar, Harmu, Ranchi- 834012, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	06.11.57
405	BHATLEKAR PRITHVIRAJ VILAS.	MahaSVC/8099/08	Prathmesh Apartment, 401, Gavand Path, Naupada, Dist. Thane-400602.	BVSc&AH/MAFSU/08	25-11-81
406	Bhattacharjya Rupam S/o Abani Kr. Bhattacharjya	ASM/2412/08	H.NO.205, Vill-Barkura, Dist- Nalbari, Assam	BVSc&AH/AAU/08	5.2.83
407	Bhavna Singh D/o Col. Harendra Singh	UPSVC/4729/08	5/17-B Nagla Barola, Bye Pass Rd, Aligarh, U.P	BVSc&AH/IGKVV/08	20.5.84
408	Bhomi Prasad S/o Sri Lilo Mahto	JVC/581/09	Bhalua, Saranda, Birni, Giridih, Pin 825318, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	07.04.75
409	BHISE DEEPAI WAMANRAO.	MahaSVC/7987/08	Opp Swastik Gas Godown, Narayan Nagar, Tal. Dist. Latur-413512.	BVSc&AH/MAFSU/08	4-2-85
410	BHISE VRUSHALI PRAKASHRAO.	MahaSVC/7982/08	C/o Sau. Pramila Prakashrao Bhise, Near PO- Jatharpeth, Dt. Akola,	BVSc&AH/MAFSU/08	27-6-84
411	Bhoma Ram S/o Sh Karamoo Ram	RajSVC/3497/08	Vill Vanukidhani, PO-Thabao, The-Bhinmal, Jalore-343029, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	22.7.76
412	Bhoop Kumar Lakesar S/o Sh. Sreyochand Ram Lakesar	RajSVC/3514/08	C/o Chetan Ram Tak, W.NO.6, Near Airtel Tower, Sri Vijay Nagar-335704, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	10.6.78
413	Bhoop Singh S/o Sh Om Parkash	HarSVC/2085	# 804, Ashok Vihar, Azad Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	19.12.83
414	BHOSALE ANH BALKRISHNA.	MahaSVC/7872/07	A/P- Apshinge, Tal. Koregaon, Dt- Satara- 415511, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/7/84
415	BHOSALE RAJENDRA ASHOK	MahaSVC/7791/07	At-Rajawad, Bijawadi, Tal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/3/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
416	BHOSALE SACHIN SAMPAT.	MahaSVC/7769/07	Om Shri Ganesh Coop HSG Society,C-7,2-10,Sec-23,Juing,Navi Mumbai,Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	9/12/84
417	Bhupendra Kumar Pachariya S/o Shri L.R.Pachariya	MPSVC/2552/08	Kolua Gali, Benipura,Sabalgarh,Dist-Morena,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	1.1.83
418	Bhupinder Singh Jawanda S/o Sh G.S. Jawanda	Pb.SVC/1607/08	239-G,BRS Nagar, Ludhian, Punjab	BVSc&AH/PAU/88	18.1.64
419	Bhushan Kumar Sahu S/o Sh Meghnath Sahu	CGSVC/372/08	M-128,Dipika Colony,Korba,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	11.8.81
420	Bhushan Prasad Sahu S/o Sh Bharat Pd Sahu	CGSVC/446/09	Vill&PO-Bareilly,Dt- Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	9.3.80
421	Bhushan Prasad, S/o Late Dr. Banshi Prasad	JVC/052/08	Jr.Vet. Officer, State Veterinary Hospital,Chutia,Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	01.04.63
422	Bhushan Singh Gurupanchyan S/o Sh Laxman Singh Gurupanchyan	CGSVC/369/08	Nayapada Ward Gokul Nagar,Dhamtai,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	24.4.56
423	Bibhushree Jena D/o Bijay Kr Jena	OrissaSVC/2241/08	Plot No-15, Madhusundargarh, Unit-Iv, Bhabassar-751001,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	26.6.84
424	Bibhuti Ranjan S/o Dr.Kailash Prasad	BVC/2942/08	Vill-Bata Colony Hatidah,PO&Thane-Hatidah, Sub-Div-Barh,Patna-803301	BVSc&AH/MA&FSU/07	11.7.81
425	Bidya Sagar Singh S/o Late Parmeshwar Prasad Singh	JVC/552/09	TVO Gomia, Bokaro, Govt. Colony Gomia, I.E. Gomia, Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/92	05.12.66
426	BIJARGI SHRIHARSH RAMESHWAR.	MahaSVC/7738/07	489,Sakhar Peth, Solapur-413005,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/1/85
427	Bijoy Kumar Mishra, S/o Late Shri Balgovind Mishra	JVC/122/08	Sub.Div.Ani.Husbandry Officer, Chas, Bokaro,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	15.09.53
428	Bijuprasad.M S/o V.K.Manian	KeralaSVC/3320/08	Nellikode Kalam, Nellikode,Tattamangalam PO, Palakkad-678102,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	27.9.83
429	Bimal Kr. Hembram S/o Late Sidam Chandra Hembram	JVC/236/08	Kanimohuly, Bend, Chakulia, Ghatshila, East Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	04.10.60
430	Bimal Kumar S/o Sh Ram Vilash Prasad	BVC/2799/06	Vill+PO-Diyawa,Thane-Karaipersurai,Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	5.2.83
431	Binaka Hirani Jagadishbhai	GujSVC/2905/08	Anukul Chember,BlockNo.-306,Gunjan,N.H.No.-8, GIDC, Vapi, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	19.3.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
432	Binary Kumar Prasad S/o Sh Devendra Prasad	BVC/2810/06	Vill+PO-Kuchaikot, Thane-Kuchaikot, Sub-Div- Gopalganj, Dt-Gopalganj, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/06	29.11.77
433	Binay Kumar S/o Sh Panchann Prasad Singh	BVC/2801/06	Vill+PO-Aurlaha, Thane-BerharaKothi, Sub-Div- Dhamdaha, Dt-Purnea, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	5.11.76
434	Bindhya A.G D/o Balakrishna Pillai	KeralaSVC/3343/08	Ananda Sadan, Kura-Kura PO, Via- Chengamanadu, Kollam-691557, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	8.12.80
435	Bineesh C. Vijay S/o C.K Vijayan	KeralaSVC/3396/09	"Chirayil", Chandakkunnur(PO), Nilambur, Mala ppuram-679342, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.5.83
436	BINGEWAR BALAJI SHAMRAO.	MahaSVC/7960/08	A/P- Dhanora, (K. D.), Tal. Dharmabad, Maharashtra Dist. Nanded.	BVSc&AH/MAFSU/08	11-06-84
437	Binita Kumari W/o Arun Kumar Rai	JVC/321/08	C/o B. Kumar, Plot No.119, Lohanchal, Biayada, Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	08.12.67
438	Binod Kumar, S/o Late Shri Ramjiwan Singh	JVC/107/08	Block Ani. Hus Officer, Dhurki, Nagar, Utari, Garhwa, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	09.09.66
439	Binsila B. Krishnan D/o K. Balakrishnan	KeralaSVC/3439/09	Sreevalsam, "Kuliyil" PO-Atholi Calicut- 673315, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.10.84
440	Bipin Bihari Mahtha, S/o Late Gouri Shankar Mahtha	JVC/201/08	Barmasia, Beoghar, Pin-814112, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/92	12.03.67
441	Bipin Khalkho S/o Shri Zaphrin Khalkho	JVC/183/08	Purana Loadih, Namkum, Ranchi-834010, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/90	28.10.65
442	Bipin Kumar S/o Sh Nageshwar Pd Singh	BVC/2863/07	Vill+PO-Pansalwa, Thane-Beldaur, Sub-Div- Gogri Jamalpur, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	5.2.78
443	Bipin kumar Sah S/o sh Jagdish Sah	BVC/2862/07	Vill+PO-Udakishunganj, Dt-Madhepur, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	30.12.78
444	Bipin Kumar Sinha S/o Late Shiv Nandan Prasad	JVC/403/08	TVO, Chandankiyari, Chass Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	01.07.58
445	BIRADAR BHASKAR PRALHADRAO	MahaSVC/7950/08	Marathwada Gramin Bank, Ahamadpur, Dist. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	23-05-84
446	BIRADAR SURYAKANT MARUTIRAO.	MahaSVC/7902/07	Suryakunj, Behind Sonya Maruti Temple, Vikas Ng, Degloor Rd, Udgr, Dt- Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	2/11/84
447	BIRAJDAR VISHNU NANASAHIB	MahaSVC/7849/07	A/P.-Chichondi, (Via-Aurad SH), Tal- Nilauga, Dt-Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	18/1/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
448	Birendra Kishor, S/o Shri Mahendra Pd. Singh	JVC/143/08	Patwar Tola, Bari Kodarjanna, Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/06	29.10.82
449	Birendra Kumar Himanshu S/o Sh. Tulsi Ram	BVC/2927/08	Vill-Jatua, PO-Naini, Thane-Muffasil Sub-Div-Sadar Chhapra-841301, Bihar	BVSc&AH/CSAUA&T/07	2.7.74
450	Birendra Kumar Rakesh, S/o Sh. Ram Bhulal Ram	BVC/2756/06	Vill-Sheewan, PO-Dhanej, Thane-Kargahar, Sub-Div, Dt-Rohtas, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	6.2.82
451	Birendra Kumar Roy S/o Late Ramdhani Roy	JVC/358/08	Prof. & Chairman, Dept. of Pharmacology & Toxicology, RVC Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	17.01.54
452	Birendra Kumar S/o Sh. Suresh Prasad	JVC/211/08	T.V.O; Keredari, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	01.01.63
453	Birendra Kumar Singh S/o Shri Dharm Deo Singh	JVC/232/08	Sec-IV G, Qr No-3007, Bokaro Steel City, Bokaro Steel City, Bokaro-827004, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	08.08.52
454	Birendra Kumar Tiwary S/o Late Adbhut Tiwary	JVC/364/08	Uni. Proff. Dept. of Microbiology. RVC. Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/Magadh Uni/66	06.08.47
455	Birendra Panda S/o Bijaya Ch. Panda	OrissaSVC/2245/08	Baikuntha Nagar, Ist Lane, Berhampur, Dist-Ganjam-760001, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	17.6.83
456	Birju Linda S/o Sri Meena Oraon (Linda)	JVC/588/09	Nayasarai, Saporom (Piska Nagri) Tatu, Ranchi-835303, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	13.05.63
457	Bishnu sharan Mahto S/o Sri Jyoti Lal Mahto	JVC/469/09	Palani, Baliapur, Dhanbad-826001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	01.01.69
458	Bishnupriya Pradhan D/o Late Dadaka Pradhan	OrissaSVC/2252/08	C/o Trinath Prndha, At-PO-P&T Colony, Kalyaniangar, Dt-Cuttack-753013, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	14.6.84
459	Bishweshwar Prasad S/o Late Maheshwar Prasad	JVC/475/09	Resarch Officer (Animal Nutrition)Govt. Qr.NO.A/2 Pucca Dornada Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	12.11.48
460	Biswas Arnab S/o Mr. Anutosh Biswas	ASM/2417/08	6 Nq-Kp-9/1, GE, A/F, Tezpur, Assam	BVSc&AH/AAU/08	24.8.85
461	BOKAN ABHAY MOHANRAO.	MahaSVC/8028/08	At Lalwadi (Fattepur), Infront of Hanuman Mandir, Post Wajegaon, Shikarghat Road,, Tal.Nanded, Dist.Nanded.	BVSc&AH/MAFSU/08	08-02-84
462	Bora Subhalakshmi S/o Sri Rajendra Nath Bora	ASM/2396/08	Vill-Pokamura, Kalyanpurgaon, PO-Chaliha, Dist-Jorhat -785007, Assam	BVSc&AH/AAU/08	16.4.83
463	Borah Pinku S/o Khirod Ch Borah	ASM/2410/08	Near Station Road, Bx -15, Duliajan, Dist-Dibrugarh, Assam	BVSc&AH/AAU/08	2.11.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
464	BORGHARE ANJALI TUKARAM	MahaSVC/7980/08	Takiya Ward, Shantinagar Maharashtra Dist. Bhandara.	BVSc&AH/MAFSU/08	30-07-86
465	Borgohain Babul S/o Lt. Titheswar Borgohain	ASM/2372/08	Vill-Bongalmari, PO-Hatikhula, Dist- Dhemaji, Assam	BVSc&AH/AAU/08	13.2.84
466	Borua Tapashree S/o Sri Jogen Kr Borua	ASM/2408/08	Cinderelia Hostel, Bye Lane NO.-3, Tarun Nagar, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/08	26.11.84
467	Brahm Pal Singh S/o Shri Atar Singh	UVC/445/09	New Colony, Kalagarh Dist-Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/97	3.6.68
468	Brahmadeo Prasad Yadav, S/o Late Shri Rameshwar Pd. Yadav	JVC/118/08	Police Line, Hirapur, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	06.01.57
469	Braj Kishor S/o Sh Nand Lal	UPSVC/4810/08	Vill-Nagla Brahmin, PO-Dabali, Dt-Agra, U., P	BVSc&AH/CSAU&T/08	10.7.82
470	Brajaseh Kr. Tikara S/o Sh M.P. Tikaria	UPSVC/4873/08	356, Fitwari Ganj, Dt-Jhansi, U.P	BVSc&AH/JLKVV/07	30.3.81
471	Brajesh Kumar Jha S/o Sh Naresh Chandra Jha	BVC/2893/07	Vill-Nanpur Brahman Tola, PO-Nanpur, Sub- Div-Pupri, Dt-Sitamarhi-843333, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	10.1.80
472	Brajesh Kumar S/o Sri Surya Kumar Yadav	JVC/417/08	Touring Veterinary Officer, Madhupur, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	26.12.74
473	Brajesh Kumar, S/o Shri Jagdish Pd. Saha	JVC/043/08	Block Ani. Hus Officer, Mandu, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	15.07.68
474	Brajesh Singh S/o Sri Kameshwar Pd. Singh	JVC/494/09	Ambedkarnagar, Harharguttu, Bagbera, Jameshedpur, East Singhbhum-831002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	02.01.65
475	Brajnandan Singh S/o Late Yamuna Pd. Singh	JVC/179/08	B.A.H.O; Tamar, Bundu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/93	02.05.61
476	Brij Mohan Yadav S/o Sh B.S. Yadav	HarSVC/2047	VPO - Mollahere, Distt- Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	7.12.83
477	Brijesh Kumar Ojha S/o Sh J.N. Ojha	UPSVC/4728/08	Vill-Ojhawali, The Gole, Dt-Gorakhpur, U.P	BVSc&AH/JNKVV/07	23.3.91
478	Brijesh Kumar S/o Sh Raj Narain Yadav	UPSVC/4747/08	Vill--Chhatariya (Vishnupura), The- Saidpur, Ghazipur, U.P	BVSc&AH/KAU/08	10.9.83
479	Budhdeo Nag, S/o Sh. Babulal Baitha	JVC/248/08	Lari Ramgarh, Hazaribag-829150 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	02.10.78

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
480	BUTTE SHRIKANT VASANTRAO	MahaSVC/7937/08	Jayawant Nagar, Ambejogai, Dt- Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAU/82	23/1/61
481	Byju. K S/o A. Khalid	KeralaSVC/3476/09	Khalid Nivas, Nr PHC, Vilappilsala PO, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.2.85
482	C Lalremruata S/o C. Rodinga	MizSVC/175/09	Ramhlon, Venglai, H.No.C-19, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	20.9.83
483	C.Alex Jeevadas S/o R.Christudhas	TNSVC/4140/08	12, Devasahayam Street, Nagercoil, Kanyakumari, TamilNadu	BVSc/TNAU/87	15.1.64
484	C.Arivuselvam S/o T.Chandrasekhar	TNSVC/4152/08	1-285, Rasalampatti, Morapur, Harur Taluk, Dharmapuri, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	14.3.83
485	C. Daphne Prema S/o A.Muthusamy	TNSVC/4126/08	34, Grey Town, Coimbatore- 641018, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/91	20.4.68
486	C.Elangovan S/o M.Chelliah	TNSVC/4092/08	8, Middle Street, Goripalayam, Madurai - 2, TamilNadu	BVSc/TNAU/75	20.10.46
487	C.K.Pandey S/o Sh Ram Sundar Pandey	CGSVC/426/08	Near New Chruch, Amibkapur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/78-79	3.6.56
488	C.Kalaiselvi S/o S.Chinnusamy	TNSVC/4334/08	6/1077, E.B.Colony, Paramathi Road, Nammakkla-637001, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.6.85
489	C.Kumaresan S/o B.Chinnappayyan	TNSVC/4141/08	275, T.V.K.Ng, Harur, Dharmapuri- 636903, TamilNadu	BVSc/MU/70	2.2.44
490	C.Murali Nathan S/o C.Chinnaraju	TNSVC/4339/08	40, Vivekanandar Street, Arumbavur, Preambalur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	26.6.85
491	C.N.Annadurai S/o R.C. Nadimuthu	TNSVC/4228/08	66 (Old NO.101-B), Block-1, Seruviduthi North&PO-Pattukottai Taluk, Thanjavur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.5.85
492	C.Nagarajan S/o K.Chinnappothi	TNSVC/4230/08	Colony Street, Goodalur PO, Sivagiri Taluk, Tirunelveli, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.5.85
493	C.Prakash S/o P.Chidambaram	TNSVC/4182/08	Adhiyappa Goundar Valasu Munnur PO, K.Paramathy, Via-Karur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	5.6.85
494	C.Praveen Kumar S/o C.Subbaraju	APSVC/4688/08	D.No. 2/274-A, Krishna Nagar, T.Sundupalli(V,P&M), Kadapa Dt - 516130, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.6.77
495	C.Praveen Kumr S/o S.Chidambaram	TNSVC/4183/08	65-1, Arasamara Street, Seduvalai Vill&PO- Vellur Taluk dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.12.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
496	C.R.Pandurangan S/o C.K.Ramasamy Chettiyar	TNSVC/4408/09	R Block NO. 63-A,Kovaiipudur, Coimbatore- 641042,Tamilnadu	BVSc/KAU/67	20.4.40
497	C.Rama Krishnan S/o K.Chandrasekar	TNSVC/4262/08	3/95 (Old No.3/83),Vallampatti,Pannaiyadipatti,PO- Sivakasi taluk,Virudhung-626127,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.4.85
498	C.Rama Rao S/o C.V.Subbaiah	APSVC/4764/08	D.NO.6/80,Brahmin Street,Porumamilla,Kadapa Dt-516193,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	31.8.85
499	C.S. Ramesh S/o Sannakamanna	KarSVC/4220/09	Chikkanayakanahally-572151,Sira Tq, Tumkar Dt, Karnataka	BVSc/UAS B'lore/92	5.9.69
500	C.Suresh S/o P.Chinnathambi	TNSVC/4175/08	Karukkakurichi PO,Alangudi Taluk,Pudukottai,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.1.84
501	C.Swathi Reddy D/o C.M.Papi Reddy	APSVC/4778/08	H.NO.1/1,Nagireddypalli (P),Buggalapalle(V),Chinta Komma,Dinne(M),Kadapa Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	30.9.83
502	C.Vinaya Sree D/o C. Yadagiri Rao	APSVC/4745/08	H.No.6-3-931,Somajiguda,Rajbhavan Rd, Hyderbad,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	31.5.85
503	C.Yamini D/o C.Siva Rama Prasad	APSVC/4794/08	Plot NO.625,HMT Hills, Opp- JNTU,Kukatpally,Hyderabad,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	3.6.85
504	Ch. Rameswara Rao S/o Ch Koteswara Rao	APSVC/4723/08	Nellore kottai (V), Sivapuram (P),Mydukur (M),Kadapa Dt-516172,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	3.7.82
505	CH.Ajya Veer Reddy S/o Ch. Venkat Reddy	APSVC/4754/08	H.NO.AE/28,Pylon Colony,Nagarjuna Sagar,Nalgonda,Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	25.7.82
506	Ch.Babu S/o Ch. Sethaiah	APSVC/4759/08	Dirsin Cherla (V&P), Nerducherla(M), Nalgonda Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	4.3.79
507	Ch.Rajitha D/o Ch Sree Ramulu	APSVC/4736/08	H.No.1-1-188/B,Opp Govt. Junior College,Suryapet,J.J.Nagar, Nalgonda dt	BVSc&AH/SVVU/08	28.11.83
508	Ch.V.Bhanu Poornima D/o CH. Seethanna	APSVC/4774/08	Raja Street, Tagarapuvalasa, Visakhapatnam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	12.8.85
509	Chahar Jayprakash Niranjansingh	GujSVC/2898/08	Old-A/3,Staff Qtrs.,Course of Agril, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	10.3.86
510	Chakraborty Arindam S/o Mr.A.K. Chakraborty	ASM/2389/08	Santipara, PO -Lumding, Dt-Nagaon,Assam	BVSc&AH/AAU/08	3.12.84
511	Charnavali B S/o Bashasab B	KarSVC/4172/08	Banger Street,8th Ward, Harapanahali- 583131,Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.7.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
512	Chanchal Singh S/o Sh Mahn Singh	Pb.SVC/2846/08	32 Satguru Nagar, Opp Verka Milk Plant (Ldh), Punjab	BVSc&AH/WBUA&FSU/01	5.8.77
513	Chandan Gobind Deb S/o Sri Kamal Gobind Deb	JVC/525/09	Sri Kamal Gobind Deb 5, Pramathanagar Main Road Tatanagar, Jamshedpur East Singbhum-831002 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	17.01.68
514	Chandan Kumar S/o Sri Mahendra Mandal	JVC/297/08	Ghaghari, Roundhiya, Saraiyhat, Dumka-814151, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	01.03.79
515	Chandan Singh Batham S/o Sh Sitaram Batham	MPSVC/2527/08	Behind Bhalia Garments, Narendra Nagar, Shivpuri, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	23.5.70
516	Chandana T D/o Thimmaiah M	KarSVC/4142/08	C/o Ballaiah, Basaweshwara Road, Magadi-562120, Ramnagaram Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	18.1.86
517	CHANDANE PADMAKAR AGATRAO	MahaSVC/7928/08	C/o Chandane A.M., Sant Garoba Kaka Ng, Sanja Rd, Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	14/5/84
518	Chander Shekhar S/o Sh M.C. Sharma	HPSVC/839/08	Sarswati Niwas PO, New Shimla Near DAV School, Shimla, H.P -171009	BVSc&AH/CSKVV/08	18.3.81
519	Chandra Bhushan Singh S/o Late Yadunandan Singh	JVC/387/08	T.V.O.Satgawan, Koderma Pin-805132, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/81	11.05.58
520	Chandra Deo Prasad, S/o Sri Ram Keshwar Singh	JVC/083/08	Touring Veterinary Officer, Domachanch, Koderma, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	14.03.57
521	Chandra Kumar Sinha S/o Late Banshi Singh	JVC/389/08	Dipatoli New Nagar Bandhgari, R.M.C.H.Bariatu-9 Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/MU/64	08.08.41
522	Chandra Mani Prasad S/o Late Lala Prasad	JVC/362/08	Proff. & Head Deptt. of LPM. RVC. Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RU/70	01.12.46
523	Chandra Mohan Sharma S/o Narad Muni Sharma	JVC/219/08	B.A.H.O, Giridih, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	01.03.61
524	Chandra Shekhar Ojha S/o Sh O.P. Sharma	RajSVC/3548/08	C-693, Baldev Nagar, Makadwali Road, Ajmer, Rajasthan	BVSc&AH/MLSU/85	4.1.62
525	Chandrabhan Singh Chauhan S/o Late Sh Banwari Singh Chauhan	BVC/2743/06	VIII-PO-Jalhara, Thane-Raipur, Sub-Div-Buxar, Bihar	BVSc&AH/CSAKEVV/01	22.8.75
526	Chandraprakash Mishra S/o Sh Siyaram Mishra	CGSVC/343/07	R.E.S.Colony, Bhanupratappur, Chhattisgarh	BVSc&AH/KKVP/08	10.6.75
527	Chandrasekhar Dubey S/o Sh Suresh Chand Dubey	CGSVC/422/08	Moh & The-Balod, Dt-Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/04-05	1.7.79

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
528	Chandrasekharan K S/o M.P. Kunhikrishna Varier	KeralaSVC/3397/09	"Jyothis", Vishnumangalam PO, Kallach, Kozhikode, Kerala	BVSc&AH/KAUJ/09	26.1.71
529	Chandrashekara H.H S/o Hirannaiah H.D	KarSVC/4103/08	Hettu-573123, Sakleshpura Tq, Hassan Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	7.8.85
530	Chandrashekhar Azad S/o Sh Mohan Das	BVC/2739/06	Vill-Govindpur, PO-Puraini, Thane- Jagdishpur, Sub-Div-Sadar Bhagalpur, Dt- Bhagalpur, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	10.2.81
531	Chandrashekhar Kumar S/o Sh Harinaryana Mahto	BVC/2782/06	Vill-Kinwarchak, PO-Mahthi, Thane- Bibhuutipur, Sub-Div-Rosera, Dt-Samastipur- 848211, Bihar	BVSc&AH/WBUFSU/06	11.9.78
532	Chandrashekhar Patel, S/o Khagaswar Patel	CGSVC/410/08	Moh&PO-Mura, Via-Bhaupdevpur, Dt- Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	29.9.77
533	Chandrashekhar S/o Sh Jagdish Pd Mandal	BVC/2858/07	Vill-Dahara Bishanpur, PO-Bisanpur, Thane- Barari, Sub-Div-Katihar, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	30.4.81
534	Chapla Ankit Chimamlal	GujSVC/2900/08	Narayan Nagar, Indraprasth App. Block- 302, Keshod, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	1.6.83
535	Charanjit Singh S/o Sukhwinder Singh	Pb.SVC/2829/08	VPO-Biro Ke Kalan, Dt-Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	26.10.80
536	CHARATE SOMANATH SURESH	MahaSVC/7821/07	Shankar-Sadan, Telgaon Road, Dongaon, Tal/Dt-Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/3/84
537	CHATE, AMAR GANGADHAR.	MahaSVC/8080/08	Chate Colony, Near Saint Janabai School, Gangakhed, Tal. Gangakhed, Dist.Parbhani- 431514.	BVSc&AH/MAFSU/08	18/11/84
538	CHATUR YOGESH AGASTIJI.	MahaSVC/7807/07	Plot No.438, New Subhedar Layout, Nagpur- 440024, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	22/10/82
539	CHAUDHARI SANJIVANI BHIMRAO.	MahaSVC/8002/08	Plot No.89, Sanjay Nagar, Nandanwan, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	11-05-80
540	Chaudhari Prakash Rameshbhai	GujSVC/2899/08	Plot NO.369/2, Sector-5-A, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	7.12.85
541	Chaudhari Shailesh Meghajibhai	GujSVC/2901/08	At-Sagthala, Ta- Kheralu, Dt- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	27.9.85
542	Chaudhari Varunkumar Nathubhai	GujSVC/2902/08	133/B, Matru Smruti Society, B/H Utkarsh School, Racecourse, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	18.5.86
543	Chaudhari Yashvantkumar Ramanbhai	GujSVC/2949/08	PO-Bapupura, Ta-Mansa, Dt-Gandhinagar- 382545, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	11.12.85

SNO	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
544	Chaudhary Jigar Nanjibhai	GujSVC/2950/08	PO-Ruda,Ta-Harij, Dt-Patan-384265,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	13.12.83
545	Chaudhary Prahlad Shanker	GujSVC/2890/08	Nandini Vety Hospital Surat,Gujarat	BVSc&AH/PKVV/97	22.3.73
546	Chauhan Jaydipsinh Jemalji	GujSVC/2951/08	PO-Ghodiya,Ta-Vadgam,Dt-B.K-385421,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	15.12.85
547	CHAVAN AVINASH BHANUDAS.	MahaSVC/8044/08	Julewadi Road,(Varchi Gallij),Yelavi Tal.Tasgaon,Dist.Sangli,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	23-03-86
548	CHAVAN SAMBHAJI GULAB.	MahaSVC/7795/07	At-Kurud, Post-Ralegaon Therpal,Tal-Parner, Dt-Ahmedng,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/1/83
549	Chavda Jignesh Arvindbhai	GujSVC/2903/08	14-Dwarkapuri Sahyog Society,Nr.Sashikunj,Junagardh,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	15.9.86
550	CHAVHAN PAWANKUMAR HIRAMAN.	MahaSVC/7743/07	C/o H.G.Chavhan,At-Amdari,PO-Palodi,Tal-Manora,Dt-Washim,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15/1/81
551	CHAVRE VIJAYKUMAR SHRIPATI.	MahaSVC/8006/08	At/Post-Talepimplegaon,Tal.Patoda,Maharashtra Dist.Beed. -400058,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23-05-83
552	Chetan S/o Sh Sat Narain	Pb.SVC/2670/09	#222 St.No.4, New SBS Colony, Rampura Phul, Bhatthinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	27.6.82
553	Chethankumar H.B S/o Basavarajappa	KarSVC/4206/08	Santhebennur Rd, Tyavanal-577544,Channagiri Tq, Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.5.86
554	Chetna Dhapola D/o Dr. Trilok Singh Dhapola	UVC/443/09	V.O-Vety Hospital,Ranipokhri, Dt-Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUIA&T/01	27.11.77
555	Chetri Amit S/o Sri Dil Bahadur Chetri	ASM/2388/08	Chapakhowa,Sadiya, Dist-Tinsukima,Assam	BVSc&AH/AAU/08	10.6.83
556	Chetry Chatra Bahadur S/o Sh Dan Bahadur Chetry	ASM/2401/08	Vill&PO-Hawaiipur,Dt-Karbi,Anglong,Assam	BVSc&AH/AAU/07	21.11.83
557	Chhavi Gupta D/o Sh Ashok Kumar Gupta	UVC/380/08	Kumanun Confectionary Store, Kaladhungi Rd,Chauraha Haldwani,Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUIA&T/08	14.2.85
558	CHIKHALE MEERA VANKATRAO.	MahaSVC/7862/07	Gopal Niwas, Vijay Nagar,Bidar Naka, Udgir,Dt-Latur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/6/83
559	Chinchu Jose D/o Jose Joseph	KeralaSVC/3359/08	Anikuzhikattil House, Chemperi PO, Kannur-670632,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.5.84

SNO	NAME	ADDRESS	ON	DOB
560	Chinnu M.V D/o Vijayan M.K	KeralaSVC/3462/09 Mundakkal House, Varakkara (PO), Thrissur- 680325, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.4.84
561	Chitranjan Kumar S/o Ramlal Prasad	BVC/2907/07 Vill-Ganesh Bigha PO-Irki/Bhalua, Thane- Belaganj, Dt-Gaya-804404, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	1.3.79
562	Chittaranjan Dhangada Majhi S/o Sri A.KDhagada Majh	OrissaSVC/2258/09 Pradesipara (Nr.Balaji Temple), PO- Bhawanipatra-766001, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/03	5.7.78
563	CHOPA DE SOPAN RAVINDRA.	MahaSVC/7761/07 C/o Ravindra Bhagwan Chopade, Lahane Layout, Samartha Ng, Ward No.24, Buldana- 443101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/6/83
564	CHOTHE SONALI VILAS	MahaSVC/7932/08 Near Sadhana Highschool, Gadhinglaj, Dt- Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/10/84
565	CHOUDHARI PRITIMANGAL VISHAVNATHRAO	MahaSVC/8087/08 'Mauli Krupa, Opp.to Civil Hospital, Subhash Road, Parbhani, Dist.Parbhani-431401.	BVSc&AH/MAFSU/08	11/9/84
566	Chowbay Ditiyama S/o Pradip Kr.Chowbay	ASM/2413/08 C/o P.K.Chowbay, PO- Kharghuli, Upper Luitpur, H.NO.129, Guwahati-781004, Assam	BVSc&AH/AAU/08	12.4.83
567	Chumnu Tirkey S/o Late Mithlesh Tirkey	JVC/311/08 Moh-Desuid, Banhora, Hehal, Sukhdeonagar, Ranchi-834005, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	01.01.73
568	Cynthia Jose, D/o Joseph M.K	KeralaSVC/3352/08 Madathil Pazvilla, Ambika Market PO, Vaikom, Kottayam-686144, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	17.4.84
569	D. Ilaya Bharathi S/o G. Duraikannu	TNSVC/4114/08 1/176, Bank Street, Koonimedu PO, Thindivanam Taluk, Villupuram-604303, TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	13.12.85
570	D.Arun Kumar S/o C. Deivasigamani	TNSVC/4267/08 3/14, Saravampathi Ingur PO, Perundurai taluk, Erode, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.1.84
571	D.Gandhimathi S/o T.Durai Raj	TNSVC/4294/08 663/1, Muthu Ng, Kovilpatti Tuticorin, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.1.85
572	D.Ganesakale S/o Dharmarajan	TNSVC/4079/08 B S2, Villaespana, 158, Velachery Main Rd, Velcherry Chennai	BVSc/MU/59	23.3.37
573	D.Jagadeesan S/o P.Duraisamy	TNSVC/4363/08 42 (old NO.62), Serukkalai, Serukkali PO, Paramathivelur, Namakkal, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.1.78
574	D.Jagadeeswaran S/o S.Deventhiran	TNSVC/4373/08 4 Uthukuli Rd, Chennimalai Erode- 638051, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.8.86
575	D.K.Sehar S/o Late Sh Dhanuva Ram Sehar	CGSVC/431/08 Vill-Cherchari, Po-Sorar Gurur, Dt- Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/997-98	22.8.70

SNO	NAME	NO.	ADDRESS		
576	D.Manikandan S/o D.Duraisamy	TNSVC/4214/08	1/438, North Street, Pudukkottai PO, Kunnam Taluk-Permbalur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.12.82
577	D.Nithya S/o M.Duraisamy	TNSVC/4251/08	1/37-A, Nadupalayam, Vaiyappamalai PO, Tiruchengode Taluk, Namakkal, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.84
578	D.Ramya S/o T.Durairaj	TNSVC/4293/08	93, Kavutharasanallur, Thottiyam Taluk, Trichy- 621215, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.3.84
579	D.Siva Kumar S/o D.Narasimha Swamy	AP SVC/4709/08	Vasamsettivari Palem, Kadali (P), Razole (M), East Godavari-533248, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	12.11.83
580	D.Srikala D/o D.Narasimhulu	AP SVC/4726/08	6-8-1155, NGO Colony, K.T.Road, Opp- Ramachandra Mission, Tirupati, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.8.83
581	D.Srividya D/o D.V.V.Satyanarayana	AP SVC/4802/08	3-33, Sunkarapalem, Kapulapalam(P), Tallarevu(M), (Via)-Yanam, E.G.Dt, A.P	BVSc&AH/PU/08	18.8.84
582	D.Suresh S/o C.Duraisamy	TNSVC/4252/08	North Street, Nathakarai, Thalaivasal PO, Attur taluk, Salem-636112, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.8.85
583	D.Usha Nandhini S/o A.M.Duraisamy	TNSVC/4327/08	64, Muthu Kumarsamy Koil Street, Bhavani taluk, Anthiyur, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	14.2.84
584	DAHALE GAJANAN SURYAKANT.	MahaSVC/8030/08	Dahale Niwas, Vidyanagar, Bhagwan Baba Chowk, Parli V., Tal.Parli V.Dt.Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	27-05-84
585	DAHIKAR PARIKSHIT RAJENDRA	MahaSVC/8013/08	C/o Rajendra Dahikar, Maharashtra Lalganj Baripura Itwari Nagpur 440002	BVSc&AH/MAFSU/08	18-06-83
586	Dal Singh Meena, S/o Sh Ram Prasad Meena	RajSVC/3482/08	Vill- Bibgea, PO-Erniya, The-Hindon City, Karauli, Rajasthan	BVSc&AH/IGKVV/08	15.8.77
587	DALAVI KETAN GOVIND.	MahaSVC/8126/09	A/P-Sasane, Tal.Murbad, Dist.Thane- 421401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	04/03/85
588	Dalu Soren S/o Late Lakhan Soren	JVC/426/08	Chotakurma Siripur, Mirzachouki, Mandro, Sahibganj, Jharkh and	BVSc&AH/RAU/95	10.12.67
589	Daly.C.Savis D/o C.A. Davis	KeralaSVC/3367/08	Chiramel House, PO- Armpur, Thrissur- 680020, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	11.7.83
590	DAMANE PRAMOD TUKARAM	MahaSVC/7842/07	A/P.-Asarjan Camp(Irrigation), Tal/Dt- Nanded-431606, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/4/84
591	DANDAGE SHASHIKANT DAMODHAR	MahaSVC/7824/07	Dhad Naka, Dhande Layout, Buldana- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	29/9/82

SNO	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	INSTITUTION	DATE
592	DANGAT NEETA DHONDU.	MahaSVC/8074/08	Shradha Niwas,Lonand,Tal.Khandala,Maharashtra Dist.Satara-415521	BVSc&AH/MAFSU/08	12/09/84
593	Dara Shikoh S/o Late S. Shujauddin Ahmad	JVC/228/08	C/o Dr. Dara Shikoh, Chistinagar, Khirgaon, Hazaribagh-825301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	10.12.63
594	Das Debaranjan S/o Lt. Ganesh Ch. Das	ASM/2421/09	Vill- Kapahuwa Gaon, PO-Japi Sajia,Dist- Lakhmipur, Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.01.80
595	Das Pallavi S/o Mr. Mukut Ch.Das	ASM/2406/08	Cindrella Hostel, (Asiana) Bye Lane NO.-3, Tarun Nagar, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/08	30.11.85
596	DASARE SANJAY KISANRAO.	MahaSVC/8014/08	Manik Chauk, Sindkhed Raja,Tal.Sindkhed Raja,Dist.Buldana-443203	BVSc&AH/MAFSU/08	19-01-80
597	DATE ANITA KONDIBHAU	MahaSVC/7940/08	At-Devibhoyre,Tq-Parner,Dist-Ahmednagar- 414307,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	19/8/84
598	DATIR DHIRAJ KESHAO	MahaSVC/7954/08	Saroj Colony,Suit Girni Road,Amravati- 444606,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	24-11-84
599	Dava Dipen Mukeshkumar	GujSVC/2953/08	College Compound Bahudha Krupam,Palampur,Dt-B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	4.11.84
600	Davinder Singh S/o Sh Virender Singh	HarSVC/2043	General Hospital Narnaul Distt - M/garh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	16.5.85
601	DAWANDE SANDIP NAMDEORAO	MahaSVC/7978/08	Ambedkar Ward, Shendurjana Ghat,Ta. Warud.Dt.Amravati,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	30-06-80
602	Dayanand Prasad, S/o Shri Lala Prasad	JVC/117/08	Touring Veterinary Officer, Kolebira,Simdega, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/83	03.04.61
603	Dayanand Turi S/o Late Kali Charan Turi	JVC/493/09	Motipahari, Borio, Sahebganj,-816120, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	31.12.69
604	Debhi Balavantsinh Bhupatji	GujSVC/2952/08	To-Ghumasam,Ta-Kadi,Dt-Mehsana,Near AmbkaChok,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	16.6.85
605	Debiprasanna Das S/o Sh.S. Nirajane Patra	OrissaSVC/2222/08	At: Tumba, PO-Ashrampatnr,Via/Dist- Bagatsingpur,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	9.7.84
606	Deep Chand S/o Sh Duli Chand	HarSVC/2071	Vill -Ujha, PO- Rishalu, The -Bapoli, Distt- Panipat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	3.2.81
607	Deepa C.N D/o C.R. Narayan	KeralaSVC/3398/09	Chirakkal House,Perubillissery,Cherpu PO,Thrissur,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.3.85

SNQ	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
608	Deepa Ram S/o Sh Poona Ram	RajSVC/3493/08	V/p Hapansar, The -Shergarh, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	5.11.80
609	Deepak Chandra Khulbe S/o Capt.M.D. Khulbe	UVC/34/08	28-Gangotri Vihar, Lane No.-1, Upper Nathanpur, Ring Road, Dehradun	BVSc&AH/JLNKVV/84	23.6.59
610	Deepak Kumar Bansal s/o Sh Lakshmi Narayan Bansa	MPSVC/2536/08	Pahargarh Road, Post-Kelaras, Dist- Morena- 476284, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	20.10.79
611	Deepak Kumar Chaurasiya S/o Shri Kishori Prasad	UVC/424/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Vinakkhal, Distt-Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/WBUA&FSU/0 5	15.11.78
612	Deepak Kumar Mahto S/o Shri Mahadeo Mahto	JVC/449/09	Rupaposh, Sonua, Poraahat, Chakradharpur, We st Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/IGKV/09	26.12.82
613	Deepak Kumar Nag S/o Shri K.P.Nag	MPSVC/2508/08	M-854, Darpan Colony, Thatipur, Gwalior- 474011, M.P	BVSc&AH/IGKVV/08	26.3.79
614	Deepak Kumar S/o Sh Dayanand Yadabv	BVC/2946/08	Vill&PO-Abgil, Thane-Korma. Dt-Sheikhpura- 811105, Bihar	BVSc&AH/KAU/07	15.7.79
615	Deepak Kumar Singh S/o Late Basuki Prasad Singh	JVC/287/08	TVO, Chandrapura, Qr.No.F/VII-2, Chandrapura, Bermo, Bokaro, -825303, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	03.03.64
616	Deepmala Devagan S/o Sh A.L.Devagan	CGSVC/361/08	B-7, CSI, Ashish Nagar, Reisali, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	19.10.84
617	Deepthi S.S.Rose D/o Stanley Rose	KeralaSVC/3429/09	Valiya Vila Veedu (H), Kakkamoola, Kalliyoor PO, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.5.86
618	Deepthi Gupta D/o Shri Ramendra Gupta	MPSVC/2534/08	Galla Mandi Road, Lahar, Bhind-477445, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	4.3.83
619	Deepthi Joshi D/o Shri K.B.Joshi	UVC/379/08	C.T.O Kalsi Dt-Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	30.8.82
620	Deepthi Minz S/o Shri Massih Das Minz	JVC/182/08	Kobja Chirodanr, Sursang, Raidih, Gumla- 835232 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	09.02.78
621	Deeraj Pal S/o Sh Bihari Lal	UPSVC/4792/08	Vill-Pipra Khas PO-Barkhere Kala, Dt- Pilibhit, U.P	BVSc&AH/UPPDUPCVV/ 08	20.8.81
622	Deerendra Nirranjan S/o O.P.Nirranjan	UPSVC/4726/08	Navjeevan Pharmacy PVT., Ltd., New Kailash Nagar, Ghaziabad	BVSc&AH/IGKVV/07	19.2.82
623	Deka Nipu S/o Sh Chandra Kanta Deka	ASM/2374/08	Vill-Agdala, PO-Baihata Charilali, Dist- Kamrup, Pin-781381, Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.3.84

SNO	NAME	NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
624	Deonandan Prasad, S/o Late Shri Chatu Mahaton	JVC/120/08	Touring Veterinary Officer, Bagodar, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	01.04.58
625	DEORE SANDIP NANABHAU	MahaSVC/7864/07	Yamunai Niwas, Gautam Nagar, Mukati, Dt- Dhule, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	22/6/85
626	Deori Gitanjali S/o sri Hiranya K Deori	ASM/2378/08	C/o H.K.Deori, Sonapur, Deorigaon, P.S- Dooma, Dist -Tinsukia, Assam	BVSc&AH/AAU/08	12.8.84
627	DESAI NOOPUR CHANDRASHEKHAR	MahaSVC/8050/08	Adwait Bunglow, A-69, Puru Co-operative Housing Society, Air Port, Lohgaon, Dist. Pune-411032.	BVSc&AH/MAFSU/08	19/10/84
628	Desai Bharat Devidas	GujSVC/2934/08	B/5, Vet Staff Qut, Vidhya Dairy Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	21.6.85
629	DESAI NILEKHA SURESH.	MahaSVC/8130/09	Muktai Dham, 315/44, Sectar-3, Saibaba Lane, Charkop, Kandiwali(W), Dist. Mumbai- 400067.	BVSc&AH/MAFSU/08	07-06-85
630	Desai Virabhai Raymalbhai	GujSVC/2954/08	At&PO-Vada, Ta- Kankrej, Rabarivas, Vada, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	1.6.82
631	DESHAPANDE RASHMI PRASAD	MahaSVC/7813/07	721/2-B/23, Sannidhya, Vikas Nagar, Shashtri Rd, Navi Peth, Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/3/83
632	DESHMUKH BHUSHAN SANJIV.	MahaSVC/7802/07	A/P-Dongargaon, Tal. Dist.- Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	9/3/83
633	DESHMUKH SANDEEP YASHWANTRAO.	MahaSVC/7858/07	Near Petrol Pump, Vithal Ng, Atpadi, Dt- Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/5/84
634	DESHMUKH SHUBHA VINODRAO.	MahaSVC/8091/08	A/P-Watfali, Tal. Ner, Dist. Yeotmal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	23-03-85
635	DESHMUKH SWAPNIL PADMAKARRAO.	MahaSVC/7753/07	Matoshri, Jawahar Colony, Pulgaon, Tal-Deoli, Dt-Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/4/85
636	DESHMUKH YASHWANT DILIPRAO	MahaSVC/7841/07	At-Dongargaon(Pole) Tal-Katamnuri, Dt- Hingoli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/3/85
637	DESHMUKH PRASHANT PRABHAKAR	MahaSVC/7944/08	C/o P. A. Deshmukh, At-Pimplegaon, Post- Ghari, Tal. Bashi, Dt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	28/3/85
638	Deshmukh Vipin Vinayakrao	GujSVC/2895/08	Qr.No.001, Nandini Vety Hospital, Opp- Children Taffic Training Park, Surat, Gujarat	BVSc&AH/Dr.PROKVP/97	21.4.74
639	DESHAPANDE ASHISH ARUNRAO.	MahaSVC/8101/08	C/o Smt.Meera Arunrao Deshpande, Bank Colony, Basmath Road, Ramkrishna Nagar, Dist. Parbhani -431401.	BVSc&AH/MAFSU/08	3-8-85

SNO	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
640	DESHPANDE PRACHI VIJAY	MahaSVC/7865/07	124, Varad Ganpati SHG Society, Shankar Ng No.-1, Padmarati Rd, Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	19/8/85
641	Devan Arora S/o Sh S.K. Arora	HarSVC/2068	#486, Sector 15-A, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	9.7.85
642	Devaraja B S/o Bhadranaik	KarSVC/4196/08	C/o Doddamani Satyappa, Renuka Extn. Kottur-583134, Kudligi Tq, Bellary Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	25.6.85
643	Devashis Bose S/o Late Pranab Kumar Bose	JVC/414/08	T.V.O.Suranga, Pathna, Sahibganj, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	13.04.59
644	DEVDE DEEPAK PURBHAI.	MahaSVC/7895/07	House No.Lahan, Ardhapur, Dt-Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/5/83
645	Devendra Kumar S/o Sh Ram Gopal Sharma	RajSVC/3480/08	Vill-Shyampur Moondary, PO-Ghonsla, The-Hindaun City, Karouli, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	4.7.80
646	Devendra Yadav s/o Param Deo Yadav	UPSVC/4822/08	Vill-Kharagipur PO, Gangaupur Dt-MAU, U.P	BVSc&AH/UPDDUPCVV/08	11.7.78
647	Devendranath Dwivedi S/o Late Guptanath Dwivedi	JVC/543/09	Gali No.-03, Krishnapuri-(Matweari), Hazaribagh-825301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	19.02.59
648	Devprabha Samrat S/o Sh Nandlal Samradh	CGSVC/407/08	Dharshili, The-Nagri, Dt-Dhamtari, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	6.12.82
649	Dhal Singh Dhurav S/o Sh Parsuram Dhurav	CGSVC/344/07	Gram-Pattan Dadra, PO-Turanga, Mahasumundar, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/90-91	23.8.62
650	DHALKARI SACHIN VISHNU	MahaSVC/7930/08	3, Shivam Palace, Near Mahabal Hospital, Indira Ng, Nashik, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	13/4/82
651	DHAMANNAPATIL PRAKASH SIDGONDA.	MahaSVC/7965/08	A/P-Sulkud, Tal.Kagal., Dist.Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	03-06 86
652	Dhamendra Kumar S/o Sh Ramchandra Prasad Singh	BVC/2847/07	Vill-North Patelnagar, PO-Kesring, Thane-Patliputra, Dt-Patna, Bihar	BVSc&AH/AAU/07	1.3.81
653	Dhananjay Kumar S/o Sh Brijnandan Pd	BVC/2914/08	Vill&PO-Mapho, Thane-Mebush, Dt-Sheikhpura-811102, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	8.9.80
654	Dhananjay Kumar S/o Sh Rajendra Prasad Singh	BVC/2957/08	Vill&PO-Auraina, Thane-Muffasil Nawada ,Dt-Nawada-805123, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FSU/07	8.8.81
655	Dhananjay Kumar S/o Sri Ram Bilas Prasad	JVC/424/08	Nr Garima Apartment, Opp-Extension Part of Central Ashoka Ng, Argora, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	25.05.64

SNO					
656	DHANDE MANOJ SHRIDHAR.	MahaSVC/7888/07	Near Vitthal Mandir, Dhandewade, Sangavi, Tal-Yawal, Dt- Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/12/82
657	Dhanesh Krishnan S/o Krishnankutty Nair	KeralaSVC/3321/08	Vellapalli Peroor PO, Kottayam-686637, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	15.5.84
658	Dhanya S. Rajan D/o S. Rajan	KeralaSVC/3348/08	Syam Nivas, Chunakara East, Chunakara East, Chunakara PO, Mavelikkara, Alappuzha-690534, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.84
659	Dhanya.K D/o V. Kunhimon	KeralaSVC/3369/08	Divya Dhanuss, Mulagunnathukav, Thrissur-680551, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	15.1.83
660	Dharam Gopal Gupta S/o Sh Om Prakash Gupta	RajSVC/3554/08	B-8, Jawahar Nagar, 80 Feet Road, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/08	20.7.84
661	Dharam Singh Jagariya S/o Sh Badri Lal	MPSVC/2513/08	498, Sheelnath Camp, Kulkarni-Ka-Bhatta, Indore, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	1.10.74
662	DHARMADHIKARI DEEPAK DESAI.	MahaSVC/7966/08	"Mangalya", H.No.217-B, Sheh Ng, Vasmat Rd, Dt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	10-06-85
663	Dharmappa Rathod S/o Bhimappa Rathod	KarSVC/4154/08	Lingedahalli-586116, Muddebihal Tq, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.6.80
664	Dharmendra Chharang S/o Sh Sushil Kumar	RajSVC/3531/08	2 Civil Line, Merta City, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/02	2.10.76
665	Dharmendra Katheria S/o Sh Lal Katheria	UPSVC/4808/08	Moh-Ram Nagar, New Colony, Hed Po Office Etawah, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	10.8.81
666	Dharmendra Kumar S/o Sh Jai Ram Singh	UPSVC/4772/08	Vill-Ratanpura PO, Mandwar, Dt-Bijnor, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	28.11.85
667	Dharmrakshit Vidyarthi, S/o Shri Prabhunari Vidyarthi	JVC/124/08	AE-61, Ashok, Ashram, Dibdih, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002	BVSc&AH/G8PUA&T/95	13.07.69
668	DHAYAGUDE ROHINI SUBHASH.	MahaSVC/7908/07	A/P-Ahire, Tal.Khardala, Dt-Satar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	5/1/83
669	Dheeraj Kumar S/o Sh Ram Chandra	UPSVC/4782/08	Vill-Thakuriha, PO-Tilokpur, Dt-Barabanki, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	8.12.79
670	Dhirendra Kumar S/o Sri Bulaki Prasad	OrissaSVC/2145/09	Junior Vety Officer, Balakati, Dist-Khurda, Orissa	BVSc&AH/UAS B'lore/02	1.1.77
671	DHUP VARUN VISHWANATH.	MahaSVC/8096/08	544-2, Nehru Chowk, Gadhinglaj, Maharashtra Dist. Kolhapur-416502.	BVSc&AH/MAFSU/08	27-10-85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
672	Dhuravesh Jaiswal S/o Sh Vijendra Jaiswal	CGSVC/375/08	Vill-Mafoli,PO-Parsha, Dt-Sarguja,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	8.3.82
673	Dia.S D/o T.K.Damodharan	KeralaSVC/3399/09	"Sreyas"Madakkatanam PO,Ernakulam-686670,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.5.85
674	Diana Patton S/o Andrew Patton	NSVC/241/08	Mount View Colony, Purana Bazar, Dimapur, Nagland	BVSc&AH/AAU/08	9.2.84
675	DIGE MAHESH SHIVANAND.	MahaSVC/7899/07	1-11-611, Deep Nagar, Purna Road, Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	21/5/85
676	Dilip Kumar Jha S/o Sh Yogendra Jha	BVC/2830/07	Vill-Madhubani,PO-Bedaul,Thane-Pupri,Dt-Sitamarhi,Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/06	3.10.78
677	Dilip Kumar Rajak S/oLate Shankar Lal Rajak	JVC/565/09	Upper Bazar (Gowala Toli), Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	26.01.66
678	Dilip Kumar S/o Sh Jaimanagal Pd Gupta	BVC/2766/06	Vill-Madiya,Salempur,PO-Anjani,Thane-Parsa,Sub-Div-Saran,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	27.2.77
679	Dilip Kumar S/o Sh Jaymangal Pd Gupta	UVC/421/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital,Naitwar, Dt-Uttarkashi,Uttarakhand	BVSc&AH/MA&FSU/06	27.2.77
680	Dilip Kumar S/o Sri Mathura Nath Singh	JVC/511/09	Narhi Diyara, Ganga Prasad, Sahibganj,-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	06.03.69
681	Dilip Kumar Singh S/o Sh Bhagwan Das Singh	CGSVC/436/09	Vill&PO-Sindar, Balrampur, Dt-Sarguja,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/06-07	1.2.83
682	Dinbandu Gupta, S/o Shri Ganga Pd. Gupta	JVC/089/08	Block Ani. Hus Officer, Bishrampur, Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/JLNKV/90	01.03.66
683	Dinesh Dinkar S/o Sh Satyadeo Prasad Singh	BVC/2931/08	Vill-Mirpur Juyara,PO-Mirpur Juyara, Thane-Avtarng,Sud-Div-Sadar Chhapra-841316,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	26.1.80
684	Dinesh K.N S/o Narayana B.K	KarSVC/4135/08	Sri Anjaneyasamy H.S.School,Kumbalur-577219,Honnali Tq, Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	13.3.85
685	Dinesh Kumar Jangir S/o Sh Chhotu Ram Jangir	RajSVC/3544/08	Opp-Bihani Silai School, The-Nohar,Hanumangarh-335523,Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	10.5.82
686	Dinesh Kumar Pradip, S/o Shri Nawal Kishore Prasad	JVC/074/08	Veterinary Officer, Birsa, Botancial Garden, Lait Niwas, Booti,Newri, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	01.07.65
687	Dinesh Kumar S/o Sh ...	HPSVC/834/08	Ward NO.4, Shiv Nagar, H.NO.60,Gurudwara Gali,Hamirpr, H.P -177001	BVSc&AH/CSKKVV/08	17.11.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
688	Dinesh Kumar Singh S/o sh Kameshwar Rai	BVC/2798/06	Vill+PO-Chatra,Thane-Khajauli,Sub-Div &Dt- Madhubani,Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	2.6.79
689	Dinesh Mahto S/o Sri.Deolal Mahto	JVC/328/08	C/o Sri Doolal Mahto, Godatu, Gandke, Ramgarh, Hazaribagh-829122, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	25.08.75
690	Dinesh Sharma S/o Sh Muneshwar Sharma	BVC/2811/06	Vill-Chiterkoli,PO- Hardia, Thane-Rajauli, Sub- Div-Rajauli, Dt-Nawada,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	1.1.77
691	Dinesh Verma S/o Sh Chandan Singh Verma	MPSVC/2523/08	V&P-Segaon,The-Segaon, Dist-Khargaon,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.3.78
692	Dipak Kumar S/o Dr.Bimal Kumar	BVC/2748/06	Vill-Kali Mandir Rd,PO+Thane- Haveli,Kharagpur,Sub-D-Heveli Kharagpur, Dt- Munger-811213,Biha	BVSc&AH/RAU/06	30.6.79
693	Dipunu Kumar Sahoo S/o Sri Ekadas Sahoo	OrissaSVC/2213/08	At-Godipatana,PO-Madanpur,Via-Sainkul, Dt- Keonjhar-758043,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	9.7.83
694	Divesh Sood S/o Sh Sat Pal Sood	HPSVC/841/08	Vill&PO-Pathiar, The&Distt- Kangra, H.P - 176047	BVSc&AH/CSKVV/08	12.7.84
695	Divya T.R D/o T.K. Ramachandran	KeralaSVC/3331/08	Thuruthiyil House, Aiecarakona,Kakkodu PO, Punlar,Kollam-691331,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	10.2.85
696	Divya Jose D/o V.P. Joseph Jose	KeralaSVC/3363/08	Jyothis,Valiaveetil,Puthanagady,Parakkai Rd,Narakkal PO,Eranakulam-682505,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	28.6.83
697	Divya Joy P D/o P.K.Joy	KeralaSVC/3456/09	XX/173,Sheetal,Surabhi Nagar,Valambur(PO),Perinthalmanna, Malappuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.9.84
698	Divya P.C D/o K.Chandran Nair	KeralaSVC/3434/09	Divyalayam,Peringammala PO, Palode,Thiruvanthapuram-695563,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	17.6.83
699	Divya R.Nair D/o V.Radhakrishnan	KeralaSVC/3386/08	Snehadeepam Ex-Service Men's Colony,PO- Palode Via- Chalimukke,Thiruvananthapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	5.5.84
700	Divya Rani Thomas D/o Thomas Joseph	KeralaSVC/3323/08	Pallattu House, Kanjiramattam PO, Chengalam Via, Kottayam-686585,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	28.12.81
701	Divya S. Pillai D/o Sivadasa Pillai P.P	KeralaSVC/3400/09	Sivsadanam,Nedumkunnam PO,Kottayam- 686542,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.3.85
702	Divya V.S D/o V.I. Sreedharan	KeralaSVC/3365/08	Vadariyattil House PO, Thalakkattukara, Kecheri Via, Thrissur-680501,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	18.3.83
703	Dkshata Khare D/o Shri Vijay Khare	MPSVC/2553/08	Behind Irrigation Colony,Chhatarpur- 4 : 1001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	8.5.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
704	Doley Babul S/o Ramesh Doley	ASM/2373/08	Vill-Dilapakhar, PO-Kamdewal, P.S - Gohpur, Dist- Sonitpur, Assam	BVSc&AH/AAU/08	26.2.81
705	Doley Pranab S/o Mr. Robin Doley	ASM/2416/08	C.D.Road, Word NO.-7, Lakhimpur, Assam	BVSc&AH/AAU/08	17.7.81
706	DOPE SANTOSH VITHALRAO	MahaSVC/7943/08	C/O A.N. Peshankar, Babu Market, Pump House Road, Degloor, Taluka:Degloor, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	02/03/82
707	DUBAL PRAKASH RAMCHANDRA.	MahaSVC/7968/08	C/o Ramchandra Namdeo Dubal, At- Ajansond, Po-Deogaon, Maharashtra Tal.Pancharpur, Dist.Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	12-09-85
708	DUDHE SHASHANK DEORAO.	MahaSVC/8004/08	Nr Shivaji Vyayam Shala, Bari Pura, Darwha, Tal.Darwha, Maharashtra Dist.Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	11-05-82
709	Dulmu Buriuli Late Kaira Buriuli	JVC/382/08	Sona Posi Asura Jhinakpani Chaibasa Pin- 835301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	18.01.68
710	Durga Shankar S/o Sh Babu Lal	RajSVC/3494/08	V/P Bhagwanpura, The-Khanpur, Jhalawar- 326038, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	7.4.80
711	Dushyant Kumar S/o Sh Gunuram	CGSVC/406/08	Balohad The, Dondi Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/04-05	26.11.78
712	Dutta Kusambar S/o Mr. Nilamoni Dutta	ASM/2394/08	Vill- Kalita Gaon, PO- Bordoloni, Dist- Dhemaji, Pin-787021, Assam	BVSc&AH/AAU/07	14.1.83
713	Dutta MadhuSmita S/o Mr Aditya Kr Dutta	ASM/2418/09	P.W.D Campus, Sonapur, New Market, PO- Sonapur, Dist - Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/08	28.12.85
714	E.Bhaskar S/o E.Yakaiah	APSVC/4765/08	Chintalapally (V), Thorrur(M), Warangal Dt- 506163, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.9.83
715	E.Harikumar S/o A.V.Elumalai	TNSVC/4186/08	1/91-A, Kammalar Street, Appedu, Ulagampet PO, Pollur, taluk, Thiruvannamalai, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	23.8.85
716	E.Kumar S/o E.Lingaiiah	APSVC/4771/08	H.NO.14-4-146, Vittalnagar, Godavarikhani, Karimnagar, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.6.83
717	E.Kumara kurabaran S/o K.Elayaperumal	TNSVC/4378/08	H-26, H.B.Colony, Tirunagar, Perumalpuram PO, Tirunelveli-627007, Tamilnadu	BVSc/TNAU/78	13.5.54
718	E.Pannerselvam S/o S. Esakka Pillai	TNSVC/4409/09	1/1, South Mount Rd, Opp to Arunagiri Theatre, Tirunelveli Town-627006, Tamilnadu	BVSc/TNAU/76	9.2.51
719	E.Sunil Anand Kumar S/o E.Lalitha Kumari	APSVC/4672/08	Plot No.83, H.No.5-4-18/1/2/3, 1st Floor, Kamal Nagar, Vanasthali Puram, H'bad- 500070, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/05	30.4.80

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
720	E.Swapna D/o E.Mohan Reddy	APSVC/4744/08	Q.NO.A-501,BDL Bhanur,Medak Dt- 502305,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.05.85
721	E.Thamilarasan S/o M.Elango	TNSVC/4287/08	10-A,Ganesh Layout,7h Street,Ganapathy Nehru Ng, Coimbatore-641006,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.4.85
722	E.Tirupathi Reddy S/o E.Brahmareddy	APSVC/4680/08	H.NO.4-5-4,Behind SBI,Gopireddy Ng, Sattenapalli(M&P),Guntur Dt-522403,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	1.6.83
723	E.Venkata Rao S/o E.Guravaiah	APSVC/4784/08	Kodigudiapadu(V), China Irlapadu(P),Kanigiri (M),Prakasam Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.6.80
724	Elizabeth Abraham D/o P.A Abraham	PondiSVC/308/08	Ladies Hostel, RAGACOVAS, Kurumbapet,Puducherry-605009	BVSc&AH/PU/07	9.10.83
725	Engti Dhiraj, S/o Sri Sadar Engti	ASM/2411/08	Vill & PO-Satgaon, P.S-Baithalango, Dist-Karbi, Anglong	BVSc&AH/AAU/08	1.08.82
726	FASKE SATISHALA DEVIDAS	MahaSVC/7867/07	H.No.417,Sr.70/1/36,New Sangvi,Ganesh Ng,Haveli Dt-Pune-411027,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/1/83
727	Fathima Fayizu.U D/o U.Unnian	KeralaSVC/3401/09	T. Mohammed Ali Manzil,Tharuvakonam (PO),Ottapalam, Palakkad,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.12.83
728	FEBI THOMAS.	MahaSVC/8108/08	G-3,B-2,G.G.Complex,Seminary Hills,Nagpur- 06,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	09-03-80
729	G.A.Nagarajan S/o G.K.Appusamy	TNSVC/4385/09	70,Narayanswamy Ng Layout,Amarjothi Gardens,Kangeyam Rd,Tirupur,Tamilnadu	BVSc/MU/70	1.6.46
730	G.Arun Sankar S/o K.Gangadharan	TNSVC/4206/08	17/7,Lakshimpuram, 4th Street,East Veli Street,Madurai-625001,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.3.86
731	G.Bharathi D/o G.Nageswara Rao	APSVC/4707/08	Jandrapet (P), Lellavari (St),Chirala (M),Prakasam Dt, A.P	BVSc & AH/SVVU/08	1.4.84
732	G.Deepika Kumari D/o G. Ganapathi Rao	APSVC/4690/08	D.No.11-8, Kasinadhapuram, Jagannackpur(P), Kakinada-2, East Godavari Dt- 533002,A P	BVSc&AH/SVVU/08	13.7.82
733	G.Deepika, D/o G.Krishna Reddy	APSVC/4738/08	Gudadupally(V),Kompally(P),Bupalpally(M),W arangal Dt, A.P.	BVSc&AH/SVVU/08	26.7.83
734	G.Elamaran S/o R. Govindaraj	TNSVC/4192/08	2/124,Chinnayan Street,Karuvakkurichi PO,Mannargudi Taluk, Tiruvatur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.6.84
735	G.Ganesh S/o G. Rama Murthy	APSVC/4718/08	Gongadavalasa (V),Gandhilavalasa (P),Bobbili (M), Vizianagaram Dt	BVSc&AH/SVVU/08	1.8.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
736	G.Gnanaselva Johnson S/o M.Guna Retnamani	TNSVC/4110/08	8/65, Main Road, Kavalkinaru, Po- Tirunelveli, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/92	25.8.68
737	G.Gurupriya S/o V.P.Govindasamy	TNSVC/4357/08	15, Kothukkara Chettiar, Street, Chithode Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.11.84
738	G.K.Sivaraman S/o G.Krishnana	TNSVC/4087/08	Ramasampuram, Vandari PO-Saptur, Via- Periyur, Taluk-Maduari, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	6.4.74
739	G.Karuna Moorthy S/o V.Gopal	TNSVC/4137/08	15/21, G.V.G.Ng.S.V.Mills, PO- Udumalpet, TamilNadu	BVSc/TNAU/79	10.3.55
740	G.Mathu Suthanan S/o R.Gopalakrishnan	TNSVC/4097/08	11/19, Mariamman Kovil Middle Street, Sholavandan, Madurai, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/93	30.3.70
741	G.Raghunath S/o R.Ganesan	TNSVC/4340/08	795/205-A, NGGO Colony, Kannakurichi Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.5.85
742	G.Rama Krishna S/o G. Venkata Rao	APSVC/4724/08	Vishnukundi Nagar, Vinukonda, Guntur Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	22.6.85
743	G.Siva RamKrishna S/o G.Narsa Rao	APSVC/4785/08	Jr.Vety Officer, Kapileswarapuram, Pamidimukkala (M) Krishna Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.01.85
744	G.Sivananthan S/o M.Ganesan	TNSVC/4167/08	13/15, Raja Goundanpudur, Manapalli PO, P.Velur, Namakkal-637017, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.2.86
745	G.Srinivas S/o G.Yellaiah	APSVC/4790/08	H.NO.6/64, Thatipally(V), Mallial(M), Karimnag ar Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	18.6.84
746	G.Srinivasa Rao S/o G.V.Subba Rao	APSVC/4706/08	Rajupalem(P&M), Sattenapalli (Tq), Guntur Dt- 522412, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.7.84
747	G.Srinivasa Reddy S/o V.Chowda Reddy	APSVC/4687/08	H.NO.-10, Police Quarters, Podili, Prakasham Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.8.85
748	G.Suganthi S/o M.Govindasamy	TNSVC/4245/08	82, Venkattappan Road, Shevapet, Salem- 636002, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.3.84
749	G.Sulochana D/o R.P.Govindhan	TNSVC/4193/08	6/111-B, Bus Stop, Rishivandiyam, Villupuram, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.6.85
750	G.Suresh S/o C.Gurusamy	TNSVC/4253/08	3/149, Vinayagar Koil Street, Meenakshipuram PO, Rajapalayam, Virudhung, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	8.7.85
751	G.Tamilselvan S/o N.Gunasekaran	TNSVC/4226/08	4/384, J.J.Secod Street, MGR Ng, Kottivakkam, Chennai	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.5.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DQB
752	G.Thilak S/o T.Gunasekaran	TNSVC/4201/08	2,Vinoba Street, P.Mettupalayam,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.6.84
753	G.V.S.Nookeswara Rao S/o G.Krishna	AP SVC/4788/08	Medivada, Ravikamatham(M), Vizag Dt- 531025,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	14.6.83
754	G.Vema Sulochana D/o G.Vemaiah	AP SVC/4717/08	D.NO.4/407, Spy Reddy Model Colony, Bommalasatram, Nandyal,Kurnool Dt. A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.6.84
755	G.Vinoth S/o A. Ganesan	TNSVC/4347/08	Odhayathur Po,Gangavalli taluk Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.7.85
756	G.Yuvaraj S/o N.Govindan	TNSVC/4369/08	NO.218, Perumal Koil Street,Thirumangalam,Villupuram,Tamilnadu	BVSc&AH/PU/00	5.8.76
757	GADAVE KAUSTUBH SUBHASH	MahaSVC/8116/08	New D-7/1,Eklahare Colony,MSEB,NTPS,,Maharashtra Eklahare,Nashik Road,Nashik-422105	BVSc&AH/MAFSU/08	11-07-86
758	GADE NITIN EKNATH.	MahaSVC/7896/07	Guldagad Plots, Gokul Colony,Rahuri,Dt- Ahmedng,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/10/84
759	GADHAVE PRASHANT DATTATRAY	MahaSVC/8128/09	Tirth Prasad, Gurukul Society,Shirur,Dist.Pune-412210,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	3-6-85
760	Gaganpreet Singh S/o Sh Gurdial Singh	Pb.SVC/2837/08	The Saron Industry, Patiala Road, Sunam, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	10.10.84
761	GAIKWAD AVINASH VITTHALRAO.	MahaSVC/8142/09	Basera,SH.21,Bota Road,Maharashtra A/P Brahmanwada,Tal.Akole, Dist.Ahmednagar-422610	BVSc&AH/MAFSU/08	25-4-86
762	GAIKWAD PRACHI CHANDRASHIK	MahaSVC/7785/07	Type-II,B-1,R-5,ESIS Hospital,LBS Rd,Mulund(W),Mumbai.	BVSc&AH/MAFSU/07	4/1/84
763	GAJBHIYE ABHA HARIDAS.	MahaSVC/7998/08	29,Milind Nagar,Khamla,Nagpur,440025,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	6-3-86
764	Gameti Vishrambhai Doljibhai	GujSVC/2943/08	Vt-Vankatimba,PO-Navagam,Via-Lusadiya,Ta- Bhiloda,Dt-Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	1.6.77
765	Gami Yogeshkumar Manjibhai	GujSVC/2955/08	24,Vidyanagar Socity,N/r Modinagar,B/H Jaindadawadi,Palanpur-385001,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	23.11.84
766	GANAPURL MAHESHKUMAR PRATAPRAO	MahaSVC/7760/07	A/P-Kamalawadi, Tal-Deoni, Dt-Latur- 413519,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/2/82
767	Ganesh Chandra Mandoliya S/o Shri G.N. Mandolia	UVC/398/08	Vill-Kafalgair,PO-Jogemarhi,Dt-Pauri Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	5.8.73

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
768	Ganesh Ram Mahali S/o Sri Mangru Ram	JVC/281/08	Chanchi, Gamharya, Ghaghra, Gumla- 835208, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	19.07.75
769	Ganesh Shanker Vidyarthi S/o Sh Chandreswari Pd Yadav	BVC/2820/06	Vill-Jogbani, PO-Bhawaniipur, Thane- Gamharia, Sub-Div-Madhepura,, Dt- Madhepura, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	1.3.78
770	Gangadhar Kapase S/o Gurusiddappa	KarSVC/4178/08	Behind T.M.C Shivanagar, Indi- 586209, Tq, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	22.3.84
771	Gangadhar Kaushal S/o Sh Vijay Kaushal	CGSVC/443/09	Vill-Malhari, PO-Khamaria, The-Nagari, Dt- Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	11.9.81
772	GANGURDE SWAPNIL PRAMODRAO.	MahaSVC/7860/07	N-53-V/H-41/7, Patil Nagar, Nr Peth High School, Cidco Nasik, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/2/84
773	GANGURDE BHUSHAN GAMBHIRRAO.	MahaSVC/8060/08	4516, Atmaram Bross Chawl, Elphinstone Road, Mumbai-400013, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	15/03/85
774	GANVIR PUNAM BHAYYAJI.	MahaSVC/7999/08	Shaktinagar, Burdi Road, Armori, Tal. Armori, Maharashtra Dist. Gadchiroli-441208	BVSc&AH/MAFSU/08	14-10-86
775	GAPAT SANJAY MADHUKAR	MahaSVC/7830/07	06, Samadhan Niwas, Ramhari Ng, Bhoom, Dt-Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	17/5/84
776	Garima Bisht D/o Shri H.S. Bisht	UVC/391/08	Ganga Vihar, Do -Nahriya Malli Bamori, Po- Bhotia Parow, Haldwani, Dt-Naintal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	1.6.84
777	GARUD KAUSTUBH VIDYADHAR.	MahaSVC/8148/09	104/A, Type B, Malhar Sankul, Agra Road, Kalyan (W), Dist. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	09-02-85
778	Gaurav Gupta S/o Sh Ved Prakash	HarSVC/2049	# 96/12, Karan Gate Nr Manji Sahib Gurudara Karnal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	27.8.84
779	Gaurav Kumar S/o Sh Bulaki Prasad	BVC/2854/07	Vill-Gajendra Biga, PO-Bhokilaper, Thane- Hilsa, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	1.3.80
780	Gaurav S/o Sh Darshan Lal	HarSVC/2069	# 119, Block -16, Dr. Inderjeet Steet, Jail Ground, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	5.12.84
781	Gaurav Singh S/o Sh Brij Nandan Singh	UPSVC/4783/08	Vill&PO-Gohand, The-Sareela, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	11.12.81
782	Gauri Shanker Prasad S/o Late Bakhori Sah	JVC/514/09	V.S. Garhwa, Vety, Hospital, Garhwa-822114, Jharkhand	BVSc&AH/MU/70	10.11.48
783	Gautam Guha Kusum, S/o Shri Kamesh Kumar Kusum	JVC/132/08	Touring Veterinary Officer, Basia, Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	06.04.73

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
784	Gautam Kumar Pankaj S/o Sh Radha Krishna Sharma	BVC/2789/06	Vill-Mohimdh, PO-Manjaura, Thane- Bihariganj, Sub-Div-Udakishnganj, Dt- Madhepura, Bihar	BVSc&AH/CSAAU/06	15.4.78
785	Gautam Kumar Pankaj S/o Sh Radhakrishna Sharma	UVC/426/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Khati, Distt-Bageshwar, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/06	15.4.78
786	GAVADE VISHAL BALBHIM.	MahaSVC/8125/09	A/P- Bhose, Tal.Pandharpur, Dist.Solapur, Maharash tra	BVSc&AH/MAFSU/08	21-06-84
787	GAWADE LALITA BABASAHEB	MahaSVC/7977/08	At-Hanumantgaon, Post-Pathare Bk., Tal..Rahata, Dt.Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	22/6/86
788	GAWALI VITTHAL MANGO.	MahaSVC/7748/07	Mahtama Fuley Ng, Buldana- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	13/7/84
789	Gayatri Raj D/o Shri Tularam Raj	MPSVC/2560/08	H.No.1490 Shastri Nagar, Near Medical College, Jabalpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	28.11.82
790	GAZULA RAVIKANT GEORGE.	MahaSVC/8095/08	Bethel, Suyog Nagar, N.2, Goleshwar Road, Post-Kapil, Tal.Karad, Maharashtra Dist.Satara-415110.	BVSc&AH/PRKVV/72	08-07-49
791	GHANGALE GANESH RAMDAS.	MahaSVC/7870/07	C/o Mr.Mohan Bhimaji Hadwale Rajuri, Tal- Junner, Dt-Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	13/10/84
792	Ghanshyam Kumar S/o sh Vashist Narayan Sinha	BVC/2812/06	Vill-Nayatola Speaker Chowk Ishlampur, PO- Muzaffarpur, Thane-Kaji Muhmadpur, Sub-Div- Dt-Muzaffarpur, Bihar	BVSc&AH/AAU/06	24.10.78
793	GHAVATE AMOL MOHAN	MahaSVC/7845/07	1/91-3, Ashok Colony, Tambri- Vibhag, Osmanabad-413501, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/6/84
794	GHODAKE PRAFULLA SURESH	MahaSVC/7817/07	House No.72-A, A/P.Khamgaon, Tal-Dt- Osmanabad-413508, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	17/5/85
795	GHOGARE RASHMI BHASKAR.	MahaSVC/7938/08	Bomble Hanuman Sq., Nr D Pharm Coll, Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	20/07/84
796	GHULE AVINASH KASINATH.	MahaSVC/8143/09	Avishkar Siddhant Housing Colony, (NavashichaMala), Ghulewadi Road, Tal.Sangamner, Dist.Ahmednagar-422605.	BVSc&AH/MAFSU/08	15-06-85
797	GHULE PRAKASH MAHADEO.	MahaSVC/8084/08	Madhuban Apt.,9, Wada Road, Rajgurunagar, Tal.Khed, Dist. Pune-410505.	BVSc&AH/MAFSU/06	11/12/83
798	GHULE SHIVANAND SUDAM.	MahaSVC/7809/07	A/P-Dewada, Tal.Rajura, Dt- Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/11/83
799	Gibin George.T S/o T.George	KeralaSVC/3446/09	Thenguvilayil House, Punnappala PO, Wandoor, Malappuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	21.12.84

SNO	NAME	ROLL NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
800	Gilbert Rajkumar S/o N.A.Gnanamani	TNSVC/4083/08	M-86, Housing Unit, Manickkampalayam, Erode-11, Tamil Nadu	BVSc/MU/62	18.12.38
801	Gireesh Krishnan S/o Gopala Krishnan Nair	KeralaSVC/3344/08	Kottarathunkal House, Kallorkonam Po, Edamula, Kottayam-686503, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	2.11.83
802	GIRHEPUNJE BHOJARAJ SHIVARAM	MahaSVC/7818/07	Janta Milk, Dairy, Lakhani(Murmadi),Dt- Bhandra-441804, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	17/9/83
803	Girish Kumar Bairwa S/o Sh Bhika Ram Bairwa	RajSVC/3519/08	15 Ram Nagar, Agra Road, Dausa-303303, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	15.7.82
804	Girish Kumar Mishra S/o Sri R.L.Mishra	UPSVC/4833/08	Vill-Itara, PO-Itara Heh, Baalapur, Dt- Jaunpur, U.P	BVSc&AH/MAFSU/08	25.9.84
805	Girraj Mittal S/o Sh Vimal Mittal	RajSVC/3553/08	Cloth Merchant, Sadar Market, Bonli Sawaaimadhapur, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/08	15.11.81
806	Gita Mary Peters D/o K.Pathrose	KeralaSVC/3376/08	Kizhakkumparambil House, Perumbavoor, Ernakulam- 683356, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	24.5.84
807	GITE INDRAJIT BAJIRAO.	MahaSVC/7778/07	Bhairao Apartment, Plot NO.43, Station Rd, Ambernath(E), Thane-421501, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/11/84
808	Gloria Tigga D/o Sri Julius Tigga	JVC/298/08	C/o Sri Budhnath Oraon, Nayasarai Saporom (Piska Nagri), Jagnathpur, Ranchi-835303, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	18.02.65
809	GOBADE RAKESH RAMESHJI	MahaSVC/7853/07	At-Jambhora, Post-Palora, Tal-Mohadi, Dt- Bhandra, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/10/83
810	Gogoi Monishi S/o Mr.Dhanbar Gogoi	ASM/2405/08	H.No.77, Zoo Japarigog Road, (Nr.Bodo Namghar), Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/08	30.1.84
811	Gogoi Rajkishore S/o Mr. Phanindra Nath Gogoi	ASM/2407/08	H.NO.-7, M.G.Path, Christian Basti, Guwahati - 781005, Assam	BVSc&AH/AAU/08	10.10.84
812	Gogoi Swapnali S/o Sri Gogon Gogoi	ASM/2422/09	Balijan Saiding, PO-Chabua, Dist-Dibrugarh - 786184, Assam	BVSc&AH/AAU/08	31.12.81
813	Gokul Chand S/o Sh Bhanwar Lal	HarSVC/2032	Vill -Karmgarh, P.O- Sahuwala -1, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	2.4.81
814	GOLE VAIBHAV CHANDRAKANT.	MahaSVC/7786/07	Samiksha, Plot NO.5, Dnyandeep Colony, Kerul Rd, Kada, Tal-Ashti, Dt-Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/12/84
815	GONGALE MADHAVI ANAND.	MahaSVC/7797/07	Maharana Pratap Ward, Nr Pali Budha, Ballarpur, Dt-Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	26/10/82

SNO	NAME	REG.	ADDRESS	REG. NO.	DATE
816	Gopal Krishan Dandapat S/o Sh Adwaita Ch Dandapat	OrissaSVC/2244/08	At-Qr.NO. C/88, Sector-6, Rourkela, Dt- Sundergarh-769002,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	1.3.83
817	Gopal Kumar Agarwal S/o Late Nagarmal Agarwal	JVC/472/09	Kharangajhar,Telco Works,Jamshedpur,East Singhbhum-831004,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/95	15.12.68
818	Gopal Prasad S/o Sh Ram Say	CGSVC/419/08	Vill&PO-Pisod, The-Jajgir,Dt- Champa,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/95-96	6.1.71
819	Gopal Singh S/o Sh Nar Singh	UVC/360/08	Vill&PO-Kauli (Jauljibi),Distt-Pithorgarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/88	25.6.62
820	Gopala Lunavat S/o Ramset	APSVc/4767/08	Vasuram Thanda (V),Pedda Nagaram(P),Narshimhulapeta(M),Dantalpally (TQ),Warangal,A.P	BVSc&AH/SVUU/08	15.4.83
821	Gopesh Singh Yadav S/o Sh Vidya Ram Yadav	CGSVC/355/08	Civil Line,Mandergarh Dist,Korieya,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/04-05	1.7.80
822	GOTE SAIRAM BALAJI.	MahaSVC/8029/08	C/o Balaji Tukaram Gote,A/P- Tondgaon,Maharashtra Tal.Dist.Washim-444505,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	15-12-84
823	GOVANDE PREMANAND LAXMANPAO.	MahaSVC/8102/08	Prakash Nager,Taroda B.K. Nanded-431605	BVSc&AH/MAFSU/08	10-04-84
824	Govind Prasad S/o Late Budhan Swarnakar	JVC/478/09	Sukrigarh Lari, Ramgarh Cantt,Ramgarh,Hazaribagh,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	31.12.58
825	Govind Singh Khati S/o Shri Lal Singh	UVC/388/08	Trilok Nagar, Malli Bamori, Haldwani,Dt- Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	21.6.83
826	Gracia Lalchamzuali D/o L. Chhuanliana	MizSVC/173/09	H.No.D/Z, Dinthar IA Aizwal,Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	18.6.84
827	Gulab Chand Bhagat S/o Late Sukh Lal Bhagat	JVC/503/09	Harijanpara, Barharwa, Rajmahal, Sahibganj- 816101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	06.05.57
828	GULHANE AMOL BALKRUSHANA.	MahaSVC/8001/08	Near Darwha Gate, Karanja,(Lad),Tal.Karanja (Lad),Dist.Washim.	BVSc&AH/MAFSU/08	12-10-84
829	Gulshan Chand S/o Sh Gurdas Ram	Pb.SVC/2809/08	The- Pathankot, Vill- Chanjeli,Po- Sujanpur, Dt-Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	27.06.85
830	Gurjeet Singh Bali S/o Sh Trolok Singh Bali	Pb.SVC/2802/08	H.NO.167 Kamla Nehru Colony, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	19.3.83
831	Gurleen Kour D/o Sh Bhajan Singh	Pb.SVC/2821/08	H.No.260/18,Behind Police Lines, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	14.3.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
832	Gurpreet Passi S/o Sh Barinder Kumar Passi	Pb.SVC/2810/08	H.NO.51-52 Saradha Nagar Ext.Phase-III Pakhowal Road, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	12.11.85
833	Guru Dev Raj S/o Sh Atma Ram	HarSVC/2045	Vill- Pastana, PO- Raisn, Block Nilokheri (Karnal),Hayana	BVSc&AH/CCSHAU/08	10.1.84
834	Gurudeo Sinha S/o Late Banshu Sinha	JVC/377/08	Ratu (Block Road), Near Kali Mandir, Ratu, Ranchi-835222, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/71	01.03.49
835	Gurudutt Joshi S/o Sh Udai Narayan Joshi	RajSVC/3522/08	2-CH-21 Jawahr Nagar, Jaipur-302004,Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/05	17.7.81
836	Gurulingappa Pattan S/o Sri Shivasharanappa	KarSVC/4163/08	NO.72 Siddeshwara Badavane, Ibrahmpur Colony, Bijapur-586101,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.3.86
837	Gurvinder Singh JhamatS/oGhupinderSingh Jhamat	Pb.SVC/2817/08	H.No.10357,Ranjer Park,Kalan, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	8.12.84
838	Gyanchand Kr. Arya S/o Sh. Ram Swarath Yadav	JVC/224/08	TVO : Nawa, Palamu-803214, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	14.05.76
839	H.Vijayakumar S/o A. Haridoss	TNSVC/4115/08	3/3,Mariamman Koil Street,Mttahur PO, Villupuram-605203,TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	15.9.85
840	HADOLE KULDEEP ANIL	MahaSVC/7810/07	Laxmi Nagar, NearMaruti Mandir,Amravati-444605,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	2/6/85
841	Hamendra Kumar S/o Sh Shri Ram	UPSVC/4817/09	Vill-Issapur,PO-Haldaur,Dt-Bijnor,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	24.10.79
842	Hampanna S/o Sri Sanganna	KarSVC/4168/08	Kollur-585218,Chittapur Tq, Gulbarga Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.6.84
843	Hanumathrao Devamane S/o Shankar	KarSVC/4186/08	No.1383,Shahunagar,Belgaum-590010,Belgaum Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	15.6.84
844	HARDAS RAHUL PRABHAKAR.	MahaSVC/8020/08	Kochar Ward,Near Shiv Mandir,Hinganghat,Tal.Hinganghat,Maharashtra Dist.Wardha-442301.	BVSc&AH/MAFSU/08	26-07-4
845	Harelal Mahto S/o Sri Durlabh Mahto	JVC/284/08	C/o Sri Durlabh Mahto, Peraidih, Janumpiri, Tamar, Ranchi-835225, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	07.01.74
846	Harendra Kumar S/o Sh Chaman Singh	UPSVC/4829/08	Vill-Islampur Sahu,PO-Chhitwar,Dt-Bijnor,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	1.7.82
847	Harendra Pal Bhagat S/o Mangla Oraon	JVC/283/08	C/o Mangla Oraon, Rabindra Nagar, Nowadih, Dumri, Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	02.03.71

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
848	Hari .R S/o P.T. Ravikumar	KeralaSVC/3471/09	Ottilayil Hose, Kottaram Rd, PO-Eranhi Palam, Kozhikoe-673006,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.6.84
849	Hari Abdul Samad S/o A.P. Abdul Samad	KeralaSVC/3467/09	Aarckal House, Friend Nagar, Koodapuzha, Chakakdy, Thrissur-680307, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	16.3.85
850	Hari Kumar.S S/o N.S. Kartha	KeralaSVC/3402/09	"Komala Sadanam", Velappaya(PO), Medical College Rd, (Via), Thrissur-680596, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	22.11.82
851	Hari Shankar Jha S/o Late Mukund Prasad Jha	JVC/505/09	Dumariya, Chapri, Thakur Gangti, Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	21.01.65
852	Harihar Prasad S/o Ram Sagar Sah	JVC/522/09	TVO Tisri, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	10.11.66
853	Harikesh Meena S/o Sh Ramswaroop Meena	RajSVC/3474/08	Vill-Gashtipura Post, Wazirpur, The-Gangapur City, Sawaimadhoupur-322219, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	13.7.78
854	Harish Sharma S/o Shri Naresh Sharma	MPSVC/2571/08	Sharma Traders, Ater Road, Post-Porsa, Dist-Morena, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	24.9.82
855	Harish D.K. S/o Ramachandra K	KarSVC/4144/08	Darasaguppe-571435, Srirangapatna Tq, Mandya Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	10.6.86
856	Harish Krishnan M S/o Mohandas T.Menon	KeralaSVC/3404/09	Nandanam, Edakkad Road, East Hill, Calicut-673005, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.1.85
857	Harish H S/o Nagaraju	KarSVC/4106/08	Vijayapura Village, Bilagumba Po-571511, Kasaba Hobil, Ramnagar Tq&DT, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	19.2.86
858	Harishankar Chandrakar S/o Sh Bharat Lal Chandrakar	CGSVC/368/08	India Hardware and Autopart Parts, Indira Chowk, Arang, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	2.9.74
859	Harpreet Kataria S/o Sh Sadhu Ram Kataria	Pb.SVC/2822/08	H.No.B-III/45, St-2, Nr Clock Tower, Faedkot, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	18.4.84
860	Harsh Shaveta D/o Sh Ashok Kumar	Pb.SVC/2807/08	H.No.339, Mirsahib Street, Salem Shah Bazar, Fazika, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	18.04.86
861	Harinder Kaur D/o Sh Rakam Singh	Pb.SVC/2790/08	A-13, Guru Nanak Colony, Near Bus Stand Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	22.9.85
862	Harvinder Singh S/o Sh Hardev Singh	Pb.SVC/2808/08	H.No 4, Staff Colony Govt. Arts & Sports Cottege, Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	23.07.84
863	Heeresh Kumar Bhalavi S/o B.P.Bhalavi	MP.SVC/2548/08	Q.No.31, Essarji Campus II, Nr Rishipuram, Piplani, Bhopal-462023, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.6.81

SNO	NAME	RNLSA	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
864	Heimonmi Niang S/o B.Samati	MeghSVC/260/08	Mookyrdup, Ladhlaboh, Jowai-793150, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	17.2.85
865	Hema Sinha, D/o Shri Satyendra Nath Sinha	JVC/067/08	W/o Sri A.K.Bahaduri, Nr Surya Clinci Lane-2, Kumhartoli, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	22.05.66
866	Hemant Kumar Netam S/o Sh Suryabhan Singh Nemtam	CGSVC/385/08	Vill-Jogipur, PO-Bandha Takatpur, Vilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	8.2.82
867	Hemant Kumar S/o Sh Kailash Prasad Singh	BVC/2835/07	Vill-Naugai, PO- Telia Naugai, Thane-Phullidumannar, Dt-Banka, Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/06	2.12.81
868	Hemant Victor Shaw S/o Late Godwill Shaw	JVC/195/08	T.V.O.; Maheshmunda, Bengabad, Giridih-815301, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	22.7.62
869	Himanshu Dharma Shakti S/o Shri Devendra Singh	UVC/382/08	Dat Bypass Road, Nr Suyal Chunabhatta, Bithoria No.1, Haldwani, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	4.6.85
870	Himanshu Kumar Hirakar S/o Sh Bhubaneswar Pd Mahto	BVC/2943/08	Vill&PO-Paharpur, Thane-Medni Chauki, Sub-Div-Suryagarh, Dt-Mungar, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	5.6.75
871	Himanshu Pandey S/o Late Sh.K.D.Pandey	UVC/365/08	Laksmi Kedar Kunj, Vikash Bhawan Marg, Chhater PO&Dt-Champawat, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/95	9.10.74
872	Hira S/o Sh Naneram Joshi	CGSVC/386/08	Gram-Amodha, PO-Hasod Via, Bara, Jajgir, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	10.7.80
873	Hishey Ongmoo, D/o Mr.K.G.Chhopel	Sikkim/88/09	D/o Mr.K.G.Chhopel, Upper Samdong, East Sikkim	BVSc&AH/CAU/09	
874	Hitendra Kumar Soni S/o Sh Deen Bandu Soni	CGSVC/382/08	Vill-Devri, Jajgir, Champa, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	19.2.82
875	Hitesh Kumar Sukheja S/o Sh Raj Kishore	MPSVC/2565/08	Raj Store, Krishan Nagar, Satna-485001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	23.10.80
876	HOLEY ASHISH SHARAD.	MahaSVC/7983/08	C/o S.R.Holey, Ward No.6, A/P/Tal.Narkhed, Dt.Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	18-01-85
877	Hussain Md Mokhtar S/o Md Astab Ali	ASM/2381/08	Vill&PO-Bholabari, Dist-Udalguri, (BTAD)-784525, Assam	BVSc&AH/AAU/08	31.12.82
878	I.A.L.Money S/o Masilamoney	TNSVC/4392/09	184/26, Maduri Main Rd, Craw Ford, Trichy-620012, Tamilnadu	BVSc/MU/66	14.8.42
879	I.Kannan s/o S.Irulappan	TNSVC/4084/08	Chellyamman Koil Street, Sattur PO, Virudhunagar, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	25.5.73

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
880	I.Mariappan S/o S.Iyyappan	TNSVC/4197/08	45, North Street, Alwarkakulam, Tuticorin, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.6.86
881	IKHAR UMESH VASANT	MahaSVC/7833/07	Pawan Nagar, Amravati-44, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	22/9/84
882	Imtiyaz Ali S/o Sh Jalal Uddin	RajSVC/3515/08	Sahil Kosar Bright Shoe Store, Nayapura, Kota-324001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	7.7.81
883	INCHIPARAMBAN JANET ROSIE	MahaSVC/7773/07	B-1/1669, Vinay Co-op Housing Society, MHB Colony, Kherng, Bandra(E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/3/81
884	Inder jeet Singh S/o Sh Duni Chand	HPSVC/826/08	Vill - Kotla Khas, PO- Kotla- Behr, The - Jaswan, Dist- Kangra, H.P	BVSc&AH/CSKVV/08	1.12.82
885	Inderjeet Singh S/o Sh Kuldeep Singh	Pb.SVC/2803/08	H.No.167, Kamla Nehru Colony, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	22.1.85
886	Inderjeet Yadav S/o Sh Virender Kumar	HarSVC/2052	VPO Neerpur, The -Narnaul, Distt- M/garh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	9.6.85
887	Indu Narayanna.N D/o N. Narayanan Embrandiri	KeralaSVC/3387/08	Neelamana Madham, Varadiyam, Avanoor PO, Thrissur-680547, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.84
888	INGLE DHAMMPAL DEVIDAS.	MahaSVC/8146/09	At-Waghala, Post-Ambasakhar, Tal.Ambajogai, Dist.Beed-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/5/85
889	INGLE SMITA HARISHCHANDRA	MahaSVC/7798/07	Infront of Kinetic Showroom, Giri Ng, RTO Rd, Akola-444104, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/5/84
890	INGLE SONAL ARUN	MahaSVC/7823/07	65, Bank Colony, Bhagwan Ng, Nagpur-27, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	27/12/84
891	Irene Grace Kurian D/o K.C. Kurian	KeralaSVC/3391/08	Kuzhikauthazhae PO, Nariyanani, Kottayam, Kerala	BVSc&AH/TNAU/08	17.2.85
892	Ishwar Singh S/o Sh Bir Singh	UVC/361/08	1/124, Phool Bagh, Pantnagar, Dist- U.Snagar, Uttarakhand	BVSc&AH/HAU/86	1.4.62
893	Ishwari Pd. Singh S/o Late Meharchand Mahto	JVC/498/09	V.S. Deoghar, Veterinary Hospital, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/MU/70	17.07.47
894	Isidore Tigga S/o Late Johan Tigga	JVC/456/09	Parsatetartoli, Lowabar, Dumri, Gumla-835230, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	15.08.60
895	J.Amirtha Lingam S/o M.Jeevanandam	TNSVC/4161/08	169, Umbilickampatti PO, Omalur Taluk, Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	26.9.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
896	J.Arumugam S/o T.Jayakrishnan	TNSVC/4213/08	Senkattuthottam,Kzhilvani PO,Athani,Via-- Bhavani,Taluk-Erode-638502,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.11.83
897	J.Celia S/o Maj C.V.Carter Arulraj	TNSVC/4358/08	Plot NO.76, 1st Street,Ramakrishna Ng, Karumandampam Trichy-620001,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/00	12.6.74
898	J.Deva Rathnam S/o J.Satyanandam	APSVC/4801/08	16/880,Opp-Nirmala Hospital, Masapet,Kadapa,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	2.4.81
899	J.Johan Vivilian S/o T.John Peter Krishnan	TNSVC/4273/08	10/180-2.T.V.K.Nagar, Harur,Dharampuri- 636903,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	11.6.85
900	J.Lakshmanan S/o M.Jayaraman	TNSVC/4336/08	Navakkurichi PO,Attur taluk,Salem- 636112,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.9.82
901	J.Mary Vini Angel D/o A. Jesudhas	KeralaSVC/3379/08	Angels Evergree Lane,Kodunganoor PO, TVM- 695013,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	5.12.84
902	J.N.Kulkarni S/o Narayanarao Kulkarni	KarSVC/4096/08	Plot NO.109, Chandrala, Appanagouda,Patil Marg, Kulkarani Layout, Ramthirthanagar,Belgaum-590015,Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/74	1.6.50
903	J.R.Siddharthan S/o R.V.Ramchandran	TNSVC/4149/08	80,Sreevatsa Hill View, Kovaipudur,Coimbatore,Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	29.5.53
904	J.Raja Murugan S/o R.Jayachandran	TNSVC/4080/08	Thottimedu Street, B.Muthur Po,Chidambaram Taluk,Cuddalore,,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	11.6.77
905	J.S.R.R.Kiran S/o J.Ventaeswara Rao	APSVC/4772/08	D.NO.4-426,Kalikrishna Ng,Dowlaiswaram,East Godavari Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.12.84
906	J.Shailaja D/o J. Brahma Chary	APSVC/4740/08	E.W.S-12,Industrial Estate, Suryapet,Nalgonda Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	18.8.85
907	J.Vidhya Manohari S/o S. Jagadeesan	TNSVC/4304/08	56,Alathukombai,Sadumugai,PO- Sembadampalayam,Sathyamangalam taluk,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	8.8.83
908	JADHAO SHIVSHANKAR ASHOKRAO.	MahaSVC/7765/07	At-Pimpalgaon Kude,Po-Tadshivani,Tal- Sindkhedraja,Dt-Buldana,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	28/12/83
909	JADHAV AMOL RAMESH.	MahaSVC/8048/08	Jadhav Building ,Tapneshwar Road,Jamkhed,Dist.Ahmednagar-413201.	BVSc&AH/MAFSU/08	08/11/85
910	JADHAV MILAN BHOPIDAS	MahaSVC/7834/07	38,i.U.D.P.Colony, 2nd Phase,Washim,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/6/84
911	JADHAV PRAJAKTA VIVEKANAND.	MahaSVC/8077/08	Rahuri Public School,Out.No.2,Rahuri Factory,Tal.Rahuri,Dist.Ahmednagar-413706	BVSc&AH/MAFSU/08	06/08/85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
912	JADHAV PRAVIN AUDUMBAR.	MahaSVC/7984/08	Jalshudhikaran Kendra, Manisha Nagar, Tal. Pandharpur, Dist. Solapur.	BVSc&AH/MAFSU/08	14-03-85
913	JADHAV RAMESH DHRSING.	MahaSVC/8136/09	S.R.T.Colony, Tarbri Vibhag,, Maharashtra Osmanabad, Dist. Osmanabad.	BVSc&AH/MAFSU/08	10/05/83
914	JADHAV RAVIRAJ SURYAKANT	MahaSVC/7741/07	At-Nele, PO-Kidgaon, Tal-Dt-Satar- 415015, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	11/11/83
915	JADHAV VARSHARANI DADASAHEB.	MahaSVC/8112/08	A/P- Deolali, Tal. Kallamb, Dist. Osmanabad,, Mahara shtra	BVSc&AH/MAFSU/08	30/01/84
916	JADHAV KAPIL RAMCHANDRA	MahaSVC/8122/08	Vidyanagar Colony, Palus. Dist-Sangli- 416310,, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	03/07/84
917	JADHAV YOGESH BHAGWAN	MahaSVC/7900/07	Patil Chawl, Dheng Mill Complex, Parli Naka, Tal-Wada, Dt-Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/2/81
918	Jafer Ahmed S/o Sh Zahir Ahmed	RajSVC/3518/08	Behind Karnisar House, New Gajner Rd, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	1 01.83
919	Jagadeeswary W/o S.Ravikumar	KarSVC/4211/08	No. 24, Maruthi Nilayam, 3rd Cross, CIL Layout, Cholanayakanahalli, B'lore- 5600024, Karnataka	BVSc&AH/PU/01	6.11.78
920	Jagadish M S/o Channakeshavamurthy	KarSVC/4100/08	iDK-4/B, New Colony, Bhadravathi- 577302, Shimoga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.6.85
921	Jagadish S.C. S/o Sri Chandrappa T.S	KarSVC/4162/08	Temple Road, Togarsi-577433, Shikaripura Tq, Shimoga Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	13.7.85
922	Jagamohan Mallick S/o Narahari Mallick	OrissaSVC/2228/08	Qr.NO.B/138, Sector-14, Rourkela, Sundargarh, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	2.5.83
923	Jagarnath Oraon S/o Late Sukra Oraon	JVC/463/09	Patra Toli, Kanke Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	19.05.60
924	Jagat Narayan Chaudhary S/o Late Ghana Nand Chudhary	JVC/181/08	SAHO, Sahebganj, Bangalitola, Near Kindergarden School, Sahebaganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	02.02.54
925	Jagat Pal S/o Sh Ajmer Singh	HarSVC/2066	Moga Wala Hospital, Bhattu Mandi Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	11.1.81
926	Jagbir Singh Narwariya S/o Sh Mahendra Singh	MPSVC/2578/09	C/o Sh Raj Kumar "Soni Bhawan", 208- B, Ashoka Garden, Bhopa, M.P.	BVSc&AH/JNKVV/08	1.7.82
927	Jagdish Prasad Singh, S/o Late Surya Narain Singh	JVC/262/08	D.A.H.O. Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/81	15.02.55

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
928	Jagdish Sharan Sinha S/o Late Damodar Prasad Sinha	JVC/483/09	College Road, Korra, Hazaribagh, pin- 825301, Jharkhand	BVSc&AH/RU/71	07.02.48
929	Jagendra Veram S/o Sh H.C. Verma	UPSVC/4894/09	Vill&PO-Talguan, The-Fatehpur, Dt- Barabanki, U.P	BVSc&AH/JLKVV/06	7.11.79
930	Jagjeewan Lal Saket S/o Shri Jamuna Prasad Saket	MPSVC/2517/08	At Post Dera, The -Mauganj, Dist-Rewa - 486333.M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	27.2.74
931	JAGTAP VIDHYADHAR SADASHIV	MahaSVC/7812/07	A/P-Randullabad, Tal- Karegaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/7/85
932	JAGTAP RAMESH BHANUDAS.	MahaSVC/7745/07	At-Masherwadi, PO/Tal-Daund, Dt-Pune- 413801, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	4/6/83
933	JAGTAP SWAPNIL PANDURANG.	MahaSVC/7782/07	125, Kruptarth, Shahu Ng, Chaitanawadi- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/3/83
934	Jaharisa Dibya Joti S/o Lt. Bihulal Jaharisa	ASM/2386/08	Vill-West Gojalipar, PO&P.S-Howraghat, Dist- Karbi, Anglong, Assam	BVSc&AH/AAU/07	31.1.84
935	Jai Kumar Tiwari S/o Sri Dina Nath Tiwari	JVC/308/08	C/o Sri Dina Nath Tiwari, Moh-Bahiyari (Nagar-untari) Garhwa-822121, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	10.02.78
936	Jai Pal S/o Sh Roshan Lal	HPSVC/825/08	Vill&PO- Karasa (Bahli), The- Rohru, Dist- Shimla, H.P -171207	BVSc&AH/CSKKVV/08	14.7.82
937	Jai Prakash Mahto S/o Late Bhim Mahto	JVC/185/08	C/o Dr. Mahanand Panjiyar, Pakaria, Korkaghat, Pathargama, Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	21.02.59
938	Jai Prakash Narayan S/o Late Bihari Sharan Singh	JVC/529/09	Dr.Jai Parkash Narayan B.A.H.O Nala Pandra, Hehal Ranchi-834005, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	08.09.60
939	Jai Prakash Narayan S/o Late Ramesh Prasad Singh	JVC/341/08	DAHO Sraikela, Sraikela-Kharsawan-833219, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/73	13.01.53
940	Jaibir Prasad Salhaita S/o Late Sh Kameshwar Pd Salhaita	BVC/2771/06	Vill-Bariyarwa, PO-Bhagta, Thane-Bheja, Sub- Div-Jhanjharpur, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	11.11.74
941	Jaiprakash Singh S/o Sh Subash Singh	UPSVC/4780/08	Vill-Kangibagh, PO-Sarrakala, Dt-Baharich, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	10.10.83
942	Jamaluddin S/o Md. Abdul Shakoor	JVC/467/09	Darzi Mohalla Khirgaon, Hazaribagh- 825301, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	01.03.66
943	Jambeswar Pradhan S/o Pitabase Pradhan	OrissaSVC/2240/08	At-Geetagram (Near LP School), PO_PTC Angul, Dist-Angul, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	16.7.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
944	Janardan Prasad S/o Late Yadunandn Prasad	JVC/398/08	Devi Mandap Rd, Sukhdeo Road, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	02.10.48
945	Janet Bhagat S/o Sri M.C. Bhagat	JVC/317/08	C/o Sri M.C. Bhagat, Moh-Khakmatoli, Airport Road, Hinoo, Doranda, Ranchi- 834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	25.10.76
946	JASAIWAL ASHISHKUMAR RADHESHYAM.	MahaSVC/8042/08	C/o Mini General Store, Station Road, Tiroda, Dist. Gondia, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-07-83
947	Jasmi Jamal S/o A. Jamaludeen	KeralaSVC/3384/08	Nedumpoilil House, Naduvilakkara, Thevalakkara PO, Kollam, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.84
948	Jasmine K.F D/o K.K.Francis	KeralaSVC/3458/09	Kannampuzha House, PO- Koonammoochi, Choondal, Thrissur, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.12.83
949	Jaspinder Pal Kaur S/o Sh Shamsher Singh Dhada	HarSVC/2081	# 851, Sector -11, Panchkula, Haryana	BVSc&AH/PAU/02	7.2.78
950	JASUTKAR RAVINDRA KRISHNARAO	MahaSVC/8036/08	Near Old Market Square, Ward No.5, Karanja (Ghadge), Dist. Wardha-442203	BVSc&AH/MAFSU/07	25-11-79
951	Jaswant Singh S/o Late Shrelal Chandra	UPSVC/4815/08	Vill-Bawan, PO-Koiyan, Dt-Kanpur Ng, U., P	BVSc&AH/NDUAT/08	21.12.81
952	Jatinder Kumar Sood	GujSVC/2893/08	CB-1, NDDB, Anand, Gujarat	BVSc&AH/PAU/83	2.3.61
953	Jatinder Bir Singh S/o Sh Harpal Singh	Pb.SVC/2851/08	VPO-Gaggobua, Dt-Pain, Patan-143302, Punjab	BVSc&AH/OUA&T/08	9.5.84
954	Jatinder Singh S/o Sh Satpal Arora	Pb.SVC/2804/08	The Saram Industries Patiala Road, Sunam, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	22.8.83
955	JAIULKAR ASHWINI DIPAK.	MahaSVC/7754/07	Ward No.-10, Main Road, Narkhed, Dt- Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/7/84
956	JAWALE CHETAN VILAS.	MahaSVC/7886/07	A/P-Koiwad, Tal.Yawal, Dist- Jalgon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/7/85
957	Jayachandra Kempashi S/o Hemachandrappa	KarSVC/4173/08	Y.S.Hadagali-582209, Ron Tr-Gadag Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	19.7.85
958	Jayashre Pattar D/o Krishnaji	KarSVC/4195/08	No.2461, Lakshminagar, Nr.Hanuman Temple, Mudalgi-519312, Gokak Tq, Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	27.8.85
959	Jaykrishnan M.J S/o Janaadanan M.R	KeralaSVC/3382/08	Madhuvila House, Kulanada PO, Pathanamthitta-689503, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	29.3.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
960	Jayverdhan Tiwari S/o Sh Mahendra Kumar Tiwari	RajSVC/3528/08	Inside Pabu Bari, Pareek Chowk, Bilaner-334005, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	23.5.81
961	Jebin Nashrin S/o Lt. Farid Ali	ASM/2385/08	C/o Mrs. Nekjan Nessa, Magnus Apartment, Flat No.204(D), Bekola Tinali Guwahati-781028, Assam	BVSc&AH/AAU/08	7.12.85
962	Jeevan O.V S/o Vijayan O.I	KeralaSVC/3459/09	Orayampurath House, Railway Qtrs.No.11 A, Guruvayur-680101, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.4.84
963	Jeneviva Lakara W/o Dr. Arun Kumar Ram	JVC/538/09	Albert Compound, Pathal Kudwa, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	17.12.79
964	Jesna.S D/o P. Sasidharan Pillai	KeralaSVC/3333/08	Chittezhathu House, M.C. Ward NO.IV, Vaikom PO, Kottayam-686141, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	17.1.84
965	Jinu K. Roy S/o K.D.Joy	KeralaSVC/3443/09	Kunnatholil House, Mattoor, Kalady PO, Ernakulam-683574, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.5.83
966	Jitender Kumar S/o Sh Nanak Chand Gijwani	HarSVC/2064	VPO - Talwara Khurd, The - Ellenabad, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	9.2.85
967	Jitendra Chowdhary S/o Sh Suresh Kumar Chowdhary	MPSVC/2535/08	Near Center Point Complex, Trimurti Bhawan, Phool Bag Chouraha, Lashkar, Gwalior, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	24.5.81
968	Jitendra Kr. Singh, S/o Shri Ramjanam Singh	JVC/009/08	Touring Veterinary Officer, Jaintgarh, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/93	18.03.69
969	Jitendra Kumar S/o Sh Ashok Kumar Yadav	Pb.SVC/2854/09	C/o Dr. Ajit Kumar, H..NO.10/49, PAU Campus, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/IGADVASU/09	25.8.83
970	Jitendra Mohan Sharma S/o Sh Jagdishwar Pd Sharama	BVC/2734/06	VII-Panhatoli, PO-Ramna, Thane-Kazi, Mohammadpur, Dt-Muzaffarpur-842002, Bihar	BVSc&AH/RAU/73	15.2.49
971	Jitendra Tiwari S/o Sh R.D.Tiwari	UPSVC/4891/09	Vill-Naiha Nagla PO, Gabhana Dt, Aligarh, U.P	BVSc&AH/JLKVV/03	19.12.78
972	Jivan Kumar S/o Sh Rajendra Prasad Singh	BVC/2880/07	Vill-Ranginiyan, PO-Simri Bakhtiyarpur, Thane-Simri Bakhtiyarpur, Dt-Saharsa-852127, Bihar	BVSc&AH/IGAU/07	21.5.74
973	JOGDAND HARSHA ASHOKRAO.	MahaSVC/7775/07	H.NO.-16, Sneh Ng, Mendhikhana Rd, Ambajogai, Dt-Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	29/3/85
974	JOGLEKAR GAUTAM ARUN.	MahaSVC/8147/09	7, Takshasheel, B.W.Pathare Marg, Dadar, Mumbai-400028, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	15-4-85
975	Johnson Bhengra S/o Late Kumar Bhengra	JVC/242/08	C/o Smt. Salomi Bhengra, Churgi, Manhatu Ambatoli, Torpa, Khunti, Ranchi-835227, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	05.01.76

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
976	Joice P Joseph D/o P.V.Joseph	KeralaSVC/3430/09	Puthenpuraackal,Ajobhavan,Kokkothamangla m PO, Cherthala,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.5.85
977	JONDHALE VIJAY MANOHARRAO.	MahaSVC/7805/07	Vaishali Nagar, Taroda (BK),Dt-Nanded- 431605,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/6/83
978	Joseph Muthiah S/o M.Muthaiahamsy	TNSVC/4119/08	1,Sankarapuram,4th Street, Choolaimeldu Chennai-600094,TamilNadu	BVSc/TNAU/78	16.9.56
979	Josh Kumar S/o Sh Jaskaran Lal	UPSVC/4869/08	Vill-Beladandi,PO-Pania Ramkiswan,The- Bisalpur,Dt-Pilibhit,U.P	BVSc&AH/SVVU/08	4.7.82
980	JOSHI DEVASHRI MAHADEO.	MahaSVC/8093/08	Sidhakala Soc.,39/204,Manisha Nagar,Kalwa,Dist.Thane(W)-400605.	BVSc&AH/MAFSU/07	21-05-85
981	JOSHI VINAY GANESHRAO.	MahaSVC/7767/07	Suyog,Samta-Colony, Majalgaon,Dt- Beed,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	14/10/84
982	Joshi Arvindkumar Tejarambhai	GujSVC/2956/08	At&PO-Zalmor, Ta-Kankrej,Dist -B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	22.8.83
983	Jyoti Kumar S/o Sri Banshidhar Singh	BVC/2910/07	Vill-Ghangai,PO-Thane-Bikramganj,Dt-Rohtas- 802212,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	6.10.81
984	Jyoti Kuril D/o Dr. Bhagirath Pd Kuril	MPSVC/2551/08	H-271,PWD Qtr.Shankar Shah Nagar, Jabalpur-482002,M>P	BVSc&AH/JNKVV/08	19.6.83
985	Jyotindra Narayan S/o Sri Parmanand Singh	JVC/313/08	TVO Barapalasi, Dist-Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/03	02.01.76
986	Jyotindra Prasad Srivastava S/o Late Harihar Pd.Srivastava	JVC/357/08	1A Provat Tower, 71 Circular Road, Ialpur, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BU/60	03.06.39
987	K.Ajay Kumar S/o K.Bhikshapathi	APSVC/4755/08	11-25-553,Kothawada Street,Autonagar Rd, Warangal-506012,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	25.1.81
988	K.Arul Prasad S/o N.Krishnanagamony	TNSVC/4164/08	68,Opp to Ramji Oil Mill,Kottar PO,Nagercoil- 2,K.K.Dist,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.5.84
989	K.Elavarasan S/o N. Krishnamoorthy	TNSVC/4320/08	8/119-D,Bharathi Ng,West Kalingrayapalayam,Bhavani,Erode- 63301,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.11.85
990	K.Gobi S/o R. Kandasamy	TNSVC/4313/08	65/20,Dasa Street,Rasipuram,Namakka- 637408,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/00	15.7.76
991	K.Hemalatha D/o K.Nanjundappa	APSVC/4715/08	Garavanahalli, S.R.Palli (P), Parigi (M), Hindupur,Anantapur (Dt),A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.3.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
992	K.Jayakanth S/o K.Sambasiva Rao	AP SVC/4693/08	Pallapadu (P), Etukuru (Via), Guntur Dt - 522017, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	7.7.84
993	K.Jayanthi S/o J.Krishnamoorthy	TNSVC/4158/08	1/10, Reddipatti Rettipatti PO- Namakkal, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.4.85
994	K.Kalpana S/o AR Manevanna	TNSVC/4131/08	32-H, Ellamman Koil Street, Besant Ng, Chennai-600020	BVSc/TANUVAS/94	20.5.71
995	K.Kalpath S/o A.Kasim	TNSVC/4136/08	6, Jinna Street, Kayathar, Tuticorin- 628952, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/95	10.5.70
996	K.Karthik S/o M.Kumarasamy	TNSVC/4268/08	Divya Textiles, Thanneerpandal, N.N.Patti, PO- Vellakovil, Erode-638111, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	24.7.85
997	K.Karthikayan S/o V.Anguraj	TNSVC/4299/08	P.No.24, Mullai Ng Extension, Salem Junctin, Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.6.86
998	K.Karunakarna S/o R. Kesavan	TNSVC/4085/08	Kamala Ganapathy illam, 6/409, Maruthi Ng, Trichy Rd, Namakkal-637001, Tamil Nadu	BVSc/TNAN/88	1.1.62
999	K.Kasturi Devi D/o K.Narayana Swamy	AP SVC/4702/08	C/o K.Jaya Lakshmi, D.NO.13-7-946/E6, 1st Floor, Vivekananda St., Korlagunta, Tirupati, Chittoor Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	27.5.85
1000	K.Kavitha S/o M.Kumarasamy	TNSVC/4203/08	Nanjamadaikuttai, Michaelpalayam PO, Anthiyur Via, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.2.85
1001	K.Kranthi Kumar S/o K.Lakshmi Narayana	AP SVC/4749/08	H.No.11-6-169/9, Ambedkar Ng, Mekalabanda Park, Khammam, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	11.7.84
1002	K.Kumara Swamy S/o K.Sailu	AP SVC/4766/08	H.No.0-2-281, Veerlapaly(OCP-III)(V), Godavarkhani, Ramagundam(M), Karimangar Dt	BVSc&AH/SVVU/08	15.8.85
1003	K.Malaisamy S/o K.M.Kalianna Gounder	TNSVC/4360/08	19/1, Periyar Ng, Burgur Road, Anthiyur, Erode, Tamilnadu	BVSc/MU/70	11.1.45
1004	K.Mohamed Abdul Azeez S/o M.U.S.Kader Mohideen	TNSVC/4384/09	26, Sungam Street, Cumbam, PO-Theni, Dt- 625516, Tamilnadu	BVSc/MU/72	1.1.46
1005	K.Murali S/o R.Kannan	TNSVC/4278/08	117, West Street, Kozhuthampatty via & PO Thanampattu taluk, Tiruvannamalai, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.7.85
1006	K.Murugan S/o Krishattappa Reddy, M	TNSVC/4352/08	147, Bajanaikoil Street, Edyanthangai Vill, Cheir, PO-Walajapet taluk, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.6.83
1007	K.Murugarasu S/o M.Krishnamoorthy	TNSVC/4174/08	Dr. Ambethkar Ng, Arasarkulam PO, Aranthangi Taluk, Pudukottai, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	19.6.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1008	K.N.V.Durga Rao S/o K.Satyanarayana	APSVC/4776/08	C/o K.Satyanarayana, Taxi Driver, Taxi Stand, Opp-Vinayaka Temple, Yeleswaram, E.G Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	29.3.85
1009	K.Nachimuthu S/o Kandappa Gounder	TNSVC/4401/09	NO.4,Dhamodara Street, Panchavadi, Chetpet, Chennai	BVSc/MU/68	15.7.45
1010	K.Nailasamy S/o S.Karuppusamy	TNSVC/4212/08	51, Mariyappa Nagar, Engoor Road, Chennimalai, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.9.84
1011	K.Narayanasamy S/o K.Kaliyappan	TNSVC/4188/08	108, Koothadiyur, A-Sembulichampalayam, PO- Anthiyur Via-Bhavani, Taluk, Erode- 638501, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.5.84
1012	K.P.Sennigir S/o K.S.Ponnusamy	TNSVC/4236/08	Kothukarar Thottam, Karuvalvadi Pudur, Athanic, PO-Bhavani Taluk, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.4.85
1013	K.P.Sreeji D/o Parameshwaran	KeralaSVC/3355/08	Kailas Bhavan, Kulathummal, Thoongampara, Kattakk ada PO, TVM-695572, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.84
1014	K.Parameshwara Rao S/o K.Anjaneyulu	APSVC/4676/08	Janapadu (P), Piduguralla (M), Guntur (Dt) - 522413, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	19.6.84
1015	K.Plavan Majunder S/o K.Saraiah	APSVC/4783/08	H.NO.9-67, New Harijan Street, Huzurabad, Karimng-505468, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	27.12.84
1016	K.Rajbabu S/o S Kandasamy	TNSVC/4185/08	Samythevanpatti, Elayirampennai PO, Sattur Taluk, Virudhunagar, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.82
1017	K.Rajesh Kumar S/o P.Krishnamoorthy	TNSVC/4355/08	Nattankuttai Thottam, Nampalayam PO, Mutur Via, Erodea, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.2.86
1018	K.Ramesh Babu S/o K.V.Subba Rao	APSVC/4712/08	Pendillapalli(P), Vetapalem(M), Prakasam Dt- 523184, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.6.84
1019	K.Sai Gunaranjan S/o K. Guru Murthy	APSVC/4811/08	D.NO.21-223, Yadava Street, Dharmavaram, Anantapur-505671, A.P	BVSc&AH/OUAT/08	1.09.84
1020	K.Sandeep Sukumar S/o K.Dhanya Raj	APSVC/4809/08	D.NO.11-2-4, Manasa Royal Mansion(FFI), Ramao Pet, Kakinada East Godavari, A.P	BVSc&AH/OUAT/08	3.03.84
1021	K.Sangeetha S/o P.Saravamaram	TNSVC/4413/09	NO.14(Old No 26), Kamarajar Salai, Eldams Rd, Teynampet, Chennai	BVSc&AH/PU/02	3.2.80
1022	K.Saravanakumar S/o K.P.Kaliannan	TNSVC/4204/08	46, Hospital Road, Kavindapadi Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	8.12.84
1023	K.Sekhar S/o K Narayana	APSVC/4716/08	Pesarvai (V), Nandyai(Tq), Kurnool Dt - 518513, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.7.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1024	K.Sireesha D/o K.Ajaya Kumar	AP SVC/4699/08	C/o K.Anil Kumar, Rentapalla, Sattena Palli, Guntur Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	14.3.84
1025	K.Sivasagar Reddy S/o K.Thirumala Reddy	AP SVC/4730/08	Kundanakota (V), Chintalayapalli (P), Yadiki (M), Anantapur Dt -515408, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	24.8.84
1026	K.Sreekanth Reddy S/o K.Brahma Reddy	AP SVC/4683/08	Machavaram (V), Kanigiri (M), Prakasam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.6.83
1027	K.Sridevi S/o S. Kothandam	TNSVC/4292/08	Naidu Street, R.K.Pet Post, V.Pudur, Thiruvallore, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.3.84
1028	K.Sudhakara Reddy S/o K.Chinna Konda Reddy	AP SVC/4678/08	D.No.19/96, Tekkaichenu St., Jammalamadugu (V&M), Kadapa-516434, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	15.6.84
1029	K.Sumalatha D/o K.Sudhakar Rao	AP SVC/4720/08	H.No.3-4-19, Bhudhivari Street, Kovvur, Nellore Dt-524137, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.6.83
1030	K.Thiru Murugan S/o S.Kannan	TNSVC/4116/08	2/49, Mariammam Koil Street, Kottakkarai Ambethkar Ng, Irumbai PO, Vanur Taluk, Villupuram, TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	16.9.81
1031	K.Thirumozhiraja S/o N.Kondusamy	TNSVC/4414/09	Solaipatty Po, Madurai Dt-625708, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/91	15.6.68
1032	K.V.Murali S/o V.Chappan	KeralaSVC/3314/08	Kammadan Veetil, New Street, Chettipadi PO, Malappuram-676319, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	31.5.70
1033	K.V.Sandhya Rani D/o K.Venkateswara Reddy	AP SVC/4779/08	Nr.New Sub-Court, Padlii Rd, Darsi, Prakasam Dt-523247, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.4.84
1034	K.Veera Reddy S/o K.Ram Narsi Reddy	AP SVC/4762/08	Choutapally (P), Mattampally (M), Nalgonda Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	13.5.84
1035	K.Vijay S/o K.Balaswamy	AP SVC/4803/08	H.NO.-14-83, Srinagar Colony, Huzurnagar-508204, A.P	BVSc&AH/ANGRAU/05	18.3.81
1036	K.Vishvanathan S/o R.Krishnan	TNSVC/4240/08	Mangalam Po, Yelagiri Hills, Vellore-635853, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.85
1037	K.Viyayakaran S/o K.Karunakaran	TNSVC/4249/08	Middle Street, Vittukkatti PO, Thiruthuraiipoondi taluk, Thiruvarur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.6.86
1038	KADAM KRANTI DILIP	MahaSVC/7866/07	D-24, Rukmini Vihar, Mangalwr, Peth Karad, Dt-Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/6/84
1039	KADAM VASUDHA BALASAHEB	MahaSVC/7994/08	Yeshodeep Building, Near J. K. Classes. Mahadeonagar, Islampur. Tal. Walawa. Dist. Sangli.-415409	BVSc&AH/MAFSU/08	15-08-85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1040	KADOO RANU RATNAKAR	MahaSVC/8011/08	Ashutosh-13,Vyankatesh Nagar. Khamla- Road. Nagpur. 440025	BVSc&AH/MAFSU/08	22-08-86
1041	KADUKAR REENA HARIKISANJI.	MahaSVC/8008/08	Mahatma Gandhi Nagar,Behind T.V.Centre,Seminary Hills,Nagpur-440006.	BVSc&AH/MAFSU/08	07-07-84
1042	Kag Bhagvanbhai Gamanaji	GujSVC/2957/08	At-Dedudi, Po-Morthal, Ta- Tharad, Dt- B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	1.6.82
1043	Kakati Jintu S/o Mr. Kumud Kakati	ASM/2403/08	Vill-Kalyanpr,PO- Padmapur, Dist-Lakhimpur- 784167, Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.02.84
1044	KALE ASARAM KERNATH.	MahaSVC/8000/08	C/o.Rasal P.B.Swarajya Nagar, Balbhim Colony,Tal.Dt.Beed,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-08-82
1045	KALE MEENA MADHUKAR	MahaSVC/7985/08	At-Tamshi,Post- Batawadi,Tal.Balapur,Maharashtra Dist.Akola-444302.	BVSc&AH/MAFSU/08	30-7-84
1046	KALE SNEHA AVINASH.	MahaSVC/8073/08	Swapnil Apartment,Flat No.6,Near S.T.Stand,A/P/T/Dist.Sangli.	BVSc&AH/MAFSU/08	27-01-86
1047	KALE JAYSING SAVALERAM	MahaSVC/7828/07	At-Padali (Goregaon) Po-Hivare Korde,Ta- Parner,Dt-Ahmednagar,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/5/84
1048	KALE VISHNU RAMKRISHNA	MahaSVC/7946/08	At-Chate Pimpalgaon, Post-Babhulgaon, Tal- Pathri,Dt-Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	05/11/84
1049	Kalita Chandana S/o Sri Lankeswar Kalita	ASM/2384/08	Vill-Nagaon,PO-Baihata Chariali(College Road),Dist-Kamrup -781381,Assam	BVSc&AH/AAU/08	15.5.85
1050	Kalpna Duby S/o Sh Satyakiran Dubey	CGSVC/388/08	New Sarkandha; Bengali Gali NO,4, Vilaspur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	28.6.81
1051	Kamal Kant Bansal S/o Sh Om Prakash Bansal	MPSVC/2558/08	Bajrang Marg,Kelaras,Dist-Morena- 476224,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	8.10.85
1052	Kamal Kant Yadav S/o Shri Komal Singh Yadav	UVC/378/08	4/2, Chaw Mandi Roorkee Dist- Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPJA&T/08	6.12.84
1053	Kamal Kishore S/o Sh Ram Chandra Sindhi	HarSVC/2006	G.V.H. Kaiod Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RAU/05	26.10.79
1054	Kamalpreet Kaur Gill D/o Sh Kuiwant	Pb.SVC/2819/08	VPO- Dhamot, , The-Payal,Distt- Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	27.7.84
1055	Kamarjaha S/o Abu Ahmed Kha	CGSVC/428/08	Nr Mission Gate,Tumgaon Road, Mahasamundar,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/84-85	26.6.60

1056	KAMBLE AJAY BALU.	MahaSVC/7788/07	Umashanagr Apartment, Room No-3, 1st Floor, Prabhauli, R.G. Gadkari, Rd, Panvel, Dt- Rajgad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	13/3/85
1057	KAMBLE NUTANKUMAR BHAGAWAT.	MahaSVC/7755/07	At-Warud, Post- Ulup, Tal-Bhoom, Dt- Osmanabad-413504, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/1/82
1058	KAMBLE SONALI HARIDAS	MahaSVC/8007/08	Plot No.105, Chandramani Nagar, (Navekar), Post-Parvati Nagar, Nagpur-440027.	BVSc&AH/MAFSU/08	24-02-84
1059	KAMBLE NITIN MACHINDRA	MahaSVC/8117/08	Near New English School, Guruwarpeth,, Maharashtra Ambajogai. Dist-Beed-431517	BVSc&AH/MAFSU/08	16-06-85
1060	KAMBLE NUTANKUMAR BHAGAWAT.	MahaSVC/8119/08	At- Warud, Tal. Bhoom, Dist. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	03/01/82
1061	Kameshwar Pd. Singh S/o Late Ramdeo Singh	JVC/216/08	S.A.H.O; Koderma, Koderma, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	31.03.52
1062	Kameshwar Sharma S/o Late Ram Naresh Singh	JVC/553/09	TVO Pachamba, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	15.12.60
1063	Kamla Kant Singh S/o Late Harihar Pd. Singh	JVC/350/08	Vt. Surgeon, Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	09.08.52
1064	Kamlesh Kumar S/o Sh Jaiprakash Yadav	BVC/2802/06	Vill-Godiyari, PO-Brahampur, Thane-Phulparash, Sub-Div-Phulparash, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	1.2.82
1065	Kamlesh Kumar S/o Sri Nawal Kishore Prasad	JVC/502/09	Booty (Newri Vikash), Ranchi-835217, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	02.06.74
1066	Kamlesh Prasad S/o Harihar Prasad	JVC/233/08	T.V.O. Karma, Jhumritilaiya, Koderma, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	26.04.63
1067	Kamlesh Singh, S/o Shri Vijay Narayan Singh	JVC/106/08	Block Ani. Hus Offier, Bengabad, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/91	01.01.64
1068	Kanhaiya Lal Mehra S/o Sri Ramkeshwar Ram	JVC/452/09	D.A.H.O, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	15.06.53
1069	KANOJ NITIN PANDURANG	MahaSVC/8115/08	A/P-Dalvat, Tal-Kalwan, Dist-Nashik-423502,, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	06-08-84
1070	Kanwar Saoo Singh S/o Sh Kulwant Singh	Pb.SVC/2849/08	B-1152, New Partap Nagar, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/OUA&T/08	29.6.84
1071	Kapadiya Falgun Maheshkumar	GujSVC/2958/08	14-Tulsipark Socity, B/H New Market Yard, Chansma Road, Patan, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	12.4.85

SNO	NAME	NUMBER	ADDRESS	QUALIFICATION	
1072	Kapil Deo Prasad S/o Late Govind Prasad	JVC/361/08	Arsandey, Adarshpuri, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RU/70	03.03.46
1073	Kapil Nehra S/o Sh Rajendra Singh	RajSVC/3586/09	V/P Kithana,The-Chirawa, Jhunjhunu,Rajasthan	BVSc&AH/KAU/09	7.1.84
1074	Kapil Prasad SinghS/o Sri.Suresh Prasad Singh	JVC/326/08	B.A.H.O. Mohanpur, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	03.03.64
1075	Kapra Mandi S/o Brihat Chandra Mandi	JVC/222/08	Larkabasa, Balijuri, Gurabanda, Bahragora, Ghatshila, East Singhbhum 832302, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	13.01.81
1076	KARADKAR BARASAHEB TULSIRAM	MahaSVC/7846/07	At-Agewadi, Post-Waghebabhaigaon,Tal- Kajj,Dt-Beed-431123,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	15/10/83
1077	KARANDIKAR HRUSHIKESH RANJIT.	MahaSVC/7707/07	16, Pranjali Building, Gashala Road,Muland,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/7/84
1078	KARHALE SONIYA ANKUSH.	MahaSVC/8027/08	"Masli Krupa",Opp.To.Civil Hospital,Subhash Road,Parbhani,Maharashtra Tal Parbhani,Dist.Parbhani.	BVSc&AH/MAFSU/08	04-10-84
1079	Karikkathil Smita Sivadasan D/o Sivadasan	KeralaSVC/3389/08	"S. Smita",Mylode PO,Pooyappally Kollam- 691537,Kerala	BVSc&AH/MAFSU/05	27.10.82
1080	KARLE ARVIND SHEVAJI	MahaSVC/7915/07	Near Sadatpur Road, Loni Kd,Tal-Rahata,Dt- Ahmednagar,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	14/7/84
1081	KARLE ANSHUMAN SITARAM.	MahaSVC/7981/08	Pl.No.72,Janta Park-1 ,Navapur,Tal.Navapur,Maharashtra Dist.Nandurbar.-425418	BVSc&AH/MAFSU/08	31-12-84
1082	KARLE SHRINIVAS DATTARAO	MahaSVC/7951/08	At-Dastapur, Post-Pingali, Tal.Purna,Dist.Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	12-7-84
1083	Karnam Shivshankar S/o Sh K.N.Swami	CGSVC/401/08	Vill&PO-Madhdehad The- Bhopalpatnam,Dentwada,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	14.6.80
1084	Kartik Kumar Purve S/o Sh Gopal Purve	BVC/2925/08	Vill&PO-Rajni Babhangama,Thane- Bihariganj.Sub-Div-Udakishunganj,Dt- Medhepura-852101,Bihar	BVSc&AH/CSKKVV/07	15.1.79
1085	Karun Kaniyamattam S/o K.A Augustine	KeralaSVC/3442/09	TC 25/741 A,Kaniyamattam House,Ullas Ng,Anchery(PO),Thrissur-680006,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	9.8.85
1086	Karuna Kumari D/o Sh Rajendra Tiwari	BVC/2762/06	Vill-Etimha Ganesh,PO-Leheri Tiwari Dih,Thane-Piro,Sub-Div-Dt-Bhojpur,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	22.11.76
1087	Kashi Nath S/o Sh Kapil Muni Rai	BVC/2741/06	Vill-Riwan,PO-Akhityarpur,Thane- Kargahar,Sub-Div-Sasaram,Dt-Rohtas,Bihar	BVSc&AH/IGKVV/06	11.2.77

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1088	Kashyap Bijayeta S/o Dr. Satyendra Kumar Puzari	ASM/2369/08	Borada Phukan Road, Malow Ali, Nr Statistical Office, Jorhat, Assam	BVSc&AH/AAU/07	11.6.84
1089	KASRALIKAR DHAMMARAXIT LAXMANRAO	MahaSVC/7934/08	A/P-Kasrati, Tal.-Biloli, Dt-Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	20/11/81
1090	KATKAR SHILPA MADHAV.	MahaSVC/8058/08	165, Mangalwarpeth, Bore, Maharashtra Dist. Pune-412206	BVSc&AH/MAFSU/08	18-05-86
1091	KATWATE SHARAD RAMCHANDRA.	MahaSVC/7879/07	Chintamani Niwas, Mundhe Rd, Mundhe, Tal-Karad, Dt-Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/10/84
1092	Kaushal Kumar S/o Sh Rajesh Kumar	BVC/2940/08	Vill-Daulatpur, PO-Khanpur Maal, Thane-Sultanganj, Dt-Bhagalpur-813213, Bihar	BVSc&AH/SKUA&T/07	3.2.82
1093	Kaushal Pd Patel S/o Kitirat Ram Ratra	CGSVC/347/07	28/1, Block Colony, Sargarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/82-83	1.5.58
1094	Kaushlesh Ranjan S/o Nand Kishore Prasad	BVC/2964/08	Vill-Kurhari, PO-Shakurabadh, Thane-Ratni Faridpur, Dt-Jehanabad-804425, Bihar	BVSc&AH/SVVU/07	20.10.82
1095	Kavindra Nath Singh S/o Sri Shyam Narayan Singh	JVC/286/08	Kavindra Nath Singh, BAHU, Chuoparan, Barhi, Bazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/CSAA&T/90	17.12.66
1096	Kavita Chouhan D/o Sh Ramesh Chand Chouhan	RajSVC/3487/08	H.No. 178/33, Anand Pura, Topdara, Ajmer-305001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	5.6.82
1097	Kavita Rani D/o Shri R.P.Arya	UVC/399/08	Nawavi Road, Haldwani, Dist-Naintal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	27.5.83
1098	Kavita Rawat D/o Shri Ram Singh	MPSVC/2540/08	B-140, H.B. Jawahar Nagar, Mhow Indore-453441, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	14.6.82
1099	Kavitha K D/o Sri Krishnappa T.R	KarSVC/4176/08	Nr Manjushree Convent Vidyanagar, Sira-572137, Sira Tq, Tumkur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	18.2.86
1100	KAYANDE PARMESHWAR BADRINATH.	MahaSVC/8032/08	"Jagdamb Niwas", Ram Nagar, Near Sai Krupa Kirana, Ward No. 15, Tal. Dist. Buldana-443001	BVSc&AH/MAFSU/08	17-7-84
1101	Kayande Parmeshwar Badrinath S/o Badrinath Kayande	RajSVC/3556/08	3-Shumbham Complex, Hiran Magri, Sec-4, Udaipur, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	17.7.84
1102	Kedar Prasad Singh, S/o Late Shri Ramesh Pd. Singh	JVC/022/08	Dy. Director (Piggery Dev.) Animal Husbandry, Deptt. Jharkhand	BVSc&AH/MU/69	03.02.48
1103	KENDRE JAISHREE PANDHARINATH.	MahaSVC/8039/08	3, "Shreenivas", Main Road, Nanded-431605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	7-7-84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1104	Kesavadas V.P. S/o V.P. Suresh	KeralaSVC/3405/09	"Veena" Nr NSs High School, Kalpetta, Wayanad-673121, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.9.80
1105	KHADE ASMITA SATYANAND.	MahaSVC/7881/07	73, Khade House, Kalyan, Bhiwandi Rd, Rayroli, Tah-Bhiwandi, Dt-Thane- 421302, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/5/81
1106	KHADE KRISHNADEO ANKUSH.	MahaSVC/7918/07	At-Pehe, Post-Shevate, Tal-Pandharpur, Dt- Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/6/82
1107	KHADE NITIN BABAN.	MahaSVC/7969/08	C/o-Khade Baban Ramchandra, At- Palashi, Maharashtra Tal.Man(Dahiwadi), Dist.Satara-415508	BVSc&AH/MAFSU/08	28-2-85
1108	KHADE PRASAD SADASHIV.	MahaSVC/8010/08	'Shyamdutt' Nivas, At.Sawarwadi, Maharashtra Post-KasabaBeed, Tal.Karveer, Dist.Kolhapur-416001	BVSc&AH/MAFSU/08	16-04-85
1109	KHADIWALE MAYADEVI SHIVAJIRAO	MahaSVC/7861/07	Sugandhadeep, Bhagya Nagar, Shethal Rd, Udgir, Dt-Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	31/12/83
1110	KHADKE AMIT ARUNRAO.	MahaSVC/7961/08	'Vedant', C.o.B.S.Pardesi, Nr Barsi Thakur's House, Tal Dt.Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	22-05-85
1111	Khaja Mohteshauddin S/o Khaja Moinuddin	KarSVC/4153/08	3-1-52/1, Tamshkari Lane, Pausaltaleem, Bidar- 585401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.1.86
1112	Khalid Ahmed S/o M.Abdul Khudush	KarSVC/4197/08	No.3, 100 ft, Ring Road, BTM Ist Stage, 1st Phase, B'lore-560068, Karnataka	BVSc/UAS B'lore/71	4.5.46
1113	KHAN GAUSMUHAMMED JANMUHAMMED	MahaSVC/7945/08	C/O J.D. Pathan, Pensionpura, Ambajogai. Dist-Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	23/05/79
1114	KHANDAGALE PRAVINKUMAR MADHUKAR	MahaSVC/7835/07	Panchratan Niwas Sangewadi, Tal- Sangola, Dt-Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/5/84
1115	KHANDAGALE RAHUL MAHADEV.	MahaSVC/7914/07	G-80, Sharad Colony, M.P.K.V., Rahturi, Dt- Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/6/85
1116	KHANDAGALE VAIBHAV MADHUKAR.	MahaSVC/8149/09	A/P-Samarth Nagar, Behind Police Station, Bhoom, Tal.Bhoom, Dt.Osmanabad- 413504, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-9-85
1117	KHANGAL PRAKASH SHAMRAO.	MahaSVC/7759/07	Khangal Buldg, 1501(B), Datta Mandir Rd, Manmad, Tal-Nandgaon, Dt- Nasik, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	21/9/84
1118	Khangembam Bijubala Devi S/o Late Khangebam Gopal Singh	JVC/234/08	J.R.O., I.A.H.P., Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	01.02.71
1119	KHARE KIRAN SOMLAL.	MahaSVC/8139/09	B/43, Shantidoot, Near Nirmalbaug Sabhagriha, Parvati, Pune-411009.	BVSc&AH/KKVP/81	30-10-54

SNO	NAME	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1120	KHARGE MAHADEV AMBADAS.	MahaSVC/8083/08 Bhakti House, Flat No. 7-A, Dalvinagar, Chinchwad, Tal. Haveli, Dist. Pune-411033.	BVSc&AH/MAFSU/08	15/05/86
1121	KHOSE ASHISHKUMAR SUDAMRAO	MahaSVC/7844/07 1724, Nikhil Kunj, Mahatma Phute Rd, Bhoom, Dt-Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/1/83
1122	KHOSE KAVITA ASHOK.	MahaSVC/8072/08 Padali-darya, Tal. Parner, Dist. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	13-05-86
1123	Khuman L. Sanathoi, S/o Mr. L.T.K.Singh	ASM/2392/08 Ramanagar Berakhal, PO-Tarapur Khelma, Silchar-788003, Assam	BVSc&AH/AAU/08	11.12.85
1124	KHUTALE SANTOSH NARAYAN	MahaSVC/7976/08 At-Jirewadi, Jalna Road, Tal. Dist. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	6-7-83
1125	Kinkar Kumar Mahto S/o Sri Badal Chandra Mahto	JVC/535/09 Lota Bandhdih, Silli, Ranchi-835102, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	05.01.66
1126	Kiran M S/o Mohan M	KarSVC/4157/08 GSF Choudasabdra, Melur- 562102, Shidlaghatta Tq, Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	24.7.85
1127	Kirana Sasidharan D/o Sasidharan Govindan	KeralaSVC/3406/09 "VIPANCHIKA", Murukkumpuzha PO, Thiruvananthapuram-695302, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.5.83
1128	Kirti Dhurve D/o Shri K.S.Dhurve	MPSVC/2562/08 Kanha Tiger Reserve, Post-Mandla, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	18.10.83
1129	Kishore Kundan Azad S/o Sh Krishna Prasad	BVC/2827/06 Vill-Mojphara, PO-Berdih, Thane- Ishlampur, Sub-Div-Hilsa, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	23.2.80
1130	Kishore Hansdak S/o Sri Lal Hansdak	JVC/579/09 Bokra Bandh, Darmru Hat, Sunder Pahari, Godda, Pin-814153, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	12.01.73
1131	Kishore Kumar Bhutani S/o Sh G.S Bhutani	UVC/370/08 C/o M/s Ghanshyam General Store, Lakhampur, Ramnagar, Dt- Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/08	24.1.85
1132	Kishore Kumar Kunal S/o Sh Surendra Prasad	BVC/2941/08 Vill-Sahpur Diyara, PO-Paleza, Thane- Sonepur, Dt-Saran Chhapra-844101, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	1.3.80
1133	KOKARE RAJU ANANDRAO	MahaSVC/7825/07 Plot No.61, Saptagiri Colony, Taroda (BK), Tal- Dt-Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/9/84
1134	KOKATE LAXMIKANT SAMBHAJI.	MahaSVC/7855/07 Sumedhnagar, Purna Road, Taroda, Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	3/3/84
1135	KOLEKAR MAHENDRA APPARAO	MahaSVC/8023/08 Hagre Plot, Kranti Singha Nagar, Barshi, Dist, Maharashtra Solapur.413413	BVSc&AH/MAFSU/08	01-07-86

SNO.	NAME	RAJUM.	ADDRESS		CCB
1136	KOTHULE VIREN RAMLAL.	MahaSVC/8129/09	Sudarshan Complex, Flat No.1, Bhushan Nagar, Rani Laxmibai Chowk, Kedgaon, Tal. Dist. Ahmednagar-414005.	BVSc&AH/MAFSU/08	21-5-85
1137	Kranti Kumar Suman S/o Sh Arjun Pd Singh	BVC/2958/08	Vill-Mahima Chak, PO-Khartua, Thane-Harnaut, Biharsharief, Dt-Nalanda-803110, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	1.9.75
1138	Krishan Kumar S/o Sheo Narayan Yadav	BVC/2844/07	Vill-Tenuyahi, PO-Kumarkhath, Thane-Ladaniya, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	15.2.80
1139	Krishna Chandra Sahoo S/o Sh Kartika Ch Sahoo	OrissaSVC/2237/08	Mangalabeg, Tripathy Lane, Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	5.1.82
1140	Krishna Kant Prasad S/o Sh Manikat Prasad	BVC/2869/07	Vill&PO-Chandi, Thane-Chandi, Sub-Dub-Hilsa, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	1.6.75
1141	Krishna Kant Singh S/o Sh Singheswar Pd Singh	BVC/2886/07	Vill-Harwa, PO-Chandpur, Thane-Jagdishpur, Dt-Bhagaipur-813105, Bihar	BVSc&AH/AAU/06	5.9.81
1142	Krishna Kant Tiwary S/o Mr. Srikant Tiwary	JVC/302/08	Moh-Qr. No.-B/1627/II, Sec-II, Site-4, Host-Dhurwa, Jagnathpur, Ranchi-834004, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	14.06.74
1143	Krishna Kumar Bhagat S/o Late Harinandan Prasad Bhagat	JVC/527/09	Dr. Krishna Kumar Bhagat S.A.H.O Deoghar Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	05.08.50
1144	Krishna Kumar S/o Sh R.S.Aherwar	UPSVC/4855/08	Katra Mallawan, Dt-Hardoi, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	24.12.82
1145	Krishna Kumar S/o Shri R.S.Ahirwar	MPSVC/2590/09	D-5, C.I.A.E Colony, Nabi Bagh, Bhopal-462038, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	24.12.82
1146	Krishna Kumar Singh S/o Sri Rang Bahadur Singh	JVC/423/08	Touring Vety Officer, Bhandaria, Garhwa, Jharkhand	BVSc&AH/JNKVV/04	21.04.74
1147	Krishna Prasad Verma, S/o Late Ramjeevan Mahto	JVC/036/08	Sub Divinsional A.H Officer, Chatra, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	01.12.51
1148	Krishnaraj. R S/o S. Radhakrishnan	KeralaSVC/3319/08	Sankarabhavanam, Nanglarkulangara PO, Haripad, Alappuzha-690513, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	22.6.83
1149	Krishna Choudhary S/o.Late Gajo Choudhary	JVC/343/08 JVC/343	DAH0, Lohardaga, Lohardaga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/81	13.03.55
1150	Kshama L.M D/o Mahadevashasthy L.M	KarSVC/4116/08	Sachethana, 6th Cross, Ashwathnagar, Savalanga Rd, Shimoga-577201, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	18.4.86
1151	KSHIRSAGAR ROHINI DASHARATH.	MahaSVC/7970/08	At-Lonand, (Belacha Mala.), Post-Mariaaichiwadi, Tal.Khandala, Dist.Satara-415521.	BVSc&AH/MAFSU/07	15-8-84

SNO	NAME	POST	ADDRESS	MARKS	DATE
1152	KSHIRSAGAR DEEPALI DATATRA	MahaSVC/7783/07	3590,Raut Galli,Barshi Dt-Solapur- 413401,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/10/84
1153	Kshitij Srivastava S/o Sh Gajendra Kr Srivastava	UVC/395/08	H.NO.1709/VI TA Colony, U.S.Nagar, Uttarakhan	BVSc&AH/GBPUA&T/08	18.6.85
1154	Ku. Shruti Chabba D/o Sh Vijay Kumar Chabha	Pb.SVC/2855/09	VPO- Santokhgarh, Distt-Una,Punjab	BVSc&AH/IGKVV/09	30.5.83
1155	Kuleep Singh Gautam S/o Sh G.P.Gautam	UPSVC/4809/08	H.No.-18,Golaghat Cantt,Kanpur Ng,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	15.9.81
1156	KULKARNI NARESH RAVIKIRANRAO	MahaSVC/7868/07	1525,Chintamani Bellur Road,Dharmabad,Dt- Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/6/84
1157	KULKARNI RAM CHANDRAKANT.	MahaSVC/7898/07	Ram Niwas, Behind Z.P.H.S,Kuntur,Tal- Nalgaon,Dt-Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/10/84
1158	KULKARNI SHITAL VIVEK.	MahaSVC/8144/09	607/B-2,Chadda Crescent Sector-17.Vashi ,New Mumbai-400703,,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	27-2-79
1159	Kumar Anant Sagar S/o Sh. Arbind Kumar	JVC/261/08	TVO Kathikund, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/IGKVV/03	01.03.78
1160	Kumar Kaushal S/o Sh Subash Chand Jain	UPSVC/4812/08	Moh-Bhatwara,Sardhana,Dt-Meerut,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	17.9.83
1161	Kumar S.C.S/o Sri Channabasappa S.K	KarSVC/4161/08	B.Durga-577518,Holakere Tq, Chitradurga Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	26.5.86
1162	Kumar Subodh Ranajn S/o Sh Badri Pd Azad	BVC/2916/08	Vill-Hirdan Bigha,PO-Telmar,Thane- Harnaut,Dt-Nalanda-803204,Bihar	BVSc&AH/CSAUA&T/07	15.2.83
1163	Kumar Subodh Ranjan S/o Shri Badri Prasad Azad	UVC/415/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital ,Kamand Tehri Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/07	15.2.83
1164	Kumar Sudhir Sinha S/o Sh Kanhai Prasad	BVC/2961/08	Vill-Sheikhali,PO-Beshwak,Thane- Ishlampur,Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/5VVU/07	3.2.77
1165	Kumar Vishai S/o Sh Narsingh Mahto	BVC/2797/06	Vill-Chauki,PO+Thane-Sahebpur,Kamal Sub- Div-Balia,Dt-Begusarai,Bihar	BVSc&AH/WBUFSU/05	5.2.83
1166	Kumari Pinik D/o Sh Umesh Chandra Mandal	BVC/2757/06	Vill+PO-Barari,Thane-Ganga Bridge,Sub-Div- Bhagalpur,Dt-Bhagalpur,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	2.1.79
1167	Kumari Sangeeta D/o Dr. Shyam Sunder Baitha	JVC/431/08	Purna Sukh Bazar,Lohardaga- 835302,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	16.12.80

SNO	NAME	BNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1168	KUMBHAR GANESH BHAGVAN.	MahaSVC/7921/08	C/o- Shri Bhagvan Govind Kumbhar, Nr Malogi Raje Sheti Vidyalyaya, Phaltan, Dt- Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	19/3/84
1169	KUMBHAR GUNAJI BALKRISHNA.	MahaSVC/8018/08	Ukhalwes, Ganeshpar, A/P-Parli Vaidnath, Tal. Parli, Dist. Beed.-431515	BVSc&AH/MAFSU/08	08-06-85
1170	Kumpawat Arunsinh Madansinh	GujSVC/2907/08	604, Adarshnagar, Sector-24, Gandhinagra, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	16.2.86
1171	Kumud Ranjan S/o Sh Kapildeo Prasad	BVC/2911/07	Vill&PO-Gopalbadh Thane-Sermer Dt- Nalanda, Bihar	BVSc&AH/PU/07	1.3.81
1172	Kunal Kshatriya S/o Lt.Col.Jogindeer Singh	Pb.SVC/2787/08	H.No.,322, Sec 71, SAS Nagar, Mohali, Punjab	BVSc&AH/IGKVV/07	5.8.83
1173	Kunwar Pal Singh S/o Niranjan Singh	GujSVC/2891/08	Main Market, Bachpura, Palanpur-385001, Gujarat	BVSc&AH/GBPKEPVV/83	2.3.59
1174	Kushal Pal S/o Sh Bhagwan Swaroop	UPSVC/4888/09	Vinoba Ng, Sadabad Dt, Hathras, U.P	BVSc&AH/KU/09	27.6.80
1175	Kushiswar Chaudhary S/o Sh Jibachh Chaudhary	BVC/2937/08	Vill-Kanhaul PO&Thane-Khajuli, Sub-Div- Jainagar, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	4.1.80
1176	Kusum Khalkho D/o Ramdeo Bhagat Khalkho	JVC/376/08	C/o Smt. Shila Devi, Chhalio sity, Tala, Chanho, Ranchi-835214, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	13.03.77
1177	L.Karthik S/o N.Lingasamy	TNSVC/4229/08	8/1, Elugamualau and PO-Dharapuram Taluk, Erdoe, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	29.7.86
1178	L.Menaka S/o P.Logithasan	TNSVC/4187/08	Harijan Schol Street, Usilampatti, Madurai-625532, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.5.84
1179	L.Prabakaran S/o N.Lenin	TNSVC/4148/08	63, St-Xavier's Street, Puvalur, Po-Lalgudi Taluk, Trichy, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/93	1.1.70
1180	L.Prabhakar S/o L.Gangaram	APSVC/4671/08	H.No.12-13-483/22/1, St.No.-4, Nagarjuna Ng, Tarnaka, Secunderabad-17, A.P	BVSc&AH/ANGRAU/05	14.8.76
1181	L.Raja S/o P. Longanathan	TNSVC/4368/08	2/152, P.Gollahalli Vill, Poduthampatti PO, Palacode taluk, Dharmapuri, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.9.84
1182	L.Toshisenla L.K.R S/o Late Limawabang L.K.R	NSVC/239/08	5th Mile, Dimapur, Nagaland	BVSc&AH/AAU/08	16.9.83
1183	L.Uma Maheshwari W/o P.Shanmuga Siva	TNSVC/4102/08	7/509, Kumaran Ng, Sultanpet PO- Plladamam Taluk, Coimbatore-641669, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	30.7.76

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1184	L.Veersham S/o L.Rajeswar Rao	APSVC/4768/08	Gopalapuram(V),Shanigaram(P),Kamalapura m(M),Karimnagar Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	3.8.82
1185	LAD RANJEET GHANASHYAM	MahaSVC/7947/08	814,"Shantai Niwas",Ward No.17,Indira Gandhi Ng,Nr Gadekar Floor Mill,Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	30/04/84
1186	LAHANE ANIL PRABHAKAR.	MahaSVC/8061/08	C/o Prabhakar Lahane,Plot No.49,Surve No.78/4,Gajanan Nagar,Alandi Road, Datta Nagar Dighi,Dist.Pune-411015.	BVSc&AH/MAFSU/08	15/01/86
1187	Lahunshisha R.Dkhar D/o Dr. Q.X.Rewarnd	MeghSVC/264/08	Jaiaw Lumbatemon,Shillong- 793002,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	5.12.84
1188	Laishram Gosai Singh, S/o Shri Laishram Kesho Singh	JVC/071/08	Touring Veterinary Officer Urugutu,Pithoria, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	01.02.65
1189	LAKDE MAHESH BAPURAO.	MahaSVC/7952/08	Infront of Sapana Hotel,Jalna Road,Laxminagar, Beed,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	27-4-85
1190	Lakhan Lal Tripathi S/o Sh R.B.Tripathi	UPSVC/4725/08	Vill&PO-Kabrai Dt-Hamirpur,U.P	BVSc&AH/CSAU&T/85	20.4.61
1191	Lakhi Ram Gonjhu S/o Late Hari Nath Gonjhu	JVC/508/09	Patrahatu, Silli, Ranchi-835102, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	24.06.61
1192	Lal Bihari Prasad S/o Late S. Bhagat	JVC/432/08	Qr.N.o.D.T.1469,Dhurwa,Ranchi- 834004,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	07.07.67
1193	Lalan Kumar Vaidya, S/o Sh. Baleshwar Vaidya	JVC/255/08	TVO Nagar Untari, Garhwa, Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFS/03	15.11.75
1194	Lalbiaksangi D/o H.Lallungmuana	MizSVC/178/09	Durtlang N PO- Durtlane, Aizawal Dt, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	1.4.85
1195	Lalhmingmuana Sailo S/o Saimawia Sailo	MizSVC/172/09	Rahsi Veng Lunglei, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	15.9.85
1196	Lalhumiana S/o T. Lianuka	MizSVC/176/09	New Colony, Saiha, Chhimtuipui, Dt- Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	25.4.83
1197	Lalit Kr Saha S/o Sh Shyam Sahu	CGSVC/441/09	Shankar Nagar,Mahasumndar,Chhattisgarh- 493445	BVSc&AH/IGKVV/07-08	1.6.81
1198	Laliteshwar Lal Dass S/o Sri Tarni Lal Das	JVC/468/09	Arsandey,Boreya Kanke,Ranchi- 834006,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	01.09.50
1199	Lalitha John D/o Mani John	TNSVC/4376/08	16(Old NO.28-A),Arcot Mudali Street,T.Nagar,Chennai	BVSc/MU/72	4.9.49

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1200	LAMBADE PANDURANG SAKHARAM.	MahaSVC/7894/07	Shri Motha Mruti, Deshmukh Galli, Parbhari, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/6/84
1201	LAMKANE SATYAJEET HANMANT.	MahaSVC/8120/08	Renuka Niwas, 89/A/1, Damani Nagar, Dist.- Solapur-413001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-12-80
1202	Latesh Kumar S/o Sh Ashok Kumar	BVC/2751/06	Vil- Dudhpura, PO-Mangalgarh, Thane- Hasanpur, Sub-div-Rosera, Samastipur- 848208, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	25.2.79
1203	Laxman Singh S/o Sh Bhairath Rajput	UPSVC/4744/08	H.No.89, Sikandar Pura Rath, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/GBPU&T/08	1.7.81
1204	Laxmesh Kattimani S/o Bhimanna Kattimani	KarSVC/4170/08	Beerappanagar, Indi-586209, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	4.8.85
1205	Lekh Raj S/o Sh Kishan Sharma	HarSVC/2078	VPO-Nanhare, Distt- Panipat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	2.8.83
1206	LENGARE ASHAI SHANKARRAO.	MahaSVC/8046/08	Vidhya Nagar, A/P-Piliiv, Tal. Malshiras, Dist. Solapur-413310, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-11-85
1207	Lensley R. Marak S/o Shri J.K. Marak	MeghSVC/263/08	D.I. Colony Williamnagar, East Garo Hills- 794111, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	2.4.81
1208	Liendra Joshi S/o Sh Bachi Ram Joshi	UVC/397/08	Sarwati Vihar, Bithoria No.-1, Haldwani Dist, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	12.7.71
1209	Lijith K.M S/o Chathukutty .M	KeralaSVC/3461/09	Alakandy House, Eruvattu (PO), Thalassery, Kannur -670647, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.5.85
1210	Lijo John S/o John Alexander	KeralaSVC/3385/08	Areekattu House, Meppadam, Chelakkara PO, Thrissur PO, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	19.12.83
1211	Limbachiya Sunilkumar Keshavlal	GujSVC/2960/08	At&PO-Motibhala, Ta- Satlasana, Dt- Mehsana-384330, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	25.4.86
1212	LINGE PRAKASH LAXMAN	MahaSVC/7814/07	A/P Kosegaon, Tal-Pandharpur, Dt- Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	20/4/84
1213	Lional Jacob Rajendra S/o L. Azariali	TNSVC/4410/09	54, Yesudian Street, Nagercoil, Kanyakumari- 629001, Tamilnadu	BVSc/Uni of Kerala/63	8.11.37
1214	Liphoneil G. Sangma S/o Sh M.K. Marak	MeghSVC/266/08	C/o J.G. Sangma, Soil Conservation Office, PO Tura, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	1.1.82
1215	Liyakath P.A S/o P.K. Ashraf	KeralaSVC/3432/09	Pokkakkilla House, PO-Kechery, Thrissur- 680501, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.5.85

SNO	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1216	Lobo Angela Beatrice	GujSVC/2991/09	C-19, Srushti Bunglows, Vasana Road, Baroda-390015, Gujarat	BVSc&AH/GBPUAT/93	12.9.68
1217	LOHAKARE AMIT CHANDRABHAN.	MahaSVC/7857/07	Thorane Layout, Prabhag No-1, NrPWS Collge, Kalmeshwar, Dt-Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25.6/84
1218	Lohith J S/o Jayappa	KarSVC/4134/08	Santhebennur-577552, Channagiri Tq, Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.10.85
1219	Lohith M.T S/o Thimmappa G	KarSVC/4145/08	K.V.Colony, Kadur-577548, Kadur Tq, Chikkamagaluru Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	31.7.85
1220	Loksha K.M S/o Mrutyunjaya K.C	KarSVC/4147/08	Karehalli, Dandur-577547, Tarikere Tq, Chikkamagalur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.10.85
1221	Loknath Demar S/o Sh Pryag Nath Dimar	CGSVC/393/08	Sanichari Bazar Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	10.7.77
1222	LONDHE MUKUND SUKHADEO.	MahaSVC/8134/09	I.M.C.Chal No.2, Room No.21, Near Bhagyarekha Talkies, Ichalkaranji, Tal.Hatkanangle, Dist.Kolhapur-416115	BVSc&AH/MAFSU/08	02-06-85
1223	LONDHE SHARAD POPAT.	MahaSVC/7752/07	Savata Niwas, 618, Nagar Kalyan Road, Bhalawani, Tal Porne, Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/11/84
1224	Lopamudra Mallick W/o Dr. Jagdish Mohanty	OrissaSVC/2247/08	At-Bagasahi (Sipi), At/Po-Jagatsiyapur-754103, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	13.4.83
1225	Lovit Kumar Verma S/o Sh Tarsem Kumar Verma	HPSVC/829/08	Nand Villa, PO - Kandaghat The, Kandaghat The, Kandaghat Distt, Solan H.P -173215	BVSc&AH/CSKKVV/08	12.10.84
1226	M.Abdul Raheem S/o Mohamed Mahideen Jinnah	TNSVC/4371/08	80-B, 4th Street, Rahmath Ng, Palayamkottai, Tiruneveli, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.4.84
1227	M.Ananthi S/o A.Madurai Muthu	TNSVC/4310/08	242/87-A, Bazar, Street, Chinna Salem, Villupuram, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.5.85
1228	M.Anish S/o Michael George	TNSVC/4196/08	Kattuvilai Moolachal, Mekkamandapam, Thuklay, Kanyakumari, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.12.84
1229	M.AS.Hannan Umair S/o M.A.Gaffar	APSVC/4752/08	5-508, Iqbal Ahmed Ng, Mancherial, Adilabad Dt-504208, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	13.5.84
1230	M.Asha D/o T.Murthy	TNSVC/4257/08	52-A, South Thillai Ng, Narasingapuram PO, Attur taluk, Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.4.85
1231	M.B.B.V.S.S.Krishnarjan a S/o M.Satyanarayana	APSVC/4786/08	Chintapalli (P), Pedapudi (M), East Godavari Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.1.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1232	M.Brahmananda Reddy S/o M.Peddaswmi Reddy	AP SVC/4681/08	C/o R.Rajashekar Reddy, Poola Thota(V),Gondhiparia(P),Kurnool (M),Dt-518004,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.6.82
1233	M.D.Latiful Kabir S/o Abdur Rauf	JVC/340/08	Jonka, Rajmahal, Sahibganj-816116, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	01.07.68
1234	M.Diviya Kumari S/o P.Mathaiyan	TNSVC/4156/08	1/147,Knnandheri,PO-Kanganapuram,Via-Sankagiri,Taluk-Salem,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.5.84
1235	M.Ganesh Moorthy S/o P.Muthuswamy	TNSVC/4086/08	Sri Ganesh Nivas,200/113,Andal Street,Thirumal Ng,Reddiyur,Salem,Tamil Nadu	BVSc/MU/62	15.10.39
1236	M.Jayaraman S/o P.Mathanagopal	TNSVC/4370/08	5th Ward,East Street,Old Ayakudi PO,Palani taluk, Dindigul,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/97	5.3.74
1237	M.Jeyakumar S/o P.Mani	TNSVC/4222/08	9/3,Kanakkampalayam,Bommanpatti PO,T.Gobi Taluk, Namakkal-637212,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.7.84
1238	M.K.Palanisamy S/o M.Karuppasamy	TNSVC/4407/09	141/72,Kongunagar,Daskant Street, Perundurai Erode-638052,Tamilnadu	BVSc/MU/77	25.1.40
1239	M.Samala Kkannan S/o V.Murugaiyan	TNSVC/4318/08	Meela Street,Keerathur PO,Karambakudi Via,Pudukottia,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.86
1240	M.Karthik S/o E.M.Manoharan	TNSVC/4272/08	31,Bagavathiamman Koil Street,Thavittupalayam,Anthiyur,Erode,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.3.85
1241	M.Manikandan S/o N.Muniyan	TNSVC/4227/08	28-A,New Street,Vadakkandal PO,Kallakurichi,Taluk-Villupuram.Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.1.82
1242	M.Mohan S/o K. Madheswaran	TNSVC/4298/08	6/42,Mahalakshmi Ng,Kalangani PO,Namakkal-637014,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.5.84
1243	M.Murugan S/o R.Appavu	TNSVC/4255/08	Mettalai,Karkoodalpatty PO,Rasipuram taluk,Namakkal,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.7.83
1244	M.Muthusamy S/o G.Mariyappan	TNSVC/4215/08	Mothakkal PO,Thandarampattu Taluk, Thiruvanarnalai,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	5.4.84
1245	M.N.D.Prasanna Kumar S/o M.V.S.Prasad Babu	AP SVC/4703/08	D.No. 65-1-6, Narasanna Nagar, Kakinada-3, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.8.86
1246	M.Nagalingam S/o P.Mariyappan	TNSVC/4387/09	South Elanthaikulam,Sayalgudi PO,Kadaladi Taluk,Ramnad Dt,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/96	3.6.73
1247	M.Naveen kumar S/o M.Vyikunta Rao	AP SVC/4694/08	Konakanchi (P),Penuganchiprolu (M),Krishna Dt.A.P	BVSc&AH/SVVU/08	1.5.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1248	M.Nithya S/o M.Murugesan	TNSVC/4381/08	136,Poondavakkam Village,Parandur PO, Kanchipuram,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.8.83
1249	M.Partha Sarathy S/o K.Muthuvei	TNSVC/4199/08	Enathikkarambai PO,Avanam Via, Peravurani Taluk, Thanjavur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.7.83
1250	M.Prabakaran S/o G.R.Murugan	TNSVC/4163/08	278-A,Gandhi Ng,(Backside of BDO Office),Uthangarai PO&Taluk,Krishnagiri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.6.84
1251	M.Rajamurali S/o D.Murugesan	TNSVC/4172/08	9,Kannaiyah Ng,S.N.Chavadi,Cuddalore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.11.84
1252	M.Rajesh S/o V. Mani	TNSVC/4247/08	1/56,S.Uduppam PO,Namakkal- 637019,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.83
1253	M.Rakesh Kumar S/o M.Vekateswara Rao	AP SVC/4805/08	H.NO.6-3-30, Bank Colony,Khammam(P),Khammam-507002,A.P	BVSc&AH/OUAT/08	6.6.84
1254	M.Ravi S/o R. Mani	TNSVC/4333/08	Muthagandanur,Umayalpuram PO,Attur taluk,Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.6.85
1255	M.SAIPRASAD UMAKANTH.	MahaSVC/8140/09	"Sai Sadan", At. Atkur, Dharmabad, Dist.Nanded,,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	12-06-85
1256	M.Sandeep Kumar S/o M. Keshavulu	AP SVC/4763/08	H.NO.7-224,New V.T.Colony,Nr Mahalaxmi P.B.Mill,Miryalguda,Nalgonda Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	6.1.84
1257	M.Senthil Murugan S/o A.Magudeswaramoorti	TNSVC/4317/08	M-134,Cavvery Ng, S.I. Houseing Colony,Comibatore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.9.84
1258	M.Senthilraja S/o R. Mariyappan	TNSVC/4234/08	3-2(Old No.23/2),8th Cross,Palaniyappa St.,Thavittupalayam,Anthiyur,PO-Bhavani Taluk,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.6.85
1259	M.Shyam Shankar S/o C. Maharaja	TNSVC/4106/08	30,(Old No.60), Third Street,Kamaraj Ng,Avadi, Chennai	BVSc/TANUVAS/98	9.1.75
1260	M.Sravanthi D/o M.Mohanangam Chetty	AP SVC/4722/08	D.No.1-96,Pudipatle(V&P),Tirupati Rural Mandal,Chittoor Dt-517505,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	30.4.85
1261	M.Sravanti D/o M.Jacob	AP SVC/4733/08	H.No.5-12-674/1,Sri Sai Nagar, Opp. ITI ,Nalgonda, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	7.11.81
1262	M.ThiruSelvi S/o K.Muniasamy	TNSVC/4290/08	11/2 Sheik Mithar Lane,Kadaladi Rd, Mudukulathur,Ramanathapuram,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	23.5.83
1263	M.Tulasi D/o M.Satyanarayana	AP SVC/4698/08	Thimiram (V), Lakkavaram(SO), Vakapalli(BO), Visakhapatnam Dt-531075,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	9.05.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1264	M.Vasantha S/o M.Madasamy	TNSVC/4326/08	6,J.L.J.Building,North Kailasapuram Street,Tirunelveli Junction,Tirunelveli,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.1.85
1265	M.Veyilan S/o M.Muthu Natchan	TNSVC/4103/08	Attuparai, Moolakkadai PO, Myladumparai Via, Andipatty Taluk, Theni, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/01	10.2.72
1266	M.Vindhya D/o M.Venkatramnarsimha Reddy	APSVC/4739/08	Thungathurthi(V),Kethepally(M),Nalgonda,Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	6.3.83
1267	M.Vinoth S/o J.Mathiyazhagan	TNSVC/4178/08	3,Ambedkar Ng,Sivaji Ng West, Thanjavur- 613001, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.3.84
1268	Madan Murari Prasad S/o Late Ram Sharan Prasad	JVC/416/08	Veterinary Surgeon, Simdega, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	16.03.51
1269	MADANE SHAIL ESH SHAMRAO.	MahaSVC/8082/08	Trimurty Sadan, Room No.-1, Ganesh Nagar, Panchkutir, J.I.T., Tal. Powai, Mumbai-400076	BVSc&AH/MAFSU/08	05-09-85
1270	Madho Singh Meena S/o Sh Ratan Lal Meena	RajSVC/3517/08	Vill-Kharli, Po-Kakarala, The- Bamanwas, Sawaimadhopur- 322211, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	30.8.81
1271	Madhu Kumari W/o Sri Rajan Kumar Sahu	JVC/454/09	C/o Sri Arun Kumar Sah, Prem Ng, Kanke, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	12.11.70
1272	Madhu Ranjan Kumar S/o Shri Mahendra Prasad Yadav	UVC/416/08	Vety Officer(Contract)Gaja Distt Tehri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/05	5.6.78
1273	Madhu Suman S/o Sh Krishan Lal Rana	HPSVC/830/08	Vill - Nanu, PO- Ropri, The - Sarkaghat, Distt- Mandi, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/08	23.11.84
1274	Madhuranjan Kumar S/o Sh Mahendra Prasad Yadav	BVC/2814/06	Vill-Pipra, PO-Golma, Thane-Saur Bazar, Sub- Div-Saharsa, Dt-Saharsa, Bihar	BVSc&AH/JNAU/05	5.6.78
1275	MAGAR NITIN SUDHAKAR	MahaSVC/7948/08	A/P-Waghunde Kd., Tal-Parner, Dist-A'nagar- 414301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	27/05/85
1276	Maha Shankar S/o Sh Sidheswar Prasad Singh	BVC/2881/07	Vill-Lai ,PO-Lai, Thane-Bihta, Sub-Div- Danapur, Dt-Patna-801112, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	3.6.79
1277	MAHAJAN MADHUVANTI VIJAYKUMAR	MahaSVC/8045/08	Vardan, Railway Station Road, Opp.Jamhoor, D.Ed. College, Udgir, Dist.Latur.	BVSc&AH/MAFSU/08	12-01-85
1278	MAHAJAN NARENDRA DEVIDAS	MahaSVC/7850/07	A-2, Silver Apts. Vijay Ng, Bhigwan Rd, Baramati, Dt-Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/4/83
1279	MAHAJAN VIKAS EKANATH	MahaSVC/7916/07	A/P-Gunore, Tal-Parner, Dt- Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/3/85

SNO	NAME	RNU	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1280	MAHAJAN NAMRATA ANIL.	MahaSVC/8092/08	C/o S.R.Pawar,Quarter No. C-3,Sudhir Colony,Akola-444104,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	23-08-86
1281	Mahajan Singh Mandvi S/o Sh Sami Lal Singh	CGSVC/362/08	Mamta Nagar Ward No.- 6,Rajnathgaon,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/06-07	10.6.72
1282	MAHALE TUSHAR RAJENDRA.	MahaSVC/8059/08	Surve No.13, Kakubai Baug, Near Swami Samarth Kendra, Sangameshwar, Malegaon, Dist.Nasik-423203.	BVSc&AH/MAFSU/08	14/09/84
1283	MAHANWAR TUSHAR RAM.	MahaSVC/8049/08	Krantideep,Nira Road,Lonand,Maharashtra Tal.Khandala,Dist.Satara-415521	BVSc&AH/MAFSU/08	26-07-85
1284	Mahaveer Prasad Yadav S/o Sh Surja Ram Yadav	RajSVC/3540/08	Swamiwala Ki Dhani,Tanmohanpura URF Kharkara,PO-Patan,The-Neem Kat Hana,Sikar,Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	20.2.85
1285	Mahender Singh S/o Sh Sant Ram	HarSVC/2072	VPO -Sanga, Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	3.1.84
1286	Mahendra Kumar Chhangani S/oSh H.C.Chhangani	RajSVC/3520/08	Pustikar Panchayat Bhawan,Bansiwala, Nagaur-24	BVSc&AH/RAU/08	16.8.77
1287	Mahendra Kumar S/o Sh Ganpat Singh Chhirang	RajSVC/3476/08	Vill&PO-Dewas,The-Fatehpur,Sikar- 332301,Rajasthan	BVSc&AH/KAU/08	13.8.82
1288	Mahesh .N S/o D.Narayan Nair	KeralaSVC/3454/09	Akshaya,Thala yolaparambu PO,Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.1.85
1289	Mahesh Chandra Khanduri S/o Late Sh J.D.Khanduri	UVC/113/08	Dayanand Marg, Subhash Nagar, Clementtown,Dehradun,Uttarakhand	BVSc&AH/Aga Uni/64	24.8.41
1290	Mahesh Patil S/o Rayanagowda Patil	KarSVC/4159/08	Maharaja Colony, Mudhoi-587313,Bagalkot Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	23.6.85
1291	Mahesh Singh Bahel S/o Kate Sh Ayaut Ram Bahale	CGSVC/430/08	Veterinary Hospital,Bhanupratap,Dt- Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/95-96	2.6.70
1292	Maheshkumar S/o Prabhanna S	KarSVC/4180/08	Sagar Camp, Sindhanur-584128,Raichur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	8.10.85
1293	Maheshwar Tiwary S/o Late Ajablal Tiwary	JVC/191/08	V.S. Saraikela, Veterinary Hospital, Saraikela-Kharsawan-833219, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	23.1.58
1294	Mahima Minz S/o Late Martin Minz	JVC/413/08	Tigra Ganga,Toli,Guru, Ratu,Pin- 835222,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	02.02.71
1295	Mahip Dixit S/o Shri B.N.Dixit	MPSVC/2585/09	Shabda Pratap,Ashram,Gwalior,M.P-474012	BVSc&AH/JNKVV/08	21.8.80

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	EDUCATION	DATE
1296	Maikil Soren S/o Sri Bernard Barka Soren	JVC/375/08	Powal, Apral Borio, Sahibganj-816120, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	11.05.76
1297	Makwana Hiteshkumar Labhubhai	GujSVC/2908/08	2,Prathna Society,Hadgod Road, Khetiwadi, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	21.9.84
1298	Makwana Pragibhai Arajanbhai	GujSVC/2909/08	To- Kundaliyala, Tq-Rajula, Dt-Amreli, Via-Vadali, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	8.8.84
1299	Makwana Rinkeshkumar Babulal	GujSVC/2961/08	33/A,Mayur Housing Society, B/H Railway Nr-BVM Railway ,Nr-BVM Mill, Kalol-382721,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	25.4.86
1300	MALAPURE CHANDRASHEKHAR DAULATRAO	MahaSVC/7955/08	At-Mendki, Post-Sonoli, Tal.Katol, Dist.Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	5-3-84
1301	Malay Kumar Vishwakarma S/o Sh D.P.Viswa Karam	UPSVC/4740/08	H.NO.88,Mo-Chaudharayana,Jalaun,U,P	BVSc&AH/GBPU&T/08	5.3.83
1302	MALI SUJAY LAXMAN.	MahaSVC/7884/07	Paudhar Mala Road, A/P-Bagani,Tal-Walwa,Dt-Sangli,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/6/85
1303	Mamta Soni D/o Sh Shyam Lal Soni	RajSVC/3473/08	Nr Subhash Chowk,Hanumangarh Town,Hanumangarh,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	29.9.81
1304	Man Mohan Mahato S/o Sh. Sri Chand Mahato	JVC/464/09	Palna, Baburamdih Tamar,Bundu,Ranchi-835225,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	03.01.68
1305	Man Mohan Pandey S/o G.N.Pandey	UPSVC/4731/08	Vill-Ram Nagar,PO-Bigwara Dt,U.S.Nagar, U.P	BVSc&AH/GBPU&T/92	19.6.69
1306	Manali Pant D/o Lalit Chandra Pant	UVC/373/08	Chandra Niwas, Bambagher, Ramnagar, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	8.6.84
1307	Manaswini Dehuri D/o Dr.P.K.Dehuri	OrissaSVC/2210/08	At-Baharipada Mohanty Sahi,Boudhi,Dist-Boudhi, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/06	1.1.81
1308	MANDAKHALIKAR KEDAR DIWAKAR.	MahaSVC/8141/09	C/o Dr.D.D.Kulkarni,High Security Animal Disease Laboratory,IVRI,Anandnagar, Bhopal-462021.	BVSc&AH/MAFSU/08	26-05-84
1309	Mandavi Vallabh Jha S/o Sh. Dasharath Jha	JVC/225/08	C/o Sri Dasharath Jha, Haripur, Gairwanna, Godda, 814133, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	08.08.70
1310	Mandeep Atray S/o Sh Charanjit Sharam	Pb.SVC/2818/08	10/115, PAU Campus, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	19.12.85
1311	Mandela Thabab D/o Shri M.Syiemiiong	MeghSVC/257/08	Bhoirymbong Via-Barapani, Ri-Bhoi Dist-Meghalaya-793103	BVSc&AH/AAU/08	8.4.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	MARKS
1312	MANDHE MANGESH KAILASH	MahaSVC/7820/07	Ambetkar Ward, Desaiganj(Wadsa)Dt- Gadchiroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/9/83
1313	MANE AMARPRASAD ARJUN.	MahaSVC/8135/09	C/o Arjun Gangaram Mane, University Library, (Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth), Tal. Rahuri, Dist. Ahmednagar.	BVSc&AH/MAFSU/08	03/06/84
1314	Manesh Chand S/o Sh Ram Kishan	UPSVC/4753/08	Vill&PO-Ranwari, The-Chhata Dt-Mathura, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	11.7.81
1315	Manish Shrivastava S/o Shri J.P. Shrivastava	MPSVC/2566/08	Near Microwave Purani Basti, Dist- Bhind - 477001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	2.7.82
1316	Manish Kumar S/o Sh Birendra Kumar	BVC/2934/08	Vill-Sima, PO&Thane-Silaw, Sub-Div-Rajgir, Dt- Nalanda, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	4.4.78
1317	Manish Kumar S/o Sh Mital Yadav	BVC/2841/07	Vill-Miiki Dumaria, PO-Bhanghi, Thane- Phulkaha, Sub-Div-Forbishganj, Dt-Araria, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	4.4.78
1318	Manish Kumar Sahrawat S/o Sh R.S. Sahrawat	HarSVC/2084	# 1845, Sector -15, Panchkula, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	27.2.83
1319	Manish Kumar Shende S/o Shri Tikaram Shende	MPSVC/2509/08	W/N -13, Sai Mandir Road, Budhi, Balaghat- 481001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	13.1.81
1320	Manish Mishra S/o Sh Yash Pal Mishra	HPSVC/843/08	Mubarkpur Road, Amb Distt, Una H.P - 177203	BVSc&AH/CSKVV/08	11.10.82
1321	Manish Mishra S/o Sh Yash Paul Mishra	Pb.SVC/2788/08	H.No.447, Phase I A, Shivalik Avenue, Nangal, Ropar, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/08	11.10.82
1322	Manish S/o Late Shri Rajeshwar Prasad Singh	UVC/402/08	Vety Officer(Contract)V.H, Lakhwar, Dt- Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/CSKHPKV/08	23.9.79
1323	Manish Tewari S/o J.D. Tewari	UPSVC/4859/08	3E-37, Kurmanchal Ng, Lucknow, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	22.11.80
1324	Manish Yadav S/o Shri Bhikaram Yadav	MPSVC/2533/08	LIG -8/87, Sarita Complex, Shivaji Nagar, Bhopal, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	4.9.83
1325	Manisha Lakra D/o Sri Hira Lal Lakra	JVC/373/08	Albert Compound, Purulia Road, Ranchi- 834001, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	03.11.77
1326	Manisha Verma S/o Sh Kehar Singh Verma	HPSVC/832/08	Near A.S.S.S. School Pirdi, Mohal Kullu, Dist - Kullu, H.P	BVSc&AH/CSKVV/08	17.1.84
1327	Manjeet Kumar S/o Sh Arjun Prasad	BVC/2921/08	Vill-Sudargarh Bhaissaur, PO&Thane- Biharsharif, Dt-Nalanda-803101, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	5.11.78

SVC	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB	
1328	Manjeet Kumar Sharma S/o Late Arjun Prasad Sharma	BVC/2746/06	Vill-Gandhi Chouk, Chhapra, PO+Thane- chhapra, Sub-Div-Chapra, Dt-Chapra, (Saran)- 841301	BVSc&AH/SKUAS&T/06	1.3.81
1329	Manjeet Singh D/o Shri Tara Singh	UVC/375/08	Sarala Bhawan ,Mohalla Gujratian Jaspur, Dt- U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	8.7.81
1330	Manju Armo D/o Sh.J.R.Armo	CGSVC/378/08	Type-5,Qtr No.11, Telephone Office Colony, New Rajendra Ng, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	29.3.81
1331	Manju Pal D/o Shri Daya Nand Pal	UVC/444/09	H.No.B-75, Beni Colony Dairy Nagla, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	30.6.80
1332	Manjulata D/o Shri Sheetala Prasad Mani	UVC/400/08	Vill&PO-Jhanket, Dt-U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	25.8.83
1333	Manjulata Sahu S/o Kamala Prasad Sahu	CGSVC/434/09	N.C.-78, CSEB Colony, Korba, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	11.5.82
1334	Manjunath D.R S/o Ramaiah D.C	KarSVC/4104/08	Dasalukunte-572138, Koratagere, Tq-Tumkur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.5.85
1335	Manjunath L.H. S/o Hiriyanna L.V	KarSVC/4098/08	Sapthswara, Car Steet, Ujire- 574240, Belangadi Tq, Dakshinakannada Dt, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/75	25.5.54
1336	Manjunath S S/o Siddappa	KarSVC/4171/08	N.9 1st, A Cross, 3rd Main Someshwaranagar, Yelahanka Newtown, B'lore-560064, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	31.10.85
1337	Manjunatha N.S S/o Siddappa N.G	KarSVC/4129/08	Narasimhanahalli, Gedare Po- 561213, Gowribidanur Tq, Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	25.6.85
1338	Manjunatha V S/o Venkatappa B	KarSVC/4132/08	Outside the Vill, Palyakre Po-563124, Bagepalli Tq, Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	24.6.85
1339	MANKAR DIPIKA RAMAN.	MahaSVC/8057/08	Biyabani, Achalpur City ,Achalpur, Maharashtra Dist.Amravati- 444806.	BVSc&AH/MAFSU/08	25-09-85
1340	Manohar Dyaberi S/o Pandurang	KarSVC/4216/09	Dyaberi, Bijapur Tq &Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/96	2.8.71
1341	Manoj Kaushik S/o Sh R.K. Kaushik	HPSVC/856/08	Kaushik Niwas -5, Sunny Side, Solan, H.P - 173212	BVSc&AH/CSKVV/08	7.12.83
1342	Manoj Kumar Dwevedi S/o Late Srinath Dwevedi	BVC/2959/08	Vill-Sohsa, PO-Miv, Thane-Bead, Dt-Kaimur- 821101, Biha	BVSc&AH/KVA&FS/06	19.9.74
1343	Manoj Kumar Gautam S/o Shri Ram Muni Gautam	MPSVC/2567/08	Veterinary Campu, Snehiataganj, Indore, M.P	BVSc&AH/JNKVV/87	5.7.65

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1344	Manoj Kumar Mahanta S/o Late Luthu Ram Mahanta	JVC/533/09	Rajnagar, Sarailella-Kharsawan, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	15.11.67
1345	Manoj Kumar Mani S/o Late Dina Nath Mandal	JVC/560/09	Hajipur (Rajgoan), Mirzachouki, Sahebganj, Pin-813208, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	29.01.67
1346	Manoj Kumar Mantu S/o Sh Nityanand Singh	BVC/2866/07	Vill+PO- Dhanchhoha, Thane-Saur Bazar, Dt- Saharsa, Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/05	4.6.77
1347	Manoj Kumar Rajpoot S/o Sh Balram Singh	UPSVC/4806/08	Vill-Patkhuri, PO-Jariya, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	1.5.82
1348	Manoj Kumar S/o Ram Binod Singh	JVC/239/08	Qr. No. B II/289(T), Sharma Road, Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand	BVSc&AH/OUA&T/95	31.07.71
1349	Manoj Kumar S/o Sh Arjnath Singh	BVC/2848/07	Vill-Bankajuya, PO-Choram, Thane- Bhagwanpurhaat, Sub-Div-Maharajganj, Dt- Siwan, Bihar	BVSc&AH/AAU/07	21.1.83
1350	Manoj Kumar S/o Sh. Nagendra Prasad	JVC/250/08	T.V.O. Huwanghatu, Ranchi	BVSc&AH/BAU/01	05.11.73
1351	Manoj Kumar S/o Shree Sita Ram Mahto	RajSVC/3575/08	C/o Kedar Sharma, Opp-Nagar Parished Hanuman Hatta, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	25.3.76
1352	Manoj Kumar Sahu s/o Sh Leeladhar Sahu	UPSVC/4850/08	Vill&PO-Kainha Rath, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	20.6.81
1353	Manoj Kumar Singh S/o Sri Sudin Prasad Singh	JVC/342/08	C/o Sri Sudin Prasad Singh, Bari Kodar Janna, Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	05.12.68
1354	Manoj Kumar Sinha, S/o Shri Ram Lakhan Singh	JVC/072/08	Saket Nagar, Hinoo, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002	BVSc&AH/BAU/89	05.01.62
1355	Manoj Kumar Tiwary S/o Late Jay Nandan Tiwary	JVC/315/08	Moh-Balidih, Pandey Tola, Balidih B.S. City- 14, Chas, Bokaro-827014, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	18.09.74
1356	Manpal Singh S/o Sh Khacher Singh	HarSVC/2083	G.V.H. Bichhor, Post -Bichhor, Mewat, Haryana	BVSc&AH/CSKVV/01	1.7.71
1357	Mansuri Asifbhai Rajakbhai	GujSVC/2962/08	Survey No.108, n Behind Mahila College, Vijay Rd, AT&Po-Savgadh, Ta-Himmatnagar, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	4.12.84
1358	Manta Raj Yadav S/o Sh Ram Nath Yadav	UPSVC/4778/08	Vill- Langarpur, PO-Bankat, Dt-Alamgarh, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	6.7.79
1359	Manu. Dixit S/o Shri B.K. Dixit	MPSVC/2589/09	B-14, New Krishna Nagar, Thatipur, Gwalior, M.P-474011	BVSc&AH/JNKVV/08	14.10.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1360	MARKAND SHANU JAGDISH PRASAD.	MahaSVC/8015/08	Shantaram Tailor Building, Gokulpeth bazar Road, Tal. Dist. Nagpur-440010	BVSc&AH/MAFSU/08	1-02-84
1361	Martina Yohannan D/o T.R. Yohannan	KeralaSVC/3374/08	Thekkedath Hose, Vellikulangara PO, Thrissur- 680693, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	10.12.84
1362	MATHUR PRANAV DINESH.	MahaSVC/7764/07	Plot NO.48, Patel Nagar, Gorewade Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/8/84
1363	Mazharul Hasan S/o Zahir Hasan	JVC/312/08	C/o Zahir Hasan, Moh-Bartola, Chitarpur, Ramgarh, Hazaribagh-825101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	17.07.74
1364	Md Sarpuraj Ali S/o Md Suleman Ansari	CGSVC/397/08	Vill&PO-Mukhragkhand, Kafari, Korbha, Chhattisgarh	BVS &AH/IGKV/06-07	29.6.79
1365	Md Javed Jaffar Khan S/o Late Anish Khan Ashraf	BVC/2887/07	Vill-New Maillola Colony, Aapna Gharana Sajjat Ng, PO-Phulwarisharied, Thane- Danapur, Dt-Patna, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	6.3.79
1366	Md Musafik Aazam S/o Late Abdur Rab	BVC/2891/07	Vill&PO-Aazam Nagar, Sub-Div-Barsoi, Dt- Katihar-855113, Bihar	BVSc&AH/AAU/07	1.1.80
1367	Md, Zamiruddin S/o Lal Mohammad	BVC/2749/06	Vill-Basha, PO-Bahare, Thane-Sub-Div & Dt- Madhubani-847401, Bihar	BVSc&AH/PAU/06	15.6.78
1368	Asif Ahmad S/o Md. Ahmad Ali	JVC/518/09	Tin Pahar, Rajmahal, Sahebganj-816116, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	25.02.70
1369	Md. Javed Akhtar S/o Md. Javed Akhtar	JVC/520/09	Karajhar, Kathikund, Dumka-814101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	13.01.79
1370	Md. Javed Akhtar S/o Md. Navonuddin	JVC/411/08	Nayanagar, Mahagama Godda- 814154, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	01.09.82
1371	Md. Kalimuddin S/o S.K. Nomani	JVC/568/09	Bara Pahala, Aagam Pakeria, Pathergama, Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	04.02.53
1372	Md. Shahid Eqbal S/o Md. Abul Kalam	JVC/433/08	C/o Md. Abul Kalam, New Azad Basti, Lohardaga-835302, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	01.03.79
1373	Md. Shohail Khan, S/o Md. Kafil Khan	JVC/103/08	Touring Vety Officers, Veterinary Hospital, Gandey, Girdih, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	06.01.63
1374	Md. Waize Ansari S/o Md. Faiyaz Ansari	JVC/296/08	C/o Md. Faiyaz Ansari, Loyabad, Bansjora, Dhanbad-828101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	06.02.81
1375	Md. Ziaul Hasan Sarwar S/o Md. Quraish	JVC/422/08	C/o Md. Quraishi, Tinphar, Rajmahal, Sahibganj, Jhar khand	BVSc&AH/BAU/01	24.11.74

SNQ	NAME	ROLL NO.	ADDRESS	EXAMINATION	DATE
1376	Md.Kalimuddin Ansari S/o Md.Ansari Ali	JVC/352/08	Chhotikodarjanna, Sahibganj, -816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/95	01.05.68
1377	Md.Shaïd Kurashi S/o Md Syed Kurashi	CGSVC/374/08	Sector-3,Ekta Nagar, Nr Chirkuti Mandir,Gudyari,Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	14.9.81
1378	Md.Ziaul Hassan S/o Md.Anwal Hassan	OrissaSVC/2235/08	At:-Raushan House, Pathan Mohalla PO- Motigarn, Balasore-756003,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	20.8.84
1379	Meena Arora W/o Mr Rajnish Arora	OrissaSVC/2206/09	Private Practitiners D-3,Rail Kunj,Chandrasekharpur,Bhubaneswar,Orissa	BVSc&AH/JNKVV/87-88	5.8.64
1380	Meena Goswami, D/o Shri Nar Singh Goswami	UVC/390/08	2-278 Ashadeep Ambica Vihar, PO- Bhotiya Parawa, Haldwani, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	21.7.84
1381	Meena Harishchanra D/o Shri Hari Chand	UVC/396/08	C/o Shri B.D.Thwal,Thwal Pustak Sadan,Goral Chaur Road, champwat, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	15.4.71
1382	Meenakshi Pardhan D/o Dr. M.Pradhan	UVC/427/08	Vety Officer(Contract)CTO, Pithoragarh,Uttarakhand	BVSc&AH/AAU/07	9.9.83
1383	Meenu Basheer D/o P.S Mohammd	KeralaSVC/3460/09	Shalimar Chelacoe, Pathanapuram PO, Kollam-689695,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.2.85
1384	Meera Kumari D/o Sri Madan Mohan Singh	JVC/447/09	Gari Khash Patan,Pandwa Medninagar,Palamu,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	30.01.83
1385	Megha B.L W/o Vijayabhaskar K.S	KarSVC/4140/08	C/o K.P Someshaihi, Kamagondanahalli, Puttayanahalli-572137,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	4.10.84
1386	MEHARE AWESHI MURLIDHAR	MahaSVC/7837/07	12,Vilas Colony, V.M.V. Rd,Nr, Kathora Naka,Amravati,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/4/83
1387	Meriyani Kikon S/o Late Tsenyimo Kikon	NSVC/238/08	Upper Bayavu-Hill Colony, Kohima, Nagaland	BVSc&AH/AAU/08	14.1.85
1388	MESHARAM SONALI YASHVANT.	MahaSVC/7800/07	Near Bramhapuri, Blast Office,College Rd, Brahmapuri, Dt-Chandrapur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/3/85
1389	MESTRY GAURAV RAVINDRA.	MahaSVC/8075/08	Gr.Floor,Vishwanarayan 58, Kotergate, Khadak, Bhiwandi, Tal.Bhiwandi, Dist.-Thane- 421302.	BVSc&AH/MAFSU/08	26-06-86
1390	METANGALE MADHAO DNYANBA.	MahaSVC/7922/08	At-Madri, Post-Aregaon, Tal-Mehkar Dt,Buldana,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/4/82
1391	MHATRE PREETI SUBHASH.	MahaSVC/7779/07	Laxmi Niwas,Mhatre Wadi,Baudukhai Marg,Varsoli,Tal-Alibag,Dt- Rajgad,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/11/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	
1392	Midhun Chandran T.C. S/o T.M.Chandrasekharan	KeralaSVC/3329/08	Thekkamadathil House, Kozazhy Thrissur- 68010, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	2.4.83
1393	Mill Minakshi, S/o Sh Toseswar Mili	ASM/2424/09	Vill-Mukaligaon, PO- Halem, Dist- Sonitpur - 784170, Assam	BVSc&AH/AAU/08	31.10.85
1394	MISAL KAR VAISHALI FAKIRA	MahaSVC/7997/08	Milind Nagar, Ward No.21, Tal. Dist. Buldana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-03-84
1395	MISTRY KURUSH RUSSI.	MahaSVC/8090/08	Palm Springs, I-1, 104, Cuffee Parade, Maharashtra Mumbai-400005.	BVSc&AH/MAFSU/08	23-08-73
1396	Mithilesh Kumar Singh S/o Late Thakur Prasad Singh	JVC/299/08	TVO Barharwa (Sahibganj) Post-Barharwa, Distt-Sahebganj-816101, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/85	02.08.62
1397	Modh Darshankumar Narendrakumar	GujSVC/2963/08	SOHUM-Near Shivaji Park, Sukhbag Road, Palanpur, B.K, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	29.6.86
1398	MOHALKAR AMOL SUDAM.	MahaSVC/7971/08	Korewada, Saraf Lane, Kharda, Tal. Jamkhed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-7-85
1399	Mohamed Fazal Ibrahim Hassan S/o A.Md Ibrahim Sahib	TNSVC/4380/08	Aamina Plot NO.28, Bharathi Ng, Ranipet- 632403, Tamilnadu	BVSc/MU/60	1.9.37
1400	Mohamed Ghouse H S/o Mohamed Hussain H	KarSVC/4133/08	C/o Mansur Jaffer, Last Cross, Ramdas Compound behind match factory, Chitradurga-577501, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.5.85
1401	Mohamed Sheriff S/o Segu Mohamed	TNSVC/4349/08	3, Pattani Street, Dawood Mansan, Vallam Thanjavur, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/91	1.6.67
1402	Mohammed Arif Basha K S/o Kaleem Basha J	KarSVC/4124/08	3rd Main, 3rd Cross, B-Block, Vidyanagar, Harihara-577601, Devanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	3.8.85
1403	Mohan Lal Kansal S/o Sh Pali Ram Kansal	HarSVC/2086	# 27 Virat Nagar, Panipant, Haryana	BVSc&AH/PU/62	20.2.37
1404	Mohanvir Saharan S/o Sh Zile Singh	HarSVC/2055	VPO-Kolekhan, The- Kalayat, Distt- Kaithal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	10.4.81
1405	Mohd. Nadeem S/o Moh.Ameen Siddqui	UPSVC/4795/08	782/2 Shivaji Nagar, Jhansi, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	8.6.78
1406	Mohemeed Jaffer K S/o Abdul Jabbar	KarSVC/4192/08	No.471, 14th Cross, 8th Main, Wilson Garden- 560030, Karnataka	BVSc/UAS B'lore/68	14.8.45
1407	Mouinder Kumar Yadav S/o Sh Hardit Singh	HarSVC/2088	VPO Khatiwass, Distt- Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/HAU/85	22.8.63

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1408	Mohit Kumar S/o Sh Raj Kumar	Pb.SVC/2823/08	Dhir Stree, Gali No.-03, Nr Bus Stand Mansa Distt-Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	9.7.83
1409	Mohti Singh Chauhan S/o Sh R.K.Singh	UPSVC/4802/08	Vill&PO-Jasmo,The-Behata,Dt-Saharanpur,U.P	BVSc&AH/GBPVA&T/08	10.11.82
1410	Monika Goyal D/o Dr. Rajeev Goyal	UVC/430/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Barkot,Dt- Uttarkashi , Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/04	13.8.80
1411	Morang Madhumita D/o Lt.B.S.Morang	ASM/2370/08	Vill-Pijbi,PO-Ratanpur,P.S-Jonai, Dist-Dhemaji,Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.6.80
1412	MORE SUNIL NIVRUTTI	MahaSVC/7822/07	Flat No.11, lind Floor,Shri Amar Society,Tarwala Ng,Mari Dindori Rd, Nasik,(M.S)	BVSc&AH/MAFSU/07	18/9/83
1413	MORE BABASAHEB SURYABHAN	MahaSVC/8121/08	Mula Sugar Factory,D-Type Colony,Sonai.,Maharashtra Tal-Newasa,Dist-Ahmednagar-414105	BVSc&AH/MAFSU/08	22-06-84
1414	MORE GAURI DILIP.	MahaSVC/8094/08	Pratik Krupa, 301, Plot No.4,Sector-1,Maharashtra Sanpada,Navli Mumbai-400705.	BVSc&AH/MAFSU/08	24-07-86
1415	MORE VIKRAMSINGH BAJIRAO.	MahaSVC/7878/07	A/P- Kashil, Tal.Dist.Satara-415579,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/10/85
1416	MORU NISHA HARISHCHANDRA.	MahaSVC/8076/08	Khar Danda Kotpada,Behind Ram Temple,Maharashtra Khar (West),Mumbai-400052.	BVSc&AH/MAFSU/07	17-01-85
1417	Mritunjai Prasad Singh S/o Mahesh Prasad Singh	JVC/304/08	C/o Sri Mahesh Prasad Singh, Moh-Tube Baridih, Baridih, Sidgora, EastSinghbhum-831017, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	20.10.72
1418	Mritunjay Kumar S/o Late Sidheswar Sharma	BVC/2889/07	Vill &PO-Kaithi, Thane-Obra, Sub-Div Daud Ng, Dt-Aurangabad-824124,Biha	BVSc&AH/AAU/07	25.12.76
1419	Mritunjay Kumar S/o Sh Sachidanand Sharma	BVC/2867/07	Vill+PO-Piar, Thane-Piar, Sub-Div-Tirhut,Dt-Muzaffarpur,Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/05	3.11.79
1420	Mritunjay Kumar S/o Shri Sachchidanand Sharma	UVC/413/08	Vety Officer(Contract),Devalgarh, Dt- Pauri Garhwal Uttarakhand	BVSc&AH/KVA&FSU/05	3.11.79
1421	Mritunjay Kumar, S/o Shri Ranbir Singh	JVC/037/08	Meat Technologist, Regional Poultry farm, Hotwar, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	01.07.67
1422	Mritunjay Kumar, S/o Late Santlal Ram	JVC/200/08	Dighi, Dighi Siwanpur, Meharma, Thakurganti, Godda-814160 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	05.02.65
1423	Mubarak Hussain S/o Sh A.K.Gani	CGSVC/444/09	Grass State-3, Block 9/J,Sector-6, Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	30.5.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1424	MUDHOLKAR RAJENDRA RAJESHWAR	MahaSVC/7964/08	A/P- Yetala, Tal.Dharmabad, Dist.Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	27-05-83
1425	Mukesh Kumar S/o Sh Banaras Prasad	BVC/2944/08	Vill-Nayatoal,PO-Bankipur,Thane- Pirbohore,Sub-Div-Patn Sadar,Patna	BVSc&AH/BAU/07	10.1.79
1426	Mukesh Kumar S/o Sh Bhushan Prasad Singh	BVC/2832/07	Vill-Akhityarpur,PO-Urbishunpur,Thane- Alipur,Dt-Gaya,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	15.8.81
1427	Mukesh Kumar S/o Sh Bhushan Prasad Singh	UVC/418/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Pachuvan,Dt-Chamoli,Uttarakhand	BVSc&AH/MA&FSU/06	15.8.81
1428	Mukesh Kumar Shrivastava S/o Shri Shanti Kumar	MPSVC/2563/08	Q.No.1,Krishi Vigyan Kendra,Post- Kalukheda, The-Jawra, Dt-Ratiarn,M.P	BVSc&AH/JNKVV/78	10.5.54
1429	Mukesh Kumar Singh S/o Late Ramchandran Singh	JVC/213/08	H.No.-17, Kadru, Doranda, Argora, Ranchi- 834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	01.03.74
1430	Mukesh Kumar Sinha S/o Sh Damodar Prasad Sinha	BVC/2954/08	Vill-Hanuman Bigha,PO-Belar,Thane &Sub- Div-Gogri,Dt-Nawada-851213,Bihar	BVSc&AH/BAU/07	3.3.80
1431	Mukesh Kumar Sinha S/o Sri Upendra Kishore Prasad	JVC/532/09	Dr.Mukesh Kumar Sinha Arghaghat Rajput Mohalla Giridih-815301 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/90	23.12.66
1432	Mukesh Mishra S/o,Sri Rajendra Mishra	JVC/332/08	B-III, 470, HEC Colony, Dhurwa, Ranchi- 834004, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/95	05.06.71
1433	Mukesh Prasad Singh S/o Sri Uma Shanker Singh	JVC/419/08	47,Sisam Road,New Cable.Town,Golmuri,EastSinghbhum- 831003,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	13.01.76
1434	Mukesh S/o Sh Sh. Hoshiyar Singh	RajSVC/3484/08	E-112,Indira Nagar, Jhunjhunu- 333001,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	20.6.81
1435	Mukund Prasad Khr S/o Sh Kaniya Lal Khar	CGSVC/429/08	Veterinary Hospital, Dharsewaia,Dt- Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/94-95	10.4.70
1436	MULEY PRAMOD MADHUKAR.	MahaSVC/8114/08	At-Birsingpur,Post-Deulghat,,Maharashtra Dist.Buldhana-443001.	BVSc&AH/MAFSU/06	05-03-84
1437	MUNDHE BHARAT LIMBAJI.	MahaSVC/7963/08	'Jivandhara', Kharegaon Road,Tal.Dist.Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-12-84
1438	Mundrika Das S/o Sri Mohan Das	JVC/528/09	Dr.Mundrika Das Nawada,Jabra Simariya,Chatra -825103,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	13.03.69
1439	Muni Ranjan Singh,S/o Lat Triweni Prasad Mandal	JVC/265/08	V.S. Giridih Bhandaridih Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	01.10.50

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1440	Munish Goyal S/o Sh Ravindeer Kumar	Pb.SVC/2661/08	Sodi Amar Singh Street,Near Pathela Marbel Mukatsar-152026,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	22.1.81
1441	Munish Kumar S/o Sh Surender Kumar	HarSVC/2039	M/s Panna Lal, Sohan Singh, New Grain Market, Ismailabad Distt- Kurukshetra, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	15.6.84
1442	Munni Kurmu S/o Sano Ram Murmu	JVC/221/08	Vill-Chhotabara Mari, Bara Mari, Gamharia, Saraikela-Kharsawan, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	11.07.79
1443	Murli Dhar Jha S/o Late Bishnu Prasad Jha	JVC/554/09	Ashari Madhuri, Poraiya Hat, Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RU/66	06.12.44
1444	Mutturaj Pachannanavar S/o Ramachandrappa Pachannanavar	KarSVC/4174/08	Bhautnor -587204,Mudhol Tq, Bagalkot Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	6.6.84
1445	N.Anjireddy S/o N.Malla Reddy	APSV/4747/08	Avunoor(P),Mustabad(M),Karimnagar Dt-505404,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	18.5.84
1446	N.Braha Nandan S/o P.Natarjan	TNSVC/4195/08	Arasunilaipalayam,V.Poosaripatty PO,Manjampatty Via-Manapparai,Taluk-Trichy,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	14.1.83
1447	N.D.Rama Devi,D/o N.Vijaya Kumar	APSV/4746/08	H.No3-17C-2,P.NO.12,Radha Ng,Godavarigunta,Kakinada, East Godavari Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	16.3.83
1448	N.Danabathi S/o A. Natarajan	TNSVC/4289/08	5/13,Kamaraj Street,Senguttai,Katpadi Taluk,Vellore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.10.84
1449	N.Elamparuthi S/o P.Natarajan	TNSVC/4166/08	20/1,Kongu Ng,Elley's Ng,PO-Dharapuram Taluk,Erode-638657,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.3.85
1450	N.Jayachandra Rao S/o N.Nagendra Rao	TNSVC/4112/08	173V.K.V.Nagar,NGGO Colony,Coimbatore-621022,TamilNadu	BVSc/TNAU/75	17.2.50
1451	N.Kannan S/o V.S.Narayanāswamy	TNSVC/4127/08	6/40,Valuvar Street,Jaganatha Ng,Arumbakkam, Chennai,TamilNadu	BVSc/TNAU/85	6.2.60
1452	N.Lakshmanan S/o V.Nanjudiah	TNSVC/4143/08	14/5,Jaykamal House 14,Beast West Ward Mysore Road, Ootacamund Nilgiris,TamilNadu	BVSc/UAS Bangalore/82	17.1.59
1453	N.Madesh S/o P.Nanjunda Naidu	TNSVC/4337/08	NO.4/13,Muthampattu Vill,Doddathimanali PO,Denkaikottai Taluk,Krishangiri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.1.84
1454	N.Manichavachakan S/o M.Neelakanda Mudaliyar	TNSVC/4150/08	86/1-A, Nanmangalam Rd, Mettu Street, Nemilicherry Vill,Chrompet, Chennai	BVSc/MU/63	13.9.39
1455	N.Murugesan S/o A.Natesan	TNSVC/4404/09	Eluppantham PO,Gangavalli taluk,Salem Dt,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/97	13.5.71

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	EDUCATION	DOB
1456	N. Naganjaneyulu S/o N. Yellamanda Rao	AP SVC/4713/08	3-55, Satyannarayanapuram, Ongole , Prakasam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	12.7.85
1457	N. Nagarajan S/o G. Nagappan	TNSVC/4331/08	Bommiampatti PO, Omalur taluk, Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.7.85
1458	N. Palanikanth S/o C. Natarajan	TNSVC/4207/08	33, Velliappan Street, Gobi Taluk, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.1.83
1459	N. Pethiraj S/o V. Nalifarajam	TNSVC/4109/08	Muthusamy Naidu Street, T. Kallupatti PO, Peraiyut taluk, Madurai, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/93	13.3.68
1460	N. Poongodi S/o L. Natarajan	TNSVC/4396/09	255-A, Srinivasa Nagar, Attur Salem- 636102, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/95	14.1.72
1461	N. Rajender Reddy S/o N. Yadagiri Reddy	AP SVC/4753/08	H No. 17-186/1A, Sri Ng Colony, Prashanth tg, G.P. Siddipet, Medak, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	18.7.85
1462	N. Rama Chandran S/o M. Natesan	TNSVC/4393/09	6/13, Nanthamedu Moliapalli, PO- Truchengode Taluk, Namakkal, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/97	25.7.74
1463	N. Thungben Yanthan S/o Nehame Yanthan	NSVC/233/08	J.R.C., Dimapur, Nagaland	BVSc&AH/AAU/89	12.9.63
1464	N. Valuramathi S/o R. Nallasamy	TNSVC/4244/08	7, West Kuttupalayam, Gobi Taluk, Erode- 636002, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.3.81
1465	N. Vasantha Kumar S/o R. Nallathambi	TNSVC/4319/08	3-21, (Old NO62), Uttupalayam Iragalur PO, Srkagiri Taluk, Salem, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.2.85
1466	Nabi Hussain Ansari S/o Late Mahboob Ansari	JVC/488/09	Karharia, Balidih, Chas, Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	07.07.70
1467	Nagappa Banuvalli S/o Kushiyappa	KarSVC/4130/08	Beereshwara Housing Colony, Medleri- 581211, Ranebennur Tq, Haveri Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.5.83
1468	Nagaraja N.P S/o Pampareddy Police Patil	KarSVC/4118/08	54/A, Devinar, 2nd Cross Bellary- 583101, Bellary Tq&Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	12.8.85
1469	NAGDEOTE NARESH VIJAY	MahaSVC/7839/07	Near Shri Chakradhar Swami Mandir, Nagpur Rd Delanwadi, Dt-Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/8/81
1470	Nagendra Singh Rajput S/o Shri Lakhan Singh	MPSVC/2530/08	34/532, Gopalpura, Patwari Gali, Morena- 476005.M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	1.8.82
1471	NAGMOTE SWAPNIL GUNWANT.	MahaSVC/7803/07	Plot No.98, Bapu Nagar, Umred Road Nagpur- 09, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/4/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1472	Naian S.H. D/o E.T.Samon	KeralaSVC/3450/09	White House, TC 14/752, Observatory Lane, Thriuvananthapuram-695033, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	16.5.85
1473	NAIK PRAKASH KRISHNA.	MahaSVC/7789/07	H.NO.227, Indira Niwas, Rajaram, Galli Nittur, Tal-Chaudgad, Dt- Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/9/82
1474	Najeeb A.P S/o Pareeth	KeralaSVC/3475/09	Ayapurackal, Kalathookadavu, PO- Elappunkal, Erattupetta, Kottayam- 686579, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	7.3.85
1475	NAKADE MANGESH KRUSHNARAO	MahaSVC/7941/08	Sai Nagar, Parsoli Road, Dhimgaon Rly., Dist- Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/1/85
1476	NALE RAJENDRA PUNDALIK.	MahaSVC/7744/07	At-Dondile Male, Vill-Kolki, Tal-Phalta, Dt- Satara-415523, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	4/4/84
1477	Naman Singh Thakur S/o Sh Ram Singh Thakur	MPSVC/2576/08	Civil Lines, Thakur Colony, The-Patan, Dist- Jabalpr-483113, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	7.1.80
1478	Nand Kishore Pd. Singh, S/o Late Shri Baidhya Nath Prasad Sah	JVC/035/08	Sub Divinsional A.H Officer, Khunti, Ranchi. Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	02.07.51
1479	Nand Kumar Modi S/o Late Harihar Modi	JVC/500/09	Janki Niwash, Gandhi School Road, Ward No.14, Jhumari-Talaiya, Kodarma, Pin- 825409, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	30.06.49
1480	Nand Lal Bairawa S/o Sh Ramswaroop Bairawa	RajSVC/3479/08	VPO-Sawai Ganj, Kustala, Sawaimadhopr, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	12.7.76
1481	NANDAVADEKAR AMITKUMAR VIITHALRAO.	MahaSVC/8138/09	Shivkrupa, Dattanagar, A/P-Watangi, Tal.Ajara, Dist.Kolhapur-416504.	BVSc&AH/MAFSU/08	06/01/86
1482	Naraine D/o Sh Ramchandra Sahu	CGSVC/448/09	L.I-67, Gurward ke pecha, Tatibandh, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	24.11.84
1483	Narendra Garg S/o Shri R.P. Garg	MPSVC/2556/08	30, T.R Puram, A.B.Road, Morena-476001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	20.7.85
1484	Narendra Jaishwal S/o Sh Kamleshwari Chaudhary	BVC/2733/06	Vill-Laukha, PO+Thane-Laukha, Sub-Div- Supaul, Dt-Supaul-852110, Bihar	BVSc&AH/WBUDSU/05	23.11.76
1485	Narendra Ku Sharma S/o Sh Doongar Mal Sharma	UPSVC/4771/08	404, Anantsri, Agra, U.P	BVSc&AH/UPPDUPCVV/ 08	2.1.60
1486	Narendra Kumar Jha S/o Sri Nageshwar Jha	JVC/381/08	Int.of Ani.Heath & prod.R.V.C, Kanke, Ranchi- 834007, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	29.01.66
1487	Narendra Lal S/o Shri Jagat Ram	UVC/381/08	Vill-Gautam Ng, Po-Maidhan Chaur, Dt- Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	5.7.81

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1488	Narendra Singh S/o Sri Prahalad Singh	JVC/592/09	TVO Nirsha, Nirsha, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	22.12.62
1489	Narendra Singh Tomar S/o Shri Ratan Singh Tomar	MPSVC/2583/09	Madhav Nagar, Shivpuri (M.P)-473551	BVSc&AH/JNKVV/08	4.9.81
1490	Narendra Srivastav S/o Late Sh N.L. Srivastav	CGSVC/350/07	Vety Hospital Parishar, Dhamdhari, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/81-82	21.5.56
1491	Narendra M S/o Venkatarreddy B	KarSVC/4112/08	Gattahalli, Holur Post-563126, Kolar Tq&Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	10.3.86
1492	Naresh Kumar Mohapatra S/o Ananta Kumar Mohapatra	OrissaSVC/2246/08	At/Po- Nachinta, Via-Khantapare, Dt-Balesore-756043, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	24.4.79
1493	Naresh Kumar S/o Sh Sham Lal	HarSVC/2061	Shop No. 94, Anaj Mandi Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	13.3.84
1494	Naresh Kumar Singh S/o Sh Sohani Lal	UPSVC/4858/08	Vill-Patkhuri Te. Sareela, Dt-Hamirpur, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	5.7.81
1495	Naresh Kurechiya S/o Shri Kashiram	MPSVC/2525/08	C-19, Ashok Vihar, Tansen Road, Gwalior-474002, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	16.4.80
1496	Naresh Kuta S/o Sh Thakur Ram Khuta	CGSVC/367/08	Medhapalli Chandrupur Dt, Jajgir Champa, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	1.7.84
1497	Naresh Prasad S/o Sri Hari Prasad	JVC/380/08	Form Manager Pig Breegin Farm Kanke R.V.C, Ranchi-834007, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/81	25.06.57
1498	Narinder Singh Nara S/o ShINDER Singh	HarSVC/2024	# 137-A/22, Vikas Nagar, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/HAU/90	29.6.67
1499	Narottam Chandrakar S/o Sh Tulsi Ram Chandrakar	CGSVC/423/08	Junior M.I.G No.17, Avati Vihar, Telivada, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/88-89	30.5.63
1500	Narpal Singh Kanwar S/o Sh Bachittar Singh	HarSVC//2023	Equine Breeding Stud Farm, Hisar, Haryana	BVSc&AH/PAU/74	18.8.53
1501	NARUTE VINOD RAJARANI	MahaSVC/7871/07	A/P-Arewadi, Tal.Kavathe, Mahankal Dt-Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/12/83
1502	Natda Sanjaykumar Devdanbhai	GujSVC/2910/08	To- Latipur, Borichavas, Ta- Dhrol, Dt- Jamnagar-381220, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	11.6.85
1503	Nath Nabajyoti S/o Mr. Jalti Ram Nath	AMM/2382/08	Villi- Dakchin Chuburi, PO- Sipajhar - 784145, Assam	BVSc&AH/AAU/07	7.3.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1504	Nath Bishakha S/o Mr. R.K.Nath	ASM/2400/08	Beltola Tiniali, 4th Bye Lane, Bishnu Rabha Path, Guwahati -781028, Assam	BVSc&AH/AAU/08	7.10.84
1505	Naval Kishore Prasad, S/o Late Shri Bisheshwar Pd. Sinha	JVC/076/08	Regional Director, Ani. Hus Deptt. Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/69	15.05.50
1506	Naveen B.R S/o Rangaswamy B.T	KarSVC/4105/08	Vidyanagar, KHB Colony, Kunigal-572130, Kunigal Tq, Tumkur, Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	7.1.86
1507	Naveen Kumar S/o Sh Murari Lal	HarSVC/2054	# 124 Indira Colony, Uklana Mandi, Dist-Hisar, Haryaa	BVSc&AH/CCSHAU/08	21.10.82
1508	Navin Chandra S/o Sh Chandrashekar	BVC/2796/06	Vill- Ramchandrapur, PO-Biharsharief, Thane-Laherithane, Sub-Div-Biharsharief, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	11.9.78
1509	Navin Chandra Singh S/o Sri Ramashraya Singh	JVC/595/09	TVO Palojory, Madhupur, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	01.12.69
1510	Navin Kumar Arya S/o Sri Bhagwan Jee Prasad	JVC/513/09	TVO Jorapokhar, Dhanbad-828110, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	08.09.69
1511	Navin Kumar Gupta S/o Sh Aanadni Prasad Gupta	BVC/2953/08	Vill&PO-Pakrail, Thane-Gogri, Sub-Div-Gogri, Dt-Khagaria, Bihar	BVSc&AH/BAU/07	15.5.76
1512	Navin Kumar S/o Sh Yogendra Pd	BVC/2915/08	Vill-Makdumpur, PO-Parthu, Thane-Ekangersarai, Dt-Nalanda-801301, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	26.10.81
1513	Navinnya George D/o C.K.George	KeralaSVC/3407/09	Chovumpurath House, Opp Paravoor Public Library, Punnappra PO, Alleppey-688004, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.8.84
1514	Navneet Joshi S/o Sh Navin Chandra Joshi	RajSVC/3521/08	H.NO.302, Laxmi Nagar, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/03	26.2.78
1515	Navneet Rohilla S/o Sh Harish Chandra	HarSVC/2014	G.V.H. Obra Dist- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RKVV/02	9.10.77
1516	Nawal Kishore Singh S/o Sh Avadh Narayan Singh	BVC/2878/07	Vill-Bandhubarwa, PO&Thane-Rangarhwa, Sub-Div-Raksaul, Dt-East Champaran, Bihar	BVSc&AH/AAU/02	4.4.76
1517	Nawal Singh Rawat S/o Shri Natadiya Rawat	MPSVC/2528/08	Vill-Dhanoura, Po-Jeerabad, The - Gandhwani, Dist- Dhar-454446, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	13.3.79
1518	Nayaka Laxmanbhai Mansangbhai	GujSVC/2964/08	At-Vardhi PO- Raysingpura, Ta-Chotaudepur, Dt-Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	1.6.84
1519	Nazia Rehman D/o V.K. Abdul Rehman	KeralaSVC/3481/09	Chethikkattu House, West Veliyathunda PO, Alangad (Via), Ernakulam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.4.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1520	Neelam Tandia D/o Shri G.L.Tandia	MPSVC/2575/08	Rajendragram(Kirgi),Dist-Anoopur-484881,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	8.2.83
1521	Neeraj Arora S/o Sh Kewal Krishan Arora	RajSVC/3538/08	Ward NO.22,Gurunanak Basti,Sangaria,Hanumangarh-335063,Rajsthan	BVSc&AH/CCSHAU/08	13.2.86
1522	Neeraj Kumar Gupta S/o Sh S.N.Gupta	UPSVC/4849/08	10/53,Indira Nagar, Garutha, Jhansi, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	6.4.83
1523	Neeraj Shevashari S/o Sh L.N.Shevshari	UPSVC/4897/09	15/73,Badi Alahi Nai Ka Mandi, Agra, U.P	BVSc&AH/JLKVV/07	15.11.81
1524	Neeraj Singhal S/o Sh Ishwar Prakash Singhal	UVC/356/08	75/10A,Purvawally Opp Bhatnagar's Nursing Home, Ganeshpur,Roorkee,Haridwar,Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/87	1.7.65
1525	Neeraj Tandon S/o Sh Ramsharan Tandon	CGSVC/387/08	Qtr NO.1, Indrawati Colony,Rajatalab Rajipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	7.7.82
1526	Neetha K.Nair D/o A.Krishnankutty	KeralaSVC/3408/09	Kuzhivila House, Maikade PO, Aluva, Ernakulam -683583,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	7.10.84
1527	Neethu.V D/o P.V. Vasudvean Nair	KeralaSVC/3375/08	Ranjulee Nivas PO, Muchukunnu,Koyilandy-673307,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	1.1.83
1528	Neetu Bala D/o Sh Parshotam Lal	Pb.SVC/2656/08	Assarandi Chaki Wali Gali NrShivMandir Moga Rd, Bagha Purana Dt-Moga,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	25.6.81
1529	Neha Dabral D/o Dr.P.K. Dabral	UVC/404/08	Upper Kalabar Road, Kotdwara, Dist-Pauri,Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/08	24.6.82
1530	Neha Kapoor D/o Sh Suresh Kapoor	CGSVC/392/08	Varsha Tent House Road,Church Road, Shanti Ng, Jagdalpur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	9.6.83
1531	Neha Mishra D/o Sh Jugal Mishra	CGSVC/408/08	Smitri Ng, Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	12.2.85
1532	Neilasa Sopfu S/o Thepfunguo Sopfu	NSVC/232/08	Officers Qrt.NAPTC, Chumukedima, Dimapur, Nagland	BVSc&AH/AAU/95	6.11.71
1533	NEMADE GAJANAN SOPAN.	MahaSVC/7796/07	C/o Shri S.T.Nemade, A/P-Nandgaon,Tal-Bodwad,Dt-Jalgaon,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/11/83
1534	Nibin Jose S/o K.V. Joseph	KeralaSVC/3373/08	Kaniparambil House, Cherupuza PO, Kannur-670511,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	19.12.83
1535	Nidhi Samania S/o Sh Vijay Kumar	HarSVC/2060	#1090/144, Gali NO.3, Mill Gate, Vinod Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	15.6.85

1536	Nidhi Tiwari D/o Sh Amit Kumar Tiwari	CGSVC/365/08	11-A Street -13,Section 10, Bhilai,Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	29.1.81
1537	Nidhin Raj S/o C.K. Rajan	KeralaSVC/3409/09	"Nidhi"TC 8/1790 (4),Leshmi Ng,Thirumala PO,Thiruvananthapuram-695006,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.12.84
1538	Nidhish Francis S/o T.V.Francis	KeralaSVC/3317/08	Thottappilly House,Bhavana Nagar,Angamaly PO, Ernakulam-683572,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	21.9.83
1539	Nihal Singh S/o Sh Samay Singh	RajSVC/3492/08	VPO-Kheri, The-Ramgarh,Alwar,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	21.4.84
1540	Nikesh Kiran K.R S/o B. Ravi	KeralaSVC/3490/09	Sreevilasom Bunglow,Kuzhivilakom,Kottukal PO, Thiruvananthapuram-695501,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.5.84
1541	Nikunj Kumar S/o Sh Surrendra Nath Sharma	Pb.SVC/2785/08	9, Maya Nagar, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/PAU/90	20.2.68
1542	Niladri Prasad Satapathy S/oSh Bijoy Ku Satapathy	OrissaSVC/2254/08	At/Po-Kalyani Nagar,At/Dt-Cuttack-13,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	3.7.82
1543	Nilendu Bimal S/o Sh Raghubar Pd Sah	BVC/2765/06	Vill+PO-Belamegh,Thane-Ujiyarpur,Sub-Div- Samastipur,Dt-Samastipur,Bihar	BVSc&AH/OUAT/06	22.2.74
1544	Nileshkumar Kumbhakar S/o Sh Radhyashyam Khumbhakar	CGSVC/438/09	Vill&PO-Aamahi,The&Dt- Dhamtari,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	30.7.83
1545	NIMKAR DHANANJAY DNYANESHWAR	MahaSVC/7836/07	50,Sangani Press, Bhaji market Rd,Darwha,Dt- Yavatmal,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/5/83
1546	Ninder Kaur D/o Sri Harbans Singh	JVC/303/08	W/o Vimal Kumar Trivedi, Flat No. CD-3, Sector-3, HEC Colony, Dhurwa, Ranchi- 834004, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	16.08.76
1547	Ningappa Olekar S/o Honnappa	KarSVC/4200/08	No.256,Neralgi,Haveri-581108,Haver Tq&Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	14.2.83
1548	Nipun Thakkur S/o Sh Prem Singh Thakkur	Pb.SVC/2845/08	VPO-Dondoh The-Dt- Hoshiarpur, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/08	4.12.84
1549	Nipur Thakur S/o Sh Jeet Singh Thakur	HPSVC/845/08	Vill&PO-Daulatpur C howk, The -Amb Dist- Una, H.P -177204	BVSc&AH/CSKKVV/08	4.12.83
1550	Niraj Kumar Chanchal S/o Sh Vidyanand	BVC/2845/07	Vill+PO-Parthu,Thane-Ekangersarai,Sub-Div- Hilsa,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/VVU/06	23.11.82
1551	Niraj Kumar S/o Sh S.S.Sachan	UPSVC/4867/08	Rajendra Ng,Nr,Sangam Market, Pukhrayan,Kanpur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	17.11.81

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS		
1552	Niraj Kumar Verma, S/o Dr. Brajnandan Pd. Verma	JVC/090/08	Touring Veterinary Officer, Ratu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	27.09.67
1553	Niranjn Kumar Nirala S/o Sri Ramhari Prasad	JVC/399/08	Touring Vety Office, Bolwa, Simdega, Jharkhand	BVSc&AH/MAFSU/05	01.01.79
1554	Niranjn Kumar Sinha S/o Late Alakh Narayan	JVC/490/09	Q.No.15/4, University Colony, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	28.04.57
1555	Nirish Chandra Shahu S/o Sh Badri Pd Shahu	UPSVC/4837/08	Vill&PO-Kamsin Dt,Banda,U.P	BVSc&AH/PU/07	28.3.82
1556	Nirmal Devid Bara S/o Sri Nikolas Bara	JVC/582/09	Bendora, Kirto Toli, Chainpur, Gumla-835206, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/04	08.04.79
1557	Nirmal Kumar Singh S/o Sh keshav Pd Singh	BVC/2767/06	Vill-Sunderpur, PO-Bahachauki, Thane- Dharhara, Sub-Div-Munghar Sadar, Dt- Mungher, Bihar	BVSc&AH/OUAT/06	25.1.79
1558	Nirmala R D/o Sri Ramalingaiah	KarSVC/4188/08	C.K.Pura Main Rd, Chitradurga- 577501, Chitradurga Tq & Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	18.3.85
1559	Nirupama Dalai D/o Anirudhra Dalai	OrissaSVC/2218/08	At/PO-Bankasahi, Dt-Bhadbhadrash- 756100, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	19.6.82
1560	Nisanth M.Prabha S/o M.M.Prabharan	KeralaSVC/3486/09	Moozhickal House, Poothakkavu (Via), Vazhithala PO, Thoodupuzha-685583, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.5.83
1561	Nisar Ahmed S/o Mohd. Islam	UPSVC/4751/08	Vill-Kausauri, PO-Kalwari, Dt-Basti, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	10.6.79
1562	Nisha K.J D/o Ittiachan N.P	KeralaSVC/3381/08	Kolengaden House, Opp Firestatin, Kadavancode, Tattamangala, Palakka d-678102, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	24.5.84
1563	Nisha Patel D/o Dr.S.K.Ambawatiya	MPSVC/2531/08	F-51 Veterinary Campus, A.B.Road, Shajapur- 465001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	6.2.83
1564	Nisha.M D/o Ramakutty.M	KeralaSVC/3425/09	Madampath House, Pathaikkara (PO), Perinthalmanna (Via), Malappuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	8.2.85
1565	Nishant Kumar S/o Sh Ashok Prasad	BVC/2823/06	Vill&PO-Nehusa, Thane-Harnauth, Sub-Div- Biharsharief, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/JNAU/06	10.11.83
1566	Nishant Verma S/o Sh Dayal Singh Verma	HPSVC/836/08	Vill&PO-Dalash, The. Ani, Distt-Kullu, H.P - 172025	BVSc&AH/CSKKVV/08	23.2.83
1567	Nishat Ahmed S/o Md Sirazul Haque	BVC/2876/07	Vill&PO-Musapur, Thane-Koda, Sub-Div & Dt- Katihar-854108, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	26.3.80

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1568	Nishi Kiran Verma W/o Sri Anil Kumar	JVC/425/08	C/o Sri Sheo Singh,Nr.Patratu,Block,Patratu,Ramgarh,Haza ribagh,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	20.06.68
1569	Nishi Prabha Hansda D/o Sri Narayan Hansda	JVC/427/08	Gangtia Kalyanchak,Taljhari,Rajamajal,Taljhari, Rajmajal,Sahibganj,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	13.04.82
1570	Nitendra Singh S/o Sh Phool Chand Singh	UPSVC/4893/09	Vill-Paguar (Ramiganj),Sankarghar,Dt- Allahabad,U.P	BVSc&AH/IGKVV/09	19.5.83
1571	Nithinprabhu K S/o Chandrakantha Prabhu K	KarSVC/4152/08	Opp-Bus Stand,Sullia Post - 574239,Dakshinakannada Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	26.4.86
1572	Nithna. K.Baburaj D/o K.Baburaj	KeralaSVC/3410/09	"Nisarga"Thanthode,Iritty PO,Kannur,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	1.5.84
1573	Nitika Sharma D/o Yash Pal Sharma	UPSVC/4900/09	Durga Puri Colony,PO-Janaura,Dt- Faizabad,U.P	BVSc&AH/AAU/05	22.4.80
1574	Nitin Gautam S/o Sh Hari Kumar	UPSVC/4785/08	786,G.N.13,Ambedkar Vihar,Meerut Road,Hapur,Ghazipur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	13.9.81
1575	Nitin Gautam S/o Sh Madan Lal Gautam	Pb.SVC/2828/08	H.NO. 419- a coart Road Sabzi Mandi,Kapurthala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	5.01.84
1576	Nitish Kumar S/o Sh Satyanarayan Pd Singh	BVC/2815/06	Vill-PO-Sartha,Thane-Chandi,Sub-Div-Hilsa,Dt- Nalanda,Bihar	BVSc&AH/JNAU/05	15.3.75
1577	NITURE GANESH SIDHAPPA.	MahaSVC/7903/07	Niture Niwas, Dam Road, Udgir,Dt- Latur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/3/85
1578	Nityanand Patha S/o Sh Indrakant Pathak	BVC/2963/08	Vill-Harduar,PO-Pali, Thane- Ghanshyampur,Sub-Div-Piraul,Dt- Darbhanga,Bihar	BVSc&AH/SVVU/07	3.5.79
1579	Nosad Ahmed S/o Late Sh Imtiyaj Singh	UPSVC/4845/08	Vill&PO-Harripur,Amariya,Dt-Pibibhit,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	9.8.81
1580	OHAL AJAY GORAKH.	MahaSVC/8081/08	A- Block 443/885,Subhash Tekdi Road, Ulhasnagar,Tal.Ulhasnagar, Dist.Thane-421004.	BVSc&AH/MAFSU/08	07/11/83
1581	Om Narayan Gupta S/o Sh Rameshwar Pd Gupta	BVC/2865/07	Vill+PO-Tandwa, Sub-Div & DT-Aurangabad, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/06	8.12.74
1582	Om Prakash Pandey S/o Sri Ganesh Pandey	JVC/476/09	401,Sharda Enclave,Indira Path Shukla Colony,Hinoo,Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/83	15.07.60
1583	Om Prakash Singh S/o Sh Yugesh Singh	BVC/2779/06	Vill-Dehri,PO-Satgawan,Thane-Kutumba,Sub- Div-Dt-Aurangabad,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/06	3.9.78

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1584	Om Prakash Sinha, S/o Dr. Ramjiwan Sinha	JVC/077/08	20 Arpit Apart, JC Road, Lalpur, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	25.01.58
1585	Om Prakash Yadav S/o Sh. Hans Raj Yadav	UPSVC/4754/08	VIII&PO-Khanjahanpur, Dt-Azamgarh, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	12.6.77
1586	Omprakash S/o Ramlal	CGSVC/437/09	VIII-Labji, Dt-Sarguja, Po-Bitrikala- 497001, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/07-08	2.2.84
1587	Omprakash Verma S/o Sh. R. C. Pd Verma	UPSVC/4786/08	VIII&PO-Jangipur, Dt-Ghazipur, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	20.2.81
1588	Othy Shivashankar S/o Othy Vishwanath	KarSVC/4203/08	17-04-320/1, Anandanagar, CMC Colony, Gumpa, Bidar-858403, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	10.9.85
1589	P.A.Jayaraman S/o V.S.Arumugadoss	TNSVC/4120/08	116 G 66, Sharon Rose, Cottage, Tamil Nagar, T. Nagar Rd, Madras, TamilNadu	BVSc/MU/68	2.9.44
1590	P.Anandababu S/o R.Poomalai	TNSVC/4250/08	71-A/9, Sakthi Street, R.Pathinam, PO- Rasipuram taluk, Namakkal, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.6.86
1591	P. Anviksevan S/o T.Panchanathan	TNSVC/4281/08	Perapothinthanailur Village, Anaikudam PO, Udayarpalayam taluk, Aiyalur, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.7.84
1592	P. Anand S/o V.Paleesamy	TNSVC/4198/08	Kambraj Nagā (West), Uthangarai, Krishnagiri Dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.6.85
1593	P. Chaitanya S/o P.V.Subba Reddy	APSVC/4682/08	Sreeramulapte(V), Obula Reddy Pet (P), Chapadu (M), Kadapa Dt-516172, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	11.6.85
1594	P. Deepthi D/o P.Sanjappa	APSVC/4708/08	H.No.51/1044A, Sita Ram Nagar, Kurnool- 518003, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	4.2.83
1595	P.Dhana Lakshmi S/o R.Perumal	TNSVC/4260/08	57/46, Mengil's Road, Nagal Nagar, Dindigul- 624001, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.6.84
1596	P.Dickson S/o J.Paul Rajanyagam	TNSVC/4145/08	Eshil Nesa Pinon, The Good Samaritan School, 1/1 Srinivasa Ng, Palayamkottai, Tirunelveli- 620001, TamilNadu	BVSc/TNAU/83	12.5.60
1597	P.Gnanasekar S/o R. Perumal	TNSVC/4361/08	2/36-A, South Street, Periyapatti PO, Namakkal Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.6.86
1598	P.Gokula Krishnan S/o K.Palanisamy	TNSVC/4238/08	6/141-A, Anna Street, Kalingarayanpalayam, Bhavani Po, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.3.84
1599	P.Gopal s/o M.Palaniappan	TNSVC/4280/08	47, Jangamanickenpatti, Villipalayam PO, Paramathivelur taluk, Namakkal Dt, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	14.4.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1600	P.Guru Packiam S/o M.Pilliar Mooppanar	TNSVC/4090/08	364 (Old NO.280-A),Sivakamipuram Street,Rajapalayam Virudhung,TamilNadu	BVSc/TNAU/78	10.11.53
1601	P.Hemalatha D/o P. Venkatrajam	APSVC/4737/08	Near Shivalayam, Jammikunta (Old)(P&M),Karimnagar Dt,A.P	BVSc&AH/SVUU/08	6.6.84
1602	P.Jayavel S/o K.Periyannan	TNSVC/4124/08	2/50,Erankadu,Masakkalipatty,PO- Rasipuram, Namakkal,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/94	5.3.71
1603	P.Jeyavel S/o P.A.S.Palani Velayudham	TNSVC/4113/08	15-AC,Sankaralingam Street, Virudhung- 626001,TamilNadu	BVSc/MU/71	28.6.46
1604	P.K.Chaudhary S/o Sh M.S. Chaudhary	UPSVC/4861/08	Vill&PO-Kudar,Dt-Mahoba,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	21.9.79
1605	P.K.Shrivastava S/o Sh A.L. Shrivastava	UPSVC/4733/08	3/24,New Bahar Sahara Estate,Jankipuram,Lucknow,U.P	BVSc&AH/CSAU&T/78	20.10.54
1606	P.Kalyani D/o P.V. Suobaiah	APSVC/4674/08	H.NO.12-15- 652,M.K.Nagar,O.U.Campus,Hyderabad- 07,Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/05	17.8.79
1607	P.Kamalanathan S/o P.Perumal	TNSVC/4171/08	32A, Perumal Koil Street, T.Elamangalam, Thittaguid PO&Taluk-Cuddalore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.6.85
1608	P.Karthik S/o M.Palaniappan	TNSVC/4279/08	Puthur(Nathakadu)Veligoundampatti PO,Namakkal PO,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.5.85
1609	P.Karuna Moorthy S/o N.Perumal	TNSVC/4139/08	Esani-S.O.,Perambalur,Dt-621219,TamilNadu	BVSc/TNAU/77	17.11.50
1610	P.Kumaravel S/o A.K.Palanivel	TNSVC/4154/08	Arasampalayam, Thottiyapatti,PO- Tiruchengode Taluk,Namakkal,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.1.83
1611	P.M.Settu S/o P.Mani	TNSVC/4093/08	Perumal Koil Street, Old Pet Harur Taluk,Dharmapur,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/01	10.7.77
1612	P.Meganath S/o R.Parameswaran	TNSVC/4315/08	208,Perumal Koil Street,Ramanthapuram,Cominbatore,Tamilna du	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.2.84
1613	P.Mohankumar S/o M.Paul Samy	TNSVC/4390/09	45,M Manaparai Patty Road, Manaparai,Trichy,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/89	5.11.66
1614	P.Nallamuthu S/o Pongianna Gounder	TNSVC/4400/09	Aathikkattu Thottam,Kavundichipalaym PO,Vellode Via,Erode RMS,Tamilnadu	BVSc/MU/68	4.1.44
1615	P.Nithiyavalli S/o K.Palanisamy	TNSVC/4190/08	38,lind Cross Street,Sathy Rd,Kavandapadi Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.5.84

SNO	NAME	POST	RESERVE	MARKS	REMARKS
1616	P. Pandu Ranga Reddy S/o P. Chinna Rangaiah	APSVC/4692/08	Khajipuram (V&P), Bestawaripeta (M), Prakasam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	5.5.85
1617	P. Pavan Kumar S/o P. Satyanarayana	APSVC/4807/08	Chekka Vari Peta, Neelapalli East Godavari Dt, A.P	BVSc&AH/PU/08	20.5.85
1618	P. Prabu S/o D. Panneerselvam	TNSVC/4225/08	27, M.M. Nagar, Sholinghur, PO-Vellor- 631102, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.3.85
1619	P. Prasath S/o P. Ponnusamy	TNSVC/4309/08	2/147, (Old NO. 2/109), Samberi SarvoyyudurAthur, Taluk-Salem- 636121, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.6.84
1620	P. Pushpa Latha S/o P. Pandurangan	TNSVC/4288/08	4/18, Middle Street, Mazhavanthagal PO, Villupuram-605701, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.7.83
1621	P. R. Venkatesh S/o P. K. Ramachandran Iyer	TNSVC/4096/08	Ramani NO. 4, (Old NO. 44), Venkatartnam Ng, Extension, Adyar Chennai, TamilNadu	BVSc&AH/CSAUA&T/83	12.7.61
1622	P. Rajaram S/o V. Paramadayalan	PondiSVC/315/08	NO. 37, Mangali Amman Koil Street, Mudaliaarpet, Puducherry	BVSc&AH/PU/07	16.8.84
1623	P. Ramakumar S/o M. Periyannan	TNSVC/4282/08	Kadathikulamedu, A. Mallapuram Palacode taluk, Dharampuri Dt, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	6.4.85
1624	P. Ramesh S/o P. Sankarudu	APSVC/4789/08	Thokalapudi (V&P), Veeravasaram (M), West Godavari Dt-534247, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	14.6.85
1625	P. Sakthi Puornima S/o M. Thayanithi	TNSVC/4274/08	53/42, Subramaniam Pillai, Street, Singanallur, Coimbatore-5, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.11.86
1626	P. Shiva Kumar S/o P. Pullaiah	APSVC/4734/08	Thipparthi (V, M&P), Nalgonda Dt-508247, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	10.4.85
1627	P. Sreenivasa Reddy S/o P. V. Subbarreddy	APSVC/4677/08	Ankabhupalem(V), Papinenipally (P), Aradhavedu (M), Prakasam Dt - 523335, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	21.8.83
1628	P. Srinivas Reddy S/o P. Chennareddy	APSVC/4760/08	H. NO. 6-634, Ramnagar, Miryalaguda, Nalgonda Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	7.5.84
1629	P. Srinivasu Reddy S/o P. Veera Reddy	APSVC/4729/08	Malyavanthunjpada (P), Markapuram (M), Prakasam Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.3.83
1630	P. I. Divya S/o P. Thangavel	TNSVC/4365/08	170 (New NO. 51), Palanimuthu Rd, Ammapet, Salem-636003, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.8.85
1631	P. TamilSelvi S/o K. Palani	TNSVC/4316/08	Pavaikulam, Arasadikuppam, PO-Panruti Taluk- Cuddalore Dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	5.5.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	
1632	P.Uma Devi D/o P.Prathap Reddy	APSVC/4727/08	D.No.1/153,Chukkalu (P),Tadpatri, Anantapur-515415,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	3.6.83
1633	P.Vamshi S/o P.Satyanarayana	APSVC/4791/08	H.NO.1-469,Sadananda Colony, Bheemaram,Hanamkonda,Warangal Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.1.82
1634	P.Vasudevi S/o P.Perumal	TNSVC/4350/08	Mathahalli Parparapatti PO,Pennagaram taluk,Dharampuri Dt,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.5.84
1635	P.Venkatesh Prabhu S/o K.Palanichamy	TNSVC/4221/08	134,Kuppayee Valasu,Porulur PO,Oddanchatram Taluk,Dindigul,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.7.84
1636	P.Vidyashree S/o Ponnudurai.K	TNSVC/4344/08	Kalleripatti PO,Attur taluk,Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.9.84
1637	P.Yuvarajan S/o N.Palanisamy	TNSVC/4323/08	84, South Street,Nanjai Utukuli PO,Erode- 638104,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.4.85
1638	Padalkar Ravindra Dattatraya S/o Sh Padalkar Dattatraya	KarSVC/4084/07	Qtr.No.B-4,UASCampus,P.O-329,Raichur- 584101,Karnataka	BVSc&AH/MAU/77	21.2.55
1639	PADAVE SUDARSHAN GOPAL.	MahaSVC/7901/07	Veterinary Polyclinic, Staff Qtrs Building NO.2,Ramnath Rd,Ramnath Tal Aibag,Dt- Raigad,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/5/84
1640	PADHYE ISHWARIPRASAD ANANTRAO.	MahaSVC/8104/08	78, H.B.Estate,Sonegaon,Opp. Sonegaon Tank,Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/PRKVV/72	09-05-4
1641	Padmabhushan Prasad S/o Sh. Nandkishore Pd.	JVC/196/08	Kunda, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/90	10.10.6.
1642	PADOL AMOL RAMDAS	MahaSVC/7991/08	At. Domrul. Post. Dhamangaon.(Dhad)Tal.& Dist. Buldana,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	20-04-8.
1643	PADWAL NAVNATH POPAT	MahaSVC/7973/08	A/P-Golegaon,Tal.Shirur,Dist.Pune- 412210,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	12-1-85
1644	Pallavi Rai D/o Sh Arvind Kr Rai	UPSVC/4847/08	Vill&PO-Khaira Bannwan,Dt-Deoria,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	10.9.84
1645	Pami Kumari D/o Sh Rajendra Prasad Sinha	BVC/2829/07	Vill-Dekpura,PO-Mira Talab,Thane-Rahul,Sub- Div-Biharsharief,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/JNAU/06	1.3.80
1646	Panchal Vijaykumar Pranla	GujSVC/2965/08	35,Harekrashana Societym Nr.Jain Temple,Dt- Mehsana, Gujrat	BVSc&AH/SDAU/08	9.10.85
1647	Panchal Devang Hariprasad	GujSVC/2990/08	F-30/430,Utsav Apptt. Opp-Bhavsar Hostel, Nava Vadaj,ABD-380013,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/02	7.6.80

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1648	PANCHBHAI GIRISH JAGANNATHARAO.	MahaSVC/8109/08	A/P-Sirsala, Tal.Parli (V),Dist.Beed- 431128,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20-02-82
1649	PANDAO SUSHIL PRAKASHRAO	MahaSVC/7816/07	Shriram Krupa, Bande-Garden Ring Rd,Indira Squire,Warud,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	11/1/84
1650	Pandey Shobhna S/o Sh Shekhar Kr. Pandey	ASM/2376/08	Girls Hostel NO.1, CVSc,Khanapara,Guwahati- 22,Assam	BVSc&AH/AAU/08	14.3.85
1651	PANDYA MOHITKUMAR MADHUSUDAN.	MahaSVC/7893/07	603, Heena Regancy, Main Kasturba Rd,Opp- Parmar Hospital,Borivali(E),Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	
1652	PANDYA UNNATI DHIREN.	MahaSVC/8131/09	A- 1,201Manek,C.S.Road,Dahisar(E),Maharashtr a Mumbai-400068.	BVSc&AH/MAFSU/07	14-05-83
1653	Panjeet Kumar Verma S/o Sh Pankaj Kumar	BVC/2809/06	Vill-Guria, PO-Guriapukri,Thane- Imamganj,Sub-Div-Sherghati,Dt-Gaya,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	22.12.73
1654	Pankaj Jha S/o Chandranand Jha	BVC/2774/06	Vill+PO-Shahpur,Thane-Sonbarsra Ra Sub-Div- Saharsa-852129,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	1.4.82
1655	Pankaj Kumar S/o Sh Mana Ram	HarSVC/2077	Vill- Niwaj Nagar, PO- Dharspon, The - Narnaul, Distt-M/garh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	28.8.83
1656	Pankaj Kumar Gupta S/o Shri K.N.Gupta	MPSVC/2557/08	C/o Rohit Medical,PO-Birpur,Dt-Shepur- 476335,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	7.3.82
1657	Pankaj Kumar Mishra S/o Sh Lalbabu Mishra	BVC/2906/07	Vill-Chupchupwa,PO&Thane-Marwa,Dt- Siwan-841239,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	3.7.82
1658	Pankaj Kumar Pathak S/o Shri Rajit Ram Pathak	UVC/348/08	Vety Hospital, Dhaulachina Dist-Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/UAS,Dharwad/ 99	8.1.72
1659	Pankaj Kumar S/o Sh Aanandi Prasad	BVC/2763/06	Vill-Bhakni Bigha,PO-Aunda,Thane-Sare,Sub- Div-Biharsarfi,Dt-Nalanda-803101,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	21.11.81
1660	Pankaj Kumar S/o Sh Mana Ram	RajSVC/3541/08	Vill- Kanra PO-Chudian,The- Bhuana,Juunjhun,Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/98	28.8.83
1661	Pankaj Kumar S/o Sh R.K.Sachan	UPSVC/4790/08	Javahar Ng, Ghatmpur,Kanpur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	5.2.80
1662	Pankaj Kumar S/o Sh Niram Kumar Singh	BVC/2951/08	Vill-Maulabag Arra,Nr.Yadav High School,PO&Thane-Nawada,Bhojpur Arrah,Dt--Bhojpur,Bihar	BVSc&AH/BAU/07	10.3.79
1663	Pankaj Kumar Singh S/o Sh Kedar Narayan Singh	BVC/2898/07	Vill&PO-Rakia,Thane-Bihra,Dt-Saharsa- 852110,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	11.1.76

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1664	Pankaj Kumar Singh S/o Sri Maheshwr Singh	JVC/537/09	Abadganj, Daltonganj Palamu-822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	04.03.72
1665	Pankaj Kumar Sinha S/o Dr. Surendra Kumar Singh	JVC/309/08	C/o Dr. Surendra Kumar Singh, Moh-Uppar Bilasi, B. Deoghar-814112, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	14.10.76
1666	Pankaj Seth S/o Shashi Bhushan Seth	JVC/572/09	Oredaru, Landupdih, Sonahatu, Bundu, Ranchi-835225, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	01.01.77
1667	Pankaj Siag S/o Sh Madan Singh Siag	RajSVC/3527/08	H.NO.-4,Nagouri Colony,Shri Ganganagar- 335001,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	10.8.83
1668	Pannalal Popadiya S/o Sh Kanji Popadiya	CGSVC/404/08	Directorate PO, Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/85-86	4.8.63
1669	Pappu Kumar S/o Vijay Sharma	JVC/288/08	H.No.3, Block No.343/2, Road No.27, Aditayapur Colony, RIT Gamharia, Saraikeia- Kharsawan,-831013, Jharkhand	BVSc&AH/MAU/01	14.01.75
1670	Parayankar Nath S/o Sh Amar Nath	UVC/434/08	H.No.67,JVG Colony Jamalpurkala Jwalapur, Dt-Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/00	16.4.78
1671	Pardeep Sharma S/o Sh Krishan Chand	HPSVC/851/08	Vill- Bhatad, PO- Zakatkhana, The- Shree Naina Devi, Bilaspur	BVSc&AH/CSKVVV/08	8.3.85
1672	PAREKAR SUSHANT SHAHAJI	MahaSVC/7851/07	A/P.-Arewadi, Tal-Kavathe-Mahankal,Dt- Sangali,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/9/83
1673	Paresh Kumar Mishra S/o Sarat Kr Mishra	OrissaSVC/2251/08	At-Purusottampur, PO-Balikhanda, Dt- Balasore-756166,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	22.4.85
1674	PARMAR CHETAN BHARATKUMAR.	MahaSVC/7891/07	Old Prabhuniwas, 3/4, Lajpatrai Rd,Vileparle(W), Mumbai,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/10/84
1675	Parmar Dilipkumar Vasantkumar	GujSVC/2966/08	At&Po- Dantiwada, Opp-Banas Bank, Dantiwada,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	24.8.83
1676	Parmar Dipjaykumar Jagmalbhai	GujSVC/2911/08	To- Sukhapur, Ta-Maliya (hatina),Dt- Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	7.4.85
1677	Parmar Hareshkumar Prakshbhai	GujSVC/2967/08	76, Arbudanagar,Behind Shantidan Gadhavi Bunglow,AT&PO- Palanpur,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	15.2.86
1678	Parmar Jignesh Jayantilal	GujSVC/2968/08	C.H.C Staff Qtr.,CHC Sankheda,Ta- Sankheda,Dt-Vododara,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	12.3.83
1679	Parmar Sanjaykumar Tejalal	GujSVC/2969/08	AT&Po-AsaragamTa-Vav,Dt- Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	5.9.83

SNO	NAME	RNUWT	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1680	Parmar Saurabhkumar Meghalal	GujSVC/2912/08	81/A, Shakit Park Society, Varadhary Road, At-Lunawada, Dt-Panchmahals-389230,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	21.5.86
1681	Parmeswari Dayal D/o Sh Madan Pal	UPSVC/4784/08	Vill&PO-Bunera Panwari,Dt-Mahoba, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	20.8.82
1682	Parminder Singh S/o Sh Naginder Singh	Pb.SVC/1363/08	Vill-Naudharani,PO-Malerkotla,Dt-Sangrur-148002,Punjab	BVSc&AH/PAU/90	15.10.62
1683	Parmod Kumar Kosariya S/o Sh Uttam Kumar Kosariya	CGSVC/417/08	Vill&PO-Sajapali,Via-Saraipali,Mahasumand,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	6.9.70
1684	Parmod Kumar Namdev S/o Sh Shyam Lal Namdev	CGSVC/377/08	Vill&PO-Podhara(Kansavala)Jaspur Nagar,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	3.3.83
1685	Parmod Kumar Sharma S/o Sh Rajendra Prasad Sharma	MPSVC/2532/08	225/38,Keshaw Coloney,Morena-476001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.12.81
1686	Parmod Kumar Tripathi S/o Sh Ganga Prasad	CGSVC/351/07	B-7/44B Type Sodripara,Chimiri Korba,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/88	1.9.64
1687	Parmod Ratra S/o Sh Magtu Ratra	CGSVC/376/08	Vill&PO-Kishari(S),Via-Chandrapur,Jansgir,Champa,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	31.9.80
1688	Parvathy Thampi D/o S. Udayakumar Thampi	KeralaSVC/3474/09	Kailas,Kairali Ng,Moolepadam Rd,Kalamassery,Aluva, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.10.84
1689	Parveen Kumar S/o Sh Ram Niwas	HarSVC/2053	VPO - Mandana, Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	18.8.83
1690	Pashupati Kumar S/o Sh Harinarayan Chaudhary	BVC/2750/06	Vill-Shovni,PO-Jahangir Tola,Thane-SubDivision-Dt-Khagaria-851204,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	17.12.79
1691	PATANKAR RAMESHWAR BHUJANGRAO	MahaSVC/7811/07	A/P Jarud, Tal-Warud, Dt-Amravati,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	26/1/84
1692	Patel Hareshkumar Prahladbhai	GujSVC/2973/08	Ambica Society-2, At-Jagudan,Dt-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	25.3.84
1693	Patel Lomesh Shirishbhai	GujSVC/2918/08	B-160, Vrundavan Park, B/H-Brigh School, VIP Road, Kadelibaug, Vadodara,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	2.10.85
1694	PATEL SHAILESHKUMAR KALUBHAI.	MahaSVC/7780/07	20,A-3,Highway View Build,Kurar,Tal-Malade Dt-Mumbai (M.5)	BVSc&AH/MAFSU/07	25/5/85
1695	PATEL AJIT ASHIF.	MahaSVC/7806/07	Anand Nagar, Kaulikhed Rd,Hingna,Phata,Akola,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	2/8/82

SNO					
1696	Patel Ankitkumar Virabhai	GujSVC/2913/08	To- Jetalvasana, Ta- Visnagar, Dt-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	18.4.86
1697	Patel Ashishkumar Prahlabhai	GujSVC/2935/08	F/16,Saundarya Appt.Nr.C.P.Nagar- II,Ghatiadiya,Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	7.11.84
1698	Patel Ashruna Ashokkumar	GujSVC/2914/08	Prasana Party Plot, Khed Teasiya Road, Himmatnagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	23.1.86
1699	Patel Avinash Jadhavbhai	GujSVC/2915/08	11/Laxmi Gali, At-Post,Ta-Tapi,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	17.7.84
1700	Patel Chetankumar Naranbhai	GujSVC/2970/08	16/4,Sardarkrishinagar,Dantiwada, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	7.8.85
1701	Patel Chuiragkumar Jayantibhai	GujSVC/2971/08	Zinipol, Ta-Patan, Dt-Patan, Gujrat	BVSc&AH/SDAU/08	2.10.85
1702	Patel Hardikumar Amrutal	GujSVC/2972/08	D+E,E-8/2,SDAU,S.K.Nagar, Ta-Dantiwada,Dt- B.K-385506,Gujarta	BVSc&AH/SDAU/08	30.12.85
1703	Patel Harshadkumar Vishnubhai	GujSVC/2974/08	MotoMadh At-Malekpur, Ta-Vadnagar,Dt- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	5.11.85
1704	Patel Himanshu Arvindbhai	GujSVC/2975/08	Vanabhani Khadki, At-Vastral, Ta-Daskroi,Dt- ABD,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	8.7.86
1705	Patel Jigneshkumar Bhemabhai	GujSVC/2916/08	GSECI Colony,III/31/5,Wanabori Dt, Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	17.8.86
1706	Patel Jigneshkumar Manubhai	GujSVC/2936/08	Kashipura Dalwad Vadi,B/h Ramji Mandir,Borsad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	6.12.83
1707	Patel Ketankumar Ganeshbhai	GujSVC/2976/08	13,Snehkunj Society, Opp-Sport Club,Gayatri Mandir Rd, Deesa-385480,Gujaat	BVSc&AH/SDAU/08	29.7.86
1708	Patel Ketankumar Navinchandra	GujSVC/2977/08	80,Balol Nagar, Society,Ranip,ABD- 382480,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	12.5.86
1709	Patel Kulin Kirikbhai	GujSVC/2917/08	45, Shyamvihar-II,N/R Tushi Bunglows,Radhanpur,Road, Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	4.8.86
1710	Patel Mehulkumar Chandubhai	GujSVC/2978/08	Bhavanpura, Ladol,Ta- Vijaypur, Dt-Mehsana- 382866,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	31.10.83
1711	Patel Nikilkumar Natvarbhai	GujSVC/2918/08	Block No.119/10, 'CH' Type,Sec- 22,Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	19.8.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS		
1712	Patel Nitinkumar Shankarlal	GujSVC/2989/08	At-Sardarkrishnagar,Dantiwada,Dt-B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	14.4.83
1713	Patel Piyushkumar Jayantibhai	GujSVC/2920/08	F-7,Suvas App.,Nr Golab Tower, Sola Road, Thattej,A'bad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	3.1.86
1714	Patel Rajanikant Jaantibhai	GujSVC/2921/08	At&PO-Boroi,Ta- Bayad,Dt-S.K.-383330,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	28.2.86
1715	Patel Rinaben Rasiklal	GujSVC/2979/08	Mailvassa,Nr-Jain Temple, Langhanaj, Ta-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	15.1.85
1716	Patel Ritesh Kumar Somabhai	GujSVC/2980/08	AT&PO-Gagiasan,Ta-Sidhpur,Dt-Patan-384151,Gujrat	BVSc&AH/SDAU/08	7.1.83
1717	Patel Sanjay Natubhai	GujSVC/2939/08	19 Swadhyaya Society,Dandiya Faliya,Valsad-391101,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	23.5.84
1718	Patel Satishkumar Dwarkadas	GujSVC/2922/08	At&PO-Vadrad,Ta-Prantij,Dis-S.K.-383205,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	1.6.86
1719	Patel Tejas Purushottambhai	GujSVC/2981/08	48/412,Qtr., S.K.Nagr,Ta-Dantiwada,Dt-B.K-384106,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	11.11.85
1720	Patel Vinod Chandubhai	GujSVC/2942/08	At-Chopada,Nr Water Tank, Patel Faliya, Ta-Lunawada,Dt-Panchmahal,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	15.7.82
1721	PATHAN ABDULRAHIM SIKANDER	MahaSVC/7993/08	Plot No. 13,Opp. Chaitravel Appartment. Vidyanagar,Ajinkyntara Road. Godoli .Dist. Satara 415001	BVSc&AH/MAFSU/08	04-06-85
1722	PATHARKAR SHRINIWAS CHANDRAKANT	MahaSVC/7919/07	Khandoba Nagar, Ganesh Par,Parli Baijnath, Dt-Beed,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	27/7/83
1723	PATIL ASHISH JAYAWANT	MahaSVC/8066/08	Primary Health Sub Centre,Vill.Nagithane,Maharashtra Tal.Palus,Dist.Sangli-416313.	BVSc&AH/MAFSU/08	06-07-85
1724	PATIL PAVAN PRAKASH.	MahaSVC/8063/08	Type-II-B-1805,Ojhar-Township,Maharashtra Tal.Niphad,Dist.Nasik-422207	BVSc&AH/MAFSU/08	14-04-85
1725	PATIL PRIYANKA GULABRAO.	MahaSVC/7919/08	"Nandadeep", Yogeshwar Colon,Nr T.V.Centre,Malegaon Camp,Dt-Nasik,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	27/7/84
1726	PATIL RAJKUMAR ARJUN.	MahaSVC/7880/07	A-101,Hiraharishchandra Appt.,Ramabhai Chowk,Kalyan (E),Dt-Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	19/12/84
1727	PATIL ROHIT DINKAR.	MahaSVC/8067/08	A/P-Hatnur,NearWaterTank,Tal.Tasgaon,Maharashtra Dist.Sangli-416314	BVSc&AH/MAFSU/08	21/11/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1728	PATIL SACHIN VAMANRAV.	MahaSVC/7957/08	Jilha Bank Colony, Plot No. 35, Gate No. 348/2, Nr Vaibhav Floor Meal, Pimpri, Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	15-05-85
1729	PATIL SATISH SADASHIV.	MahaSVC/7781/07	Plot No 105, H. No A/201, Siddeshwar, CHS, Sec- 2, Koparkhairan, Navi Mumbai (MS)	BVSc&AH/MAFSU/07	7/4/85
1730	PATIL SNEHAL DEEPAK.	MahaSVC/8107/08	434, Naik Ali, Varsoli, Tal. Alibag, Dist. Raigad- 402201, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	17-6-86
1731	PATIL SUYOG SUBHASHRAO	MahaSVC/7831/07	25, Swaphil, Purushottam Ng, Jalgaon Rd, Jamner, Dt-Jalgaon-424206, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/10/84
1732	PATIL SWAPNAJA VISHNU.	MahaSVC/8054/08	205, Zidke, Post- Dighashi, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane- 421302, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-03-86
1733	PATIL UTTAM BALASAHEB	MahaSVC/7815/07	21, Shri Kedarling Aprt.-Fransisco Rd, Waloli, Tal-Panhala, dt- Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	21/1/81
1734	PATIL VARSHARANI SURYAKANT.	MahaSVC/8065/08	Shriram, Near Vinayak Tiles, Bhadgaon Road, Gadhinglaj, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur-416502.	BVSc&AH/MAFSU/08	23-06-86
1735	PATIL VIJAY SARJERAO.	MahaSVC/7856/07	A/P- Kololi, Tal. Panhala, Dt- Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/6/84
1736	PATIL YASHAWANT JAGANNATH.	MahaSVC/8098/08	A/P- Lonkheda, Tal. Shahada, Dist. Nandurbar, Mahar- ashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	1-6-80
1737	PATIL YOGESH SHAMRAO	MahaSVC/7838/07	Matrucchaya Niwas, Lecture Colony, Nandred Rd, Gokunda, Tal-Kinwat, Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	29/6/83
1738	PATIL ANIRUDDHA DADARAO	MahaSVC/8124/09	165, Nelco Society, Subhash Nagar, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/Dr. PRDKVV/98	15-7-75
1739	PATIL RAHUL CHAITRAM	MahaSVC/7885/07	Near Swayamvar Mnagal Karyalaya, Kharjai Rd, Takli, Po-Ozar, Tal-Chalisgaon, Dt- Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/5/85
1740	PATIL SANDEEP SADASHIV.	MahaSVC/7770/07	A/p-Kavathe Akand, Tal-Tasgaon, Dist- Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/3/85
1741	PATIL TRUPTI SUBHASH.	MahaSVC/8105/08	"Su-Sneh Nivas" Tambri Vibhag, Shivaji Ng, Osmanabad-413501 Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	24-05-86
1742	PATIL VAISHALI KRUSHNA	MahaSVC/7990/08	C/o Shree krushna V. Patil. A/P Hara: Khurd. Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur. 416502	BVSc&AH/MAFSU/08	11-04-86
1743	Paul Rukmini S/o Sh Manik Ch. Paul	ASM/2379/08	PO- Sonapur, Dist- Kamrup, Pin - 782402, Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.12.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1744	Pavan Deewan Raghuwanshi S/oLt.Sh Shivendra Singh	RajSVC/3581/08	179,Chetak Vihar, Agra Road, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/04	2.2.81
1745	Pawan Kishore Rai S/o Sh Sushil Rai	BVC/2808/06	Vill+PO-Chapahi,Thane-Rajnagar,Sub-Div- Madhubani,Dt-Madhbani,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/06	1.3.78
1746	Pawan Kumar S/o Sh Dhup Singh	HarSVC/2087	VPO Badesra, Distt - Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	24.10.84
1747	Pawan Kumar S/o Sh Hari Ram	UPSVC/4769/08	Vill-Bharauly(Baragaon),PO- Jalalpur,Ambedkar Ng,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	5.6.79
1748	Pawan Kumar S/o Sh Satpal	HarSVC/2037	VPO- Balu Distt -Kaithal,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	8.2.83
1749	Pawan Kumar S/o Sh. Bansh Gopal Singh	UPSVC/4775/08	Vill-Lachhi Khera,PO-Bijuli,Dt-Fatherpur,U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	20.1.81
1750	Pawan Kumar S/o Shri Parmanand Mishra	UVC/412/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Bironkhal,Dt-Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/04	5.1.78
1751	Pawan Kumar S/oSh Amrik Chand	UVC/441/08	317, Awas Vikas Gardarpur Dt, U.S.Nagra, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	16.1.82
1752	PAWAR DINESH HARI.	MahaSVC/8113/08	Lahane Layout,Samartha Nagar,Buldana- 443001,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	17-04-83
1753	PAWAR DINESH SHIVRAM.	MahaSVC/7959/08	C/o T.R.Rathod, Tuljai Niwas,Keshawenagar,Hanuman God,Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	14-08-85
1754	PAWAR HITESH NANDLAL.	MahaSVC/7787/07	Saraswati Colony,34-Mantrupti,Erandol,Dt- Jalgaon,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/7/83
1755	PAWAR MAHESH MUKINDA.	MahaSVC/7911/07	At.Dhumalwadi, Post-Girni, Tal-Phaltan,Dt- Satara,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	1/6/83
1756	PAWAR MAHESHKUMAR LAXMANRAO	MahaSVC/7819/07	Post-Nehru Nagar(Nagalgaon),Tal- Kandhar,Dt-Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	17/5/85
1757	PAWAR PARAG JAGANNATH.	MahaSVC/7889/07	Govind Sadan, Kal Kai Kond,Dapoli,Dt- Ratnagiri,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	29/11/81
1758	PAWAR SHIVAJI PANDURANG.	MahaSVC/7739/07	Dyandeep Banglow,Shetphalgadne,Tal- Indapur,Dt-Pune,M.S	BVSc&AH/MAFSU/07	15/10/84
1759	PAWAR SUDHAKAR WALU.	MahaSVC/7804/07	At-Devaldari, Post- Satkhamb,Tal-Surguna,Dt- Nasik-422211,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/1/83

SNO	NAME	ADDRESS		
1760	PAWAR VAIBHAV NANDABHAU	MahaSVC/7869/07 Flat No.8 Metro-B-3,Golden Park,Beturkarpada Kalyan,Dt- Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/9/84
1761	PAWAR YOGITA PANDITRAO.	MahaSVC/7771/07 1077,Shramik Colony, Satawadi, Hadapsar,Tal-Haveli,Dt-Pune,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/11/84
1762	PAWAR PRATIK SUBHASH.	MahaSVC/7792/07 Samata, CHS, A-1,20 Road, Khar (W),Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	28/5/83
1763	PAWARA PRATAP JUJARYA	MahaSVC/8016/08 A/P-Bijoree, Tal.Dhogaon, Dist.Nandurbar- 425414,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-06-79
1764	Payeng Sadañanda S/o Sh Mohan Ch Payeng	ASM/2391/08 Vill-Patharichuekgaon,PO-Kambang,P.S.- Panigaon,Dt-Lakhimpur-787001,Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.4.83
1765	Pegu Bhaikan S/o Lt.Sunadhar Pegu	ASM/2393/08 C/o Mrs.Rongdhoi Pegu,Vill-Mohari Camp,PO- Ukhamati, Gogamukh, Dhemaji, Assam	BVSc&AH/AAU/08	10.12.85
1766	PENDEY DEEPAK KAILASHNATH.	MahaSVC/8150/09 A/104,Jain Palace,Cabin Cross Road, hayander,Tal.Dist.Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	9-10-84
1767	Phurba Lepcha S/o Sh Sangay Lepcha	Sikkim/85/06 Timpem Busty, Rey Mindu Block , East Sikkim	BVSc&AH/AAU/06	
1768	PHUSE HITESH RAMESHRAO.	MahaSVC/7967/08 Durga Nagar, Tal.Morshi,Dist.Amravati,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	24-05-85
1769	PITRODA AARTI HARSHADRAI.	MahaSVC/8132/09 Room No.6,Amar Cottage,Shimpoli Road,(W),Boriwali (W),Mumbai-400092.	BVSc&AH/MAFSU/08	16-2-86
1770	Pius Minj S/o Lat Simon Minj	JVC/366/08. Kathal Toll (Rashme Nagar) Sisai Road, Gumla- 835207, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	02.02.67
1771	Piyush Dubey S/o Shri J.K. Sharma	MPSVC/2550/08 24/151,Dwarika Nagar, Rewa-486001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	19.2.81
1772	Piyush Prakash S/o Sri Suresh Chandra Sinha	JVC/438/08 BX-037,Ashmana Suncity,Baliguma,Mango,East Singhbhum- 831018,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	24.07.81
1773	Pnkaj Babu Kaushik S/o Shri Shriram Sharma	MPSVC/2561/08MPSV C/2554/08 Ashok Gali,Paharganj Road, Kelas,Dist,Morena-476224,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	1.7.81
1774	Pooja Arya D/o Sh Ramdeo Kori	UPSVC/4862/08 S-49,RavindraNg,Yashoda Ng,Dt-Kanpur,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	22.6.82
1775	Poonam Dadhwal D/o S.P.J.S Dadhwal	Pb.SVC/2825/08 H.No.2081,Sec 27-C, Chandigarh, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	13.6.84

1776	Pooran Singh Bhadoria S/o Shri Roop Singh	MPSVC/2519/08	M-1150, New Housing Board, Mayurkhan, Dist Morena, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.3.72
1777	PORE AJAY DINKAR.	MahaSVC/8079/08	Matoshri Nivas, Pardi Road, Laxmi Nagar, Tal. Bhoom, Dist. Osmanabad-413504	BVSc&AH/MAFSU/08	18/06/85
1778	POWAR KOMAL VIJAY.	MahaSVC/7784/07	302, Swami Krupa, D.L.Vaidya Rd, Dadar Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	30/3/85
1779	Prabhakar Sinha, S/o Shri Kapildeo Rama	JVC/081/08	Jr. Veterinary Officer, Veterinary Hospital, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	01.01.67
1780	Prabhat Ranjan S/o sh Nagendra Pd Singh	BVC/2816/06	Vill+PO-Mirzang, Thane-Mahua, Sub-Div- Mahua, Dt-Vaishali, Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/06	3.5.79
1781	Prabhudeva A.N S/o Narayanswamy S	KarSVC/4108/08	Abbenahally Vill, Madiwala PO-563130, Malur Tq, Kolar Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	18.3.83
1782	Prabodh Ranjan Thakur S/o Sh Sachidanand Thakur	BVC/2899/07	Vill-Ramanandpath, PO&Thane- Laheriasarai, Dt-Darbhanga-846001, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/07	26.12.79
1783	Pradeep Kumar Barnwal S/o Sri Mahadeo Lal Barnwal	JVC/295/08	C/o Sri Mahadeo Lal Barnwal, Doranda (Old Bus Stand) Doranda, Dhanwar, Giridih- 825412, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	19.6.79
1784	Pradeep Kumar Jangir S/o Sh Gokul Chand Jangir	RajSVC/3478/08	Shastri Nagar, Wad NO.15, Nr Vety Hospital, Sikar-332001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	13.12.79
1785	Pradeep Kumar Nirala S/o Sh Naresh Prasad	BVC/2922/08	Vill-Badanpura, PO-Asari, Thane, Sub-Division- Hilsa, Dt-Nalanda-801302, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	1.3.80
1786	Pradeep Kumar S/o Deep Naryana Mandal	BVC/2852/07	Vill-Chhoti Jhitkya, PO&Thane- Maheshkunth, Sub-Div-Gogri, Dt- Khagaria, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	6.8.80
1787	Pradeep Kumar S/o Sh Hira Singh	HarSVC/2031	Shiv Metal Industries, Nr Shiv Nagar, Rohtak Road, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	11.10.83
1788	Pradeep Kumar S/o Shiv Prasad Yadav	UPSVC/4841/08	Viii-Pawan, The-Milkpur, Dt-Faizabad, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	10.3.78
1789	Pradeep Kumar S/o Sri Rama Dhin Ram	JVC/497/09	Vill_Bonga, P.O.-Daihar, Chauparan, Barhi, Hazaribagh-825408, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	01.05.70
1790	Pradeep Kumar Tiwari S/o Sh Ram Pratap Tiwari	MPSVC/2518./08	Post- Pithorabad, Dist-Satna (M.P)	BVSc&AH/JNKVV/08	1.7.70
1791	Pradeep S/o Sh Attar Singh	HarSVC/2044	VPO -Giwana, The -Gohana, Distt-Sonepat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	7.5.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	INSTITUTION	MARKS
1792	Pradip Kumar Shrivastav L/o Late Dr. Arjun Pd. Verma	JVC/484/09	Massipidhi, Hazaribagh, Pin-825301, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	12.11.57
1793	Pradiumna Kumar Swain, S/o Sh. Harekrushna Swain	JVC/178/08	TV0: Hatgamharia, Jhinkpani, Chaibasa, West Singbhum -833214 Jharkhand	BVSc&AH/OUA&T/89	23.9.66
1794	Praful Kumar Singh S/o Sri Ishwar Prasad Singh	JVC/506/09	Devi-Mondap Road, Hesal, Ranchi-834005, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	24.09.66
1795	Prafull Kr Kumble S/o Sh Premial Kumble	CGSVC/349/07	Dogargarh Dt, Rajnath Gaon, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/89-90	11.9.66
1796	Pragya Bhadauria D/o Dr.S.S.Bhadauria	MPSVC/2584/09	GH-766, Deendayal Nagar, Gwalior -474805 ,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	28.6.83
1797	Prajapati Gunjankumar Rameshbhai	GujSVC/2982/08	51-Ashapurinagar Soicety, Nr Yogeshvari Society, K.K.Nagar Road, Ghatiodiya A'bad- 380061, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	21.6.85
1798	Prajapati Kaushal Arvindbhai	GujSVC/2923/08	1-Gokuldharm Society, Nr. Swaminarayan Smruti Temple, Ghodasar, A'bad- 380050, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	6.7.86
1799	Prajapati Mukeshbhai Dahyabhai	GujSVC/2983/08	At-Vajapur, PO-Mumanvassa, Ta-Satlasana, Dt- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	24.3.85
1800	Prajapati Piyushkumar Dineshchandra	GujSVC/2937/08	303-Laxmirajav Society, Opp-Urban Hosiptal, Dahod, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	12.8.84
1801	Prajapati Virendrakumar Maheshbhai	GujSVC/2924/08	AT&PO-Asrama, Nr-Primary School, Ta-Anklav, Dt-Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	9.8.85
1802	Prajitha. G D/o G.Gopinathan	KeralaSVC/3351/08	Prasanth Anjilipra, Thattarambalam PO, Mavelikkara-690103, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	21.5.84
1803	Prakash Chandra Vaishnava S/o Sh Navin Chandra	UVC/428/08	Vill-Tola PO- Chanoda, Toalshilling The, Someshwar, Dt-Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/AAU/06	10.2.85
1804	Prakash Kumar S/o Late Laxmikant Thakur	BVC/2888/07	Vill-Jamalpur Gogri Malitola, PO- Jamalpur, Thane-Gogri, Dt-Khagaria, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	1.3.77
1805	Prakshkumar Rathod S/o Kashinath	KarSVC/4158/08	Behind 1B, Near UBMPs, Sindagi- 586128, Bijapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	22.7.86
1806	Pramatha Nath Paul S/o Sh Rajendra Nath Paul	JVC/135/08	Baharagora, Ghatsila, East Singhbhum- 832101, Jharkhand	BVSc&AH/Bihar Uni/61	12.11.34
1807	Pramod Kumar R S/o C.N.Raveemdran Pillai	KeralaSVC/3345/08	Cherukara Ayyathu Puthen Veedu, Vengai PO, Sasthamcotta, Kollam-690569, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	5.5.83

SNO	NAME	ENUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1808	Pramod Kumar S/o Sh Raj Kishore Prasad	BVC/2913/08	Vill&PO-Chamar Bigha,Thane-Hilsa,Dt-Nalanda-801302,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	8.8.84
1809	Pramod Kumar S/o Sh Santoshi Lal	RajSVC/3510/08	VPO-Halena,Baratpur,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	23.10.82
1810	Pramod Kumar S/o Sri Raghunandan Prasad	JVC/504/09	T.V.O. Husainabad, Kumudani Ghosh Road, Barmasia, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	05.10.70
1811	Pran.M S/o Dr.V.Mohankumar	KeralaSVC/3326/08	D-4,Krupas Lane, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram-695581,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	4.12.82
1812	Prasanna D Hegde S/o Hegde D.S	KarSVC/4110/08	Chinmaya,Niveditha,Olakaadu-576101,Udupi Tq &Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	19.6.85
1813	Praseena Paulose D/o N.Paulose	KeralaSVC/3411/09	Punnolil House, Pulpally PO, Wayanad-673579,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.12.84
1814	Prashant Kumar S/o Late Sh Prabhu Lal	BVC/2837/07	Vill+PO-Lodhwe,Thane -Phatehpur,Sub-Div-Maher,Dt-Gaya,Bihr	BVSc&AH/RAU/95	9.1.81
1815	Prashant Kumar S/o Sh Vinod Das	BVC/2923/08	Vill-Patterghatti,PO&Thane-Triveniganj,Dt-Supaul,Bihar	BVSc&AH/WBUA&FSU/07	3.1.82
1816	Prashant Mandvya S/o Sh Dharam Chand	HPSVC/850/08	H.No.34/6, Ropa Colony, Sarkghat, Distt-Mandi, H.P-175024	BVSc&AH/CSKKVV/08	2.11.84
1817	Prashanthkumar S/o Maruth Rao Waghe	KarSVC/4213/08	No.5-3-3413,Mathasri Nivas, Dattanagar, Bhalki-585328,Bhalki Tq, Bidar Dt, Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/08	1.1.85
1818	Pratap Biraji S/o Sh Rajendra Biraji	BVC/2822/06	Vill+PO-Achra,Thane-Phulkaha,Sub-Div-Forbisganj,Dt-Araria,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/05	1.3.77
1819	Pratap Kumar Majhi S/o Late Bibhutibhusan Majhi	JVC/567/09	Amdanga, Mahulia, Ghatsila, East-Siaghbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	12.03.71
1820	Pratap Narayan Sharma S/o Late Sh Ramakant Singh	BVC/2846/07	Vill+PO-Walipur,Thane-Pipariya,Dt-Lakhisarai,Bihar	BVSc&AH/VVU/06	4.9.78
1821	Pratibha Sidhmukh S/o D.V Sidhmukh	HarSVC/2073	Jangra Market Ch. Dadri Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	5.11.86
1822	Pratima Kumai W/o.Mukesh Kumar Singh	JVC/331/08	C/o Dr. Mukesh Kumar Singh, 47, Sisam Road, New Cable Town, Golmuri, East Singhbhum-831003, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	10.01.75
1823	Praveen Kumar Gupta S/o Sh Sheonath Sau	BVC/2853/07	Vill-Tiwari Mathiniya, PO-Kuchaikot,Thane-Bishambharpur,Dt-Gopalganj,Bihar	BVSc&AH/CSAAU/06	11.8.80

SNO		RNUM		QUALIFICATION	DOB
1824	Praveen Kumar S/o Dr. Ramji Prasad	JVC/420/08	Asstt.Prof.Cum Junior, Scientist,Medicine,RVC Kanke,Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	31.01.69
1825	Praveen Kumar S/o Sri Chandi Prasad Shahi	JVC/320/08	TVO Dhurwa, Dhurwa-834004, Dist-Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	16.06.62
1826	Praveen Kumar S/o Sri Kameshwar Roy	JVC/192/08	J.V.O; Dhanbad, Police Line, Hirapur, Dhanbad-826001, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/88	15.06.64
1827	Praveen S/o Sri Kaushalendra Pratap Singh	JVC/550/09	BAHO Tantt Nagar, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	23.11.78
1828	Praveenkumar M.R S/o Rangaswamy M.J	KarSVC/4138/08	Maravalalu,Bychanahally-573102,Arakalugudu Tq, Hassan Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.8.84
1829	Pravin H.Gothwad S/o Sh Harsing Gothwad	RajSVC/3533/08	Po-Durgapura,The-Durgapur,Dt-Udaipur,Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/03	1.6.79
1830	Pravin Kumar Gupta S/o Shri Shiv Nath Saw	UVC/423/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital,Gushgali, Dt-Puri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/06	11.8.80
1831	Prayag Rabidas S/o Late Panchu Rabidas	JVC/495/09	Jhalakdih, Chopnadih, Markacho, Koderma-825410, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	02.01.59
1832	Præetha Skaria D/o M.Skaria	KeralaSVC/3334/08	Paduva Bhavan, Mukhathala PO,Kollam-691577,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.83
1833	Preeti Manjari Nayak D/o Sri Amrut Nayak	OrissaSVC/2220/08	At-Rengloi, PO-Laida, Dt-Sambalpr-768214,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	4.10.85
1834	Prem Chand Sah S/o.Sri Satya Narayan Sah	JVC/335/08	Kotal Pokhar, Barharwa, Rajmahal, Sahebganj, Pin-816105, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/81	12.01.55
1835	Prem Chand Sao S/o Sri Nand Lal Sao	JVC/507/09	T.V.O. Nawagarh, Kharkhari, Madhuban, Baghmara, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	16.11.67
1836	Prem Prabhakar S/o Sh Krishan Deo Prasad	BVC/2849/07	Vill-Hanumanthganj,PO&Thane-Islampur,Sub-Div-Hisa, Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/Anand Agri Uni/05	5.12.78
1837	Prem Prakash Chaudhary S/o Shri Parmeshwari Pd Chaudhary	UVC/408/08	Vety Officer(Contract)Sheep Breeding Farm,Kedarantha Dist, Chamoli,Uttarakhand	BVSc&AH/WBUA&FSU/05	2.12.78
1838	Prem Prakash S/o Sh Mahadeo Prasad	UPSVC/4827/08	Vill&PO-Madanpur,The-Fatehpur,Dt-Barabanki,U.P	BVSc&AH/MAFSU/08	7.7.77
1839	Prem Sagar Bhandari S/oShri R.C. Bhandari	UVC/121/08	Mohalla Thapalia (Malla)Aimora,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/88	9.9.65

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1840	Prem Shanker Yadav S/o Sh. Mool Chand	UVC/47/08	105 Sarjana Sadan Near Power House, Rudrapur-263153,Dt-U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBKEPVV/83	4.3.59
1841	Premjata Kumari D/o Sh. Arun Prasad	BVC/2826/06	VII-Vishnupuri,PO-Anisabad,Thane- Gardanibagh,Sub-Div-Patna Sadar,Dt-Patna- 847103,Bihar	BVSc&AH/SKUSA&T/06	1.1.80
1842	Premkumar S/o Sh Chandrabandha	BVC/2807/06	VIII+PO-Sugauna,Thane-Rajnaga, Sub-Div- Madhubani,Dt-Madhubani	BVSc&AH/CCSHAU/06	1.3.78
1843	Premshankar S/o Sh Mahant Prasad	BVC/2806/06	VIII Dharampur, PO-Jagai,Thane- Ekangarsarai,Sub-Div-Hilsa, Dt-Naland,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	4.2.79
1844	Prince S/o Sh Shyam Sunder Yadav	BVC/2800/07	VIII8 PO-Menha,Thane-Bihra,Sub-Div- Tarnastipur-848101,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	5.2.84
1845	Priscilla Kerketta D/o Late Manohar Kerketta	JVC/292/08	120 Bimal Kerketta, Ullung, Rania, Khunti, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	23.11.81
1846	Prithviraj S/o Shivaraj	KarSVC/4184/08	Khanapur, Yelkur Po-585328,Bhaiki Trg, Bidar Dist,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.10.85
1847	Rishi Saroj Khoya, D/o Mr. Raj. Gurus Khoya	JVC/251/08	100/108 Khoya, Tilsiri, Semra, Bhandra Chandnaga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	12.05.80
1848	Raj Lakshmi Behera, S/o Chandrababu Behera	OrissaSVC/2216/08	Ay/PO-Kaptipada,Dist-Mayurbhanj- 751041,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	12.7.84
1849	Priyanka Pundir D/o Sh R.K.Pundir	UVC/439/08	India Glycols Ltd., Kashipur Dt,U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	2.8.84
1850	Priyanka D/o Mahadappa	KarSVC/4169/08	Ragegalli, Nr Basavanna Temple Aurad,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.1.86
1851	Priyanka Meena D/o Sh Ram Dayal Meena	RajSVC/3502/08	2 A/6, Saraswati Colony, Baran Road,Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	22.8.82
1852	Priyanka Srivastava D/o Dr. S.P.Srivastava	UPSVC/4860/08	Tarabhawan Mohalla Rayganga,Gazipur,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	17.8.86
1853	Priyanka Thakur S/o Sh Chandee Singh Thakur	HPSVC/838/08	H.No.177/11 (Old),Khaneda Street, Tarne Hills Mandi, Distt-Mandi, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/08	7.10.82
1854	Prveen kumar Pilania S/o Sh Ram Kishan Pilania	RajSVC/3555/08	VIII-Shyodanpura, PO-Khanania,Via-Nohar, The- Tibbi.Hanumangarh,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	4.12.79
1855	PSM.Mohamed Ayoob Ali S/o PSM.Mohamed Sulaima	TNSVC/4375/08	19,Basheer Appa Street,Melapalaym,Thiruneveli,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/93	30.4.70

SNO	NAME	RESIDENCE ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
1856	Puja Jain S/o Sh P.C.Jain	UPSVC/4871/08 G.D.Jain,ADO(P),Block Colony,Chirgaun,Dt-Jhansj,U.P	BVSc&AH/JUKV/08	13.11.83
1857	Punam Kumari W/o Sri Ranjan Kr. Choudhary	JVC/577/09 Bhandaridih, Giridih, Pin815301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	28.07.76
1858	Punam Puri S/o Sh Inder Puri	RajSVC/3496/08 Opp- Tata Petrol Pump, G.S.Road, Bikaner-334001,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	4.8.77
1859	Puneet Kumar s/o Sh Ravindra Ku Mishra	UPSVC/4764/08 MIG-213,Mahabali Puram,Kalayanpr,Kanpur,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	27.6.83
1860	Puneet Singh S/o Sh Abhe Ram	HarSVC/2056 VPO- Malvi, The - Julana, Distt- Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	5.4.86
1861	Punit Tirki S/o Sh Nalson Tirki	CGSVC/405/08 Gram-Raita,PO-Lodan,Dt-Jaspur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/04-05	8.9.80
1862	PURI RANGNATH MAROTIRAO	MahaSVC/7847/07 Railway Police Colony, Selu,(New Railway Station),Dt-Parbhani-431503,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/3/83
1863	Purnima Banaula D/o Shri R.S. Banaula	UVC/353/08 V.O.-Laksar,Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/00	3.6.76
1864	Purnima Ramtake S/o Sh Lakhan Lakh Ramteke	CGSVC/414/08 Qtr.No. 4/F,Grass Street-1,Sec-1,Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	30.6.82
1865	Purshottam Das Pal S/o Sh Siaram Pal	MPSVC/2564/08 Pal Medical Store, Chandla, Chhatarpur,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	8.12.81
1866	Pushpa Kumari W/o Dr. Suman Kumar	JVC/530/09 C/o Dr.Suman Kumar Hari om Store Markachho Koderma Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	23.01.68
1867	Pushpanjali Behera D/o Sh Narsingha Ch Behera	OrissaSVC/2223/08 AT/PO-Paliabindha Dist-Bhadrak-756167,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	6.7.83
1868	Pushpanjali, D/o Late Raghubansh Kumar Singh	JVC/056/08 J.R.O.,IAHP,Kanke,3C,Arpit Apart, JC Road, Lalpur,Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	02.02.61
1869	Pushpinder Kaur D/o Sh Gurjant Singh	Pb.SVC/2824/08 H.No.20/1 Indra Colony Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	20.8.86
1870	Pushproop Singh Brar S/o Sh H.S.Brar	Pb.SVC/1567/08 46,Club Road, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/PAU/93	2.7.70
1871	R Anupama D/o Sanyasi Rao	APSVC/4689/08 D.NO.65-3-349/1,Floor, Ex-Service Men colony,Maikapuram (P),Visakhapatnam-530011,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.1.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	PER
1872	R.Barathidasan S/o G. Rajamani	PondiSVC/314/08	NO. 10, North Street, Pooranankuppam, Puducherry-7	BVSc&AH/PU/07	8.7.86
1873	R.C.Gourav S/o R.C.Goutham	APSVC/4691/08	D.NO.9-2-14,Beside Nookalamma Temple, Pithapuram, East Godavari dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.4.82
1874	R.Dastagiramma D/o R.Dastagiri	APSVC/4719/08	W/o N.Ramanjaneyulu, Ramachandrapuram(V), Pariapadu (P), Rajupalem(M),Kadapa Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	23.9.83
1875	R.Dhamodharan S/o M.Ramasamy	TNSVC/4223/08	56/17,Molandigadu,Puduthottam(West),Nallampatti PO,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.10.85
1876	R.Dhanasekaran S/o G.Ranganathan	TNSVC/4179/08	Ealur,Reddiyapalayam PO,Bhavani Taluk,Erode-638504,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.5.85
1877	R.DineshKumar S/o R. Raju	TNSVC/4329/08	Devannor PO, Devanoor Pudoor,Musiri taluk,Trichy,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.7.84
1878	R.E. Sushma D/o G. Eshwarappa	KarSVC/4167/08	Shiva Electircals,Nr Bus Stand,Ajjampura-577547,Tarikere Tq, Chikkamagalur Dt, Karnataka	BVSc&AH/AFSU/08	5.1.86
1879	R.Ganesh S/o M.Radhakrishnan	TNSVC/4098/08	Brindavan,436/1,Dr.Ramasamy Road,K.K.Ng,Ghenna-600078,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/92	22.5.68
1880	R.Gayathiri Devi S/o T.Rajamanickam	TNSVC/4314/08	NO 4,(Old NO.57),Pinjala Subramaninm Street,T.Ng,Chennai	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.2.85
1881	R.Halley Gora S/o R.Chunav	APSVC/4813/08	C/ok.Ramanujam,H.NO.1-307,Nr ZPH School,Vuyyuru,Krishna Dt,A.P	BVSc&AH/OUAT/08	17.01.86
1882	R.Kumar S/o K.Ramasamy	TNSVC/4338/08	Vellamettu Thottam,Ramachandrapuram,Negaman Via, Udunalai taluk,Coimbatore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.12.85
1883	R.Lakshmanan S/o K.Rajkumar	TNSVC/4296/08	8/37,Manickavasagar Nagar,Periyanaickenpalayam,Coimbatore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.84
1884	R.Lakshmi S/o P.Krishnan	TNSVC/4130/08	H-6/B-3,Twin Roses,Apartments,68,East Coast Rd,Thiruvanmiyur,Chennai	BVSc&AH/PU/99	16.11.76
1885	R.M.Kannambal S/o RM Alagappan	TNSVC/4123/08	4/2,Sri Sathya Sai Flats, Yadaval, 3rd Cross Street, Virugamabkkam,Chennai,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/96	1.4.73
1886	R.Manhoaran S/o M.Raju	TNSVC/4383/09	17 E4,Thenoral Street, J.C.K.Nagar,Chingleput-603002,Tamilnadu	BVSc/MU/73	26.4.49
1887	R.Manickam S/o V.Ramasamy	TNSVC/4147/08	Koodachery PO, Nadanthai Via, Paramathy-Vellur,Namakkal-637206,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/98	7.3.74

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1888	R.Manoharan s/o N.Ramasamy	TNSVC/4353/08	22,Ward NO.4,Nangavalli, PO-Mettur taluk,salem-636454,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.5.86
1889	R.Menaka	GujSVC/2993/09	13/14,C'type Staff Qtr.,Navsari Agricultural University,Navsari	BVSc&AH/GBPUAT/03	9.5.76
1890	R.Nagarajan S/o M.D.Ramachandran	TNSVC/4403/09	7,Gayathri nivas,South Natarajapuram Colony, Main Rd, Thanjavur- 613007,Tamilnadu	BVSc/MU/61	27.3.39
1891	R.Prakash S/o R.Rajamanickam	TNSVC/4275/08	SM Koil Street,Variyankaval,PO-Ariyalur- 621806,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	27.7.83
1892	R.Pugazhendhi S/o S. Rajendran	TNSVC/4231/08	Ulliyakkudi PO,Udaiyarpalayam taluk,Ariyalur,Dt,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.6.85
1893	R.Radhakrishnan Nair S/o Ramakrishna Pillai	KeralaSVC/3312/08	Nampad House,T.C.24/1868(Tenra- 35),Thycaud PO,Thiruvananthapuram- 695014,Kerala	BVSc&AH/KAU/81	21.2.39
1894	R.Raguraman S/o R.Ramalingam	TNSVC/4301/08	48,Colony Housing Unit,B/15, Thondi Rd, Sivaganga,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.10.85
1895	R.Rajesh S/o G.Rathinavel	TNSVC/4341/08	Veeranakuppam village,M.Daddampatty,Uthanagarai,taluk Krishnagiri,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.6.84
1896	R.Ramadurai S/o D.Ramasamy	TNSVC/4246/08	Nainarkudikadu,T-14,Mathur R.S.&PO- Sendurai Taluk,Ariyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.5.85
1897	R.Ramanathan S/o T. Ramalingam	TNSVC/4330/08	Flat C2 No.21, Chidambaram Street,Bharathipuram,Chrompet, Chennai	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.2.84
1898	R.Ramudu S/o R.Chandraiah	APSVC/4756/08	H.No.4-7,Nurjanpally (V),Katrapally(P),Shayampet(M),Warangal (DT)-506349,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	12.6.85
1899	R.Ravi Shankar S/o S. Radha Krishnan	TNSVC/4285/08	12,21-B,D.K.M.College Road,Sainathapuram,Vellore,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	13.6.85
1900	R.Saravanan S/o K.A.Rajamanickam	PondiSVC/317/08	NO.28, Door no.3, 3rd Cross, Ozhavarkarai,Navasakthi Nagar, Puducheery	BVSc&AH/PU/07	26.10.85
1901	R.Sasikumar S/o M.Puhazhendi	TNSVC/4224/08	School Street,Sirukalthur,PO-Sendurai Taluk,Aiyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.6.83
1902	R.Sathish Kumar S/o C.Rajamanickam	TNSVC/4219/08	2/252, Sekkampatty,Mattukottai Harur Taluk,Dharmapuri Dt,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	23.1.84
1903	R.Sathiyamoorthi S/o R.Ramasamy	TNSVC/4325/08	Sathy Main Road, Oricheirpudur PO,Sakhinanagar Via, Bhavani taluk,Erode- 638315Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.8.84

SNO	NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1904	R.Senthil S/o M.Ramasamy	TNSVC/4321/08	E/128,Kottappalli Colony,Tiruchengode taluk,Namakkal,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.1.86
1905	R.Siva Prakasam S/o K.Rathinavel	TNSVC/4155/08	Keelarikadu,Koonavelampatti,Kurukkapuram PO,Rasipuram Taluk,Namakkal,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.5.81
1906	R.Sornaraani S/o M.Ramakrishnan	TNSVC/4271/08	7,Min Nagar, Melagaram PO,Tenkasi- 627818,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.1.85
1907	R.Sridhar Babu S/o B.Rajendran	TNSVC/4362/08	74/47,North Muniappa Koil Street,3, Karungaipatty Gugai Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.1.84
1908	R.Sudhakar S/o R.Sreeramulu	APSVC/4705/08	D.NO.13/128,New Street,Porumamilla,Kadapa Dt-516193	BVSc&AH/SVVU/08	29.10.83
1909	R.Surendira Babu S/o S.Rangasamy	TNSVC/4300/08	Thaligai,Thaligai PO,Namakkal- 637212,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	18.11.83
1910	R.V.N.Srujan S/o R.Haranath	APSVC/4704/08	C/o Ch.Ramachandra Rao,Flat 204,Divyasakthi Apts., Behind Latha Hospital,Waltair Uplands,Visakhapatnam,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	22.2.84
1911	R.Vineshah S/o S.Sezhiyan	TNSVC/4367/08	NO.16,A.V.Thomas Nagar,Konam,Negercoil - 4,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/97	25.12.73
1912	Rabadi Bakarali Akbarbhai	GujSVC/2984/08	At&PO-Badarpur,Ta-Vadanagar,Dt- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	16.2.85
1913	Rabi Kant S/o Sh Indradeo Prasad	BVC/2836/07	Vill-Katt Gacchi,PO-Chand Chaura,Thane-Civil Lines,Sub-Div-Sadar Gaya,Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	12.3.80
1914	Rabi Kumar S/o Sh Sant Lal	BVC/2773/06	Vill-Main Road, Masaurhi, PO+Thane- Masaurhi,Sub-Div-Masaurhi,Dt-Patna- 804452,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.3.78
1915	Rabindra Kumar Singh S/o Sh Amar Deo Singh	BVC/2838/07	Vill-Anisabad,C-67,Police Colony,PO- Anisabad,Thane-Gardanibagh,Sub-Div- Patna,Bihar	BVSc&AH/RAU/74	3.5.53
1916	Rabindra Bhakt S/o Late Punit Bhakt	JVC/277/08	Uni.Prof.Dept. of Animel Nutriuon, R.V.C. Kanke, Ranchi-83406, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	04.01.47
1917	Rabindra Kumar S/o Sh Baliram Pd Gupta	BVC/2775/06	Vill-Ameth PO-Bhithi,Thane-Mohania,Sub-Div- Mohania,Dt-Kaimur-821109,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	5.6.77
1918	Rabindra Sharma, S/o Late Diplali Sharma	JVC/257/08	D.A.H.O., Dumka, Chuhabagan, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RU/70	01.07.49
1919	Rabish Ranjan S/o Sh Parmeshwar Mahto	BVC/2753/06	Vill-Tarbanna,PO-Panchbir,Thane-Sahebpur KamaI,Sub-Div-Balia,Dt-Begusarai,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	22.12.76

SNO	NAME	ROLL NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1920	Rachana Venugopal D/o T.V. Venugopal	KeralaSVC/3412/09	"Avyuktha"KNRA 33 A, Kadappathal Ng,Paippinmoodu Kowdiar,Thiruvananthapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	7.8.84
1921	Rachna Bansal D/o Shri Ramesh Chandra Gupta	MPSVC/2579/09	G-3,Punjabi Bagh,Raisen Road,Bhopal - 462023,M.P	BVSc&AH/JNKVV/05	11.6.79
1922	Radheshyam Roy S/o Sri Umesh Chandra Roy	JVC/485/09	Morabadi Kusum Vihar, Road No.7, Guru Vatika, P.O.-Ranchi University, Bariatu, Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	17.11.63
1923	Radheshyam S/o Sh Mali Ram	RajSVC/3550/08	Vill- Abhawas, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.7.82
1924	Radheshyam Kuwna S/o Late Lakkan Lal Kuwnar	JVC/339/08	TVO Ramgarh, Hazaribagh-829122, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	03.01.62
1925	Radhika Syam D/o Syamnath.R	KeralaSVC/3437/09	Rajadhara,Manayikulangara,Kollam- 691012,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	6.9.85
1926	RAGHORTE YOGESH MANIK.	MahaSVC/7808/07	Budhwari Peth, Near Gurudev Sevashram,Umrer,Dt-Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	29/10/85
1927	Raghubir Singh S/o Sh Mahn Singh	Pb.SVC/2842/08	C/o Dr.Renu Gupta, 130-C BRS Ngr.Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/SKUofAS&T/08	13.1.82
1928	Raghunandan Singh s/o Late Basudeo Singh	JVC/421/08	Touring Veterinary Officer,Hariharganj,Chhattarpur,Palamu,Jhark hand	BVSc&AH/BAU/83	08.02.59
1929	Raghunath Seth S/o Late Sukaram Seth	JVC/229/08	C/o Dr Raghunath Seth, Sarjamdih/Jego, Tamar, Ranchi-835225, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	28.01.68
1930	Raghwendra Prasad Sharma S/o Sri.Shayam Saran Singh	JVC/336/08	Veterinary Surgeon, Sheo Pahar, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	06.02.52
1931	Ragni Tripathi S/o Sh Suresh Chand Tripathi	CGSVC/433/09	Ramchandra Sankriti Vidyalaya,Nayapass,Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	20.5.85
1932	RAHANGADALE SANTOSH PARASHRAM	MahaSVC/8021/08	Near Jay Kirana Stores,Surendragadh,Seminary Hills. Nagpur440006	BVSc&AH/MAFSU/08	18-05-84
1933	Rahman Javeed S/o Mr. Mucklishur Rahman	ASM/2420/09	H.NO.12,Rangpur Path,Ahmed Nagar, Puranbasti, Six Mile, Guwahati-781037,Assam	BVSc&AH/AAU/08	14.9.82
1934	Rahmat Ali Ansari S/o Sh Abdul Kaium Ansari	BVC/2952/08	Vill-Pipra Tra,PO-Mustafabad,Thane-Goreya Kothi,Maharajganj,Dt-Siwan-841439,Bihar	BVSc&AH/BAU/07	12.10.79
1935	Rahul Gupta S/o Sh Ram Sahai Vaish	UPSVC/4818/09	Moh-Meeranpura,PO-Tanda,Dt-Ambedkar Ng,U.P	BVSc&AH/UPDDUPCVV/ 08	5.11.81

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS		
1936	Rahul Kumar S/o Chandrika Thakur	JVC/435/08	Gidi 'A'Churchu,Hazaribagh-829108,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	20.11.80
1937	Rahul Ranjan Chaudhary S/o Sh Dilip Kumar	BVC/2754/06	Vill-Kishan Ng,PO-Anisabad,Thane-Phulwarisharif,Dt-Patna-800002,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	30.11.82
1938	Rai Sharmila S/o Sh Mohan Kumar Rai	ASM/2415/08	Vill-Smile,Jagum,PO- Bisnupur,Dist-Tinsukia,Assam	BVSc&AH/AAU/08	25.6.85
1939	Raihan A. Rahim S/o N.A. Rahim	KeralaSVC/3489/09	Kochurottil Veedu,Nedumon,PO-Ezhamkulam,Pathanamthitt-691556,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.9.84
1940	Raina Doneria D/o Sh N.K. Pathak	MPSVC/2580/09	C/o Shri S.K.Doneria,20 New Shakuntlapuri, Thatipur, GwaliorM.P-479001	BVSc&AH/JNKVV/06	5.8.81
1941	Raina Raj V.R. S/o V. Rajan	KeralaSVC/3337/08	T.C 27/1134(2),Sreevalsam, Vanchiyoor,Thirvananthapuram-695025,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.12.84
1942	Raishikesh Kumar Verma S/o Sri Nandu Prasad	JVC/396/08	Asstt.Prof. Deptt. Of-Physiology,Ranchi Vety Collge,Ranchi-834006,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	02.06.74
1943	Raj Bharat Sharma S/o Sh Madan Lal Sharma	HPSVC/853/08	Vill-Bout,PO-The -Bangana, Distt- Una, H.P -174307	BVSc&AH/CSKVV/08	23.12.84
1944	Raj Gopal Gupta S/o Sri Anandi Prasad Sahu	JVC/587/09	Govt. Vet. Hospital, Jharia, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	15.02.58
1945	Raj Kumar Sharma S/o Sh Sewaram Sharama	MPSVC/2559/08	17,Dev Nagar Coloney,Pech No.2, Itawa Road, Bhind-477001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.8.81
1946	Raj Kumar Singh S/o Sh Shankar Dayal Singh	BVC/2735/06	Vill-Lodipur,PO-Jawaj,Via-Jandaha,Thane-Mahnar,Sub-Div-Mahnar,Dt-Vaishali,Bihar	BVSc&AH/JNKVV/00	21.1.71
1947	Raj Kumar Singh S/o Sri Shankar Dayal Singh	JVC/586/09	TVO Dumri, Dumri, Gumala, Jharkhand	BVSc&AH/JNKVV/00	21.01.71
1948	Raja Ramchaudhary S/o Late Harangi Chaudhary	JVC/509/09	DAHO Palamu, Ranchi Road Rerma, Chiyaki, Medininagar, Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	10.11.50
1949	Rajakrishnaiah Setty S/o Sh Gattaiah Setty K	KarSVC/4088/08	No.465,4th Stage,T.K.Layout, Mysore-570023,Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/83	15.6.59
1950	Rajat Patra S/o Sh Ratnakar Patra	OrissaSVC/2214/08	At-Krushnanagar,PO-Serapur,Via-Kaipara,Dt-Jajpur-755010,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	23.1.85
1951	Rajbir Singh Grewal S/o Sh Manjit Singh Grewal	Pb.SVC/2826/08	H.NO.552/1,Rulia Ram Colony,Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	7.6.84

SNO	NAME	ROLL NO.	ADDRESS		
1952	Rajbohora Sharam S/o Sh Rammurt Sharma	CGSVC/402/08	Vety Hospital, Chuaikhadhan, Dt- Rajnathgaon, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/86-87	4.5.64
1953	Rajeen Nayan S/o Dr. Narendra Kufmar	BVC/2752/06	Vill-Beldari Tola, PO-GPO Gaya, Thane-Civil Line, Sub-Div-Gaya Dt-Gaya-820001, Bihar	BVSc&AH/Raj Agri Uni/06	24.1.80
1954	Rajeev Bharati S/o Sh. Vijay Kumar Singh	JVC/187/08	T.V.O; Bilashpur, Garhwa, Jharkhand	BVSc&AH/MAFSU/04	01.3.79
1955	Rajeev Kumar Ranjan S/o Sh Ram Lakhan Prasad	BVC/2947/08	Vill-Dewan Muhallah Sirighat, PO-Patna City, Dt-Patna-800008, Bihar	BVSc&AH/GBPA&T/07	3.12.80
1956	Rajeev Kumar S/o Late Sh Ramesh Chandra	UVC/350/08	V.O-Gangolihat, Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/96	14.1.72
1957	Rajeev Kumar S/o Sh Santial Sah	BVC/2875/07	Vill-Officer Colony, PO&Thane-Katihari, Dt-Katihari-854105, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	2.4.83
1958	Rajeev Kumar S/o Sri Krishna Singh	JVC/442/08	Kujama Colliery, Lodna Jharia, Dhanbad-828131, Jharkhand	BVSc&AH/JNKVV/06	15.02.79
1959	Rajeev Kumar, S/o Shri Shyamsunder Choudhary	JVC/128/08	B-3, Shyam Kutir, Gautam Budh Marg, Bariatu Road, Ranchi, Jharkhand -834009	BVSc&AH/BAU/96	19.05.70
1960	Rajeev Ranjan S/o Suresh Prasad Sinha	BVC/2851/07	Vill+PO-Bangpur, Thane-Perwalpur, Sub-Div-Hilsa, Dt-Nalanda, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	25.2.80
1961	Rajeev Ranjan S/o Sh Khushilal Yadav	BVC/2740/06	Vill-Gidaha PO-Ratansara, Thane-Ghoghadiha, Sub-Div-Sasaram Dt-Rohtas, Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	1.3.78
1962	Rajender Singh S/o Sh Umed Singh	HarSVC/2040	# 13/425, Vinod Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	25.5.82
1963	Rajendra Baitha S/o Late Janak Baitha	JVC/487/09	Bandhghi Dipatoli, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	01.02.54
1964	Rajendra Kumar S/o Sri Krishna Dayal Ram	JVC/461/09	Silwar Khurd, Jagannath Dham, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	25.12.64
1965	Rajendra Prasad Modi S/o Late Dasharth Modi	JVC/440/08	Yogidih Chandakiyari, Chas, Bokaro-828303, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	11.10.82
1966	Rajendra Yadav S/o Late Bhubneshwary Yadev	JVC/355/08	Arsandey, VIP Colony, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/74	18.07.49
1967	Rajesh K Sharma S/o S. Krishnamurthy	KarSVC/4209/08	NO.1, Appartment No.203, Silhontte Enclave, 1st Main Rd, Arekere, Mico Layout, B'lore-560076, Karnataka	MSV/MSAVM&BT, Mosco w/97	22.7.70

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1968	Rajesh Chauhan S/o Late S. S. Chauhan	JVC/541/09	VVD Sunder Nagar, Jamshedpur, New Sitaram Dera, Agriko, East Singhbhum Pin- 831009, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	10.07.65
1969	Rajesh Kharvi K S/o Sri Rang Kharvi	KarSVC/4204/08	Kodi Po, Kanyana-576226, Udupi Tq&Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	14.1.85
1970	Rajesh Kumar S/o Sh Ram Datta Verma	UP SVC/4794/08	Vill-Langra Ki Chawki, Jyoti Sadan, Masodha, Faizabad, U.P.	BVSc&AH/NDUAT/08	1.8.80
1971	Rajesh Kumar S/o Sh Raja Shankar	UPSVC/4796/08	Vill-Khonkar, PO-Khoria Bazar, Dt-Basti, U.P.	BVSc&AH/NDUAT/08	15.3.81
1972	Rajesh Kumar S/o Sh Ram Singh	BVC/2949/08	Vill-Sachiwalaya Colony, PO-Kankarbagh, Dt- Patna-800020, Bihar	BVSc&AH/SKUAS&T/07	6.12.78
1973	Rajesh Kumar S/o Sh Ram Swarup Prasad	BVC/2892/07	Vill & PO-Meghi, Thane- Deepnagar, Sub-Div- Dumraon, Dt-Nalanda-803111, Bihar	BVSc&AH/SVVU/06	25.2.79
1974	Rajesh Kumar S/o Sh Rami Yash Sharma	BVC/2839/07	Vill Saratha, PO-Banlalpur, Thane-Dhata, Sub- Div-Sikharhane, Dt-E-Champaran, Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/05	16.2.80
1975	Rajesh Kumar S/o Shri Ramayash Sharma	UVC/425/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Suthakal, Dt- Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/KVA&FSU/05	16.2.80
1976	Rajesh Kumar S/o Sri Awadheshwar Prasad Sinha	JVC/285/08	1512, Kirthar Apartment Vijaya, Heritage, Kadma, Jamshedpur, East Singhbhum- 831005, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	10.03.72
1977	Rajesh Kumar S/o Sri Jwala Prasad Yadav	JVC/406/08	B.A.H.O Runda, Jharkhand	BVSc&AH/WBUA&FS/03	15.11.76
1978	Rajesh Kumar Sah S/o Sh Muktar Sah	BVC/2843/07	Vill-Bishauni Power House, PO-Masdi Mushari, Thane-Sultanganj, Bhagalpur, Bihar	BVSc&AH/VVU/06	13.11.77
1979	Rajesh Kumar Sharma S/o Sri. Dhananjay Kumar Sharma	JVC/337/08	C/o Sri Bishwanath Mishra, 188, New AG Co- operative Colony, Argora, Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	03.07.72
1980	Rajesh Kumar Shende S/o Shri Devi Das Shende	MPSVC/2592/09	Vill-Aikapur, The- Sausar, Dist- Chhindwara, M.P.-480106	BVSc&AH/IGKVV/09	24.5.80
1981	Rajesh Kumar Singh S/o Late Awadhesh Kumar Singh	JVC/280/08	Plat No.112, 'A' Yuvraj Enclave, Dimna Road, Mango, Jamshedpur, East Singhbhum- 831012, Jharkhand	BVSc&AH/OUAT/01	12.05.74
1982	Rajesh Kumar Sinha S/o Sri Chiteshwar Pd Sinha	BVC/2901/07	Vill&PO-Mohanpur, Thane-Muffasil Thane, Sub-Div&Dt-Samastipur-848101, Bihar	BVSc&AH/AAU/06	5.6.79
1983	Rajesh Kumar Tiwari S/o Sri Dukhi Tiwari	JVC/584/09	Malda, Gawan, Giridih-815313, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	22.02.78

SR NO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
1984	Rajesh Prasad S/o Lal Prasad	BVC/2939/08	Vill&PO-Nauhatta,Thane-Nauhatta,Dt-- Saharsa,Bihar	BVSc&AH/KAU/07	15.12.79
1985	Rajesh Prasad S/o Late Murlidhar Prasad	JVC/408/08	TVO,Berbari,Gingo,Thakur,Gao,Burmu,Ranchi -835205,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	17.07.61
1986	Rajesh Prasad, S/o Late Shri Dulari Singh	JVC/070/08	District Animal Husbandry Officer, Jamtara, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	14.07.49
1987	Rajesh Raturi S/o Sh S.D Raturi	UVC/389/08	77, Ashutosh Nagar, Nehru Marg, Rishikesh Dt, Dehradun,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	16.3.71
1988	Rajeshwar Ram S/o Sh Nega Ram	BVC/2895/07	Vill&PO-Balia,Thane-Maharaganj,Dt-Siwan-841506,Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	5.6.80
1989	Raji K.C D/o K.O. Chinnan	KeralaSVC/3346/08	Kottoor House,Nennenikkunnu PO, Cheeral Via, Wayanad-673595,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	2.7.83
1990	Rajiv Kumar S/o Dr.V.D.Goel	UVC/431/08	4.NO.V/1366,Pantnagar, Dt- J.S.Nagar,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/00	14.8.76
1991	Rajiv Nagar S/o Sh Tulsii Ram Nagar	HarSVC/2063	#98/IV, Vidyut Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	15.1.85
1992	Rajiv Ranjan, S/o Dr. Brajnandan Prasad	JVC/126/08	Touring Veterinary Officer,Mahuantam,Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	03.01.70
1993	Rajkumar Ramchandra Gongle, S/o Late Shri Ramchandra Subhaji Gongle	JVC/010/08	Touring Vety Officer, Bahadurpur, Jaridhi, Bermo, Bokaro,Jharkhand-829301	BVSc&AH/PKVP/91	12.05.68
1994	Rajni Kumari D/o Sh Gobind Prasad	BVC/2840/07	Vill-Kajibagh,PO-Gulzarbagh, Thane- Alamganj, Sub-Div-Patnacity,Dt-Patna,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	26.9.82
1995	Rajni Prabha Mahto D/o Sh. Binod Kumar Mahto	JVC/254/08	C/o Sh. Binod Kumar Mahto, Gandhi Tola, Chaibasa, West Singh Bhum-833201, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	11.02.79
1996	Rajni Pushpa Sinku D/o Late Parmanand Sinku	JVC/269/08	C/o Mrs. Usha Sinku, Chunwa Toli, Old HB Road, Lalpur, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	07.06.64
1997	Rajnikant Tirkey S/o Shri Mahabir Oraon	JVC/212/08	C/o Shri Mahabir Oranon, Kannoji, Tarup, Ratu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/80	17.12.57
1998	Rajnish Sharma S/o S.Chandra Sharma	UPSVC/4856/08	Vill-Pura, Tinnat Te Ban, Dt-Agra,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	28.7.83
1999	RAJPUT NILESH GANESHRAO	MahaSVC/7936/08	A/P-RAIPUR,Tal.Dist-Buldhana,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/7/83

SNO	NAME	REG. NO.	ADDRESS	INSTITUTION	DOB
2000	Rajrohit S/o Sh Satyendra Kumar Singh	BVC/2732/06	Vill-Parariya,PO+Thane-Bikramganj,Dt-Rohtas-802212,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	4.12.78
2001	Rajshekar B S/o Sri Sanganagoud B	KarSVC/4146/08	Sadashivanagar,Siraguppa-583121,Bellary Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	17.12.84
2002	Rajshekar S/o Bhimanagouda Karjol	KarSVC/4190/08	C/o B.N. Karjol Behind BLDE Engineering Coll Boy Hostel Sajjan Colony,Bijapur-586103,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.7.84
2003	Rajtendra Kumar Pandit S/o Sh Kanhaya Lal Pandit	UVC/442/09	Thapliyal Sadan, 40-Sarswati Soni Marg, Laxman Chowk, Dehradun,Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/71	21.3.46
2004	Raju Prasad, S/o Shri Dodheshwar Singh	JVC/030/08	Asstt.Prof.Pharmacology& Toxicology,RVC Kanke Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	31.12.76
2005	Rajvi Kul Bushan S/o Sh Sat Paul Garg	Pb.SVC/2805/08	Lagpat Nagar, St.NO.5, Kotkapura Distt,Faridkot, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	10.01.84
2006	Rakesh Kmar Nagil S/o Sh DUNGR Mal	RajSVC/3477/08	Vill-Balwantpura, Po-Chelasi,Via-Nawalgarh,Jhunjhunu-333042,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	3.4.82
2007	Rakesh Kumar S/o Late Sh Girija Shanker	UVC/349/08	181/8,Doon Vihar Coloney Rajpur Road, Dehradun,Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/97	6.8.70
2008	Rakesh Kumar S/o Sh Binay Kumar	BVC/2825/06	Vill-Dwarika Bigha,PO-Chero,Thane-Harnauth,Sub-Div-Biharsharief,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/JNAU/06	15.9.79
2009	Rakesh Kumar S/o Sh Seryug Prasad	BVC/2785/06	Vill-Niyamat Nagar,PO-Dharhara,Thane-Silao,Sub-Div-Rajgir,Dt-Nalanda-803111	BVSc&AH/OUA&T/06	14.8.81
2010	Rakesh Kumar Sethi S/o Sh Surndra Kh Sethi	OrissaSVC/2234/08	E-42/1,Central Colony,PO-IRC Village,BBSR-751015,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	5.5.85
2011	Rakesh Kumar Sharma S/o Sh R.C. Sharma	HarSVC/2065	VPO Batta, Nr. Hanuman Mandir, Swami Moh, Distt- Kaithal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	30.1.84
2012	Rakesh Kumar Verma S/o Sh Dhani Ram Verma	CGSVC/381/08	Bajrang Chowk, Madpara, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	27.6.73
2013	Rakesh Ranjan S/o Sh Bindeshwari Prasad	BVC/2737/06	Vill+PO-Maalti, Thane-Asthawan, Sub-Div-Biharsharief, Dt-Nalanda-803107, Bihar	BVSc&AH/WBUDSU/06	10.6.76
2014	Rakesh Ranjan S/o Sh Binda Prasad Yadav	BVC/2894/07	Vill&PO-Kamargama,Thane-Singheswar,Sub-Div-Madhepura,Dt-Madhepura-852218,Bihar	BVSc&AH/OUA&T/07	1.3.77
2015	Rakesh Ranjan S/o Sh Sashi Kumar Sinha	BVC/2772/06	Vill-SBI Colony NO.3,PO-BV College,Thane Danapur,Sub-Div-Danapur,Dt-Patna-800014,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	19.8.77

2016	RAKH BALIRAM JAYRAM.	MahaSVC/8038/08	At-Therla, Tal. Patoda, Dist. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	22-11-84
2017	Ram Babu Kumar S/o Sh Indal Sah	BVC/2933/08	Vill-Bahuarwa, PO-Bishnupur, Thane-Bela, Dt- Sitamarhi-843342, Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	11.6.79
2018	Ram Babu Singh S/o Shri J.M. Singh	UVC/405/08	Vety Officer(Contract)V. H, Nainisand, Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/98	13.8.64
2019	Ram Chander S/o Sh Bahadur Singh	RajSVC/3547/08	Plot NO272, Sect-2, Ward NO.- 10, Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/SKUAS&T/08	1.7.82
2020	Ram Chandra Soni S/o Sh Jagidhs Chandra Soni	RajSVC/3512/08	Behind Vishav Karma Temple, Word No.31, Hanumangarh Town, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	7.5.78
2021	Ram kishore Sharma, S/o Shri Prabhu Dayal Sharma	JVC/180/08	Shastrinagar, Giridih - 815301, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/80	18.01.57
2022	Ram Krshna S/o Sri Bishwa Nath Mehta	JVC/593/09	BAHO, Masalia, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/88	01.06.62
2023	Ram Lakhan Prasad S/o Late Ram Kishun Prasad	JVC/383/08	Patel Nagar, Road No-IA Harmu Housing Colony Argora, Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	02.01.53
2024	Ram Naresh Jha S/o Late Shesh Kumar Jha	JVC/562/09	Ashirwad Apartment, Saket Nagar, Hinoo, Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/92	30.10.64
2025	Ram Nath Ram S/o Late Punit Ram	JVC/496/09	Bandhgari (Dipatoli), Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/79	14.11.56
2026	Ram Prakash Singh S/o Sh M.P. Singh	UVC/438/08	V.O, N.T.D Almora Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/95	3.7.69
2027	Ram Pravesh Ram, S/o Sh. Ram Bilash Ram	JVC/256/08	Sohagara, Shiwpur, Manjhiawan (Kandi) Garhwa-822120	BVSc&AH/BAU/05	05.01.75
2028	Ram Sarikh Prasad, S/o Late Shri Mahangi Prasad	JVC/115/08	Touring Veterinary Officer, Chandil, Saraikela, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	20.10.68
2029	Ram Shyam Singh S/o Sh Ram Asish Singh	UPSVC/4797/08	Vill-Ekderwa, PO-Janaupur, Dt-Ballia, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	5.4.80
2030	Ram Sjiwan Prajapati S/o Shri SoorShyama	MPSVC/2569/08	.Post- Jyoraha, The-Londi, Dt-Chhatarapur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.7.80
2031	Ram Sumer Singh S/o Sh Moti Lal Singh	MPSVC/2516/08	At Post Umreh, Dist-Chhindwara, 480442, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.6.71

SNO	NAME	ROLL NO.	ADDRESS		
2032	Rama Kant S/o Sh Rajbali	UPSVC/4776/08	Vill-Koida, PO-Sultangarh, Dt-Armedkar Ng, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	1.7.83
2033	Rama Nand S/o Sh Birbal Singh	UVC/97/08	Srinath Nagar, Gali No-2, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/Agra Uni/70	28.7.47
2034	Rama Shankar Prasad S/o Sri Bal Govind Prasad	JVC/411/08	Baida Kalla, Paton, Daltonganj, Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	14.07.62
2035	Ramadhar Choudhar S/o Sri Mahatim Choudhary	UPSVC/4875/08	Vill&PO-Karanda, Dt-Ghazipur, U.P	BVSc&AH/AAU/08	21.6.83
2036	Ramakant Bhagat S/o Late Mathura Prasad Bhagat	JVC/471/09	Mahagama, Godda-814154, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/71	01.07.50
2037	Raman Chopra S/o Sh J.C.Chopra	UVC/440/08	B-11 Shivalik Nagar, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/93	30.6.66
2038	Raman Kumar S/o Sh Banwari Lal	RajSVC/3529/08	Vill-Dhani Chotti, PO- Sidhmukh, The- Rajgarh, Churu, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/07	5.7.83
2039	Raman Kumar Thakur S/o Dr. Subhash Chandra Thakur	JVC/301/08	S/o Dr. Subhash Chandra Thakur, Moh-Town Thana Road Dumka-814101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	24.03.78
2040	Raman Sharma S/o Sh M.L.Sharma	HPSVC/844/08	Vill-Tikru, PO-Sanghol, The-Jai-Singhpur, Distt- Kangra, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/08	26.6.81
2041	Ramashraya Singh, S/o Late Shri Kapildew Singh	JVC/087/08	Touring Veterinary Officer, VikaS (Newri), Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/88	29.08.58
2042	Rambir Singh S/o Sh Rampal Singh	UVC/364/08	N/14, Nagla Dairy Farm, Pantnagar, U.S.Nagar, Uttarkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/00	12.11.57
2043	Ramchandra Nagar, S/o Sh Devilal Nagar	RajSVC/3486/08	Vill-Roopahera, Po-Baluhara, Via- Kanwas, Kota-315602, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	2.8.81
2044	Ramcharan Sahu S/o Late Sh Baldev Pd Sahu	CGSVC/390/08	Mudhapara, Abraya, Korba, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	14.5.77
2045	Ramesh S/o Devendra Rathod	KarSVC/4166/08	Station Rd, Gyany Colony, Bijapr- 586104, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.6.85
2046	Ramesh Bhuriya S/o Shri Sukla Bhuriya	MPSVC/2515/08	Chetanya Marg, Udaipuriya, Dilip Gate, Jhabua 457661, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	11.11.80
2047	Ramesh Kumar Sonewane S/o C.S. Sonewane	CGSVC/413/08	3/9 Priyadarshini Parishar (W), Bhilai, Durg Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/87-88	29.6.62

SNO	NAME	BNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2048	Ramesh Nagar S/o Sh Mool Chand Nagar	RajSVC/3495/08	Vill&PO-Anthara,Bundi -323021,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	15.5.82
2049	Ramesh Singh S/o Sh P.S. Nitwal	UVC/359/08	Village Quiti, PO- Quiti Pantnagar Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/93	5.7.68
2050	Ramesh Tiwary S/o Ashok Kumar Tiwary	JVC/190/08	Rankikala, Manika, Latehar-822126 Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSU/02	17.1.77
2051	Rameshbabu S.M S/o Mani S.P	KarSVC/4121/08	1st Parallel Road, A Block, Gandhinagar, Shimoga-577201,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	22.3.84
2052	Rameshwar Prasad Singy, S/o Shri Sidhnath Singh	JVC/060/08	3C, Arpit,Apartment, JC Road, Lalpur,Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	22.05.62
2053	Rameshwar Singh S/o Late Sh Patiram Yadav	UVC/362/08	Pushpkunj, Near Haridwar Bypass Mothrawala Road, Ajabpur Khurd,PO- Ajabpur, Kalan, Dehradun	BVSc&AH/GBPUA&T/76	1.7.53
2054	Ramkishore Prasad Mehta, S/o Late Shri Kailash Mahto	JVC/121/08	Touring Veterinary Officer(Mobile),Lohardaga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	05.01.57
2055	Ramlochan Kumar S/o Sh Arjun Singh	BVC/2769/06	Vill-Mamiya,PO-Andi,Thane-Bind,Sub-Div-Biharsharief, Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/OUAT/06	6.1.77
2056	Ramnaryan Sharma S/o Late Sh Vishnu Pd Sharma	CGSVC/379/08	MIG,12,Meenakashi Nagar,Borsi,Durg,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	4.6.68
2057	Ramraghvendra Singh S/o Sh Guru Narain Singh	UPSVC/4791/08	Vill&PO-Konchitirana AIT,Dt-Jalaun,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	10.1.84
2058	RAMTEKE RINA RAJKUMAR.	MahaSVC/8031/08	C/o Shri Krishna Pantawane,Plot No.138,Kukade Layout,Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	18-12-83
2059	RAMTEKE SNEHAL SHALIK.	MahaSVC/7979/08	Ramteke Bhawan,Panchseel Ward,Gajanan Chowk, A/P-Sakoli,Dist. Bhandara-441802	BVSc&AH/MAFSU/08	25-10-84
2060	RAMTEKE RINA RAJKUMAR.	MahaSVC/8133/09	C/o-K.S.Pantawane,Plot No.138,Kukade Layout,Nagpur-440027,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	18-12-83
2061	Ramya Rajan V. D/o V.V.Rajan	KeralaSVC/3368/08	Vellara House, Pelakkattu Payyur Koonamuchi PO, Thrissur-680504,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	8.10.83
2062	Rana Pratap S/o Dr. Rajendra Pd. Thakur	JVC/206/08	TVO; Silli, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	25.03.61
2063	RANAWARE PRADIP BALASAHEB.	MahaSVC/8137/09	A/P-Jinti (Vikas Nagar),Tal.Phaltan,,Maharashtra Dist.Satara-415523	BVSc&AH/MAFSU/08	12-03-85

SNO	NAME	NUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2064	Ranesh S/o Sh Jagdamba Prasad	UPSVC/4801/08	Yadav Market, Nr.V.P.S.E.B,Raj Ng,Pukhrayan,Kanpur Dehat,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	4.3.81
2065	Rangtei Kubar Marbaniang S/o Shri C.S.Soanes	MeghSVC/265/08	Nongmensong Shillong,PO-Assam Rifles-793011,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	20.7.82
2066	Rani Chacko D/o T.J.Chacko	KeralaSVC/3360/08	Thottumarickal House, Machiplavu PO, Idukki-685511,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	23.5.84
2067	Ranjana Malankar D/o Shri Deepak Maolankar	MPSVC/2542/08	R-16,Shakti Nagar,Nr Gupteshwar Mandir ,PO-Jabalpur-482001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	30.7.83
2068	Ranjana Mooken D/o Jose A Mooken	KeralaSVC/3370/08	Mooken House, Nr Block Office, Pranavam Ng No.45, Ollukkara, Thrissur-680655,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	9.8.83
2069	Ranjeet Kumar Paswan S/o Sh Nawal Kishore Paswan	BVC/2857/07	Vill-Chhajapur,PO+Thane-Telhare,Hilsa,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	26.1.80
2070	Ranjeet Kumar S/o Sh Seryu Chaudhary	BVC/2783/06	Vill-Karhara,PO+Thane-Ghoshi,Sub-Div&Dt-Jahanabad-804406,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	2.1.82
2071	Ranjeet Singh S/o Sh Jarnil Singh	Pb.SVC/2816/08	VPO-Chamyar, The- Ajnala,Distt-Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	15.12.83
2072	Ranjit Kumar Bhagat S/o Late Baleshwar Bhagat	JVC/519/09	Torar Sarna Toli, Juriya, Senha, Lohardaga-835302, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/93	15.11.69
2073	Ranjit Soren S/o Late Lakhan Soren	JVC/521/09	Chota Kurma, Shiripur Bazar, Mandro, Sahebganj-813208, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	12.12.72
2074	RANVIR SATISH BHAURAO.	MahaSVC/7975/08	Vikas Nagar,Taroda (Bk),Tal.Dist.Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-7-83
2075	Rashmi D/o Sh Jagdish Babu	UPSVC/4807/08	368,B,Avash Vikas Janakpuri,Rajendra Ng, Bareilly,U. P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	3.2.80
2076	Rashmi Devi Chandra D/o Sh Gajadhar Chandrakar	CGSVC/435/09	C,Pocket-A,10/CA Morda Sector, Bhilai,Dt-Durg-490006,Chattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	11.2.85
2077	Rashmi Kumari D/o Sh. Achyutanand Prasad	JVC/252/08	C/o Sh. Achyutanand Prasad, Chorya, Chanho, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	15.10.81
2078	Rashmi S/o Sh Samandar Singh	UPSVC/4839/08	Vill-Ticket,Po-Bisawar,Sapabad,Dt-Hathras,U.P	BVSc&AH/RAU/07	1.1.80
2079	Ratan Kr. Dubey S/o Sri Digambar Pd. Dubey	JVC/510/09	Bandanwar, Pathargama, Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	21.07.61

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2080	Rathindra Nath Mukherji S/o Late Bhutnath Mukherji	JVC/368/08	Qr. No.-CD-655, Sec.II, Side-4, HEC Colony, Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	15.02.49
2081	RATHOD AVINASH SHANKARRAO.	MahaSVC/8034/08	Hutatma Smarak, Jintur, Tal. Jintur, Dist. Parbhani-431509, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12-04-84
2082	RATHOD JAILAL ROHIDAS.	MahaSVC/7923/08	Mohiniraj Apartment, 11-Rajput Colony, Nr Machindra, Deopur, Dt-Dhule, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/5/83
2083	Rathod Rajesh Madhavlal	GujSVC/2985/08	At&PO-Gadh, Nr. Three Roads, Ta-- Palanpur, Dt-B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	2.8.84
2084	RATHOD RAVINDRA BABURAO.	MahaSVC/8033/08	C/o B.J.Rathod, B-4, Ambad Road, Tal. Dist. Jalna-431203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	09-01-81
2085	RATHOD SURESH BALAJI	MahaSVC/7840/07	Police Colony, Basmat Nagar, Dt- Hingoli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/5/85
2086	RATHOD SANDESH JAYRAM.	MahaSVC/7995/08	Near Ajispur Road, Buldana, Maharashtra Tal. & Dist. Buldana. 443001	BVSc&AH/MAFSU/08	16-06-83
2087	Ratnesh Kumar Chaudhary S/o Sh Manikant Chaudhary	BVC/2781/06	Vill-Anand Colony, PO+Thane-Banka, Sub-Division-Banka, Dt-Banka-813102, Bihar	BVSc&AH/WBUEFSU/06	3.3.76
2088	RAUL VIVEK PRAMOD.	MahaSVC/8100/08	30/3, Rafi Ahmed Wdwaj Road, Wadala, Dist. Mumbai-400031, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	27-06-84
2089	Raushan Kumar S/o Sh Krishna Prasad	BVC/2864/07	Vill-Kachhari Rd, PO-Hisua Panchu, Thane-Hisua, Dt-Nawada, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	12.5.80
2090	RAUT ANIL NARAYAN.	MahaSVC/7746/07	Ward NO.-6, PlotNo29, Shivji Ng, Mehkar, Dongaon Rd, Mehkar, Dt- Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/PRKVP/89	25/7/65
2091	RAUT JAYA DEVIDAS.	MahaSVC/7799/07	C/o Devidas W. Raut, At- Pimpalgaon (Nr. Police Patil House), Dt&PO- Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/1/85
2092	RAUT MUKUNDRAJ GAJANAN	MahaSVC/7848/07	At-Nirgude, Tal-Indapur, Dt- Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/12/82
2093	RAUT SACHIN DATTATRAYA	MahaSVC/8024/08	Civil Hospital Quarter-Class IV-A, Maharashtra Dist. Osmanabad	BVSc&AH/MAFSU/08	26.09.85
2094	RAUTE LALIT JANARDAN	MahaSVC/7917/07	Anant Laxmi Niwas, R.No.-101, 1st Floor, Kamatghar, Bhivandi, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	18/8/84
2095	Raval Diptiben Titabhai	GujSVC/2938/08	Kevadia Colony, Cat-C, Block NO. 31/184, Dt- Narmada, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	21.12.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2096	Ravathy T.R. D/o K. Raveendran Nair	KeralaSVC/3328/08	Revathy Nilayam Irumpa Aruvikkara PO, Thirvananthapuram-695564, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	16.3.84
2097	Ravi A.M S/o Manchashetty	KarSVC/4137/08	Arethippuru, Koolagere Post-571433, Maddur Tq, Mandya Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	21.6.83
2098	Ravi Bhusham S/o Sh Naresh Kumar	Pb.SVC/2796/08	Shop No.69, Commission Agents Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	16.2.84
2099	Ravi Goyal S/o Sh Dwarka Prasad Agarwal	RajSVC/3526/08	32, Lajras Lane, Christian Ganj, Ajmer- 305001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	9.10.81
2100	Ravi Kant Kumawat S/o Sh Badri Prasad Kumawat	RajSVC/3509/08	Panch Vihar Colony, Plot NO-33, Harmada Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	27.1.82
2101	Ravi Kant S/o Lat Baldeo Nayak	JVC/293/08	Ashok Medical Hall, Petarbr, Tenughat, Bokaro-829121, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	30.11.79
2102	Ravi Nandan S/o Late Srirang Prasad Sinha	JVC/450/09	T.V.O.Sarwan, Deoghar, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	06.04.65
2103	Ravi Prakash Dwivedi, S/o Shri Ram Lakhan Dwivedi	JVC/156/08	Block Ani. Hus. Officer, Saraiyahat, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/CCSHAU/03	10.05.77
2104	Ravi Sen Verma S/o Sh Chandra Sen Verma	RajSVC/3472/08	H.No.10-A, Paota 6''c Road, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/07	31.12.78
2105	Ravi Shankar Kapoor S/o Sh. Satyendra Narayan Kapoor	JVC/227/08	C/o Shri SN Kapoor, Near Kanke Block Chowk, Kanke, Ranchi-834007, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/92	05.10.67
2106	Ravikant Pandey S/o Shri Ram Sujjan Pandey	MPSVC/2545/08	Vill-Kherwa, PO-Tikuri, The-Manpur, Dt- Umariya, M.P-484661	BVSc&AH/JNKVV/08	22.8.80
2107	Ravikiran H.P S/o Pandurangappa M.H	KarSVC/4141/08	1st Main Rd, Maruthinagar, Doddaballapura- 561203, Bangalore Rural Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	3.2.86
2108	Ravinak s/o Chandra Naik L	KarSVC/4143/08	C/o Shama Naik Kalkere-577180, Kadur Tq, Chikkamagalur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	3.6.82
2109	Ravinder Singh S/o Sh Ran Singh	HarSVC/2034	# 203, W.No. 10 Civil Hospital Road Loharu Distt, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	12.10.81
2110	Ravindra Chandra S/o Sh C.R.Arya	UVC/363/08	Vill&Pot Ginti Gaon, Kotabagh, Distt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&I/89	25.6.63
2111	Ravindra Kumar S/o Shri Jagpal Singh	UVC/368/08	Akode Khurd, PO-Mukarmat Pur, Mundkhare Kalan, Laksar, Distt- Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&I/08	25.6.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	
2112	Ravindra Kumar, S/o Shri Chandeshwar Prasad	JVC/042/08	Jr. Scientist Cum Asstt. Prof. RVC,Kanke,Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	01.03.77
2113	Ravindra Singh S/o Shri Sher Singh	UVC/377/08	Vill Paing PO-Reni, Thana, Joshimath, Dt-Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/GBP UA&T/08	2.4.83
2114	Ravishankar Deo Burman S/o Sh Ram Pyare Prasad	BVC/2804/06	Vill+PO-Salempur,Thane-Karaipersuari,Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/06	25.1.80
2115	Ravishankar Kumar S/o Sh Sadanand Prasad	BVC/2791/06	Vill-Sardarpur,PO-Amawan, Thane-Bind,Sub-Div-Bihar Sharif,Dist -Nalanda,Bihar	BVSc&AH/AAU/06	12.7.73
2116	Rehana Sekhar C.A D/o A.R Chandra Sekhar	KeralaSVC/3413/09	"Chaithra"TC 31/861 (1), Pully Lane, Chakkai,Thiruvannathapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.8.83
2117	Reeba Paul D/o M.A. Paul	KeralaSVC/3357/08	Mulakkai House 47/21,Tool Gate Rd,Vaduthala PO,Cochin,Ernakulam-682023,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	5.5.84
2118	Reema Verma D/o Sh R.S.Verma	HarSVC/2051	# 475, Sector -15 A Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	25.12.85
2119	Reena Kumar Kamal D/o Sri Ram Dayal Prasad	JVC/294/08	C/o Sri Ram Dayal Prasad, Shiv Ganj, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	03.02.81
2120	Reena Shaili Kujur D/o Shri Balasiyus Kujur	JVC/240/08	Satranji Hulhundu, Hatia, Ranchi-835221, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	16.04.76
2121	Rehna Hassan D/o Hassan Kunju P.M	KeralaSVC/3453/09	Variyath House, Thalayolaparambu (PO),Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	8.7.84
2122	Remya John V D/o John V.J	KeralaSVC/3371/08	Vazhappilly House PO, Thoyakkavu,Thrissur-680513,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	4.4.84
2123	Remya Raveendran D/o M.Raveendran	KeralaSVC/3383/08	Ancharandikzhakkethil,Nadutheri,Pattazhi PO,Kollam,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	31.3.84
2124	Rena Pathak D/o N.K.Pathak	CGSVC/341/07	Infront of Vety Hospital, Nr Gouri Mandir.Ambikapur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/05-06.	5.8.81
2125	Renjith Gopal S/o Rajukuttan Pillai	KeralaSVC/3372/08	Renjith Gopal, Kavoor,Karimpani PO, Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.5.84
2126	Renu D/o Sh Vasu Dev	HarSVC/2059	F-42, Forest Colony, Nr D.C.M. Gate, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	7.9.84
2127	Reshmi.P D/o I.R. Peethambaran	KeralaSVC/3325/08	Sree Padmam,Kolathara PO, Kozhikode-673655,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	20.4.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2128	Richa Rupam D/o Late Sh. Ajit Kr Singh	BVC/2874/07	Vill-Chhoti Kalyani Chauk, Mukherjee Seminary Rd, PO-Ramna, Thane- Mithanpura, Sub-Div-Tirhut, Dt- Muzaffarpur, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	29.1.78
2129	Rijas Naz V.V S/o V.V.Mohammed Basheer	KeralaSVC/3414/09	Kadeeja Mahal PO, Karaparambh Nadu, Vilakandy Parambh, Thadambhattuthazam, Calicut, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.9.83
2130	Rikesh Ranjan S/o Sh Navin Kumar Sinha	BVC/2777/06	Vill-Chandmari Rd, PO-Kankarbagh, Thane- Kanakarbagh, Sub-Div-Patna-20, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.3.81
2131	RINDHE SANDELP NARAYAN	MahaSVC/8085/08	C/O N.T.RINDHE Tirupati Balaji Nagar, At- Sunderkhed Taluka-Buldhana.	BVSc&AH/MAFSU/06	29/12/83
2132	Rinkan Singh S/o Sh Kasna Kumar	UVC/435/08	V.O- Vety Hospital Bara, Kichchaa, Dt- U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/98	6.5.73
2133	Rinki Kumari D/o Sh Hemlal Singh	BVC/2871/07	Vill-Ramnagar, Po-Polytechnic, Thane- Khajanchi Haat, Sub-Div-Purnea Sadar, Dt- Purnea, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	3.11.82
2134	Ripii Kharbanda S/o Sh R.K.Kharbanda	Pb.SVC, 2723/08	113-B, Sarabha Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/07	23.1.83
2135	Rakesh Panwar S/o Shri Heera Lal Panwar	MPSVC/2512/08	C/o Shri A.R.Chauhan, D-5/9, MOG line, Indore, M.P.	BVSc&AH/JNKVV/08	7.9.78
2136	Ritesh Kumar Gupta, S/o Sh. Chandra Deo Prasad Gupta	JVC/260/08	Cinema Road, Dhanwar, Giridih-825412	BVSc&AH/RAU/03	06.05.75
2137	Ritesh Kumar Jaiswal S/o Sh Ashok Jaiswal	CGSVC/398/08	Vill&PO-Kalyanpur, Dt- Sarguja, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	12.6.86
2138	Ritesh Kumar S/o Sh Kamleshwari Mandal	BVC/2817/06	Vill-Dumkhatola, PO-Maheshkhunt, Thane- Maheshkhunt, Sub-Div-Khagaria, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.1.80
2139	Ritesh Ranjan S/o Sh Surendra Pd Singh	BVC/2800/06	Vill+PO-Nawada, Thane-Chautham, Sub Div- Khagaria, Dt-Khagaria, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/06	2.1.80
2140	Ritish Ranjan S/o Sh Harinarian Prasad	BVC/2908/07	Vill- Agarpar, PO-Malikpur, Thane- Karaipersuri, Dt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	1.3.78
2141	Ritu Aggarwal D/o Sh Ashok Kumar Agarwal	CGSVC/451/09	383/29, Papura Juna Sadan, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	28.8.85
2142	RODE SUHAS RAMKRISHNA	MahaSVC/7901/07	Geneshnagar, Subhash Ward A/p-Tal Warora, Dt-Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/9/83
2143	Romit Guleria s/o Sh Sansar Chand Guleria	HPSVC/828/08	Vill & PO- Talyahad, The- Sadar Distt, Mandi, H.P.	BVSc&AH/CSKKVV/08	24.2.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2144	ROKADE NANDKISHORE VILAS.	MahaSVC/7949/08	A/P-Rokada, Sawargaon, Tal. Ahmadpur, Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	06-02-85
2145	Ropanand Patel S/o Sh Haldhar Patel	CGSVC/450/09	Vill-Basant Paili, PO-Sodanka, The-Kharciya, Dt- Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	13.4.79
2146	Rose Mary Mathew D/o K.C. Mathew	KeralaSVC/3466/09	Kanjooopambal House, Pumphouse Rd, Kurimumoodu PO, Kottayam-686104, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.5.85
2147	Roseline Pushpa Tirkey S/o Late Luther Tirkey	JVC/202/08	C/o Dr. Bipin Bhalko, Purana Lowadih, Namkum, Ranchi-834010	BVSc&AH/BAU/93	13.4.68
2148	Roshni T.s. D/o Scaria T.S	KeralaSVC/3340/08	Thekkumkattil House, Thoddupuzha PO, Olamattom, Idukki-685584, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	25.5.82
2149	Roy Daniel Sonar S/o Late Gabriel Sonar	ASM/2423/09	Sauvov Nagar, Near Namghar, H.No.31, PO- Beltola, Dist-Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/74	1.3.50
2150	Ruchi Maan D/o Dr. O.P.Mann	RajSVC/3500/08	Nizampur Mod Kheri, Jhunjhunu-333503, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	9.1.83
2151	Ruchi Pachaury D/o Sh S.K Pachaury	RajSVC/3483/08	38-Van Vihar Colony, Opp Air, Churu- 331001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	7.6.83
2152	Ruchi Tiwari, D/o Sh.J.L.Tiwari	CGSVC/409/08	Qtr No.VC., Sector-4, Road NO.- 4, Bhillai, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/05-06	19.10.82
2153	RUDRAWANSHI CHANDAN PRAKASH.	MahaSVC/8053/08	Radhika Housing Society, HouseNo.2, Sakora Road, Girnanagar, Tal.Nandgaon, Dist.Nasik- 423106	BVSc&AH/MAFSU/08	26-11-82
2154	Rupa Lakra D/o Sri Ladhu Runda	JVC/241/08	C/o Sh. Ladhu Runda, Karam Toli, Bariatu Road, Near-Manki Bhavan, Ranchi Uni. Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	26.07.76
2155	Rupal Pathak D/o Shri N.K.Pathak	MPSVC/2586/09	Padmdhar Colony, Dhekha Rewa, M.P	BVSc&AH/IGKVV/09	7.9.83
2156	Rupesh Kumar S/o Sh Jagdish Pd Singh	BVC/2912/08	Vill-Text Book Colony, Indrapuri, PO- Keshring, Thane-Patiputra, Dt-Patna-24, Bihar	BVSc&AH/PU/06	5.1.78
2157	Rustam Kuma Raushan S/o Sh Prithvi Chandra Singh	BVC/2956/08	Vill&PO-Nurpur(Maheshpur), Thane-Chautna, Dist- Kagaria-851201, Bihar	BVSc&AH/BAU/07	22.2.83
2158	Rusali Nakhro S/o Zhakietuo Nakhro	NSVC/237/08	Town Baptist Church, Medizphema - 707106, Nagaland	BVSc&AH/AAU/08	4.9.83
2159	S.A.Dani Preetha S/o A.Sobhanam	TNSVC/4312/08	Therumbu House, Chathancode PO, Kanyakumari-629153, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.6.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2160	S.Anbazhaki S/o K.Sundaram	TNSVC/4328/08	Narthampatty PO,Laligam S.O,Dharmapuri- 636804,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.6.85
2161	S.Anitha S/o K.A Somasundaram	TNSVC/4157/08	3/271,Naickan Kottai PO,Kambainallur Via, Dharmapuri-635202,Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	29.5.85
2162	S.Arul S/o C.Sundaram	TNSVC/4208/08	2/75,Kumaran Street,Kaipudhur,S.Papparpatti PO.Attayampatty Via,Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.83
2163	S.Arun S/o M.Selvaraj	TNSVC/4348/08	5 (14),Nethaji Ng,Nanjundapuram Rd, Coimbatore,Tamilnadu	BVSc&AH/OUA&T/08	25.2.86
2164	S.Balaji S/o R.Sekar	TNSVC/4165/08	383,North Railway Colony,Vilupuram,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	29.7.86
2165	S.Bhaktavatchalam S/o S.Bathireddy	APSVC/4675/08	Kapugunneri(V&P),Kalahasti(M),Chittoor Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	7.01.83
2166	S.BHAVYA	MahaSVC/8012/08	CPWD Qts. Type IV -46 (Old),Maharashtra Seminary Hills, Nagpur.440006	BVSc&AH/MAFSII/08	26-08-85
2167	S.Deepa S/o M.Subramanian	TNSVC/4254/08	S.R. Illiam Main Road,Sengampalli,Pallapatti PO,Namakkal 637017.	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.6.84
2168	S.Devi S/o P. Sugarasappan	TNSVC/4160/08	4/11,Sithampoondi PO, Paramathivelur Taluk, Namakkal,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	29.5.86
2169	S.Dhanabal S/o C. Sundaram	TNSVC/4402/09	Pinnavasal and PO,Peravurani taluk,Thanjavur Dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.83
2170	S.Durgadevi S/o K.Subramanian	TNSVC/4297/08	Sengunthar Nagar,Ind Street, Chinna Salem,Vilupuram 606201,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	28.3.85
2171	S.Estheru D/o S.Bhupendra Laxmipathi Rao	APSVC/4696/08	C/o . Helen (SBI), Samalkot, East Godavari Dt,Andhra	BVSc&AH/SVVU/08	15.6.85
2172	S.Ganapathy S/o T.T. Subbaiah	TNSVC/4397/09	49,Elutharam Street,Valkoor, Tiruneveli- 627117,Tamilnadu	BVSc/TANAU/78	12.12.54
2173	S.Ganesan S/o A.Sivasundaram	TNSVC/4127/08	4/703 E,Sunda, Illam, 4th Street,Mahalaksmi Ngg, K.Pudar,Madurai, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/96	8.11.72
2174	S.Gangasudan S/o A. Subramani	TNSVC/4173/08	Baga, Athiamman Koil Street, T. Subbulapuram,Andipatty,Theni,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	2.5.85
2175	S.Harini D/o S.Veera Reddy	APSVC/4679/08	Chinnaguruvaluru (V),Chapadu(M),Mydukuru (P),Kadapa Dt,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	20.8.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2176	S.Imtisungkum Jamir S/o Late Supongmeren	NSVC/234/08	LA Belle Beauty Parlour, Chishi Market Complex, Dimapur, Nagaland	BVSc&AH/CAU/08	21.5.85
2177	S.Jayanthan S/o T.Santhanam	TNSVC/4177/08	11/28,Sakthi Ng,Tirupattur,Veilor- 635601,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	3.10.84
2178	S.John Ravikumar S/o M.Samikkannu	TNSVC/4121/08	Pillaikulam,Karisalpatti PO,Cheranmahadevi Via, Tirunelveli,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/92	15.9.67
2179	S.Jothy Lingam S/o K.Soma Sundaram	PondiSVC/318/09	NO.8H -1, Telecom Staff Qtrs. Jaya Nagar, Reddiarpalayam,Puduchery	BVSc&AH/PU/08	17.8.84
2180	S.K.Chaudhari S/o Sh S.N.Chaudhary	UPSVC/4738/08	H.NO.62-B Colony,Nathamalpur(Keshav Puram),Dt-Gorakhpur,U.P	BVSc&AH/KAU/08	17.6.76
2181	S.K.Srivastava S/o Sh Shiva Kant Lal	UPSVC/4741/08	Vill&PO-Patti,Bankatta,Dt-Azamgarh,U.,P	BVSc&AH/GBPU&T/08	7.12.79
2182	S.Kalyana Raman S/o K.Shunmugam	TNSVC/4134/08	797-A,9th North Street, Thiyagaraja Ng, Tirunlveli,TamilNadu	BVSc/TNAU/76	23.4.53
2183	S.Kanagamani S/o V.Saravanan.	TNSVC/4311/08	14,Bazar Street,Chinna Salem,Villupuram,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.6.83
2184	S.Kaviya S/o C.Soundrapandiyan	TNSVC/4264/08	1/36-C (Old NO.2/84),Varambiam,Devambalpuram,Thirut huaipundi-614715,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	5.4.85
2185	S.Krishna Kumar S/o A.Sivanathan	TNSVC/4308/08	Nangavalli,Main Rd 14-418-81 (Old No.- 618),Vetnikaradu,Arundhadhiyar Street,Tharamangalam,Omalur tulak,Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	31.5.85
2186	S.Malathi S/o Subramanian	TNSVC/4159/08	Muniappankoil Thottam,Ennamangalam PO,Anthiyur,Via- Bhavani Taluk, Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	25.5.85
2187	S.Manimozhi S/o A.Selvaraju	TNSVC/4191/08	Sundipallam,Muthuserva Madam PO,Udayarpalayam Taluk,Ariyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.7.84
2188	S.Manivannan S/o R. Sivasamy	TNSVC/4351/08	259-B,Avinashillingampalayam Rd,Kaikattipudur,Avinashi Taluk,Coimbatore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	26.5.84
2189	S.Mohandoos S/o R.Santhanakrishnan	TNSVC/4379/08	15/8,South Kaliyamma Koil Street,Pattukkottai -614601,Tamilnadu	BVSc/MU/72	12.1.47
2190	S.Mohandoss S/o M.Samuel	TNSVC/4388/09	7/26,Venkatrman Ng,Thirung,Extension,Velloor-6,Tamilnadu	BVSc/TNAU/82	2.4.54
2191	S.Murugavel S/o G.Sokkalingam	TNSVC/4117/08	341,Kuchipalayam Street,Nallathur PO, Cuddalore Taluk,605106,TamilNadu	BVSc&AH/PU/08	12.6.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2192	S.Muthuvirudhagiri K S/o Subramanian	TNSVC/4168/08	29/8-E, Bazaar Street, Kumbakonam Bank Backside, Vridhachalam, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	26.5.84
2193	S.N.N. Mohammed Ali Jinnah S/o S.N. Nagore Gani Sahi	TNSVC/4382/09	72, Lebbaisapuram Street, Puliangudi, Tirunelveli- 627855, Tamilnadu	BVSc/MU/66	1.7.42
2194	S.N. Suthagar S/o S. Namasivayamoorthy	TNSVC/4411/09	2N/647, Bharathi Ng, Reserve Line, Sivakasi (W), Virudhung-626124, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/94	12.3.72
2195	S.N. Venkatesan S/o S.K. Narayanan	TNSVC/4146/08	36 (Old NO.23), Mahalakshmi Street, Flat No. B-4, Santhi Apartment, T. Nagar, Chennai	BVSc/MU/68	15.6.46
2196	S. Nagarajan S/o M. Subramaniam	TNSVC/4389/09	54 (Old No.3), Anna Ng, Dinigul624005, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/97	24.8.75
2197	S. Narayana Singampalli S/o S. Chandrayya	APSVC/4695/08	Alamanda (R.S), Jami (M), Vizianagaram Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	13.7.84
2198	S.P. Dohar S/o Sh O.L. Dohar	CGSVC/403/08	Shanti Nagar Wada, Jagtalpur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/91-92	21.1.67
2199	S.P. Engole S/o Late Sh P.N. Engole	CGSVC/356/08	Zon-2, G.E. Road, New Adrash Ng, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/PRKVV/82	1.5.61
2200	S.P. Malar Kannan S/o S. Palanichamy	TNSVC/4406/09	7, Meenakshi Street, South Street, Aruppukottai Virudhunagar- 626101, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/94	27.3.71
2201	S. Parana Sivan S/o V. Subban	TNSVC/4377/08	366, KAS Nagra, Railway Colony Post. Erode Dt, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/98	5.11.72
2202	S. Piraveen S/o M. Saravanan	TNSVC/4162/08	8/50, Panasakkadu, Vadakadu PO, Alangudi Taluk, Pudukottai, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.4.84
2203	S. Ponnusamy S/o V. Sankar	TNSVC/4209/08	1/77, Bomma Samuthiram, PO- Namakkal, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.5.85
2204	S. Poovendra Raja S/o S.P. Sakthivel	TNSVC/4220/08	76/40, Erode Main Road, Kavindapadi Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.6.84
2205	S. Pushpa S/o K. Sengottayan	TNSVC/4332/08	Parakkadu, Thalavampalayam, Marappara PO, Namakkal Dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.5.84
2206	S.R. Prabakar S/o S.N. Ramamoorthy	TNSVC/4391/09	3/336, Krishna Ng, Thiruppalai, Madurai, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/92	18.4.69
2207	S. Raja Gunalan S/o Sithanandan	PondisVC/310/08	No.26, Subramanniwami Koil Street, Muthialpet, Puducherry	BVSc&AH/PU/08	12.9.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2208	S.Rajesh S/o A.Selvaraj	TNSVC/4302/08	OA/1,Maluppan Street,Mannargudi,Thiruvarur-614001,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.9.84
2209	S.Rajesh S/o S. Subrmanian	TNSVC/4233/08	1/179,East Street,Ponparappi PO,Sendurai,Ariyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.5.83
2210	S.Ramadevi S/o R. Subbiahpandian	TNSVC/4270/08	9-8,School Street,Rayagiri,Tirunelveli-627818,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.4.85
2211	S.Ramesh S/o A.Sampath	TNSVC/4295/08	20,Pappathyammam Koil Street,Ananipalayam,Arani-632301,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.6.84
2212	S.Ravikumar S/o R. Sivanandam	TNSVC/4135/08	Bharathi Street, Kuvagam PO, Ponparappi Via, Ariyalur, Dt-621710, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/95	15.6.72
2213	S.S.Jothirajalingam S/o S.Subbaiah Nadar	TNSVC/4125/08	1/141,North Street,Melaputhukudi PO,Ammanpuram Via, Tiruchenthur Taluk, Tuticorin,TamilNadu	BVSc/TNAU/83	19.11.58
2214	S.Santhosh S/o K.Sundaram	TNSVC/4283/08	49/22-B Bazaar Street,Dharmapuri-636701,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.2.85
2215	S.Saradha S/o S.Sundaram	TNSVC/4237/08	45-B,North,New Street,Ramanathapuram-623501,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.3.84
2216	S.Saranya S/o K.Subramanian	TNSVC/4291/08	23/6,'C' Type,Golden Rock,Trichy-620004,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.7.85
2217	S.Saravanan S/o A. Subramanian	TNSVC/4324/08	24, 4th Corss Street,Kamaraj Road,Anthiyru,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	21.3.84
2218	S.Sathees Kumar S/o Sengottaiyan	TNSVC/4258/08	A Sembulichampalayam PO,Bhavani taluk, Erode-638501,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.4.83
2219	S.Senthil Kumar S/o M.Subramaniam	TNSVC/4322/08	Kattamarapalayam,Unjalpalayam PO,P.Velur taluk,Namakkal,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.1.86
2220	S.Senthil S/o P.Sampath	TNSVC/4151/08	183/68,Mallapuram PO,Pappireddipatty Taluk,Dharmapuri,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/08	12.6.83
2221	S.Silamba Rasan S/o C.Suryarajyam	TNSVC/4200/08	366,Kurugudi,Puliyadi Street,Kandamangalam PO,Kattumannarkoil Taluk,Cuddalore,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	10.12.84
2222	S.Sivajyothi D/o S.Saddasivareddy	APSVC/4757/08	D.NO.3/2@,Vempalli Rd, Yerragunta Kadapa,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	25.8.85
2223	S.Sivaramna S/o P.Subramanian	TNSVC/4386/09	23-A,Coronation Colony,Sivakasi-626189,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/95	16.7.71

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2224	S.Sivaranjani S/o T.Sekar	TNSVC/4181/08	8/5,Chidambaranar Street,R.S.Mangalam,Ramnad,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.2.85
2225	S.Subha Sivagami S/o K.S.Somasundaram	TNSVC/4284/08	205/306,Raja Rajan Street,Min Ng,Kanchipuram,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.9.85
2226	S.Subhanu S/o S. Saravanabhavan	TNSVC/4286/08	18/25,Mariamman Koil Street,Mamsapuram,Srivilliputtur taluk,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.6.85
2227	S.Swathi D/o S.Gopal Rao	APSVC/4797/08	H.NO.18-410/1/1,Malikaarjun Ng, Maikajgiri,Hyderabad-500047,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	21.5.85
2228	S.Thilagar S/o K.Sundarajan	TNSVC/4395/09	MIG 378,III Cross Street, Mogappair ERI Scheme, Chennai	BVSc/TNAU/78	14.10.54
2229	S.Vasu S/o S.Chandra Reddy	APSVC/4796/08	Flat No.104,Sri Rai Residency, H.NO.12-13- 832/1,Gokul Ng, Tarnaka Secunderabad,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.2.82.
2230	S.Vindya Rani D/o S.Sai Baba	APSVC/4697/08	D.NO.16-14-27,Anjaneya Swami Temple Street, Old Guntur,Guntur Dt. A.P	BVSc&AH/SVVU/08	17.7.84
2231	S.Vishnu Priya D/o V.Sathianarayanan	PondiSVC/312/08	NO.161, Vysial Street, Puducherry-1	BVSc&AH/PU/07	20.10.85
2232	S.Wilfred Ruban S/o A.Savariraj	KarSVC/4208/08	G-2, Ground Floor, Bhanu Paradise,Block- 1,Chalekere, Kayanagar, B'lore- 560043,Karnataka	BVSc&AH/PU/01	10.9.78
2233	S.Yasothai S/o K.Saminathan	TNSVC/4242/08	123/72,Perumal Kovil,Pudhur,Ichippalayam PO,Kodumudi,Erode,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	23.3.84
2234	SABALE AMOL SHISHUPAL.	MahaSVC/8055/08	C-9,Sukhwani Plaza,C-9,Main Road,Akurdi,Pune-411035,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	24-10-84
2235	Sabitha Antony D/o Antony Joseph	KeralaSVC/3350/08	Kochuyplackal House,Pala PO,Kottayam- 686575,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	16.5.84
2236	Sabitha Jose D/o Jose Kuruvilla	KeralaSVC/3358/08	Ezhakkunnei House,Vallikkadavu PO,Parappa Via,Kasaragod-671533,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	31.5.84
2237	SABLE MANISH DHONDIRAJ.	MahaSVC/7956/08	Shaniwar Peth, Warud, Tal.Warud,Dist.Amravati,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	7-2-85
2238	Sabna K.V D/o Beeankutty K.V	KeralaSVC/3441/09	"Beepas" Opp Court Parappanangadi (PO),Malappuram-676303,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	22.3.85
2239	Sachin Kumar Jain S/o Sh S.C.Jain	UPSVC/4853/08	544,Gandhi Nagar, Naibasti Lalitpur,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	9.8.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2240	Sachin P.R. S/o Parappa V	KarSVC/4164/08	NO.138,GCR Extn. Vidyanagar,Hosadurga-577527,Chitradurga Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	27.1.86
2241	Sadchi Rikmem,Momin D/o Shri W.N.Marak	MeghSVC/258/08	Bonepa A Tilla Near T.B.Hospital, Tura - 794002,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	12.9.84
2242	SAHARE AMOL ASHOK.	MahaSVC/8088/08	Samatanagar, Ward No.1,Armori, Tal.Armori,Dist.Gadchiroli-441208.	BVSc&AH/MAFSU/08	10-10-84
2243	Sahastrabuddhi Akshay Bhalchandra	GujSVC/2986/08	At&PO-Gadh,Nr.Three Road, Ta-Palanpur,Dt.B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	18.7.83
2244	Sahdeo Murmu S/o Late Budhu Murmu	JVC/322/08	C/o Sri Ram Murmu, Mihijam, Bhaga, Jamtara-815354, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	15.12.72
2245	Sahil Gupta S/o Sh Bilwa Mangal	Pb.SVC/2783/08	Partap Nagar, St.No.1, Gupta Niwas,Kotkapura, Fardikot, Punjab	BVSc&AH/OJA&T/08	31.5.82
2246	Saikia Jayanashree S/o Mr. Chandra Saikia	ASM/2419/09	Vill- Dergoyan,PO-Padmapr,Dist-Lakhimpur-784164,Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.02.85
2247	Sajal Kumar S/o Sri Kedar Nath Saini	JVC/479/09	TVO Barahi,Hazaribagh,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	31.12.71
2248	Sajani K. Joseph D/o K.J.Joseph	KeralaSVC/3485/09	Kallumkal House, Kurinjilavlu, Moonnilavu PO, Kottayam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.5.85
2249	Sajina S.U D/o E.Sulaiman Kunju	KeralaSVC/3472/09	"Vilayil" Nr Madankavu Temple Pada North, Karunagappally PO, Kollam -690518,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	5.6.85
2250	Sajjan Kumar Saini S/o Sh Sedu Ram Saini	RajSVC/3490/08	V/P-Newari,The-Udaipurwati, Jhunjhunu-333053,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	1.7.79
2251	Sakeer Hussain K.M S/o Kunhahamed K.M	KeralaSVC/3448/09	Kayalmadathi House, Kannamkulam B.P. Angdi PO,Malappuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.7.84
2252	Saket Kumar Mishra S/o Sh Ram Sunder Mishra	MPSVC/2574/08	SQ-18 Babuline, Nourojabad,Dt-Umaria-484555,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	29.9.82
2253	Saket Mishra S/o Sh Prabhash Mishra	UPSVC/4870/08	C/4, Khadia,Project (Chikatad),Te-Dudhi,Dt-Sonbhadra,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	12.2.83
2254	Sakina Malik D/oShri Zahid Hussain Malik	MPSVC/2568/08	56,Bohra Bakhal,Opp-Bohra Masjid,Indore,M.P	BVSc&AH/JNKVV/07	10.9.79
2255	Saksham Chopra S/oSh Yogendra Lal Chopra	MPSVC/2544/08	H.No.1116,Nr Vijay Nagar Krishi Upaj Mandi, Phase-II,Jabalpur,M.P-482001	BVSc&AH/JNKVV/08	2.5.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2256	SAKSULE CHANDRAHAS MADHUKAR	MahaSVC/7852/07	Banosa, Daryapur, Dist- Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/9/83
2257	SALANKAR AMOL MADHUKAR.	MahaSVC/8003/08	47, Santaji Colony, Dandekar Layout, Narendra Nagar, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	26-12-81
2258	Salini A.K. D/o C.K. Unnikrishnan	KeralaSVC/3335/08	Kalathi House, Vishavarserikara, Mannar PO, Alapuzha-689622, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	20.5.84
2259	Saloni Gupta D/o Sh S.S.Roopak	UPSVC/4865/08	Gopal Sadan, Humaunpur, Souti, Gorakhpur, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	7.6.83
2260	Salumol S.S. D/o M. Sasidharan	KeralaSVC/3332/08	Sreerengu, Madavoor, Madvoor PO, Thirvananthapuram-695602, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	31.5.84
2261	SALUNKHE PRAVIN SURESH.	MahaSVC/7883/07	A/P- Bhalawant, Tal.Pandharpur, Dt- Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/8/84
2262	Sambasivareddy S/o Yerrappa Reddy	KarSVC/4219/09	NO.12, 1st Cross Snehangar, Amruthalli Main Road, B'lore-560092, Karnataka	BVSc/UAS B'lore/84	1.9.59
2263	Samir Kumar Mandal s/o Muriidhar Mandal	JVC/246/08	C/o M.D. Mandal, Deoli, Junglepur, gobindpur, Dhandbad-828109, Jharkhand	BVSc&AH/MAFSU/03	16.04.77
2264	Samir Sahay S/o Sri Gopalji Sahay	JVC/402/08	Sri Janki Niwas, Boddam Bazar, Hazaribagh- 825301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	15.08.75
2265	Samrat Bir Singh S/o Sh Parminder Singh	Pb.SVC/2850/08	VPO-Fatehpur, Rajpublar, Dist-Amritsar, Punjab	BVSc&AH/OUA&T/08	14.6.84
2266	SANAP NILESH ARUNRAO.	MahaSVC/8035/08	Beed Zehala Sahkari Krushi Va Gramin Vikas (Bhuvikas) Bank, Pokhari Road, Prashant Nagar, Tal.Ambajogai, Dist.Beed.-431517.	BVSc&AH/MAFSU/08	03-06-84
2267	Sanat Kumar Nayak S/o Sh Yuvraj Singh Nayak	CGSVC/360/08	Vill&PO-Navrangpur, Dt-Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	12.9.80
2268	Sandeep Srot S/o Sh P.S. Srot	HarSVC/2057	# 260/28, Subhash Nagar, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	18.9.82
2269	Sandeep Kaswan S/o Sh Sohan Lal Kaswan	RajSVC/3475/08	1-75 Mini Sachivalaya, Hanumangarh Junction, Rajasthan	BVSc&AH/KAU/08	30.6.83
2270	Sandeep Kumar S/o Sh Bakhshish Singh	Pb.SVC/2856/09	13, New Model Town, Kapurthala, Punjab	BVSc&AH/RAU/03	5.12.82
2271	Sandeep Kumar S/o Sh Shivkumar Madariya	CGSVC/391/08	Nr Nirmal Cycle Store, Pansheel Nagar, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	25.6.81

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2272	Sandeep Kumar S/o Sh Tara Chand	HarSVC/2089	# 2689/2, Patel Road, Ambala City, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/01	26.6.77
2273	Sandeep Kumar S/o Sh Vinod Kumar	Pb.SVC/2813/08	H.No.567,Gali NO:2, Subhash Nagr, Hoshiapur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	24.11.84
2274	Sandeep Kumar Sharma S/o Sh G.P.Sharma	UPSVC/4821/08	Nayi Basti,H.H.No.1080,Jhans,U.P	BVSc&AH/JNKVV/07	6.3.81
2275	Sandeep Kumar Sharma S/o Sh Ganesh Prasad Shamra	RajSVC/3580/08	179,Chetak Vihar, Agra Road, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/07	6.3.81
2276	Sandeep Sharma S/o Sh Jagdish Kumar Sharma	HPSVC/858/08	MIG -79, Ward-7, H.B.Colony, Hamirpur Distt, Hamirpur, H.P-177001	BVSc&AH/TNVASU/08	7.2.85
2277	Sandeep Singh Mehmi S/o Sh Baldev Singh	Pb.SVC/2794/08	VPO-Mangeuni, The -Nabha,Dt-Patiala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	3.8.85
2278	Sandeep Tiwari S/o Shri Bhuwan Chandra Tiwari	UVC/372/08	Mohalla Thapalia, Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	7.4.85
2279	Sandesh M S/o Mallesh P	KarSVC/4111/08	N.Shettahally Vill, Ravandur Po-571108,Piriyapatna Tq,Mysore Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	12.11.85
2280	Sandhya Kumari D/o Sri Shatrughan Prasad Agarwal	JVC/548/09	Bharat Gas Shop, Gola, Ramgarh, Hazaribagh-829210, Jharkhand	BVSc/TNVASU/04	12.05.79
2281	Sangamesh Muniyappanavar S/o Parasappa	KarSVC/4099/08	Special Tahasildar Office Chennammakittur PO-591115,Bailahongala,Te-Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.6.85
2282	Sangeeta Kumari W/o Dr. Sri Krishna Kumar	JVC/384/08	Asst.Poultry Off.Redam,Chiyanki Medininagar,Palamu Pin-822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	09.02.70
2283	Sangeeta Yadav S/o A.K.Yadav	HarSVC/2048	# AR-5 Arjun Nagar, Turkiawas Road, Rewari, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	22.8.85
2284	Sangeetha Jadav D/o Ramesh Jadav	KarSVC/4165/08	No.A-11157, Ashoka Nilaya, Jayanagar,Mudhol-587313,Mudhol Tq, Bagalkot Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	9.7.85
2285	Sanim.V S/o Ahammed Koya	KeralaSVC/3465/09	Sumana House, Punnassary (PO), Kozhikode-673585,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.5.84
2286	Sanjay Barua S/o Sh Ramhit Sharma	HarSVC/2082	Vety, Type Culture, NRCE, Sirsa Road, Hisar, Haryana	BVSc&AH/AAU/91	6.9.69
2287	Sanjay C Melinamani S/o Chandrashekhar	KarSVC/4169/08	Ingaleshwara-586235,Basavanabagewadi Tq, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.5.86

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2288	Sanjay Gautam S/o Shri Tilak Singh	MPSVC/2588/09	116/118,Panchsheel Nagar, Behind Mela,Ground Gwalior,M.P-474011	BVSc&AH/IGKVV/09	20.12.82
2289	Sanjay Ghoratkar D/o Late Annaji Ghoratkar	JVC/551/09	BAHO Bage, Simdega, Pin-835201, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	18.08.66
2290	Sanjay Khoiwal Khatik S/oSh Mewalal Khoiwal Khatik	RajSVC/3491/08	Sanganeri Gate, Prem Nagar, Bhiwara,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	30.6.81
2291	Sanjay Kumar Chakhaiyar, S/o Late Shri Bijay Kishore Prasad Chakhaiyar	JVC/098/08	B/3,Vidyanagar, Harmu,Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	12.01.66
2292	Sanjay Kumar S/o Sh Kamleshwari Yadav	BVC/2784/06	Vill-Ghuthiyara, PO-Pathaha, Thane-Phulidumar,Sub-Div-Banka,Dt-Banka-813102,Bihar	BVSc&AH/WBUDSU/06	30.12.82
2293	Sanjay Kumar S/o Sh Malik Lal	RajSVC/3583/08	C/o A.P.Sahu Staff Colony, Veterinary College,Bikaner-334001,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	1.3.76
2294	Sanjay Kumar S/o Sri Angesh Prasad	JVC/370/08	RVO, Ranchi, R.D. Office Ranchi, HEC. Set-III, Hatia, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	01.04.70
2295	Sanjay Kumar S/o Sri Jairam Mochi	JVC/188/08	H.NO.39,Vikashnagar,Hesag,Hatia, Ranchi-834003,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	30.7.70
2296	Sanjay Kumar S/o Sri Ramchandra Sahu	JVC/512/09	New Madhukam Road No.-2, Near Chuna Bhatta, Sukhdeo Nagar, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	04.03.65
2297	Sanjay Kumar Shakya S/o Shri Motiram	MPSVC/2522/08	Vill-Alapur, The -Jaura, Dist-Morena-476001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	9.3.79
2298	Sanjay Kumar Sharma S/o Sh Sardar Sharma	CGSVC/420/08	Sh R.C.Sharma(Advocate),Colony,Surajpur,Surgurja,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/04-05	1.7.76
2299	Sanjay Kumar Singhaniya S/o Sh J.R.Singhyania	CGSVC/427/08	Vill&PO-Gandhai, The-Chuikhadhan,Dt-Rajnathgaon,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/90-91	2.1.68
2300	Sanjay Oraon, S/o Shri Gandira Oraon	JVC/097/08	Sri Gandira Oraon, Chund, Brambey, Mander, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/CSAUA&T/04	24.07.78
2301	Sanjay Singh Tomar S/o Sri Singh Tomar	UPSVC/4842/08	Vill-Shiyari Chelapur PO,Bichavli,Dt-Jafaun,U.P	BVSc&AH/IGKVU/05	6.5.75
2302	Sanjeet Kumar Singh S/o Sh Brijnandan Singh	BVC/2850/07	Vill&PO-Andi (Kaccharri Tola)Thane-Asthawan,Sub-Div-Biharsharief,Dt-Nalanda,Bihar	BVSc&AH/BAU/06	5.2.78
2303	Sanjeev Kr Vashishtha S/o Sh R.S.Sharam	UPSVC/4742/08	Vill-Lalpur,PO-Gharvara,Dt-Aligarh,U,P	BVSc&AH/GBPU&T/08	29.6.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2304	Sanjeev Kumar Jha S/o Sh Ramchandra Prasad	BVC/2793/06	Vill-Ramlakhan Colony,Bholwa Tola,PO+Thane-Jaingar,Sub-Div-Jainagar,Dt- Madhubani,Bihar	BVSc&AH/AAU/06	24.6.76
2305	Sanjeev Kumar S/o Late Balkishore Singh	JVC/564/09	BAHO, Birni, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	01.07.66
2306	Sanjeev Kumar S/o Sh Rameshwar Prasad	BVC/2948/08	Vill-Raza Bazar Daulatpur,PO&Thane- Jehanabad Dt-Jehanabad-804408,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	24.12.76
2307	Sanjeev Kumar S/o Sh Surendra Prasad Sharma	RajSVC/3559/08	C/o Rajeev Kumar,K.K.Diwakar,Near Girls School,Civil Lines,Atru,Baran, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/08	1.6.78
2308	Sanjeev Kumar S/o Sh.R.C. Pd Singh	BVC/2932/08	Vill-Bember,PO-Teria Bember,Thane- Sangrampur,Dt-Munger-811201,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	2.1.78
2309	Sanjeev Kumar S/o Shri Narayan Yadav	UVC/403/08	Vety Officer(Contract)V.H, Bachar,Chamoli,Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/07	1.10.80
2310	Sanjeev Kumar S/o Sri Sita Ram Singh	JVC/474/09	T.V.O. Jamua,Giridih,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/99	22.08.74
2311	Sanjeev Kumar SharmaS/o.Ramchandr a Sharma	JVC/333/08	TVO Birni Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	05.11.73
2312	Sanjeev Kumar Singh S/o Sri Chittranjan Singh	JVC/491/09	Marwania, Nagar Untari, Garhwa-822128, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	08.01.71
2313	Sanjeev Ojha S/o Sh. Niranjan Pd. Ojha	JVC/189/08	Pootkee Bazar, Kusunda, Pootkee, Dhanbad- 828116, Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSU/00	8.12.76
2314	Sanjeev Ranjan S/o Sh Arjun Prasad	BVC/2965/08	Vill-Bhausasur,PO&Thane-Biharsharief,Dt- Nalanda-803101,Bihar	BVSc&AH/WBUA&FSU/0 7	1.3.80
2315	Sanjeev Sharma S/o Sh Ratiram Sharma	RajSVC/3532/08	23 Shrij Nagar, Durgapura, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/03	11.12.76
2316	Sanjeev Yadav S/o Shri Babulal	MPSVC/2549/08	Banpur Darwaja,Gayatri Mandir Road, Tikamgarh-472001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	14.6.81
2317	Sanjeevkumar Lalsangi S/o Vittoba	KarSVC/4177/08	Vidyanagar, Sindagi Rd,Indi-586209,Indi Tq, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	7.8.85
2318	Sanjeevkumar S Nemaquodar S/o Sangappa	KarSVC/4131/08	Mudalgi-591312, Gokak Tq, Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.2.85
2319	Sanjib Kumar S/o Dr. Jaideo Mandal	JVC/465/09	Arsandey Kanke,Ranchi-834006,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	05.01.59

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2320	Sanjib Mishra S/o Dr. Bhabani Shankar Mishra	OrissaSVC/2212/08	At-Paret Pada, Ward No.-10, PO-Baripada, Dt-Mayurbhanj-757001, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	25.8.85
2321	Sanjit Kumar S/o Sri Kameshwar Prasad	JVC/437/08	C/o Lakshmi Chand Prasad, Kunjlal Street, Kotwali Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/AAU/08	16.01.82
2322	Sanjiv Kumar S/o Dr. Ram Rahasya Singh	JVC/516/09	TVO Patamda, Jamshedpur, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	01.01.72
2323	Sanjiv Kumar S/o Sri Baiju Prasad	JVC/371/08	Adalhau, Bariatu, Ranchi-834008	BVSc&AH/CSAUA&T/01	21.02.74
2324	Sanjula Kumari W/o Sri Hemant Kumar	JVC/480/09	Adityapur-2, Gamharia, Saraikela, Kharshwa, Pin-831013, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	05.08.73
2325	Sanjyog Rai	Sikkim/86/08	C/o Seema Rai, Mikhola Busty, Namchi, South Sikkim	BVSc&AH/CAU/08	
2326	Sannabeerappa Sannaputtakkanavar S/o Shiddappa	KarSVC/4191/08	Hirelingadalli, Kurubagonda Po-581154, Haveri Tq & Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	10.6.85
2327	Sant Kumar Gupta S/o Sh Radhya Shyam Gupta	CGSVC/400/08	Vill & PO-Batwali, The-Sitapur, Dt-Sarguja, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	12.1.82
2328	Sant Kumar Singh S/o Late Pokh Raj Singh	JVC/356/08	Arsandey, Block Chowk, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	16.07.50
2329	Santhosh Aravind Sajjan S/o Sh Aravind Sajjan	KarSVC/4156/08	Kudari, Salawadagi-586208, Basavanbagewadi Tq, Bijapur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	30.7.84
2330	Santhosh K.M S/o Somashekharaiiah K.M	KarSVC/4128/08	Main Rd, Khanahosahalli-583218, Kudligi Tq, Bellary Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.06.84
2331	Santhosh Karebaramannanavar S/o Sri Hanmanthappa	KarSVC/4160/08	Ibrahimpur-582208, Navalgund Tq, Dharwad Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	29.5.84
2332	Santhosh Kumar Agarwal S/o Rajendra Prasad Agarwal	JVC/573/09	Chhipadohar, Barwadih, Latehar-829204, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	03.01.73
2333	Santosh Kr. Verma S/o Sh C.P. Verma	UPSVC/4824/08	Vill-Ausani, Buzuru (Kewtahiya) PO-Ismaila, Dt-Gonda, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	23.8.83
2334	Santosh Kumar S/o Sh Mahendra Sadhan	BVC/2790/06	Vill-Ward NO.1, PO+Thane-Jaynagar, Dt-Madhupani-847226, Bihar	BVSc&AH/AAU/06	5.6.77
2335	Santosh Kumar S/o Sri. Yugeshwari Ram	JVC/329/08	C/o Dr. Santosh Kumar, Sudna, Daltonganj, Palamu-822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	05.01.69

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2336	Santosh Kumar Shivhare S/o Sh R.S.Shivhare	MPSVC/2514/08	V&P-Sujaram The-Kelarus,Dist-Morena-476225,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	10.7.77
2337	Santosh Kumar Singh S/o Sh Mahendra Mahto	BVC/2955/08	Vill-Maheshpur,PO&Thane-Pity Bazar(Maheshpu),Dist-Lekhisarai-811112,Bihar	BVSc&AH/BAU/07	1.3.79
2338	Santosh Kumar, S/o Shri Amrendra Narayan Yadav	JVC/028/08	Touring Veterinary Officer, Tinapahar,Sahebganj,Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSC/02	01.01.79
2339	Santosh Marandi S/o Sri Daso Marandi	JVC/430/08	Kumarpur,Bartalla,Ranga,Patna,Rajmahal Sahibganj -816119,Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSU/05	19.10.82
2340	Santosh Prasad Singh S/o Sh Nand Kishore Singh	BVC/2764/06	Vill-Athgama,PO-Akidatpur,Thane-Kharik Bazar,Sub-Div-Naugachhia,Dt-Bhagalpura,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	2.10.78
2341	Santosh Rawani S/o Sri Kalachand Rawani	JVC/585/09	Chhota Nagari, Tetulmari, Baghmara, Dhanbad-828121, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	03.02.78
2342	Santoshi Toppo S/o Shri Mohan Toppo	JVC/226/08	C/o Shri Mohan Toppo, Madhuban Toli, Lohardaga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	20.12.63
2343	Sarad Bangari S/o Shri K.S.Bangari	UVC/407/08	Nai Basti Vijay Nagar,Kotoratal,Kashipur U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	19.3.85
2344	Saranya M.G D/o Gonindankutty	KeralaSVC/3433/09	Mattapillil House,Kaniramattam PO,Krnakulam-682315,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.12.84
2345	Sardha Parihar S/o Sh Sudhir Parihar	CGSVC/421/08	Nr.Mahilla Police Station,Mahasan Ganj,Vilaspur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/05-06	6.5.87
2346	Sarfraj Ali S/o Sh Suleman Ansari	UPSVC/4895/09	Vill-Narahi(Nagravya Nagara Te Raoda),Dt-Ballia,U.P	BVSc&AH/IGKVV/08	29.6.79
2347	Sarika Rai D/o Sh R.B.Singh	UPSVC/4878/08	Vill&PO-Dhanpur,Dt-Deoria,U.P	BVSc&AH/RAU/08	1.3.83
2348	Sariprabha.P D/o Prabhakaran C	KeralaSVC/3347/08	Sree Kripa,Parankima Vila Veedu, Kakkamoola, Kalliyoor PO,Thiruvananthapuram-695042,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.5.84
2349	Sarita Devi D/o Sh Lal Chand	UPSVC/4866/08	Vill&PO-Baghhan The-Chunar,Mirzapur,U.P	BVSc&AH/SDAU/06	30.1.83
2350	Sarita Kankoriya D/o Sh S.C. Lal Kankoriya	UPSVC/4896/09	Vill&PO-Singhanpur Baghar,Dt-Mahoba,U.P	BVSc&AH/JLKVV/05	12.2.79
2351	Saritha Thankachan D/o P. Thankachan	KeralaSVC/3483/09	Peniel Home, Vallieezhu Ng, H.NO.127,Poovanpza, Kavanad PO, Kollam-691003,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.12.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2352	Sarma Joy Prakash S/o Mr. Sarbeswar Sarma	ASM/2383/08	Viii-Barathiabari,PO-Dighirpur,Dist-Darrang,Assam	BVSc&AH/AAU/08	13.12.83
2353	Saroj Kumar S/o Shri Devendra Prasad	JVC/214/08	T.V.O.; Chandwar, Hazaribagh-825301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	02.12.68
2354	Saroj Kumar Sahu S/o S.Kishore Chandra Sahu	OrissaSVC/2229/08	At/PO-Tainsar, Via-Purnagarh, Dist-Deogarh, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	4.7.83
2355	Saroj Kumar Thakur S/o Dr. Dinesh Kant Thakur	JVC/412/08	Arsande, Boreya, Kanke, Ranchi, pin-835240, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	09.12.75
2356	Saroj Meena W/o Dr. Prem Shanker Meena	RajSVC/3523/08	H.NO.990, Mahavir Nagar-II, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	22.2.82
2357	SARPE SWAPNA BHUJARAI	MahaSVC/8047/08	"Swapna" Jayakwadi Road, Parvati Nagar, Shinde Mala, Parbhani-431401	BVSc&AH/MAFSU/08	31-03-84
2358	Sarvanan R,S/o Sh Ramachandran A	A&NSVC/96/08	C/o Kausalya Agbency Opp. Panchayat Junction, Garacharama II, Port Blair -744105	BVSc/TNV&ASU/05	16.4.82
2359	Sarvjeet Kumar S/o Sh Ram Shankar Prasad Singh	BVC/2744/06	Viii+PO-Dayalpr, Thane-Rajapakar(Hajipur), Sub-Div-Hajipur, Dt-Vaishali, Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	26.2.81
2360	Sashank Sinha S/o Sh Radha Raman Pd Sinha	BVC/2770/06	Viii-Kailashng, Sheopuri, Sub-Div-Sastrinagr, Sub-Div-PatnaSadar, Dt-Patna-800023, Bihar	BVSc&AH/SKUAS&T/06	6.12.80
2361	Sashi Bhushan Kumar Anand S/o Sh Om Prakash Singh	BVC/2882/07	Viii-Kusum Colony, Station Road Hilsa, PO&Thane Hilsa, Dt-Nalanda-801302, Bihar	BVSc&AH/MAFSU/06	1.3.77
2362	Sashi Bhushan Kumar S/o Sh Bishwanath Prasad Gupta	BVC/2872/07	Viii-Sitailpur-Kamalpur, PO&Thane-Bidupur Bazar, Sub-Div-Hajipur, Dt-Vaishali, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	3.2.79
2363	Sashi Bhushan Prasad S/o Sh Jaibir Pd Sahu	BVC/2861/07	Viii+PO-Bhakua, Thane-Khajauli, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	23.12.78
2364	Sashi Bhushan S/o Sh Ram Swarth Pd Sinha	BVC/2813/06	Viii-Sheonagar, PO+Thane-Nawada, Sub-Div-Nawada, Bihar	BVSc&AH/KA&FSU/05	1.2.80
2365	Sashi Shekhar Prasad Singh S/o Sh Ramjee Singh	BVC/2924/08	Viii-Malawan, PO-Abdachak, Thane-Asthawan, Biharsharief, Dt-Nalanda-803101, Biha	BVSc&AH/MA&FSU/07	1.3.80
2366	Sashitola Ozukum S/o Mapu Ozukum	NSVC/236/08	P.R.Hill, Kohima Nagaland	BVSc&AH/CAU/08	27.3.85
2367	Satbir Singh Dagur S/o Sh Bhawar Singh Dagur	UPSVC/4760/08	78, Mansa Puri Colony, Krishna Ng, Mathura, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	25.3.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2368	Satender Sharma S/o Sh Om Prakash Sharma	RajSVC/3558/08	Ward No.-3, Infront of Chanania Chowk, Pilani, Jhujhunu, Rajasthan	BVSc&AH/INKVV/08	30.10.80
2369	SATHE TEJASWINI GAJANAN.	MahaSVC/8106/08	Saraswati Soc., Bld.No.1, Flat No.4, Maharashtra Nagar, Pokharan Rd.2, Dist.Thane-400601.	BVSc&AH/MAFSU/08	11/10/85
2370	Satish Kumar S/o Sh Rajendra Prasad	BVC/2780/06	Vill-Ramganj, PO-Sansarpur, Thane-Khagaria, Sub-Divison-Khagaia-851214, Bihar	BVSc&AH/NDUA&T/06	4.2.80
2371	Satya Narain Tiwary S/o Late Rajendra Duta Tiwary	JVC/369/08	Assistant Director (Poultry), Govt. Poultry Farm, Sec-12, Bokaro-827012, Jharkhand	BVSc&AH/RU/68	14.07.49
2372	Satya Prakash Arun S/o Sri Yukthdhari Paswan	BVC/2960/08	Vill&PO-Kahara, Thane-Manigachhi Dt-Darbhanga, Bihar	BVSc&AH/SVVU/07	1.3.81
2373	Satya Priya Gautam Bhalla S/o Shri Pritam Kumar Bhalla	UVC/347/08	H.No.3, Old Avas Vikas Kashipur, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/AAU/08	23.1.80
2374	Satyajay Kerketta S/o Sh. Philip Kerketta	JVC/198/08	C/o Sh. Philip Kerketta, Sikaria, Bhandaria, Garhwa-822125, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	08.10.69
2375	Satyalexmi Behera D/o Sh Sweta Kumar Behera	OrissaSVC/2217/08	Vill-Kashipur, PO-Nirakarpur, P/s-Janka, Dt-Khurda, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	23.9.85
2376	Satyam Kumar S/o Sh Sudhanshu Kr Singh	BVC/2962/08	Vill&PO-Kharia, Thane-Haveli Kharagpur, Sub-Sadar Munger, Dt-Munger, Bihar	BVSc&AH/SVVU/07	1.4.82
2377	Satyanarayan Jena S/o Sh Akshyaya Kr Jena	OrissaSVC/2243/08	At-Sribantapur, PO-Bast, Dist- Bhadrak-756114, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	14.7.84
2378	Satyendra Kumar Choudhury S/o Sri Lakshmeshwar Choudhury	JVC/569/09	C/o Dr. B.K. Roy, Proff. Pharmacology, RVC Kanke, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	03.05.74
2379	Satyendra Kumar S/o Sh Nathuni Ram	BVC/2897/07	Vill-Driver Tola Lal Kothi Rd, Nr Ganesh Bhawan, PO&Thane-Katihar, Dt-Katihar-854105, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	1.6.80
2380	Satyendra Kumar S/o Sri Ramdeo Prasad Barnwal	JVC/443/08	Bhelwatand, Domchanch, Koderma-825418, Jharkhand	BVSc&AH/SKUAS&T/08	01.03.80
2381	Satyendra Narayan S/o Sri Shyam Kishor Sharma	JVC/268/08	B.A.H.O. Nirsa, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	04.01.68
2382	Saurabh Anand S/o Sachchidanand Singh	JVC/245/08	T.V.O. Jaynagar, Koderma, Jharkhand	BVSc&AH/INKVV/05	21.12.80
2383	Saurabh Chawla S/o Sh B.S. Chawala	HPSVC/827/08	Bhawani Niwas, H.NO.118, Sunny Side Solan H.P -173212	BVSc&AH/CSKKVV/08	1.12.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2384	Saurabh Kr Singhal S/o Sh D.K.Singhal	UPSVC/4852/08	Ghadhi Chowk Bazar, Mehroni, Dt- Hamirpur, U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	26.6.83
2385	Saurabh Kumar, S/o Late Shri Samir Mohan Kumar	JVC/151/08	C/o Sri Madan Mohan Kumar, Tungri Chaibasa, West Singhbhum-833201, Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSC/02	15.07.78
2386	Saurabh Sharma S/o Sh Ishwar Dass Sharma	HPSVC/854/08	Vill&PO- Dangri, The- Nadaun Distt- Hamirpur, H.P -177033	BVSc&AH/CSKVV/08	23.6.81
2387	Saurav Paul S/o Sri Gopal Kumar Paul	JVC/291/08	C/o Sri Gopal Kumar Paul, Ranipokhar, Baidmara, Herla Sector-9, Chas, Bokaro-827009, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	03.02.84
2388	Sovan Panwar S/o Sh Mahak Singh	UVC/352/08	V.O-Satpali Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	20.12.79
2389	Savitha S T D/o Tulasi Ramu	KarSVC/4212/08	Sapthagiri Nilaya, Kamagondanahalli, Puttanayakanahally, Sirsi Tq, Tumkar Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.12.84
2390	SAWANT PRADEEP MAHADEV.	MahaSVC/7906/07	A/P-Majnal, Tal.Panhala, Dt-Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18/6/84
2391	SAWANT SANJAY PANDURANG.	MahaSVC/7905/07	Sumedh Nagar, Taroda, Naka, Puran Rd, Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/9/82
2392	Sawtantar Kumar S/o Sh Vidya Prakash	Pb.SVC/299/08	49 Budhram Colony, Mail Road, Hoshiarpur, Punjab	BVSc&AH/PAU/77	15.8.55
2393	SAYYED QAMARUZZAMAN MAHBOOB ALI.	MahaSVC/7766/07	At-Malwani, 19/354-A, Gate No.-5, Malad(W), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	24/3/83
2394	Seba Palit D/o Sri.Ajit Kumar Palit	JVC/351/08	Kilburn Colony, Hinoo, Doranda, Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	12.01.70
2395	Seema Agarwal W/o Dr. Shubhash Chandra	JVC/410/08	33, A.G.Colony, Kaduri, Ranchi -834002, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	01.10.76
2396	SELOKAR NARESH LALAJI.	MahaSVC/7751/07	C/o Lala Narayan Selokar, A/P-Andhalgaon, Tal-Mohadi, Dt-Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	12/6/84
2397	Selvakumar.V S/o Vasanth Kumar	KeralaSVC/3416/09	Krishna Bhavan (H), Thkkupara(PO), Chithirapuram Dt, Idukki, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	9.12.84
2398	Sengbat Saka Momin S/o Shri G.D. Shira	MeghSVC/259/08	Sampalgre Tura-794002, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	12.1.79
2399	SEVANKAR CHANDRAKANT BALAJI.	MahaSVC/8019/08	Shivkalyan Nagar, Tal.Loha, Dist.Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	09-05-84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2400	Shabareesh S S/o M.Sankaran	KeralaSVC/3417/09	"Harisree" Theyangadi, Ambalappadi PO, Eranhikkal, Calicut-673303, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.6.86
2401	SHAIKH NOORMAHAMMAD SHAIKH RAHIM SHAIKH.	MahaSVC/7962/08	Shantiniketan Colony, Gangakhed Rd, Parbhani, Dt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	09-07-83
2402	SHAIKH SAMIR MD. RAJODDIN	MahaSVC/7913/07	A/p Ruichhatrapati Tal-Parner, Dt- Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	31/5/85
2403	SHAIKH GULAM MUKHATADIR GULAM DASTGIR.	MahaSVC/8040/08	Suryodaynagar, Taroda (Bk.), Tal. Dist. Nanded- 431605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	07-10-85
2404	SHAIKH TAREKH SHAIKH FATAULLA	MahaSVC/8022/08	Near Ahmediya Masjid, Beed mamlam, Mominpura. Beed. 431122 , Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	26-06-83
2405	Shailendra Kumar Thakur S/o Sri Satyadeo Thakur	JVC/395/08	BAHO, Ormanjhi, Krishnnagar, Booty, Ranchi- 835217, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	04.03.63
2406	Shailendra Kumar Tiwary S/o Sri Parshuram Tiwary	JVC/306/08	TVO Birbanki, Post-Arki, Dist-Khunti, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	01.03.77
2407	Shailendra Vashistha S/o Shri Babu Ram Sharma	UVC/437/08	V.O- Vety Hospital Enclave, G.M.S.Road, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/00	11.10.75
2408	Shailesh Kumar S/o Sh Rupnarayan Jha	BVC/2818/06	Vill-Sarhad, PO-Lohat, Thane-Pandaul, Sub-Div- Sadar, Madhubani, Bihar	BVSc&AH/IGAU/05	9.11.80
2409	Shakti Prakash Sahu S/o Sh Prahalad Chandra Sahu	OrissaSVC/2230/08	At/Po-Tangarpada, Via- Swampatna, Keonjhar, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	8.9.83
2410	Shalini Srivastava S/o A.K.Srivastava	UPSVC/4759/08	Nr Mahadev Temple, Vill-Chhawani, PO- Padrauna, Dt-Kushing, U.P	BVSc&AH/UPDDUPCVV/ 08	23.7.85
2411	Shalmali D/o Sh Chander Pal Kashyap	HPSVC/848/08	Vill- Bandal, PO- Khoda, The -Sarkaghat, Distt- Mandi, H.P -175024	BVSc&AH/CSKKVV/08	18.10.83
2412	Sham Sundar Lal Tewari S/o Sh Vidya Prakash Tewari	HPSVC/859/08	Vets Farms Lmt. Vill- Doulatpur, PO-Khadd, The & Distt- Una, H.P -177207	BVSc&AH/PAU/70	2.5.47
2413	Sham Sunder Lal Tewari S/o Sh Vidya Parkash Tewari	Pb.SVC/314/08	1196, Urban Estate Phase-1, Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/PAU/70	2.5.47
2414	Shamsher Singh S/o Sh Satbir Singh	HarSVC/2042	Vill - Mayee, PO -Hudian, Distt - M/garh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	5.1.85
2415	SHANBHAG PREETI DEVARAYA.	MahaSVC/7790/07	H.NO.E-15, Karnataka Building Mogal Lane, Mahim, Mumbai. Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	10/6/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2416	Shankar Singh S/o Sri Srirani Singh	JVC/570/09	TVO, Dalahi, Masalia, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	10.10.75
2417	Shanker Prasad S/o Late Thakur Prasad	JVC/354/08	Manager, Pig Breeding Farm, Kanke, Ranchi-834007, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	14.01.64
2418	Shanker Tudu S/o Sri Babu Ram Tudu	JVC/418/08	Bhurkundi, Palajori, Madhupur, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	06.01.75
2419	Shankumar Mooyottu S/o Kunhikannan	KeralaSVC/3341/08	Mooyottu House, PO-Ponmeri Parambil, Vadakara-673542, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	26.4.84
2420	Sharad Mishra S/o Sh. Y. Mishra	CGSVC/346/07	S-27, Sector-2, Avanti Ng, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/88	1.11.63
2421	Sharanabasav Badami S/o Siddaramappa	KarSVC/4187/08	Opp-Minividhanasoudha, Navalgounda-582208, Dharwad Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.7.84
2422	Sharda Suman, S/o Shri Bishnu Pd. Choudhary	JVC/148/08	C/o Shri Bishnu Pd. Choudhary, Purandaha, Deoghar-814112, Jharkhand	BVSc&AH/Sri Venkateswara Vety Uni/06	19.10.79
2423	SHARMA DISHA SOHAN.	MahaSVC/7772/07	102, Neelgiri Apartment Film City Rd, Goregaon, Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/8/84
2424	SHARMA KAPIL SHANKARLAL.	MahaSVC/7904/07	76/6 N 9, K-Sector, Pavan Ng, HUDCO, Aurangabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	11/9/83
2425	Sharma Manav S/o Sri Suresh Ch. Sharma	ASM/2409/08	Rangiya, Ward NO-6, Arbic College, South Side, Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/08	5.11.84
2426	Sharma Papori S/o Mr. Pabitra Kr Sharma	ASM/2399/08	H.No.-199, Rajib Gandhi Path, Khanapara, Guwahati -781022, Assam	BVSc&AH/AAU/08	2.02.86
2427	Shashi Bhushan Prasad Sinha S/o Late Bankey Bahari	JVC/523/09	304(Akanksha Apartment), Kanta Toli, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	19.01.66
2428	Shashi Sinha D/o Sri B. P. Sinha	JVC/374/08	North Kusai (Ashray) Doranda, Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/02	24.03.77
2429	Shashikanth R Koujalagi S/o Ramappa Koujalagi	KarSVC/4215/09	Plot NO.36, Vivekanandng, Sth Cross, Gokak-591307, Gokak Tq, Belgaum Dt, Karnataka	BVSc/UAS Dharwad. 85	1.6.66
2430	Sheeba Abraham Pattoor D/o Babykutty Abraham	KeralaSVC/3380/08	Pattoor Villa, Naruvilekkara, Thevalakkara PO, Kollam-690524, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	8.2.83
2431	Sheetal Singh S/o Sh Bishan Singh	Pb.SVC/2791/08	Vill- Makha, PO- Umarpur, Dist- Hoshiarpur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	13.2.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2432	Sheetal Pant D/o Shri P.C.Pant	UVC/401/08	5/154,Nawabi Road, Malla Gorakhapur,Haldwani,Dt-Nainital,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	12.12.83
2433	Sheharban P.M D/o P.K. Mohammed	KeralaSVC/3447/09	Puzhakkara House, Vadakkepuram Kadavu Rd,Kalamassery PO, Ernakulam-683104,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	9.10.84
2434	Sheikh Nadimuddin Gaffarbhai	GujSVC/2926/08	Police Officer,Flats A-1,Old Padra Rd,Akola,Baroda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	12.11.85
2435	Shel Kumari Srivas S/o Sh Ramnivas Srivas	CGSVC/370/08	Vill&PO-Bhatagaon, The-Bhilaigarh,Dt-Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	11.2.82
2436	SHELKE HANUMANT SUDAMRAO.	MahaSVC/7875/07	At Hingohi,Post Takalsing,Tal-Ashti,Dt-Beed,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	25/7/83
2437	Sheo Kumar Verma S/o Late Rashmay Sao	JVC/378/08	Assangi, Aditayapur Indl. Area, Gamharia, Seraikela Kharsawan-832109, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	01.02.68
2438	Sherasia Shiraj Mahmedbhai	GujSVC/2927/08	Opp Meerumiyabava's,Durgah Laxmipura,Wankaner,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	20.11.84
2439	Sherin Ibrahim S/o Sh V.P.Ibrahim	KeralaSVC/3418/09	Valanjattil House,Edairikkapuzha PO,Kangazha,Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	8.10.83
2440	Shibin J.S S/o M. Johnson	KeralaSVC/3322/08	Lumen Dale, Vlathankara,Chenkai PO.Thiruvananthapuram-695132,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	27.5.81
2441	Shihas B S/o E.M.Basheer	KeralaSVC/3315/08	Medayil Padinjatathil,Manayil Kulangara,Kollam,Thirumullavaram PO,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	28.12.83
2442	Shilpy Anupama Minz S/o Shri Sushil Kr. Minz	JVC/209/08	Kilga, Konbir-Navatoli, Basia, Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	26.07.78
2443	Shimi Rajan D/o Rajan Jose	KeralaSVC/3419/09	Panjakkil Hose, Kuravilangad PO,Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.8.83
2444	SHINDE DATTA TUKARAM.	MahaSVC/7924/08	At-Medshingi, Tal.Sangola,Dt-Solapur,Maharashtra	BVSc&AH/Dr.BSKKV/01	15/8/77
2445	SHINDE HRISHIKESH DATTATRAYA.	MahaSVC/8118/08	At/Post Jaulake Khurd, Tal.Khed,Dist.Pune-410505,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	22-9-85
2446	Shiny.M D/o R.P.Damodharan	KeralaSVC/3431/09	Sreedevi Nilayam,Nayattupara,Pattanur(PO),Kannur-670595.Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.6.84
2447	Shiras A S/o Amsathukutty A	KeralaSVC/3318/08	Kochuthundil House,Mynagappally PO, Kollam-690519,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	18.3.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2448	Shiv Kumar S/o Sh Ramjee Mehta	BVC/2788/06	Vill+PO-Babu Amauna, Thane-Daudnagar, Sub-Div-Daudnagar, Dt-Aurangabd, Bhar	BVSc&AH/WBUFSU/06	15.1.78
2449	Shiv Kumar S/o sh Ranjee Mehtra	UVC/420/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Chopta, Dt-Rudraprayag, Uttarakhand	BVSc&AH/WBUA&FSU/06	15.1.78
2450	Shiv Kumar Sharma S/o Sh K.C.Sharam	MPSVC/2577/09	435, Hargovind Puram, City Centre, Gwalior-474011, M.P	BVSc&AH/JNKVV/05	21.8.80
2451	Shiv Kumar Tiwari S/o Late Shri Babulal Tiwari	UVC/429/08	Vety Officer(Contract)Vety Hospital, Gondiatgaon, Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/01	15.1.71
2452	Shiv Pratap Singh S/o Sh Shatrohan Prasad	UPSVC/4868/08	3A/51, Vishal Khand Gomati Ng, Lucknow, U.P	BVSc&AH/UPDDUPCVV/08	10.8.78
2453	Shiv Shankar Pal S/o Sh Bhairabh Nath Pal	BVC/2890/07	Vill-Naat, PO-Umarpur, Thane-Buxar, Dt-Buxar, Bihar	BVSc&AH/AAU/07	26.11.81
2454	Shiv Shankar Singh S/o Late Sukhi Singh	JVC/561/09	Manager, Govt. Cettel Farm, Gouriya Karma, Barhi, Hazaribag-825405, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	06.07.49
2455	Shiva Kumar Sharma S/o Ram Shakari Sharma	JVC/237/08	Shiv Durga Mandir Lane, Ratu Road, Shukhdeo, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/79	11.01.54
2456	Shivananda Kumbar S/o Siddaramappa	KarSVC/4179/08	Kumbarastreet, Rabkavi-587314, Jamakandi Tq, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	5.7.85
2457	Shivappa Nayaka H.B S/o Basavaraju H.K	KarSVC/4148/08	Honnebagi PO&Vill-572214, Chikkanayakanahally Tq, Tumkur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	15.12.85
2458	Shivesh Kumar Deshmukh S/o Sh Keshav Kishore Deshmukh	CGSVC/440/09	Vill-Dondelohara, Dt-Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	9.6.85
2459	SHIWANKAR AJAY SANJAY	MahaSVC/7958/08	At-Kelzara (V), Post-Sawali (S), Tal.Arni, Dist.Yavatmal.-445106, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	29-1-84
2460	Shobha Kant Pathak S/o Late Ram Chandra Pathak	JVC/274/08	(SAHO, Ranchi) Kanke, Ranchi Pin-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/80	02.01.55
2461	Shobhamani Marandi W/o Sri Ranjit Kumar Hansda	JVC/390/08	Shyamunderpur, Jhalak, Rajnagar, Saraikela-Kharaswan, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	06.09.72
2462	Shraddha Shingade D/o Shri D.U.Shingade	MPSVC/2554/08	H.No.4110/5B, Ambedkar Colony, Adhartal, Jabalpur-482004, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	18.8.82
2463	SHRAWANKAR PREETI RAGHUNATHRAO	MahaSVC/8123/08	J.N.Road, Kamptee. Dist-Nagpur-441002, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	04/07/85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2464	Shreeniwas Singh S/o Chandra Bhushan Singh	JVC/243/08	T.V.O. Pindrajora, Bokaro, Jharkhand	BVSc/TANUVAS/05	10.02.82
2465	Shreya Sinha S/o Dr. Vinay Kumar Sinha	JVC/580/09	Arsandey, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	01.01.76
2466	Shri Kant Sharma S/o Sh Harkesh Sharma	HarSVC/2080	# 63 Friends Colony, Hisra, Haryana	BVSc&AH/HAU/74	28.3.52
2467	Shri Ram Mahla S/o Sh Banwari Lal	RajSVC/3552/08	VPO- Doomra, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/08	1.7.81
2468	Shrikant Ramdas Barbude S/o Ramdas Champatrao Barbude	JVC/546/09	TVO Manoharpur, Manoharpur, Chakradharpur, W. Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/PRKVP/90	27.06.69
2469	Shriti Choudhary S/o Sh. Dilip Kr. Choudhary	JVC/210/08	C/o Shri Dilip Kr. Choudhary, Khunti, Karra Road, Khunti, Ranchi-835210 Jharkhand	BVSc&AH/OUA&T/04	28.07.79
2470	Shroff Sagar Ishwarlal	GujSVC/2928/08	8-Shvyambhu Flat, Zaveeiparu, Unjha-384170, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	11.2.86
2471	Shubhneet Singh Sran S/o Sh Gurcharan Singh	Pb.SVC/2830/08	H.No.240,Phase -9, Mohali-160063,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	16.9.84
2472	Shudhansu Kumar S/o Sh Arjun Prasad	BVC/2755/06	Vill-Ajhi,,PO-Mubarakpur,Thane-Korma,Sub-Division-Sheikhpura,Dt-Sheikhpura-811105,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.3.81
2473	Shweta Aanand D/o Sh Om Prakash Aazad	BVC/2904/07	Vill-Bhikhanpur Nayatoal, PO-Bhagalpur Thane-Esawquechak,Dt-Bhagalpur,Bihar	BVSc&AH/BAU/06	16.7.82
2474	Shweta Jain D/o Dr. Virendra Jain	RajSVC/3501/08	H.No. 2-K-19,New Jawahar Nagar, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	7.11.80
2475	Shweta Maheshwari D/o Sh Jagdish Chandra	MPSVC/2573/08	Uun Bujurg, The &Dist- Khargaon ,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	20.8.83
2476	Shyam Janmoni S/o Sri Dilip Kumar Shyam	ASM/2390/08	H.NO.-77, Dwarka Nagar Chachal Sixmile, Guwahati-781022,Assam	BVSc&AH/AAU/08	22.2.83
2477	Shyam Raj S/o Sh Sidhari Ram	UPSVC/4805/08	Vill-Singapur,PO-Saripr,Dt-S.R.N.Bhadoi,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	1.9.74
2478	Shyam Sunder Baitha S/o Late Juglal Baitha	JVC/591/09	Old Suk Bazar, Lohardaga, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/79	15.04.55
2479	Shyam Sunder Thakral S/o Sh R.L.Thakral	HarSVC/2025	Ashirwad Kunj,77/18, Dogran Bazar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/HAU/73	15.3.52

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2480	Shyamli Khervar S/o Sh Ramji Kharvar	CGSVC/371/08	Vill-Sikatinar, PO-Kotelara, The-Jaispur, Champa, Jahagir	BVSc&AH/IGKVV/06-07	13.10.78
2481	Sidharth Kumar Jayaswal, S/o Late Shri Sheochoandra Jayaswal	JVC/084/08	Touring Veterinary Officer, Gandhipath Cinema Road, Parsudih, Jamshedpur, Jharkhand-831002	BVSc&AH/BAU/83	02.03.59
2482	Sikandarbadashaha Mundaganur S/o Lalsab Mundaganur	KarSVC/4182/08	Chikkalagundi-587204, Bilagi Tq, Bagalkot Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.4.84
2483	Sindhu K Rajan D/o K. A. Rajan	KeralaSVC/3366/08	Sreevalsam, Kalathil House, Amala Arcade, Peramangalam PO, Thrissur-680545, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	18.5.83
2484	Singh Khushboo Nirmal	GujSVC/2959/08	G-2, Aditya Nagar, Indian Rayon, Industries, Ltd., Veraval, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	20.8.86
2485	Singhray Saleeb Kullu S/o Sri Sushil Chandra Kullu	JVC/429/08	Joretoli, Pakerdaar, Simdega - 835223, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	13.05.82
2486	Sini M D/o Moideen Mechery	KeralaSVC/3361/08	Sumi Cottage, Baithul Suroor, Pookayil Tirur-7, Malappuram-676107, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	1.4.84
2487	Sipriyan Guria D/o Sri Amrus Guria	JVC/534/09	Chapri, Berwadih, (Chenchha) Latehar-822111, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	21.11.69
2488	SK. Mahammad Ali S/o Zeelani Basha	APSVC/4725/08	H.NO.12/95-9, SBI Colony, Ravindranagar (P), Kadapa, Kadapa Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	25.8.83
2489	SK. Mukhtar S/o Fazala Ahmed	APSVC/4750/08	H.No.3-83, Neradigonda, Adilabad-504323, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	15.6.84
2490	Smarjit Mandal S/o Sri Badal Chandra Mandal	JVC/344/08	TVO Asura, Jhinkpani, Chaibasa, West Singhbhum-833201, Jharkhand	BVSc&AH/BCKVV/90	06.01.67
2491	Smitha D/o K.C.P.Singh	CGSVC/352/07	Qr.No.-3, Opp-UCO Bank, Lavandi Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/OUA&T/07	9.5.82
2492	Smitha Patel S/o Sh K.R.Patel	CGSVC/384/08	E W S -269, Vaishali Nagar, Bhilai, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	4.6.83
2493	Smitha S D/o K.P. Sambasivan	KeralaSVC/3349/08	Smitha Mandiram, S.L.Puram, PO-Alappuzha-688523, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	30.4.83
2494	Smrati Gupta D/o Shri Ram Narayan Gupta	MPSVC/2570/08	Ward No.14, Shehdole, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	6.7.80
2495	Smruti Ranjan Rout S/o Sh Jagannath Rout	OrissaSVC/2236/08	At: Biraswati, PO-Sri Baladev Jew, Dt-Kendrapada-754212, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	12.7.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
2496	Smruti Swaroop Rautray S/o Sh Jagannath Rautray	OrissaSVC/2256/08	At/Po- Chhedia, P.S-Govindpur, The- Niali, Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	24.1.85
2497	Smt. Nupur Koel D/o Peter Paul Koel	JVC/238/08	Premnagar, Hesag, Hatia, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	09.02.70
2498	Snehlata Kumari W/o Dr. Jai Kumar Tiwari	JVC/310/08	C/o Bhuneshwar Ram, Doranda Darjee Mohalla, Ansari Lane, Doranda, Ranchi- 834002 (Jharkhand)	BVSc&AH/BAU/03	30.06.79
2499	Snella Sunny D/o Sunny Philp	KeralaSVC/3420/09	Kaduthanam House, Kottamurical PO, Changanacherry, Kottayam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.9.83
2500	Sngeetha Chnandran D/o R. Chandrabhanu	KeralaSVC/3415/09	Manappattu House, Vengalloor PO, Thodupuzha-685584, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.8.84
2501	Sobha Singh D/o Sh Ram Lalit Singh	BVC/2902/07	Vill-Sonma, PO-Bakmandal, Thane&Dt- Darbhanga-847105, Bihar	BVSc&AH/AAU/06	13.10.81
2502	Solanki Gajendrasinh Bhawarsinh	GujSVC/2987/08	At&PO-Anapur, Chhota, Ta-Danera, Dt-B.K- 38545, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	8.1.84
2503	Solanki Kanaiyalal Gautambhai	GujSVC/2929/08	At-Asjol, Ta-Becharaji, Dt-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	26.11.83
2504	SOLE SUSHANT SHIVDAS.	MahaSVC/7747/07	92, Radhakrishna Ng, Kanalda Rd, Jalgaon- 425001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18/4/84
2505	Somendra Kumar S/o Laldev Prasad Kushwaha	BVC/2831/07	Vill-Koiriya Toal, PO+Thane-Raksaul, Dt- E.Champaran, Bihar	BVSc&AH/WBUIFSU/06	5.11.79
2506	SOMWANSHI AMARNATH GORKHANATH	MahaSVC/8025/08	A/P.Nideban, Tal. Udgir, Dist. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	14-04-86
2507	Sonali Prusty D/o Sankarsen Pruthy	OrissaSVC/2224/08	At/Po-Pithapara, Dist-Cuttack-754207, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	27.9.83
2508	Sonali Swain D/o Kartik Chandra Swain	OrissaSVC/2219/08	Q.NO.M/70 Phase-1, Chhend Colony, Raurkela-769015, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	19.7.82
2509	SONAR SANDIP SUDHAKAR.	MahaSVC/8056/08	104, Vakratund, Anusaya Nagar, Angaon, Tal.Bhiwandi, Maharashtra Dist.Thane-421302.	BVSc&AH/MAFSU/08	05/06/85
2510	SONAWANE GOKUL SADANAND.	MahaSVC/7854/07	C/o Sonawane Sadanand Kisan, Jamgaon, Tal- Parmer, Dt-Ahmedng, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	28/6/85
2511	SONAWANE PANKAJ RAJARAM.	MahaSVC/7897/07	A/P-Ghodegaon, Tal.Newasa, Dt- Ahmedng, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	2/10/84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2512	SONEGAONKAR ASMITA DATTATRAYA	MahaSVC/7768/07	Anantprabha-22,Ayodhya Nagar,Nagar, Nagpur-24	BVSc&AH/MAFSU/07	10/8/84
2513	Soni Hardik Hasmukhbhai	GujSVC/2930/08	61-Gurukrupa Society, Dabholigam,Surat,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	20.6.85
2514	Sonia Pathania D/o Sandesh Pathania	HPSVC/840/08	Vill-Chadbalka,PO-Tihra,The-Sarkaghat, Distt- Mandi, H.P -175026	BVSc&AH/CSKVV/08	13.2.85
2515	Sonia D/o Sh Balwinder Singh	Pb.SVC/2832/08	H.No.434-G,8hai Randhir Singh Nagar, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	24.3.85
2516	SONONE SWAPNIL HIRAMAN.	MahaSVC/8026/08	Tapovan Complex, 45/C,Somalwada,Wardha Road,Maharashtra Nagpur	BVSc&AH/MAFSU/08	09-06-86
2517	Sonone Pramod Vasudeorao S/o Sh Vasudeorao	RajSVC/3576/08	C/o Babu Lal Jangir, VPO-Kolida, Sikar- 332040, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	6.9.84
2518	SONONE PRAMOD VASUDEORAO.	MahaSVC/7992/08	A/P-Sungaon, Tal. Jalgaon. (Jamod)Dist. Buldana.Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	06-09-84
2519	SONPHULE ANJALI MARUTIRAO	MahaSVC/7953/08	Nr Ambedkar School,Talves Galli,A/P- Tal.Udgir,Dt.Latur,Maharashtra.	BVSc&AH/MAFSU/08	24-12-85
2520	SONULE KANCHAN TANAJI.	MahaSVC/7920/08	Plot No.47, Shree Krishna Ng,Taroda Rd, Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/3/83
2521	SONULE SURENDRA VINAYAKRAO.	MahaSVC/7859/07	Sonule Niwas, Janata Colony,Ganesh Ng, Road,431602,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	28/9/83
2522	Sorabh S/o Sh Dharam Pal	Pb.SVC/2811/08	H.NO.1446/10,Guru Nanak Nagar, Dhuri Line Ludhiana, Punjab.	BVSc&AH/GADVASU/08	30.10.84
2523	Sorabh Kumar Amarwal S/o Sh Ram Swaroop Amarwal	RajSVC/3545/08	V/P Fatehgarh, The- Sarwar, Ajmer- 305412,Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	10.7.82
2524	SORATE SACHIN DATTATRAYA.	MahaSVC/7887/07	A/P-Khandaj, Tal.Baramati,Dt- Pune,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	6/4/79
2525	Soren Simson S/o Mr. Silash Soren	ASM/2387/08	Vill- Latajui, PO- Gohaingon, Dist-Golaghat- 785601,Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.09.82
2526	Soumya N.P D/o R. Neelakantta Pillai	KeralaSVC/3477/09	Padmam,Chandramangalam Anad PO, Nedumangad,Thiruvananthapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.5.84
2527	Soumya Sankar D/o Sivasankara Pillai. T	KeralaSVC/3480/09	Pevila Puthen Veedu,Pallickal(PO),Kottarakara,Kollam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.4.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2528	Soumyalekshmi.S D/o V. Sukumaran Nair	KeralaSVC/3455/09	"Sree Vinayakom" TC29/958 (2),Kozhiyottu Lane, Pettah PO, Palkulangara, Thiruvananthapuram-695024,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	2.12.84
2529	SOUNDATIKAR ANAND ANILRAO.	MahaSVC/7925/08	C/o.A.M.Naik, Thigle Lane Dhondipura, Sarafa Rd, Beed-431122,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	6/12/83
2530	Sreekala S Mohandas D/o Mohan Das N	KeralaSVC/3362/08	Panchajanyam House,Ponmalam,Kuttamathu, Cheruvathoor PO,Kasaragod-671313,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	7.5.84
2531	Sreekumar T.R. S/o T.K.Ramesh Babu	KeralaSVC/3438/09	H.NO.12/1566,Tharayil Parambil House,Panayapilly Cochin-2, Ernakulam-682002,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	7.10.84
2532	Sreelakshmi P.M D/o P.K.Manoharan	KeralaSVC/3451/09	Pathiyamkattu House, Aroor PO, Alappuzha-688534,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.4.85
2533	Sreelekha K.P D/o A.V. Balakrishnan	KeralaSVC/3421/09	Vrinodhavanam,Karuvacherry,Payyanur,Kannur,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.5.85
2534	Sreenath D.S S/o K.Sreedharan	KeralaSVC/3422/09	Sree Anjaneyam,H.NO.14679,Ward No.-8,Nr Melethil Ganapathi Temple, Vazhavila,Ookodu (PO),Thiruvananthapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.2.85
2535	Sreeparvathy.M D/o P.Murali	KeralaSVC/3449/09	Poovathanickal House,Maalam PO, Kottaym,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	1.5.84
2536	Sreevatsava V S/o Venkataramana K	KarSVC/4127/08	No.179,2nd Cross Bagath Singh Road, Vidyanagar,Karekallahally,Gouribidanur Tq,Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	28.4.85
2537	Srideo Kumar S/o Sh Bhupeshwar Pd Singh	BVC/2930/08	Vill-Terbanna,PO-Panchbeer,Thane-Sah Kamal,Sub-Div-Balia,Dt-Begusaria-851217,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/07	12.2.79
2538	Srikantha S/o Srinivasareddy V	KarSVC/4214/08	Dasagaripalli-561207,Bagepalli Tq, Chikkaballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.7.85
2539	Srimanj Nanda S/o Srinibas Nanda	OrissaSVC/2248/08	357,Brahmeswar Lane, Palesuni, Rasulgarh,Bhubaneswar-7511010,Orissa	BVSc&AH/OJA&T/08	25.3.85
2540	Srishti Raj S/o Sh Ram Narayan Prasad	BVC/2760/06	Vill-Muradichak,PO-Damodarpur,Thane-Nagarnause,Sub-Div-Hilsa,Dt-Nalanda-801305,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	2.9.81
2541	Stella Cyrica D/o Ceriyan P.J	KeralaSVC/3452/09	Pappanamchirayil House,Thellakom PO,Parolickal, Kottayam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.5.85
2542	Stephan Joseph S/o Late Santosh Joseph	JVC/400/08	Tantipara, Pakur,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	17.07.51
2543	Sube Singh S/o Sh Hardutt	HarSVC/2035	Vill - Bakrianwall, PO -Gudia Khare, Distt-Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	7.9.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2544	Subeesh P.M S/o Muthoram P.M	KeralaSVC/3484/09	Puliyakkunnummal Meethal House, Kannankara PO, Chelannur(Via),Kozhikode-673616,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.5.84
2545	Subhakanta Dash S/o Sh Rabindranath Dash	OrissaSVC/2215/08	At-Matimandap Sahi, Udayagirilane, Puri-752001,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	1.6.85
2546	Subhankar Nanda S/o Dr. S.S.Nanda	OrissaSVC/2249/08	Vill-Kadalibari Sasan,Po- Nimapera,Dt-Puri,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	24.9.84
2547	Subhash Chand S/o Sh Chunni Ram	RajSVC/3530/08	VPO-Birkali, The-Nohar, Hanumangarh-335523,Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/07	16.11.79
2548	Subhash Chander S/o Sh Sanwar Mal	RajSVC/3539/08	Sardarpura,Dobi Bass, Bhadra,Hanumangarh-335501,Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/08	10.7.82
2549	Subhash Chandra Khanna S/o Shri Sakharam	MPSVC/2572/08	V&P-Kaseli, The-Rajpur,Dt-Barwani-451556,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	5.7.84
2550	Subhash Chandra Nautiyal S/o Late Dr.Nand Kishore Nautiyal	UVC/354/08	C.V.O. Narendranagar Tehri Garhwal,Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/81	15.4.56
2551	Subhash Chandra s/o Sri.Radheshyam Mandal	JVC/347/08	Sector-4(G), House No.1357, Chas, Bokaro,-827004, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	11.07.73
2552	Subhash Kumar S/o Sh Rama Nand Prasad	BVC/2936/08	Vill-Masaurhi,Dakbunglow Rd,PO&Thane-Mausaurhi,Patna,Bihar	BVSc&AH/WBUA&FSU/07	28.12.82
2553	Subhasree Patnaik D/o Kali Prasad Patnaik	OrissaSVC/2221/08	Flat NO.1/63,Banajaapart Ment,Unit-6, BBSR-751001,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	3.7.83
2554	Subodh Kr Singh S/o Sh Ram Niwas Singh	UPSVC/4803/08	Vill&PO-Pipara Madan Gopal,Dt-Deoria,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	16.1.82
2555	Subodh Ranjan Verma, S/o Shri Rajendra Pd. Verma	JVC/012/08	Touring Vety Officer,Tatnagar,Chaibasa,West Singhbhum,Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	12.01.59
2556	Suchendra KU Sikarwar S/o Sh Jagat Singh Sikarwa	UPSVC/4770/08	Vill&PO-Tehra, Dt-Agra,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	21.5.82
2557	SUDAKE KAVITA SHANTARAM.	MahaSVC/7740/07	Menderachi Rd, Nirugdsar,Tal-Ambegaon,Dt-Pune,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20/4/83
2558	Sudhakar Behera S/o Krushna Ch Behera	OrissaSVC/2250/08	At/Po-Pratappur,Via-Pratappur,Dt-Balasore-756083,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	5.5.85
2559	Sudhakar Singh Munda S/o Late Harihar Singh Munda	JVC/397/08	Situmidh, Landupdih, Sonahattu, Bundu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	03.11.65

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2560	Sudhir Kumar Shrivastav S/o Sh Rajendra Pd Shrivastav	BVC/2966/08	Vill-Jai Prakash Ng,Rd.NO.-5,PO-Bettiah,Thane-Muffasil Bettiah,Dt-WC-845438,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/05	3.3.80
2561	Sudhir Kumar Singh S/o Shri Rambir Singh	UVC/42/09	12-Kamala Nagar, Opp-O.N.G.C Hospital Ballupur, Dehradun,Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/91	26.6.67
2562	Sudhir Kumar Sinha S/o Sri Ram Kripal Lal	JVC/544/09	CD-662, Site-V, HEC, Dhurwa Sector-II, Jagnathpur, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/83	02.01.59
2563	Sudina.K D/o K.Narayanan	KeralaSVC/3436/09	Priyadarshini Ladies Hostel Mains,Room No.29,COV&ASc,Mannuthy,Thrissu,Kerala	BVSc&AH/PU/08	5.5.85
2564	Sudipta Bariyar D/o Late Manash Kamneshwar Pd.Bariyar	JVC/349/08	C/o Late Manash Kamneshwr Pd. Bariyar, Barhait, Chewtia, Sariahat, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	12.12.67
2565	Suhasini. D/o Krishna R	KarSVC/4117/08	No.-123,Ward No.-29,Viveknagar,KGF 563122,Bangarpet Tq,Kolar Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	5.6.85
2566	Sujata Mukherjee, D/o Shri Lokenath Mukherjee	JVC/119/08	Touring Veterinary Officer, Rajganj, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	31.07.90
2567	Sujata Rani Kar D/o Sri Jagannath Kar	OrissaSVC/2232/08	S/o Jagannath Kar,At/Po- Rottngi, Dist-Koraput-764039,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	16.5.83
2568	Sukhaputra N.O S/o Sri Obanna M	KarSVC/4150/08	Koonabevu PO-577517,Chitradurga Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	15.7.85
2569	Sukhbir Singh Panghal S/o Sh W.S.Panghal	HarSVC/2062	VPO - Talu Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	26.12.83
2570	Sukhdeo Prasad S/o Late Kameshwar Prasad	JVC/457/09	Harmu Road,Kishorganj,Ranchi-834001,Jharkhand	BVSc&AH/RU/70	28.06.48
2571	Sukhlal Gagrai S/o Late Lal Singh Gagrai	JVC/559/09	Tola-Hangeragutu, Hatgamahria, Jhinkpani, Chaibasa, West SinghBhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/90	05.01.64
2572	Sukhpal Singh S/o Sh Sant Singh	Pb.SVC/2806/08	H.No.B-20,Guru Nanak Colony, Sangrur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	23.11.84
2573	Sukhwant Singh Bhullar S/o Sh Ranjit Singh	Pb.SVC/2815/08	VPO Mahamadpur, The-Dhuri,Dt-Sangrur-148020,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	28.10.85
2574	Sukumar Chand S/o Sh Satyendra Kh Chand	OrissaSVC/2233/08	At:-Balijodi,PO-Sonaparbat, Rourkela,Sundergarh-769016,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	10.5.81
2575	Sulbha Jindal D/o Sh Bharti Bhushan Jindal	Pb.SVC/2831/08	8/5 College Road, Civil Lines, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	11.11.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2576	Suman Biswas S/o Late Dhirendra Nath Biswas	JVC/462/09	3-B, Sitaram Apartment Shukla Colony, Hingoo Doranda, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	20.11.68
2577	Suman Chopra D/o Sh Mahaveer Chopra	RajSVC/3488/08	1-155, New Civil Line, Hanumangarh Junction, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	30.4.84
2578	Suman Kumar S/o Panchuram	CGSVC/395/08	Vill PO- Sahlood, Dt-Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	15.7.83
2579	Suman Kumar S/o Sri Sitam Deo Modi	JVC/531/09	C/o Harinandan P. Baranwal Hari om store Markachho Koderma Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	01.10.69
2580	Sumanthkumar R S/o Ramachandra Reddy B	KarSVC/4123/08	Lakshmisagar(V), Srinivasapur-563138, Kolar Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	20.4.85
2581	Sumati Kujur S/o Fagwa Kujur	JVC/220/08	Vill-Karkatta, Malsring, Pithoria, Kanke, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	07.01.69
2582	Sumedha Aahan D/o Sh Vijaya Awanan	Pb.SVC/2799/08	Vill-Daba, PO- Dhandari Kalan, Ludhian, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	17.4.84
2583	Sumer Singh Jagat S/o Sh Chatu Lal Jagar	CGSVC/354/08	Moh&PO-Farshawali Via Damra, Dt- Jahagir, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/07	1.7.79
2584	Sumin Jose D/o P.J. Jose	KeralaSVC/3355/08	Payikkattu House, Amamamkulam, Padappengadu PO, Teliparamba, Kannur-670581, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	19.10.83
2585	Sumit Prakash Yadav S/o Sh Subhash Yadav	RajSVC/3489/08	Vill-Ganeshpura, Po-Ranwa, The-Khetri, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	8.3.82
2586	Sumit Marshney S/o Sh B.P. Gupta	UPSVC/4755/08	H.No.-5, Nr Bhawan Temple Bilsa, Dt- Budaun, U.P.	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	2.6.83
2587	Sumita Kullu, S/o Shri Kamalkant Kullu	JVC/208/08	Tengaria, Koyal Toli, Tengaria, Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/04	25.01.79
2588	Sumithra F.G D/o T.R. Gopakumar	KeralaSVC/3364/08	Thangalazhy House, Thangaloor PO, Thrissur- 580581, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	21.5.85
2589	Sumitra Singh Chauhan S/o Sh N.P.S. Chauhan	UPSVC/4836/08	H.NO.18, Budh Vihar, Via-New Shivpuri C colony, Mahat, Rampur, U.P.	BVSc&AH/SDAU/08	18.10.79
2590	Sundhanshu Gaur S/o Sh Devi Dutt Gaur	HarSVC/2029	#666 -A, Panchwala, Qutabpur, Rewari, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	14.2.84
2591	Suneel Kr Prajapati S/o Sh R.B. Prajapati	UPSVC/4816/08	Vill-Rasoolpr Khan, Po-Farendra Khurd, Dt- Gonda, U.P.	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	15.4.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2592	Sunil Jindal S/o Sh Onkar Jindal	RajSVC/3507/08	Onkar Jindal, Agrasen Colony, Nr Bhagwan Bari, Bayana-321401, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	7.8.79
2593	Sunil Kapoor S/o Sh Atma Ram	HPSVC/842/08	Vill-Bharmat, PO-Banuri, The -Palampur, Dist-Kangra, H.P -176061	BVSc&AH/CSKKVV/08	19.1.84
2594	Sunil Kumar S/o Sh Ishnarayan Singh	Pb.SVC/2801/08	C/o Dr. Ajit Kumar, H.NO.1049, PAU Campus, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	30.12.82
2595	Sunil Kumar Jojo S/o Sh Haldhar Jojo	OrissaSVC/2238/08	Vill&Po-Bondamunda, Res-Near R.C. Church, Dt-Surndergarh-770032, Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	17.6.83
2596	Sunil Kumar S/o Sh Krishan Kumar	Pb.SVC/2793/08	H.No. 139, Nabha Gate, Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	25.11.84
2597	Sunil Kumar S/o Sh Ish Narayan	UPSVC/4832/08	Vill-Naseri, PO-Naserpur, Dt-Ambedkar Ng, U.P	BVSc&AH/GADVASU/08	30.12.82
2598	Sunil Kumar S/o Sh Sudarsan Prasad	BVC/2761/06	Vill+PO-Kirhindi, Thane-Shivsagar, sub-Div-Sasaram, Dt-Rohtas, Bihar	BVSc&AH/RAU/06	27.2.80
2599	Sunil Kumar S/o Shri Ram Chandra Awasthi	UVC/92/08	Vety Officer(Contract)V.H, Tanakpur, Champawat, Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVV/98	11.3.68
2600	Sunil Kumar S/o Sri Brijnandan Prasad Singh	JVC/555/09	TVO Tilaiya, Jhumri Tilaiya, Koderma-835409, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	23.12.59
2601	Sunil Kumar Singh S/o Sh Jag Mohan Singh	UPSVC/4768/08	934/28, B/47 E, Allapur, Dt-Agra, U.P	BVSc&AH/UPDDUPCVV/08	28.12.81
2602	Sunil Kumar Sinha S/o Sri Dulari Singh	JVC/545/09	TVO (Siwandih) Chas, Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	20.07.61
2603	Sunil Kumar, S/o Shri Radhe Shyam Pd.	JVC/114/08	Block Ani. Hus Officer, Giridih Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	15.11.61
2604	Sunil Prasad Singh S/o Sri Suresh Prasad Singh	JVC/575/09	BAHO Barharwa, Rajmahal, Sahibganj, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	05.04.72
2605	Sunil Raj S/o Sh Ram Mehar	HarSVC/2036	VPO - Rupgarh, Distt- Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	17.7.86
2606	Sunil Singh S/o Sh Devendra Singh	UPSVC/4779/08	Vill-Gaura, PO-Newada, Dt-Kaushambi, U.P	BVSc&AH/NDUAT/08	5.3.82
2607	Sunil Singh Tomar S/o Dr.R.G. Singh Tomar	MPSVC/2539/08	V&P-Rajotha, The-Porsa, Dist-Morena-476115, M.P	BVSc&AH/INKVV/08	15.2.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2608	Sunil Sushil Xalxo S/o Shri Francis Xalxo	JVC/197/08	Bhata, Kanke Road, Near Hot Lips Resturant, Ranchi-834009, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	20.11.65
2609	Sunil Tiwari S/o Sri Yogendra Tiwari	JVC/324/08	TVO Jasidih, Deoghar, Pin-814142, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	23.11.68
2610	Sunil Toppo S/o Sri Hemant Toppo	JVC/314/08	Moh-New Garden Sirom, Toli (Club Road) Near Munda Chowk, Chutia, Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	01.03.78
2611	Sunilkumar M.A S/o Anand M.M	KarSVC/4120/08	Mavanur Vill, Hunasavalli Po-573213, Alur, Tq- Hassan Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	31.7.84
2612	Sunil Singh Narwaria S/o Shri Keshaw Singh Narwari	MPSVC/2521/08	FH-486, Deendayal Nagar, Gwalior, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	2.1.84
2613	Sunny Jain S/o Sh Naresh Kumar	Pb.SVC/2792/08	Karyana Store, Sardulgarh Distt, Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	14.12.84
2614	Supreet Singh S/o Sh Sukhdev Singh	Pb.SVC/2843/08	H.No.15-A, Block-8, Sandhu Avenue, Near OCM Mills, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	1.9.85
2615	Suprite Sinha D/o Sh Amitabh Kumar Sinha	BVC/2903/07	Vill-U.N.Bagicha Rd, PO-Bhagalpur, Thane-Aadampur, Dt-Bhagalpur-812001, Bihar	BVSc&AH/BAU/06	14.11.79
2616	SURADKAR SANJAY GANGARAM	MahaSVC/7929/08	Shivaji Nagar, Opp to Shivaji Primary School, Chikhali Dt-Buldana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	1/12/79
2617	SURADKAR UMESH SHALIGRAM	MahaSVC/8086/08	C/o.S.T.Suradkar.'Kuntal Nivas' Vishnuwadi, Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01-04-83
2618	Suraj Sivaraman.P S/o N.Sivaraman	KeralaSVC/3444/09	"Suraj" Keerthi Ng, Nadathara PO, Thrissur-680751, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.7.85
2619	Suraj Tanti S/o Sh Nanaku Tanti	CGSVC/345/07	Vill&PO-Boirdadr, Gram-Vijaypur, Dt-Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/05-06	28.6.80
2620	Suraksha Yadav D/o Sh Arvind Yadav	RajSVC/3524/08	H.NO. 7-J-42, Mahavir Nagar-III, Kota-324005, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	26.1.83
2621	Surbhi Kesharwani S/o Sh D.K.Kesharwani	CGSVC/415/08	C/o Smt Gayatri Chandrakar, Head of the Deptt Krishi Mahavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	10.9.82
2622	Surender Nain S/o Sh Zile Singh	HarSVC/2038	Vill - Devigarh, VPO- Kaithal Mandi, Distt-Kaithal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	8.7.82
2623	Surendera Pratap Singh S/o Sh Rishi Pal Singh	UPSVC/4844/08	Vill-Kundesra, PO-Alliyabad, Dt-Mordabad, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	15.7.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2624	Surendra Choudhar S/o Sri Munni Choudhary	JVC/455/09	A.I.O Frozen Semen Bank,Hotwar,Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/76	03.10.59
2625	Surendra Kr Kure S/o Sh Rajkumar Khure	CGSVC/357/08	Patan Road, Salood Dist, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	23.3.78
2626	Surendra Kumar Nag, S/o Sh J.S.Nag	CGSVC/412/08	Block Colony,Usri Boda, Lohari Gunda,Jagdalpur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	22.7.82
2627	Surendra Kumar Ram S/o Late Basudeo Ram	JVC/319/08	Mohalia-Bedani Khurd, Tarhasi, Manatu, Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	20.08.69
2628	Surendra Kumar S/o Late Gena Lal	JVC/282/08	A.P.O. Hazaribagh, DAHO Office, Near Radio Station, Hazaribagh-825301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	16.01.65
2629	Surendra Singh Garbiyal S/o Shri Ratan Singh Garbyal	UVC/355/08	Hospital Road Line Garbyal Khere, PO- Dharchula Dt-Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/88	11.12.73
2630	Suresh Kumar S/o Sh Ram Singh	HarSVC/2076	VPO -Arya Nagar, Distt- Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	15.3.84
2631	Suresh Kumar Jha S/o Sri Ramanand Jha	JVC/501/09	T.V.O Potka, House No.40/II, Vastu Vihar, Baikunth Nagar, Mango, Jameshedpur- 831017, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	15.01.70
2632	Suresh Kumar S/o Sh Laxman Singh	RajSVC/3485/08	V/p -Lalas, The-Nawa, Nagaur- 341509,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	1.7.81
2633	Suresh Kumar S/o Sri Bhuneshwar Ravidas	JVC/305/08	C/o Sri Bhuneshwar Ravidās, Moh-Barki Saria, Saria, Bagodar, Giridih-825320, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	05.07.77
2634	Suresh Kumar S/o Sri Narayan Mahto	JVC/596/09	BAHO Gomia, Bermo (Tenughat) Bokaro, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	12.10.69
2635	Suresh Mehta S/o Late Keshwar Mehta	JVC/266/08	Kahulia, Soh, Garhwa Pin822114, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	20.11.68
2636	Suresh S/o Sri Pannu	KarSVC/4183/08	No.56. Janakinagar, Gulbarga- 585105,Gulbarga Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.6.83
2637	SURJUSE PRASHANT DADARAO.	MahaSVC/7801/07	34, Gajanan Colony, Murtizpur Road,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	9/10/84
2638	Suruchi Kumari D/o Sri Subodh Kumar	JVC/290/08	C/o Sri Shanker Enterprises, Gouri Shanker Mohalla, Jhumri Telaiya, Koderma-825409, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/08	12.10.82
2639	SURVE VISHAL SATISH.	MahaSVC/7876/07	305,Shivshankar Apt.,Station Rd,Ulhasng- 4,Tq-Kalyan,Dt-Thane,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	17/5/85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2640	Surya Kumar Dewan S/o Sh Keshav Dewan	CGSVC/358/08	H.No 40/1052,Baniyapara.Purani Basti,Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/94	15.8.67
2641	Surya P.S. D/o P.Sasidharan	KeralaSVC/3123/09	Sasidharamangalam,Poovanthoor PO,Nedumangad,Thiruvanthapuram,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.5.83
2642	Susan Cherian D/o Cherian Ninan	KeralaSVC/3324/08	Kaithathara House, Paigana, Mundakayam- 686513,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	9.6.83
2643	Susant Kumar Pal S/o Sh Daitary Pal	OrissaSVC/2111/08	Bharasinghpur,PO-Kadbarang,Via-Randia Hat,Dist-Bhadrak-756135,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	15.6.83
2644	Sushanth Handage S/o Surendra	KarSVC/4135/08	No.2025, Railway Station Rd, Nr Bhavani Petrol Pump,Raibeg-519317,Raibag Tq,Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	25.5.84
2645	Sushil Kumar S/o Sri. Mahendra Kumar	JVC/345/08	TVO Sarath, Kunda (Ganpati-Niwas) Deoghar- 814143, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	17.01.62
2646	Sushil Kumar Singh S/o Sh R.P.Singh	UPSVC/4841/08	Vill-Revti,PO-Revti,Dt-Ballia,U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	9.8.84
2647	Sushil Prasad, S/o Sh. Rajendra Prasad	JVC/263/08	Associate Proff. Ranchi Vet. College, Kanke, Ranchi-834007	BVSc&AH/BAU/86	20.08.60
2648	Sushil Somi S/o Sh Vishwanath Somi	Pb.SVC/1357/08	183,Green Park Sirhind Road, Patiala,Punjab	BVSc&AH/Uni of Udai/78	12.12.53
2649	Sushma Lalita Baxla W/o Dr. Roshan Miamai Topno	JVC/481/09	Ramtolya (Girjatoli),Kamdara,Gumla,Pin- 835227,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	07.12.75
2650	Sushma Pardhiya W/o Dr. Raju Tirkey	JVC/275/08	C/o Sri Sahindra Tirkey, Jharna Basti Kedla, Mandu, Ramgarh, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	05.12.67
2651	Sushma Sara D/o Sri Y.K.Kandulna	JVC/553/08	Jaipur, Rania, Khunti, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	21.09.75
2652	Sushma Shelu D/o Shri Rajaji Shelu	MPSVC/7543/08	H-112,Patwapura,Shahpur,Betul-460440,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	24.9.84
2653	Sushma Yadav D/o Sh Yudhvir Singh Yadav	HarSVC/2075	Vill - Birar, Distt- Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	11.4.84
2654	Susil Kumar Seth S/o Sh Antaryami Sethi	OrissaSVC/2242/08	At/PO- Turumu, Via-Kulado,Ps- Bhajangarh,Dist-Ganjan-761131,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	9.8.85
2655	Suzanne Malsawmthangi D/o Dr. K. Rokhawla	MizSVC/179/09	Durtlang, PO-Durtlang, Aizawal Dt, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	14.2.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2656	SWAMI VIJAY CHANDRASHEKHAR.	MahaSVC/8078/08	Swami Niwas, Mukhed Road, Wajegaon, Om Nagar, Nanded-431602, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	17/03/84
2657	Swatantra Kumar Singh S/o Sh Upendra Mani Singh	MPSVC/2541/08	V&P-Bhita, Rewa-486553, M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	18.7.81
2658	Sweta Shree D/o Sh. Triveni Prasad	JVC/253/08	C/o Sh. Triveni Prasad, Itki Road, Hehal, Ranchi-834005	BVSc&AH/BAU/04	15.01.77
2659	SYED MOHSIN SYED IQBAL.	MahaSVC/7912/07	C/o Syed Iqbaal Behind Arfat Function Hall Juna Bazar, Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	1/10/83
2660	Syed Alamdar Rizivi S/o Sh S.M.Rizivi	UPSVC/4737/08	Plot NO.2, Shyam Vihar Colony, Preeti Ng, Madiyanhu, Lucknow, U.P	BVSc&AH/KAU/08	15.11.82
2661	Syed Muddasir Ahmed S/o Sayyad Sageer Ahmed	KarSVC/4205/08	NO.641, 4th Main, 12th Cross, H.S. Extn, Harihara-577601, Davangere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	14.7.85
2662	SYED RANAFATIMA SYEDNAQIHASSANTUR ABI	MahaSVC/7939/08	Massarrat Villa, Dadarao Plot, Parbhani-431402, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/09/85
2663	T.Anith D/o R.M. Tamilmani	PondiSVC/313/08	NO.127, 7th Cross, Sivagami Nagar, Reddiarpalayam, Puducherry	BVSc&AH/PU/07	20.5.85
2664	T.Giri S/o G.Thiyagarajan	TNSVC/4306/08	North Street, Kalkali PO, Musiri Taluk, Trichy-621210, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.7.84
2665	T.I.Kochupapy S/o I.V. Ittoop	TNSVC/4132/08	38-A/22, Kamaraj Street, K.K.Pudur, Coimbatore-641038	BVSc/MU/60	6.5.38
2666	T.M.Praveen Kumar S/o T.R.Muthusamy	TNSVC/4216/08	45, Thasaiyer Street, Thasampudur, Nallampatti, PO-Perundurai Taluk, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.7.84
2667	T.Raja S/o P.Thangavel	TNSVC/4205/08	Periyagoundampatty, Thalambady PO, Namakkal-637019, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	9.5.85
2668	T.Ravi S/o T.Ramulu	APSVC/4781/08	H.NO.4-21, Goparapalli, Kolanoor, Odela(M), Karimnagar, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	2.7.84
2669	T.Revathy S/o M.Thiyagarajan	TNSVC/4235/08	13-B-8, Rajan Illam, Iind Street, Jothi Ng, Kovilpatti-628501, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	8.4.86
2670	T.S.Kumaran S/o I. Sivanesan	TNSVC/4364/08	Veerappaniackenpatty PO, Harur Taluk, Dharampuri, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.85
2671	T.Sakthivel S/o M.Thangasamy	TNSVC/4217/08	3, Vedanaikan Thottam, Nainampalayam, Kalingiam PO-Gobi Taluk Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.6.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2672	T.Senthil Pandian S/o S.P.Thangam	TNSVC/4305/08	4/186,(Old NO.4/419), Kakanji Street, M.A> Ng,Red Hills,Chennai-600052	BVSc&AH/TANUVAS/08	4.1.84
2673	T.Senthil S/o D.Thamilarasan	TNSVC/4239/08	1/306(Old No.1/96),Zamiri Kolathur PO,Udayarpalayam Taluk,Ariyalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.7.84
2674	T.Shailaja D/o T.Laxman	APSVC/4741/08	H.NO.6-33/A,Ankathiwada Behind Krupakar Hospital, Luxellipet(M),Adilabad Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	31.5.85
2675	T.Srinivas S/o T.Balaiah	APSVC/4808/08	H.NO.1-59,Andugulapet(P&V), Mandamarri (M), Adilabad Dt,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	21.6.82
2676	T.Srinivas S/o T.Ganga Reddy	APSVC/4787/08	H.NO.5-98, Vempet(P), Metpally(M) Karimnagar, Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	14.11.84
2677	T.Srinivasan S/o T.Thirumaran	TNSVC/4218/08	B-16,P.S.M.Colony,Eraiyur PO- Perambalur,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.1.83
2678	T.V.Sirisha Devi D/o T.Muni Krishnaiah	APSVC/4686/08	D.NO.20/580,Namasthe Board Lane , Kadapa (P),Dt 516002,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	22.6.84
2679	IAKSANDE PRACHI EKNATH.	MahaSVC/7909/07	Near Boudha Mandir,H.No.774,Sadar Bazar,Sadar,Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	8/2/84
2680	IAMBE NITIN YASHAWANTI.	MahaSVC/7890/07	Village Ayani, Tal.Khed,Dt- Ratnagiri,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13/4/81
2681	IAMHANKAR SIMITA PRAKASH.	MahaSVC/8097/08	RamJev Park, A/104,Chandavarkar Road,Borivali (W),Mumbai-400092.	BVSc&AH/MAFSU/07	5-9-84
2682	Iamuli Achyut Kumar S/o Sh Durga Narayan Iamuli	ASM/2377/08	Jutulemi Gaon, PO-Langpatia, Dist-Sivasagar- 785692,Assam	BVSc&AH/AAU/08	23.10.85
2683	Ianbir Ahmad S/o Sh Md. Hasim	UVC/351/08	V.O.-Venkey's India Ltd.,Manduwaia,Dehradun,Uttarakhand	BVSc/TNV&ASU/05	20.11.80
2684	Ianmay Verma D/o Sh Sewak Ram Verma	CGSVC/340/07	B-174,Plot No.15,Nehru Nagar,Bhilai,Chhat'isgarh	BVSc&AH/IGKV/05-06	13.7.82
2685	Ianweer Alam S/o Makshud Alam	BVC/2859/07	Vill Nawadih PO& Thane-Aurangabad,Dt- Aurnagabd,Bihar	BVSc&AH/RAU/07	25.11.79
2686	Iapas Kumar Patbandha S/o Sh Bhaskara Ch Parbandha	OrissaSVC/2226/08	At/Po-Saradiha,Via-Suliapada,Dist- Mayurbhanj-757022,Orissa	BVSc&AH/OJ&T/08	15.10.84
2687	Iaran Singh, S/o Shri Sardar Haribansh Singh	JVC/008/08	Research Officer(QC),Institute of Animal Health & Production,Kanke,Ranchi- 834006,Jharkhand	BVSc&AH/RAU/82	21.06.59

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2688	TARATE SAGAR BABANRAO	MahaSVC/7942/08	C/O Banarao Kakasaheb Tarate, Doithan, Taluka : Aashti- 414203, Maharashtra.	BVSc&AH/MAFSU/07	09/12/84
2689	Tarate Sagar Babanrao S/o Babanrao Kakasahab Tarate	RajSVC/3535/08	C/o Pravin Gujrati, PG-Hostel-1, R.No.- 18, COVSc&Ani Sci, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	9.12.84
2690	Tarun Kumar Thakur S/o Sh Roshan Lal Thakur	HPSVC/837/08	Vill- Fagat, PO-Salaon, The- Gumarwin, Distt- Bilaspur, H.P.-174021	BVSc&AH/CSKKVV/08	11.9.85
2691	TATELU SNEHA RAMESH.	MahaSVC/7774/07	C/55, New Gajant, CHS, Kosamgo Ng, Boriwali (W), Mumbai-400092, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/8/84
2692	TAYDE RAVINDRA SHIVAJI.	MahaSVC/8005/08	Lahane Layout, Ward No.15, Tal. Dist. Buldana.- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	03-02-85
2693	Tejveer Singh s/o Sh Ranjan Singh	UP SVC/4767/08	Dhandhupura Tajganj, Dt-Agra, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	7.7.83
2694	TEKADE VAIJAYANTA MEGHARAJ	MahaSVC/7776/07	Shivaji Colony, Shrivai, Tal-Khandala, Dt- Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	25/4/84
2695	TEKALE ASHISH ANANTRAO.	MahaSVC/8009/08	C/o Manikrao Deshmukh, Shahapurkar, Near Vithal Mandir, Sahakarnagar, Tal. Dist. Parbhani.	BVSc&AH/MAFSU/08	01-05-85
2696	Thakor Gopalbhai Ambalal	GujSVC/2940/09	AT&PO-Thamna, Ta-Umreth, Dt-Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	28.8.84
2697	Thakura Murmu S/o Sri Seral Murmu	JVC/460/09	Rola, Rajnagar, Seraikela, Kharsawa, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	04.01.64
2698	Thavani Kamlesh Lokchand	GujSVC/2931/08	16-Akashdeep Society, B/h-C.P College, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	20.9.84
2699	THER SANDIP VISHNU.	MahaSVC/7986/08	At-Jamadara, Post- Toranala, Tal. Manora, Maharashtra Dist. Washim.	BVSc&AH/MAFSU/08	6-9-83
2700	THORAT SHASHIKANAT KONDAJI.	MahaSVC/7926/08	Talegaon Phata, Vadgaon-Pan, Tal- Sangamner, Dt-Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23/6/84
2701	Thungjano Odyuo S/o Nthimomo Odyuo	NSVC/240/08	Near P.W.D. Colony, Kohima, Nagaland	BVSc&AH/AAU/08	24.9.84
2702	TIDKE ALKA PANDITRAO.	MahaSVC/8127/09	Bhagya Laxmi Niwas, V. Bank Colony, Ambejogai Road, Behind Sapna Hotel, Parli (V.), Dist. Beed.	BVSc&AH/MAFSU/08	05/10/85
2703	Tincy Mary John D/o John Varghese	KeralaSVC/3330/08	Prayag, Kaithachal Road, PO-Kolazhy, Thrissur- 68010, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	3.6.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2704	Tintu Mathew D/o P.M Mathew	KeralaSVC/3388/08	Maria Bhavan,Perumbadavom PO,Elanji Ernakulam-686665,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	10.3.84
2705	Tixy K.Joseph D/o B.K.Joseph	KeralaSVC/3338/08	Kanjooparambil House,East of Homoeo Hospital,Thathampally PO,Alappuzha- 688013,Kerala	BVSc&AH/KAU/08	3.9.82
2706	Tribhuvan Kumar S/o Sh Sh Sadan Ram	UPSVC/4799/08	2/177,Mathura Rfinary Ng,Mathura,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	4.7.83
2707	Triveni Pandey S/o Sh B.Pd Pandey	UPSVC/4848/08	61/45/1,South Lokpur Naini,Allahabadm,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	3.8.83
2708	Triveni Paswan S/o Late Jageshwar Paswan	JVC/499/09	133, North Office Para, Doranda, Ranchi- 834002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/77	15.01.54
2709	Tshering Choden Bhutia	Sikkim/87/08	C/o D.T. Bhutia, Lower Tadong, Laalkothi, East Sikkim	BVSc&AH/CAU/08	
2710	Tusengbirth C.Marak S/o Shri L.D Shira	MeghSVC/261/08	Dakopgre,DIC.New Tura-794101,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/08	11.5.83
2711	Tushar Preet Sharma S/o Sh Om Parkash Sharma	Pb.SVC/2833/08	Adarsh Nagar, Ward No.10,Mansa-151505, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	28.6.85
2712	U.Venkateswara Rao S/o U.Naraiah	APSVc/4792/08	H.NO.36-139/A,Papireddy Nagar, Road No,6,JDPL (P),Jagathgiri Gutta,Hyderabad- 37,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	23.5.81
2713	Udaiveer Singh Mahor S/o Shri Kalyan Singh	MPSVC/2524/08	V&P-Lallu Basai, The-Ambaha, Dist- Morena,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	7.8.82
2714	Uday Bhushan Mehta S/o Late Harikant Pd. Mehta	JVC/193/08	Mehta, Ratanpur, Lchak, Hazaribag-825402 Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	29.3.76
2715	Uday Kumar Sinha S/o Shri Dwarika Sinha	JVC/184/08	Vidyanagar, Harmu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/95	16.02.69
2716	Udheshwar Mahto S/o Late Manik Mahto	JVC/194/08	Ratandih, Koiridih, Bagodar, Giridih-825301, Jharkhand	BVSc&AH/RU/69	09.11.47
2717	UGILE SONALI SHRIRAM.	MahaSVC/8043/08	Yerme Nagar,Jalkot Road,Udgir,Dist.Latur- 413517,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	07-01-86
2718	Ujala Bardwaj W/o Sri Sanjay Kumar Khaware	JVC/451/09	Near Marwari Kanwar Sangh,Chaityan Nath,Jaj Ware Path,Deogha,Jharkhand	BVSc&AH/AAU/02	29.06.79
2719	Ujjwal Kumar S/o Sri Bijay Kumar Singh	JVC/428/08	Nawadih,Khadhaiya Tandwa,Chatra- 825321,Jharkhand	BVSc&AH/SVVU/08	24.05.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2720	Ukani Jenishkumar Ramniklal	GujSVC/2932/08	At-Chikhaliya, Ta- Upleta, Dt-Rajkt- 360410,Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	12.1.86
2721	Uma Kant Singh S/o Sri Angad Prasad Singh	JVC/526/09	Dr. Uma Kant Singh Bari Kodar Janna Sahibganj-816109	BVSc&AH/RAU/89	02.01.62
2722	Uma Shanker Prasad S/o Sri Sadhu Sharan Prasad	JVC/542/09	TVO Pordag, Dumari, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/86	26.01.62
2723	Umakanta Mishra S/o Sh Chintamani Mishra	OrissaSVC/2231/08	At-Sahajognagr,PO-Dunguripali,Dt-Sonepur- 767023,Orissa	BVSc&AH/OUA&T/08	20.7.82
2724	UMALE NIKHIL ASHOK.	MahaSVC/8037/08	"Samarth",Near Doordarshan Centre,Gandhi Ground,Akot,Dist.Akola-444101	BVSc&AH/MAFSU/08	24-06-84
2725	Umashankar Pd. Srivastav S/o Sri Kant Prasad	JVC/466/09	Pig.Dev.Officer,Kanke, Ranchi,Jharkhand	BVSc&AH/RU/69	08.01.48
2726	Umesh C.G D/o M.V. Gopalan	KeralaSVC/3424/09	Chempanpathalil, Champakkara PO, Karukachal, Kottayam,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.4.85
2727	Umesh Kr Pateriya S/o Sh H.S.Pateriya	UPSVC/4854/08	Vill&PO-Mahuaband Te Kulpanad,Dt- Mahoba,U.P	BVSc&AH/JLKVV/08	8.12.81
2728	Umesh Kumar S/o Late Prasadi Mandal	JVC/540/09	TVO Jayrampur, Ginagora, Alakdiha, Dhanbad, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	08.03.71
2729	Umesh Kumar S/o Sh Lachhman Dass	Pb,SVC/2800/08	Bhagwas Dass Lachhman Dass Karyana Marchand ,Main Bazaar,Bhawanigarh,Dt- Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	9.10.84
2730	Umesh Prasad S/o Sh Ramesh Rai Prasad	UPSVC/4736/08	Vill-Kanungoi Gaon, PO-Bankata Station,Deoria,U.P	BVSc&AH/JNKVV/08	1.2.78
2731	UNAUNE KIRAN PRABHAKAR.	MahaSVC/7882/07	Sidhanath Colony, Police Station Rd, Mhaswad, Tal-Man,Dt-Satara,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	16/6/84
2732	Upan Dang S/o Sh. Nathaniel Dang	JVC/177/08	Sardha Toli, Tutikel, Kolebira, simdega- 835211 Jharkhand	BVSc&AH/RAU/05	27.12.79
2733	Upendra Kr.Sharma S/o Sh R.B.Sharma	UPSVC/4889/09	Vill&PO-Sikta,Dt-Kushinagar,U.P	BVSc&AH/KU/09	30.6.81
2734	Upendra Kumar S/o Sh Ramlakhan Prasad	BVC/2794/06	Vill-Aamipur,PO-Odhanpur,Thane-Muffasil, Sub-Div-Nawada,Dt-Nawada,Bihar	BVSc&AH/WBUFSU/06	1.3.83
2735	Upendra Kumar S/o Sri Yadunandan Mahto	JVC/270/08	C/o Sri Yadunandan Mahto, Dhelkadih, Belahath, Manjhiaon, Garhwa,-822120, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/98	10.07.75

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2736	Upendra Kumar Singh, S/o Shri Ramrup Singh	JVC/105/08	Touring Veterinary Officer, Vety Hospital, Jhumra, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/87	03.01.63
2737	Upendra Mishra S/o Shri Ramanuj Mishra	MPSVC/2587/09	Police Wireless Lines, S.P. Office, Jabalpur, M.P- 482001	BVSc&AH/IGKV/09	4.6.84
2738	Uttam Kumar S/o Sh Sidheswar Pd Singh	UVC/422/08	Vety Officer (Contract) Vety Hospital, Dheligawan, Dt-Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/OUA&T/05	5.1.80
2739	Uttam Kumr Banerjee S/o Sri Sachindra Nath Banerjee	JVC/394/08	TVO, Maharajpur, Taljhari, Sahibanj, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/82	01.05.57
2740	V. Anish Pillai S/o R. Vasudevan Pillai	TNSVC/4184/08	146, Sokkaramankadu, Varnapuram, Bhavani- 1, Erode Dt, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	17.7.84
2741	V. Boovaragamoorthi S/o G. Vaithiyathan	TNSVC/4243/08	3/44, A-1, Perumai Kovil North Street, Pandhanallur, PO-Thanjavur, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.10.84
2742	V. Ch. Subba Rao S/o V. Tataiah	APSVC/4812/08	6-318(F), Sri Satyasai Nilayam, Shirdi Saibaba Ng, Kurnool Rd, Ongole, A.P	BVSc/APAU/69	14.04.46
2743	V. Dharmasimha Rao K.V. Vasudevan	TNSVC/4243/08	10/10, PO Balasubramaniam Via, Virudhunagar, Dt, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	1.6.84
2744	V. Durairaj S/o A. Velusamy Thevar	TNSVC/4081/08	4/896, J11, 19th Street, Rahmath Ng, Maharaja Ng, PO, Tirunveli Dist, Tamil Nadu	BVSc/MU/70	9.5.46
2745	V. Ganesan S/o P. Vijayaragavan	TNSVC/4082/08	B-90, 7th Street, Periyar Ng, Chennai- 600082, Tamil Nadu	BVSc/MU/64	4.11.34
2746	V. Geetha Rani D/o V. Parameshwara Rao	APSVC/4684/08	C/o P. Venkataswamy (Rtd Teacher), Kella (V), Gurla (M), Nellimaria, Vizianagaram Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	25.6.85
2747	V. Jagan Mohana Rao S/o V. Naram Naidu	APSVC/4810/08	Flat 103, Ramya Manor Apts, D.NO.45-53- 4/2, Abid Ng, Akkayapalem, Visakhapatnam, A.P	BVSc&AH/OUAT/08	18.04.82
2748	V. Janarthan S/o R. Venugopal	TNSVC/4108/08	2/81, Bommakottai, Kallloorianai PO, Aruppukottai Taluk, Virudhung, TamilNadu	BVSc/TANUVAS/94	19.7.71
2749	V. Kasi S/o A. Varadaraji Gounder	TNSVC/4129/08	173, Sathiyamoorthy Rd (Extn), Nr Jagathambai, Kalyanamandapam, Arni, Tiruvan namalai, TamilNadu	BVSc/TNAU/79	1.2.50
2750	V. Kavitha S/o S. Velliangiri	TNSVC/4232/08	4/5, Kolakkarapur, Ummaradiyur PO, Bhavani Taluk, Erode, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	16.10.83
2751	V. I. Sasikava S/o P. G. Jaganran	TNSVC/4248/08	1/2, 63, Veerapalli Village, Thiriyalam PO, Jolarpettai-635851, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	5.2.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2752	V.Lakshmi Sowjanya D/o V.Ranganayakulu	AP SVC/4806/08	Flat No.37,Commercial Taxes Colony,Vijayawada, Krishna Dt,A.P	BVSc&AH/ANGRAU/02	12.8.79
2753	V.Lavanya S/o M.Vijayan	TNSVC/4335/08	14/3, Pension Line North Street Gugai,Salem,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	12.7.85
2754	V.Moultou Vivek Srinivas S/o Moultou Visvalingam	PondiSVC/311/08	No.95,Kamaraj Salai, Nehru Nagar,Entrance Puducherry	BVSc&AH/PU/07	24.11.84
2755	V.Nepoleon S/o N.Vellaisamy	TNSVC/4412/09	15,VOC Street,Madukkur,Thanjavur- 614903,Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/95	20.6.72
2756	V.R.Anjana S/o K.Velappan	TNSVC/4189/08	10/109-C,Aswathy Bhavan Pallam Parayadi Road,Thiruvadaicode Villukkury,PO- Kanyakumari, Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	7.5.86
2757	V.Rajashekar S/o V.Prabhaka	AP SVC/4793/08	H.No.2-9-1213, Waddepally, Hanmakonda,Warangal,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	30.8.84
2758	V.Ravi S/o Velayutham	TNSVC/4089/08	48,Thoppalamman Koil Street,Sholingar,Vellore-631102,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/90	4.6.66
2759	V.S.Karthikeyan S/o V.Saminathan	TNSVC/4277/08	454, Ammankoil Street, Variyankaval PO,Udayarpalayam taluk,Ariyalur,TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	15.6.85
2760	V.S.Mazoothu S/o V.Sheik Udhuman	TNSVC/4394/09	127/49,Akbar Street, Melapalayam Tiruneveli-627005,Tamilnadu	BVSc/MU/	13.6.41
2761	V.S.Murahari S/o V.N.Somasundaram	TNSVC/4399/09	618,Vivekananda Street,Gandhi Ng,Vellore- 632006,Tamilnadu	BVSc/MU/66	25.5.42
2762	V.Saktihvel S/o N.Venkatachalam	TNSVC/4091/08	M.V.Colony,PO-Thalivasal, Via Attur, Salem,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/92	30.6.69
2763	V.Shankara Lingam S/o N.Vellaisamy	TNSVC/4144/08	4/801 Bharathi Street,Anbu Ng,Madurai,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/92	17.3.69
2764	V.Sirisha D/o V.Sambasiva Rao	AP SVC/4758/08	D.No.65-6-68,Mulgada Housing Colony,Gajuwaka Depot,Visakhapatnam,A.P	BVSc&AH/SVVU/08	8.11.84
2765	V.Sridhara Reddy S/o V.Anki Reddy	AP SVC/4685/08	Santha Gudipadu (P),Rompicharla (M),Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	20.12.83
2766	V.Srilatha S/o G.Vasudevan	TNSVC/4343/08	Mullichettipatty,Thinnapatty Post-Omalur taluk,salem,	BVSc&AH/TANUVAS/08	22.2.85
2767	V.Udhaya Shankar S/o N.Veeramani	TNSVC/4211/08	72,Chinnathambipalayam,PO-Tiruchengoud Taluk,Namakkal,Tamilnadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	14.1.84

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2768	V.Vaikaraiselvi S/o S. Vaiyanaperumal	TNSVC/4263/08	4/12, East Street, Melanmarinadu PO, Alangulam Via, Sivakasi taluk, Virudhunagar, TamilNadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	20.5.85
2769	V.Vedavathi D/o V. Rama Krishnaiah	APSVC/4721/08	H.No.5/506-4D-2, Yeguragadda Street, Rajampet, Kadapa Dt, A.P.	BVSc&AH/SVVU/08	25.8.84
2770	V.Venkatesan S/o Narayanasamy	TNSVC/4398/09	Mahadevi Mangalam PO, Gingee Taluk, Villupuram -604210, Tamilnadu	BVSc/TANUVAS/92	11.5.68
2771	V.Viswa Nathan S/o M.Velayutham	TNSVC/4128/08	64/C3, Diversia Rd, Polur, Tiruvannamali Dt-605803, TamilNadu	BVSc/TNAU/76	12.12.52
2772	Vadalia Jignesh Vrujlal	GujSVC/2933/08	PO- Matarvaniya, Ta-Maliya Dt- Junagard, Gujarat	BVSc&AH/AAU/08	25.3.84
2773	VAIDYA MANGESH MAHADEO.	MahaSVC/7749/07	At-Dadapur, PO-Ramgad, Tal-Kurkheda, Dt-Gadchiroli-441209, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	13/10/82
2774	Vajreshwari D/o Shamsundar	KarSVC/4175/08	Mallananagar, Mudhol-587313, Bagalkot Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	26.12.85
2775	VARMA TRUPTI SURESH.	MahaSVC/7996/08	Varma Niwas, SBI Road, Wanjari Fall, Yavatmal-445001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	02-03-86
2776	Varun Kumar Chaudhari, S/o Shri Lakhan Chaudhari	JVC/004/08	Touring Veterinary Officer, Manika, Latehar, Jharkhand	BVSc&AH/WBUAFSC/05	15.02.79
2777	Varunna P.Panicker D/o M.M.Purushothaman	KeralaSVC/3470/09	Perumangattu House, Umbidi (PO), Thottacad, Kottayam-686542, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.12.82
2778	Vasanthkumar M S/o Harirao M	KarSVC/4217/09	NO.917/44, Kirloskar Colony, 2nd Stage, 2nd Cross, Basaveshwaranagar, B'lore, Karnataka	BVSc/UAS B'lore/76	7.3.55
2779	VAZE MAKARAND NARSINHA	MahaSVC/7742/07	Brahmanand Kripa-2/922, Tilak Rd, Ichalkaranji, Dt-Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	3/4/84
2780	Vedamurthy G.V S/o Veerappa A.G	KarSVC/4155/08	Aralikatte-577552, Channagiri Tq, Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	25.7.85
2781	Veena K.Anirudhan D/o K. Anirudhan	KeralaSVC/3488/09	Shinu Mandiram, Thazhuthala, Kottiyam, Kollam-691571, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.5.84
2782	Veena M D/o Muralidhara N.S	KarSVC/4115/08	Vinayakanagar-570020, Tiptur Tq, Tumkur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.1.86
2783	Veenapani Sharma D/o Sh J.P.Sharma	UPSVC/4899/09	100-2A Lodhi Vihar Sasni Gate Aligarh, U.P	BVSc&AH/GBPUA&T/08	6.7.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2784	Veera Sanjukta Nancy Khaikho W/o Mr. Mayank Khaikho	JVC/589/09	Shankarpur, Sarzamda, Parshudih, Dhal Bhumgar, East Singbhum, Pin-831002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	14.03.63
2785	VEERANKI OMKARALAKSHMI MAHE	MahaSVC/7750/07	C/oDr.V.M.Rao, D-1,Vamnicom Housing Complex,University Rd-411007,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	19/7/85
2786	Venkanagouda Doddagoudra S/o Gurunathagouda	KarSVC/4181/08	Nalavadi-580029,Navalgund Tq,Dharwad Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	30.7.85
2787	Venkatesh Babu S S/o Srinivas S	KarSVC/4125/08	#320,Doddabajanemane Road,Chikkaballapura-562101,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	2.9.85
2788	Victoria D/o Sh Krishan Gopal	Pb.SVC/2678/08	H.No.XIV-145-B, Gali Dhobian Wali Nangal Kotly Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	5.1.83
2789	Vidhya Nidhi Gautam S/o Shri K.P. Gautam	MPSVC/2510/08	411, Sajivini Nagar, Garha,Jabalpur-482002,M.P	BVSc&AH/JNKVV/08	15.5.81
2790	Vidya M Kanthi D/o M.C. Kanthi	KarSVC/4210/08	Chowbara Road,Singer Bag,Bidar-585401,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	23.7.83
2791	VIGHANE BALASAHEB RAMDAS.	MahaSVC/7758/07	At-Dagadwadi,PO-Raimha,Tal-Shirur (K),Dt-Beed-414204,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	4/9/84
2792	Vijay Annaji WawareS/o Annaji B.Waware	RajSVC/3536/08	C/oPravin Gujrati,PG-Hostel-1,R.No.-18,COVSc&Ani Sci,Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/00	15.2.74
2793	Vijay Bhadoria S/o Sh P.S.Bhadoria	UPSVC/4898/09	Mo-Edaward; Dutt.,Etawa,U.P	BVSc&AH/JLKVV/07	10.6.77
2794	Vijay Kashnia S/o Sh Lal Chand Kashnia	RajSVC/3513/08	G.V.Senior School Sangaria, Hanumangarh-335063,Rajasthan	BVSc&AH/CSAKPVV/00	20.7.76
2795	Vijay Kishore Bara S/o Sri Clement Bara	JVC/316/08	C/o Sri Clement Bara, Moh-Atakora Teter Toli, Mahadeo Chaigiry, Bharno, Dist-Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	07.01.72
2796	Vijay Kumar Bharti S/o Sh Amir Paswan	BVC/2778/06	Vill+PO-Amarpur,Thane-Maidnichauki,Sub-Div-Lakhisarai,Dt-Lakhisarai-811106,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	15.1.76
2797	Vijay Kumar S/o Sh Nagendr Prasad Gupta	BVC/2819/06	Vill+PO-Madhpor,Thane-Laukha,Sub-Div-Phulpara; Dt-Madhubani,Bihar	BVSc&AH/Raj Agri Uni/06	16.2.81
2798	Vijay Kumar S/o Sh Rajendra Pd Chaudhary	BVC/2879/07	Vill-RPF Colony,PO&Thane-Samastipur,Sub-Div-Samastipur,Dt-Samastipur,Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/06	25.2.82
2799	Vijay Kumar S/o Sri Bhagirah Prasad	JVC/515/09	211, Kanke Road, H.No.235/B15, Suryoday Nagar, Gonda Town, Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	11.01.63

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2800	Vijay Kumar S/o Sri Suresh Prasad Singh	JVC/470/09	Asst. Instructor, Pashupalan Vidyalaya, Goriakarma, Barhi, Hazaribagh, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	23.09.71
2801	Vijay Kumar S/o Sri Takeman: Dhobi	JVC/549/09	Suriya, Bagedar, Giridih Pin-825320, Jharkhand	BVSc&AH/WBUA&FSU/04	25.05.82
2802	Vijay Kumar Singh S/o Sh. Sheo Pujan Prasad Singh	JVC/477/09	APO(Training), Regional Poultry Farm(Hotwar), Hotwar, Ranchi-835217, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/82	27.07.59
2803	Vijay Kumar Verma, S/o Shri Brahmdeo Pd. Verma	JVC/019/08	Touring Veterinary Officer, Bariatu, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	10.10.62
2804	Vijay Shankar Dubey S/o Sh Sambhu Nath Dubey	BVC/2877/07	Vill-Sanki, PO&Thane-Suhiyan Sub-Division Jagdishpur, Bhojpur, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	1.3.83
2805	Vijay Singh Beniwal S/o Sh Jaykishan Beniwal	RajSVC/3537/08	VPO Parlika, Wd No 3, The-Nohar, Hanumangarh 3355045, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/08	25.12.80
2806	Vijay Singh S/o Sh Jagdish Prasad	UPSVC/4777/08	Vill&PO-Khera Shilajeet, Dt-Hamirpur, U.P.	BVSc&AH/NDUAI/08	1.7.82
2807	Vijaya Pratap Singh Jagat S/o Ekadashi Ram Jagat	CGSVC/342/07	Gram Patarpali Khurd, PO-Raja Shakti, Jahagir, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/05/06	16.10.78
2808	Vijetha B. I. S/o Thippeswamy B	KarSVC/4101/08	No.69, Srianganilaya, 9th Main, Biraweshwar anagar, Nagarabavi Main Rd, Bangalore-560072	BVSc&AH/KVASU/08	1.3.86
2809	Vikas Chaturvedi S/o Sh Om Prakash Chaturvedi	RajSVC/3542/08	New Colony, Near Nehru Garden, Lalsot, Dausa, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/08	30.10.83
2810	Vikas Lamba S/o Sh Raghunir Singh Lamba	RajSVC/3577/08	H.No.4/23, Housing Board, Jhunjhun-333001, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/08	16.9.79
2811	Vikas Narayan Chaurasia s/o Sh Ram Narayan	MPSVC/2547/08	V&P-Niwari, Dt Chhatarpur-471001, M.P.	BVSc&AH/JNKVV/08	19.11.80
2812	Vikash Chandra Vats S/o Sh N C Sharama	UVVC/371/08	Gora Farm, Shivrajpur, Patti Kashipur Dt., U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/08	12.2.78
2813	Vikash Kumar S/o Sh Surendra Pd Sharma	BVC/2920/08	Vill-Budha Colony, PO GPO, Thane-Budha Colony, Dt-Patna-800001, Bihar	BVSc&AH/JNKVV/06	16.1.82
2814	Vikash Ranjan S/o Late Sh Dr. Vinod Kumar	BVC/2884/07	Vill Nayatola Madhopur, PO&Thane-Bakhtiyarpur, Sub Div Barh, Dt-Patna, Bihar	BVSc&AH/RAU/07	13.4.83
2815	Vikram Jit Singh S/o Sh Balwant Singh	Pb.SVC/2844/08	VPO- Lahal Dhaliwal, Distt-Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	3.4.83

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	AGE
2816	Vikram Parihar S/o Sh Ajit Pratap Singh	Pb.SVC/2840/08	136-D,Khehlu Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/08	24.2.84
2817	Vikram Patial S/o Sh Hem Raj	HPSVC/849/08	Vill- Paplog, PO-Sadhot, The -Sarkaghat, Distt- Mandi, H.P -175024	BVSc&AH/CSKKVV/08	1.4.85
2818	Vikram Prasad Tiwari S/o Sh Yogshwar Pd Tiwari	CGSVC/389/08	Shyamnagar,Palsaya,Para,Durg,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/06-07	22.8.81
2819	Vikram Singh Rajput S/o Sh B.S.Rajput	UPSVC/4732/08	Vill-Bungra,Po-Jigni Tehicrath, Hamirpur,U.P	BVSc&AH/IGKVV/08	5.9.84
2820	Vikuolie Mezhsatsu S/o Salhoulie Mzhatsu	NSVC/235/08	High School Area (Near Kohima Bible College),Kohima, Nagaland	BVSc&AH/CAU/08	29.10.82
2821	Vimal Prasad Patel S/o Sh Chandi Prasad Patel	CGSVC/432/09	Vill&PO-Kirari Dabra, Dt- Jajagir,Champa,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	1.7.71
2822	Vinay Kumar Jha S/o Dr. Bairdyanath Jha	JVC/215/08	C/o Dr. B.N.Jha, Hariinar Singh Road, Morhabadi, Bariyatu, Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96.	23.12.71
2823	Vinay Kumar S/o Sri Shib Shanker Sahai	JVC/385/08	B.A.H.O,Silli,Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BCKV/90	25.09.64
2824	Vinay Kumar, S/o Shri Ayodhya Kumar Mandal	JVC/249/08	C/o Sh. Ayodhya Kumar Mandal, Kundori Balidih, Chas, Bokaro-827014, Jharkhand	BVSc/TANUVAS/05	09.09.80
2825	Vinay M S/o Muninarayanappa C	KarSVC/4109/08	Pura, Vijayapura Poost-562135.Devanahalli Tq,Bangalore Rural Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	22.5.85
2826	Vinay N S/o Sri Nagaraj	KarSVC/4149/08	Sri Saraswathi Nilaya,Kumbeshwara Layout,Kumbarpet,Malur PO-563130,Kolar Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	23.9.85
2827	Vinay Shanker Tyagi S/o Sh N.C.Tyagi	UPSVC/4735/08	Vill-Pilane,The-Bagpat,Dt-Bagpat.U.P	BVSc&AH/RAU/07	17.12.80
2828	Vindendra Kumar S/o Sh Dal Chand	UPSVC/4789/08	Vill-Rasoolpur,PO-Fatehpur,Dt-Barabanki,U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/ 08	14.7.76
2829	Vinita Vyas D/o Sh N.K.Vyas	RajSVC/3551/08	A-102 Talwandi, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/08	6.5.84
2830	Vinod Kadapatti S/o Balappa	KarSVC/4198/08	Lakshminagar,Mudalgi-591312,Gokak Tq, Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	31.8.85
2831	Vinod Kumar S/o Sh Nafe Singh Pathania	HarSVC/2079	# 4400 Sector -46- D, Chandigarh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	15.10.82

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2832	Vinod Kumar S/o Sri Rajkeshwar Prasad	JVC/558/09	Rd. No.-3, Swarnrekha Nagar (Ketari Bagan), Samlong, Namkum, Ranchi-834010, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	15.01.68
2833	Vinod Kumar Singh S/o Sh Ram Sewak Singh	BVC/2759/06	Vill+PO-Janakpur,Thane-Ujjiyarpur,Sub-Div-Dalsinghsarai,Dt-Samastipur-848114,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	5.12.78
2834	Vinod Kumar Singh S/o.Late Chandrika Singh	JVC/334/08	TVO Burmu, Burmu, Ranchi-835214, Jharkhand	BVSc&AH/JNKVV/88	01.11.60
2835	Vinod Ranjan S/o Late Awadh Narayan Das	BVC/2736/06	Vill-Balbhadrapur,PO&Thane-Laheriasarai, Sub-Dvi-Sadar,Dt-Darbhanga-846001,Bihar	BVSc&AH/MU/63	9.9.41
2836	Vipindeep Singh S/o Sh Baljinder Singh	Pb.SVC/2795/08	S-1, Canal Colony, Gidder Baha, Distt-Mukatsar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/08	21.7.84
2837	Virendra Mathodia S/o Sh Suresh Mathodia	RajSVC/3516/08	Pratap Chok, Behind Police Choki, Baran, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/08	10.11.79
2838	Vishal Bansal S/o Sh Shankar Lal Bansal	CGSVC/442/09	Agrasen Ward Sardar Road,Ambikapur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	7.10.82
2839	Vishal S/o Sh Vijay Singh	HPSVC/835/08	Vill- Thamani, PO-Saur, The- Barsar, Distt-Hamirpur, H.P -176041	BVSc&AH/CSKKVV/08	17.2.85
2840	Vishal Sanyal S/o Sh Harbans Sanyal	HPSVC/852/08	Vill&PO- Raipur, The - Bhattiyat, Distt-Chamba, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/08	23.1.83
2841	Vishal Sharma S/o Sh S.N.Sharma	HarsVC/2030	#627, Nr.SBI Sharma Complex, Kaimri Road, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	21.1.85
2842	Vishal Singh Rawat S/o Sh Jagdish Singh Rawat	MPSVC/2591/09	Godia Bulding,Dabra,Gwalior,M.P	BVSc&AH/JNKVV/04	10.3.78
2843	VISHU HIRAKANI HANDEJIRANG	MahaSVC/8069/08	Near by Government Godown, Sant Dnyaneshwar Nagar, Suvernadeep Niwas, S.B.College Road, Tal.Shahapur, Dist.Thane-421601.	BVSc&AH/MAFSU/08	25-05-85
2844	Vishnu Dev Bibhakar S/o Sh Shibu Yadav	BVC/2758/06	Vill-Banarjhula,PO-Amhi,Thane-Ghoghardiha,Sub-Div-Phulparas,Dt-Madhubani-847402,Bihar	BVSc&AH/RAU/06	1.8.76
2845	Vishnu Savanth V S/o V.Najayakumaran	KeralaSVC/3390/08	"Vinanchika" Levin Nagar, Mannuthy,Thrissur,Kerala	BVSc&AH/PU/08	20.10.85
2846	Vishwas Dhillon S/o Sh N.V.Dhillon	HarsVC/2041	# 259, P.L.A Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/08	23.2.84
2847	Vishwas Singh Teppo S/o Late Anand Teppo	JVC/574/09	One Tank Road, Chadri (Gopal Ganj) Ranchi-834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/01	02.12.76

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2848	Vishwaradhya I.M S/o Thippeswamy T.M	KarSVC/4107/08	Tharehally Vill, Pallagatte Po-577513, Jagalure Tq, Davanagere Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	28.6.85
2849	Vishwas K.G S/o Gangadhara Gowda K	KarSVC/4122/08	No.925, 2-D Cross, 9th Main, 1st N Block, HR. B. R Layout, Kalyanagar, B'lore- 560043, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	31.10.85
2850	Vivek Kishore S/o Sh Naresh Prasad	BVC/2883/07	Vill-Sheikhpora, PO-Mathurapur, Thane&Dt- Khagaria-851204, Bihar,	BVSc&AH/SVVU/06	19.8.78
2851	Vivek Thakur S/o Sh Jeet Singh Thakur	HPSVC/846/08	Vill- Har Neugal Café Turning Chowk PO, Bundla Tea Estate, The- Palampur, Distt- Kangra, H.P-176061	BVSc&AH/CSKVVV/08	23.9.83
2852	Vivekanand Mandal S/o Sri Prithwichand Mandal	JVC/557/09	Shasulnagar, Sahibganj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	11.02.70
2853	Vivekanand Mishra S/o Sh Ram Chandra Mishra	BVC/2945/08	Vill-Baurha, PO-Madhopur, Thane-Laukha, Sub- Div-Phulparas, Dt-Madhubani, Bihar	BVSc&AH/KAU/07	1.3.79
2854	WADJE SANTOSH GANPATRAO	MahaSVC/7843/07	Ganimpura Bhoi Gali, Karbala Road, Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	5/3/81
2855	WAGH SUDAM VISHNU	MahaSVC/7829/07	Phule Nagar, Badnapur, Dt-Jalna- 431202, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	7/6/83
2856	WAGH VIRAJ ANANDRAO.	MahaSVC/8064/08	Nanak Terrace, Flat No.1, Khatri Estate, Bhigwan Road, Tal.Baramati, Dist.Pune-413102.	BVSc&AH/MAFSU/08	17/08/84
2857	WAGHMARE SANJIVANI PRAKASH.	MahaSVC/8103/08	At-Atkur, Tal.Dharmabad, Dt- Nanded Maharashtra Dist.Nanded-431809	BVSc&AH/MAFSU/08	23-10-83
2858	WALKE ASHOK JAYSING.	MahaSVC/7988/08	At/Post- Chambhurdi, (Dhagewadi), Maharashtra Tal.Shrigonda, Dist.Ahmednagar.	BVSc&AH/MAFSU/06	7-5-81
2859	WALSANGKAR MUDSSAR GULAB.	MahaSVC/8051/08	Flat No.S-2, B-Building, Ankur Park, 176, Budhwar Peth, Satara-415001.	BVSc&AH/MAFSU/08	04/02/85
2860	WALUNJ UDAY DADABHAU.	MahaSVC/8070/08	Swami Samartha Nagar, Maldad Road, Sangamner, Tal.Sangamner, Dist.Ahmednagar-422605.	BVSc&AH/MAFSU/08	01/01/85
2861	Winnymol Jose D/o Jose John	KeralaSVC/3339/08	Naduvilepurackel House, Melukavu, Kottayam-686652, Kerala	BVSc&AH/KAU/08	29.5.85
2862	Y.D.Prasad Reddy S/o Y.Gopal Reddy	APSVC/4761/08	Q.No.ST2 737, Centenary Colony, Kamanpur(M), Karimnagar Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	16.3.84
2863	Y.Satheesh S/o Y.Ganga Raju	APSVC/4710/08	Bangaramma Peta Salur, Vizianagaram Dt, A.P	BVSc&AH/SVVU/08	20.8.85

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
2864	Yadubansh Prasad Singh S/o Sri Purushottam Pd. Singh	JVC/278/08	T.V.O. Sini, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	24.12.66
2865	Yamanappa S/o Yamanappa	KarSVC/4199/08	M/s Iyyappa Sales Corporation, Station Rd, Basaveshwara Circle, Bagalkote, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/08	1.6.82
2866	Yangchen Doma Bhutia, D/o Lt. K.T. Bhutia	Sikkim/84/03	Hotel Birdies Nest, Behind Telephone Exchange, Gangtok, East Sikkim	BVSc&AH/WBUA&FSU/04	
2867	YASHWANI BALASAHLE KISHANRAO.	MahaSVC/7863/07	Fulari Niwas, Conductor Colony, Parli Baijanath, Dt-Beed-431515, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	14/9/82
2868	Yashwant Kumar Dahariya S/o B.R. Dahariya	CGSVC/373/08	Om Nagar, Jaharmad, Vilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	11.8.81
2869	Yashwant Singh Yadav S/o Sh Raghav Prasad	UPSVC/4752/08	Vill Umri, PO-Karma, Dt-Allahabad, U.P	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/08	5.6.79
2870	YEROLKAR AMAR JEEVANARAO.	MahaSVC/7794/07	Matri Pitru Chaya Nivas, Ambai, Degloor Rd, Udgir, Dt-Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/07	23/12/84
2871	YEWALE VISHAL DADABHAU.	MahaSVC/7972/08	A/P-Renawadi, Tal. Parner, Dist. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/08	7-8-85
2872	Yogendra Kumar Gaur S/o Shri Jagdish Gaur	MPSVC/2546/08	1/7, Hospital Campus, Sabalgarh, Morena-476229, M.P	BVSc&AH/INKVV/08	22.7.82
2873	Yogendra Prasad S/o Late Harihar Prasad	JVC/482/09	Retd. Project Officer, (Cattle Dev.) Rana Pratap Ag. Chas. Bokaro-827013, Jharkhand	BVSc&AH/RU/67	12.12.44
2874	Yogesh Chandra Verma S/o Late Surya Shekhar Prasad Verma	JVC/264/08	V.S. 151, New A.G. Cooperative Colony, Kudru, Agra, Ranch-834002, Jharkhand	BVSc&AH/MU/69	06.08.44
2875	Yogesh Katre S/o Sh Krishnalal Katre	CGSVC/396/08	Qtr NO. 153, Shishak Nagar Katra, Nivas Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	31.7.83
2876	Yogesh Kumar Dewang S/o Sh Maniram Devang	CGSVC/394/08	Nr Ashadeep School, New Chagora bhadna, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	17.6.81
2877	Yogesh Kumar Sahu S/o Sh Jageswar Prasad Sahu	CGSVC/380/08	Moh & PO-Gidori, Dt-Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/06-07	4.5.83
2878	Yogshwar Patel, S/o Sh Ramdayal Patel	CGSVC/447/09	Vill PO-Badisahar, The-Sargandha, Dt-Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKV/07-08	3.4.84
2879	Zahid Mirza S/o Tayyab Mirza	APSVC/4673/08	H.No.8-2-42, Noor Masjid, Dharugally, Nizamabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/03	25.2.79

SNO	NAME	RNUM	ADDRESS		
2880	Zosangpuii D/o Lalmachhuana	MizSVC/174/09	H.NO.D/Z, Dinthar, Aizwal, Mizoram	BVSc&AH/CAU/08	3.8.83
2881	Zula Rudresh Rajendrabhai	GujSVC/2988/08	Gurukul Road, Nr.Sharada School, Brushub Tower-2, A'bad-380052, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/08	21.3.85

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.

[ADVT III/4/Exty./141/09]